

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**


*Students can retain library books only for two weeks at the most*

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

॥ श्रीः ॥

जयकृष्णदास-कृष्णदास प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला

३



श्रीसागरनन्दीप्रणीतः

**नाटकलक्षणरत्नकोशः**

‘प्रभा’ हिन्दीव्याख्योपेतः

पुरोवाक्-प्रस्तावना-परिशिष्टादिभित्ति समलक्ष्मितः

हिन्दीव्याख्याकारः सम्पादकश्च

प्राध्यापक श्री बाबूलालशुक्रः शास्त्री

एम० ए०, साहित्याचार्यः

स्नातकोत्तर संस्कृतविभागाध्यक्षः

घासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (ग० प्र०)



चौरवम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१

प्रकाशक : चौराम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी  
मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी  
संस्करण : प्रथम, वि० सवन् २०१८  
मूल्य : २०-००

◎ चौराम्बा संस्कृत सीरीज आफिस  
गोपाल मन्दिर लेन  
पो० घा० ८, वाराणसी-१ (भारतवर्ष)  
फोन : ६३१४५

प्रधान दाता  
चौराम्बा विद्याभवन  
चौक, पो० घा० ६६, वाराणसी-१  
फोन : ६३१४५

THE

JAIKRISHNADAS-KRISHNADAS PRACHYAVIDYA GRANTHAMALA

3

\*\*\*

NĀTAKALAKSHANA-RATNA-KOSHA  
OF  
SĀGARANANDIN

*Critically Edited with a Prabhā Hindi Commentary.*

Preface, Introduction, Appendices and Index

By

Prof. BĀBŪLĀL SHUKLA, SHĀSTRĪ

M. A., Sahityacharya

*Head of the Post Graduate Sanskrit Department*

*Government Post Graduate College, Mandsaur. (M. P.)*

THE

CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

VARANASI-1

1972

© The Chowkhamba Sanskrit Series Office  
Gopal Mandir Lane  
P. O Chowkhamba, Post Box 8  
Varanasi-1 ( India )  
1972  
Phone : 63145

First Edition  
1972  
Price Rs 20-00

*Also can be had of*  
**THE CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN**  
Publishers and Oriental Book-Sellers  
Chowk, Post Box 69, Varanasi-1 ( India )  
Phone : 63076

## आमुख

नाटकालंकारीय ग्रन्थों के इतिहास में सामरनन्दी विरचित नाटकलक्षण-रत्नकोश का रूपरूप विपर्यक्त सिद्धान्तों के संक्षिप्त एव सर्वाङ्गीण विनेचन के कारण अतिशय महत है। यह ग्रन्थ उत्तरकालीन नाटक एव साहित्य-शास्त्रीय ग्रन्थकारों का उपकारक तथा उपजीव्य रहा है। ऐसे ग्रन्थ के प्रसारण तथा हिन्दी व्याख्यान की आवश्यकता अनेक वर्षों से अनुभव की जाती रही थी। इस ग्रन्थ का मूल सत्त्वत में एक सत्त्वरण थी ए० डिल्लन ने लन्दन से सम्पादित कर सन् १९३७ में प्रकाशित किया था। श्री डिल्लन को इस ग्रन्थ की सूचना तथा प्राप्ति क्रान्ति के सुप्रसिद्ध प्राच्यापक सिल्वाँ लेबी से हुई थी। सन् १९२२ में अपनी नेपालयात्रा के अवसर पर श्री लेबी को नाटकलक्षणरत्नकोश की ताढपत्र पर लिखित प्रति प्राप्त हुई जिसकी प्रतिलिपि वे अपने देश ले गये तथा सन् १९२३ के जर्नल एशियाटिक में प्रा० लेबी ने इस ग्रन्थ की प्राप्ति के विषय में एक सूचना प्रकाशित की। ताढपत्र पर लिखित ग्रन्थ चौदहवीं शताब्दी में की गयी प्रतिलिपि थी। श्री लेबी ने अपने लेख में इस ग्रन्थ के विनेचन के साथ यह भी सूचित किया कि प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय-विवरण 'दक्षरूपक' (धनञ्जय-दसरीं शताब्दी) की परम्परा में गृहीत नहीं है। इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी सूचना दी कि पिश्नाथ कविराज प्रणीत साहित्यदर्शण में 'रत्नकोश' से भी सोतग्रन्थ के रूप में विषय-विवरण लिये गये हैं। इन सभी चर्चाओं के परिणामस्फूर्त संशोधक विद्वानों का ध्यान इस ग्रन्थ पर आकृष्ट होने लगा। श्री लेबी ने इस ग्रन्थ की एक प्रतिलिपि करवाकर उपयोगार्थ श्री ए० डिल्लन को प्रेपित की जिसके आधार पर श्री डिल्लन ने इस ग्रन्थ को सम्पादित कर लन्दन में प्रकाशित

करवाया । श्री डिल्लन के सम्पादन काल में ही इस पन्थ में सम्मान सूलपाठ की अशुद्धियाँ अनुमत वीं गयीं किन्तु उसने इसकी पाण्डुलिपियों के अन्यथ कहीं न प्राप्त होने आदि अनेक कारणों को बतलाकर व्यवस्थितरूप में इनके परिमार्जन वह अधिक प्रयास न करते हुए यानदप्राप्य सामग्री के आधार पर इसे प्रस्तुत कर डाला । तभी से इस पन्थ के नियम में अनेक कोणों से विचार आरम्भ हो गये थे । डिल्लन के सत्स्वरण के उपरान्त एक परिशुद्ध पाठबाले सत्स्वरण वीं सानुवाद आवश्यकता अधिकाधिक बढ़ने लगी । परिणामस्वरूप यह नाटकलक्षणरत्नकोश का सम्पादित तथा प्रभा हिन्दी व्याख्या एवं टिप्पणी आदि के सहित यह सत्स्वरण तैयार किया गया जिसमें श्री ए० डिल्लन के पाठों का परीक्षण कर व्यवस्थित एवं शुद्ध करते हुए उनकी व्याख्या हिन्दी भाषा में वीं गयी है । इसके अतिरिक्त अपेक्षित तत्वों को व्याख्यात्मक संक्षिप्त टिप्पणियों के द्वारा स्पष्ट किया गया है जिससे विस्ती अज्ञ के अर्थात् में हिष्टता या अस्थिता न रहे । कुछ स्थलों पर उदाहरण पदों का शास्त्रिक अनुवाद दिया गया है, कुछ का भार स्वतन्त्र रूप से स्पष्ट करते हुए व्याख्यानात्मक रूप रखा गया है और एक-दो पदों का पद्यात्मक अनुवाद भी लिया गया है । व्याख्या को पूर्णतः सुनोष एवं उदाहरणों के अनुवादों को भावाभिव्यञ्जक एवं सुस्पष्ट बनाने के उद्देश्य में ही ऐसा किया गया है ।

इस प्रकार प्रभाव्याख्या ममनित 'नाटकलक्षणरत्नकोश' का यह सत्स्वरण सुधीजन के समझ प्रस्तुत करते हुए मुझे परम हर्ष हो रहा है । इसमें एक अद्वाच्य पन्थ की उपलक्ष्यि तो होगी ही अनुगामात्मक व्याख्यान तथा परिशुद्ध पाठ वीं सम्पादि भी सत्तोपक्तों एवं परिशीलनरक्षणीय सुधीजन को होगी । प्रस्तुत परिशुद्ध पाठों के अपने सत्स्वरण में मुझे सकृदत्ता वही तक मिली है इसका निर्णय मिनेन्द्र विद्वान् दोनों सत्स्वरणों रीं तुलना में स्थय ही रर सरेंगे । साहित्यशास्त्र के सत्तोपक्त निदेशों से यही प्रार्थना है कि वे उन उन दोपों वीं ओर निदेश करने वीं मुझ पर छपाकरे जिसमें भारी सत्स्वरण में उनका परिमार्जन किया जा सके ।

इस ग्रन्थ के रचयिता सामरनन्दी तथा इनके ग्रन्थ के विषय में 'प्रस्ता वना' में यथेष्ट प्रकाश ढाला गया है तथा प्राय अभिनवविज्ञात तथ्यों को यथाप्रसग इस सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। अन्त में आवश्यक सामग्री के रूप म पाच परिशिष्टों म नाटकत्थणगलन्त्रोऽ म उच्चृत ग्रन्थकारों की मूर्ची, नाट्यरचनाओं की अनुक्रमणिका, नाट्यरचनाओं के अङ्कों की अनुक्रमणिका, कारितानुक्रमणिका तथा उदाहरणपदों की अनुक्रमणिका को जोड़ दिया गया है जिसस अभीतिजन को अवश्य लाभ होगा ।

ग्रन्थ के मुद्रणसाल म मेरे स्वास्थ के विषयमत्तम हो जाने के नारण अप्रत्याशित विलम्ब हुआ है। इससा दूरस्थ वाराणसी में मुद्रण भी एक और नारण था किर भी परमेश्वर की कृपा से इससा निर्मित प्रसारण हो गया यही समझ बढ़ी प्रसकेता है। अपनी स्वास्थ्यजन्य विषयमत्ता से होने वाले मिलम्ब तथा ग्रन्थ म आदी हुई त्रुटियों के लिये एकबार पुन विद्वज्जन से क्षमाप्रार्थी हूँ ।

मार्गशीर्ष दृष्ट्या एकादशी, ।  
विं स० २०२८ ]

सुधीजन कृपाकाली  
चावूलाल शुक्ल, शाखी

# प्रस्तावना

भरतमुनि विरचित नाट्यशास्त्र तथा तदुत्तरभावी कोहल आदि अन्य आचार्यों के नाट्यशास्त्रविषयक ग्रन्थों की शृङ्खला में सागरनन्दी प्रणीत 'नाटक-लक्षणरत्नकोष' का भी क्रम आता है। नाट्यसिद्धान्तों को बिना किसी लम्बे विचार के प्रस्तुत करते हुए अनेक तुलनात्मक गतों के साथ सलेप में रख देना इस ग्रन्थ की प्रमुख विशेषता है, जिससे वर्तमान के द्वारा नाट्य शास्त्रीय तथ्यों का अवगम हो सके।

## सागरनन्दी ( व्यक्तिलिख एवं स्थितिकाल )

ग्रन्थ के अन्तिम पद्मों में दिये गये विवरण से नन्दी वंश में विद्यमान श्री सागर के द्वारा दत्तकोश नामक ग्रन्थ रचना करने का उल्लेख मिलता है। ये सागर द्विसी राजवंश में उत्पन्न थे। 'नन्दी' उपाधि से इनके मन्दवंशीय या जैन होने की भी आशंका होती है। 'नन्दिन्' शब्द के वशानुक्रमी प्रयोग के आधार पर कुछ अन्य विद्वान् इन्हे बौद्ध लेखक भी मानते हैं, इसका कारण ये सागर-मन्दी के ही उल्लेख को प्रमाणालय में उद्धुत करते हुए यह मानते हैं कि भिन्नु के नाम के आगे नन्दी शब्द का प्रयोग होता है। सागरनन्दी के इस उल्लेख को आधार मानने पर इनका बौद्ध लेखक होना भी सम्भव प्रतीत होता है परन्तु आरम्भ के मञ्जलाचरण पद्म में गौरीकान्त शिव की घण्डना इस माम्यता में थोड़ी बाधक है; जिसका समाधान यह कहकर दिया जाता है कि नाट्य-शास्त्र के आद्यप्रवर्तक देव भगवान् शिव हैं। अत उनकी घण्डना सभी नाट्य-शास्त्रीय ग्रन्थों में एक कर्तव्य-भावना के रूप में रहने से जैन या बौद्ध लेखक ने भी बैचा ही अनुसरण कर दिया होगा। हमारे भत में ग्रन्थकार किसी राजवंश में उत्पन्न होने के कारण क्षत्रिय जाति का तथा जैन या बौद्ध में से अन्यतम या जिसने नाट्यशास्त्रीय परम्परा का ग्राह्यत अनुसरण करते हुए भगवान् शिव की नाट्यप्रवर्तक आदिदेव के रूप में घटना की है।

नाटकलक्षणरत्नकोश के अन्त साध्य तथा वहि साक्षों को दृष्टिगत रखते हुए विचार करने से प्रथमवार का स्थितिकाल यसलता से जाना जा सकता है। इस फ्रम में नाटकलक्षणरत्नकोश में उद्धुत ग्रन्थकारों को लिया जा सकता है। इस फ्रम में सर्वप्रथम राजशेषर को हम रखते हैं जिनकी नाटिका विद्यात्मभिजिका से उढ़रण लिये गये हैं, कपूरमञ्जरी का उल्लेख किया

गया है तथा नाव्यमीषांसा के विवाहों को निर्दर्शित किया गया है। साहित्यिक एवं ऐतिहासिक साम्य के बाधार पर राजेश्वर का स्थितिकाल ८८५ ई० से ८९५ ई० के मध्य नवीं शती के अन्तिम चरण में माना जाता है। अतएव स्पष्ट है कि सागरनन्दी का स्थितिकाल राजेश्वर के परवर्ती है।

इसके अतिरिक्त नाटकलक्षणरत्नकोप में पश्चीमी विरचित नागरसर्वस्व से हावाज्ञा के लक्षण तथा उदाहरण भी आकलित किये गये हैं। पश्चीमी का स्थितिकाल नवीं शती का अन्तिम चरण तथा दसवीं शती का आरम्भ माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि सागरनन्दी नागरसर्वस्वकार से परवर्ती हैं।

यह इसकी पूर्वसोमा है : थी १० डिज्जन आदि विद्वानों ने नाटकलक्षण-रत्नकोप में लिखित 'द्रुताङ्गद' चब्द से मुभटकविप्रणीत द्रुताङ्गद छाया नाटक को लेकर इसकी पूर्वसोमा १२४३ ई० के पश्चात् तक मानी है। इस सार्वभूमि में इतना ही कहा जा सकता है कि एक तो मुभट कवि के द्रुताङ्गद से कोई उद्धरण न लेने के बारेयह द्रुताङ्गद ही मुभट कविप्रणीत नहीं माना जा सकता। दूसरे यदि मुभट कविप्रणीत द्रुताङ्गद की ही प्रथकार ने सकेतित किया होता तो प्रत्य के रूपाङ्गि लक्षणों के प्रतङ्ग में छाया नाटक का लक्षण अदरम्भ मिलना चाहिए था। किन्तु वैसा बोई लक्षणादि का उल्लेख न रहने से सागरनन्दी द्वारा उद्धृत 'द्रुताङ्गद' मुभट कविप्रणीत न होकर किसी अन्य कवि की रचना होगी, जिसका स्वरूप अज्ञात है।

नाटकलक्षणरत्नकोप में प्रतिपादित नाट्यादि सद्दानों की समानता भी उथा अभिनवगुप्त की नाट्यसाम्प्रदायिका अभिनवभारती में शामासूप में विद्यमान मानते हुए उनसे प्रभावप्राप्त करते थाले सागरनन्दी इन दोनों के उत्तरभाषी थे ऐसा अनेक विद्वान् मानते हैं। अब इसकी उत्तरसीमा में हम नाटकलक्षण-रत्नकोप से उद्धृत रचनों दाले एन्यो थो रखते हुए विचार थरें। इस तम मुख्यप्रथम अप्तरकोप के प्राचीन व्यास्यावार रायमुक्त माते हैं। इनका नाम यहस्यति तथा उपनाम रायमुक्त था तथा ये दङ्गान के निवासी थे। इनके निता वा नाम गोविन्द तथा पुत्रों का नाम विश्राम तथा राम था। रायमुक्त ने अपरकोप पर पशार्देवनिद्रा व्यास्यति निवी जिसमें पूर्ववर्ती लगभग २७० दर्शकों से उद्धरण लिये गये थे। इसका रचनालाल १० उन् १४३१ या पञ्चदशी शती था जिसमें नाटकलक्षणरत्नकोप से उद्धरण किया गया है। अतएव सागरनन्दी का स्थितिकाल १० उन् १४३१ से पूर्वभाषी अवधय था।

इसके अतिरिक्त अपरकोप भी मुभटिकन्द्र तथा सर्वानग्न प्रारीढ़ व्यास्यामों में भी नाटकलक्षणरत्नकोप के उद्धरण भी विद्वानों ने खोज निकाले हैं। इनमें

सर्वानन्द की टीका का लेखनकाल शके १०८१ या ८० सन् ११५८-५९ है। अतएव सागरनन्दी का स्थितिकाल इससे भी पूर्वमात्री अवश्य माना जाना चाहिए।

अमरकोय की सुप्रसिद्ध टीका सुधा में—जिसके लेखक भानुजी दीक्षित थे—भी नाटकलक्षणरत्नकोश से उद्धरण लिये गये हैं किन्तु श्री भानुजी दीक्षित का स्थितिकाल १६३० ८० के आसपास रहने से अधिक उत्तरकालभाविता को धारण करता है। यद्यपि इस व्याख्या में नाटकलक्षणकोश के वर्तमान पाठ से थोड़ा अन्तर लिये हुए पाठ उद्धृत है किर भी रायपुक्त की व्याख्या या किर सीधे रत्नकोय की ही किसी प्रति से पाठ लेने की बात निराधार नहीं हो सकती।

भानुजी दीक्षित के पश्चादभावी विक्रमोदयशीय के व्याख्याकार रङ्गनाथ दीक्षित ने सागरनन्दी तथा उनके प्रत्य नाटकलक्षणरत्नकोश का नमोल्लेख करते हुए अपनी व्याख्या में दस उद्धरण दिये हैं। रङ्गनाथ दीक्षित का स्थितिकाल भी सत्रहवीं शती का अन्तिम चरण तथा भानुजी दीक्षित के समीप माना जाता है। अत. यह स्पष्ट है कि सत्रहवीं शती के अन्तिम चरण तथा अठारहवीं शती के आरम्भ तक 'नाटकलक्षणरत्नकोश' का एक प्रामाणिक नाट्यशास्त्रीय प्रन्थ के स्पष्ट में आदर एवं प्रचलन विद्यमान था।

अनर्घराधव नाटक की रुचिपति उपाध्याय व्याख्या में नाटकलक्षणरत्नकोश से उद्धरण लिये गये हैं। रुचिपति 'उपाध्याय की अनर्घराधव व्याख्या की एक हस्तलिखित प्रति का प्रतिलिपिकाल ८० स० १६१३ है ( जो भट्टोजी दीक्षित के समय प्रतिलिपि की गई होगी )। अतएव रुचिपति उपाध्याय का स्थितिकाल सोलहवीं शती माना जा सकता है। इस प्रकार उत्तरकाल की अन्तिम कड़ी रङ्गनाथ प्रणोद विक्रमोदयशीय व्याख्या ही है।

इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सागरनन्दी को हम दसवीं शती में विद्यमान पद्धती के उपरान्त तथा बारहवीं शती के पूर्वार्ध में विद्यमान अमरकोय के टीकाकार सर्वानन्द तथा सुभूतिचन्द्र से पूर्वकाल में रख सकते हैं। यदि नाटकलक्षणरत्नकोश के विषय तथा दौली आदि को ध्यान में रखकर देखें तो स्पष्ट है कि 'रत्नकोश' पट भोज तथा अभिनवगुप्तपाद की मान्यताओं की छापा देखी जा सकती है परन्तु इसका कारण तत्कालीन नाट्यशास्त्रीय विचार सरणि भी ही सकती है। जिसका प्रभाव भोज को रचना में तथा तत्पूर्वभावी धनशब्दय की रक्षादि में स्पष्टतः हाइत देता है। यह भी ही सकता है कि सागरनन्दी ने भोज या अन्य आचार्यों के ग्रन्थों का अवलोकन ही न किया

हो । अतएव सागरनन्दी का स्थितिकाल यारहवीं पाती का अनिम चरण मात्रना उचित होगा ( वयोः ५० या ७५ वर्षे इस वर्ण को प्रसिद्ध होने में अदरम लग गए होंगे जिसके बाद ही सर्वानन्द ने इसे आकरण्य मान दर इससे उद्दरण्य लिये थे ) । कुछ विद्वान् उपर्युक्त प्रमाणों के प्रकाश में सागरनन्दी का स्थिति-काल १२५० ई० भानते हैं जिन्हे एक तो सर्वानन्द के ही १२५० से पूर्वभावी होने से तथा दूसरे इसमें किसी विदेष इष्टसिद्धि के न रहने के कारण सागरनन्दी का स्थितिकाल यारहवीं पाती का उत्तराधि मानना अधिक साधार होगा ।

### नाटकलक्षणरत्नकोश ( स्वरूप विवेचन )

यह वर्णन अपने नाम तथा गत्यग्रतिका के अनुरूप ही नाट्यसेदान्तों को नाटकलक्षण के विस्तरण के प्रसम में ठीक तरह से निर्दिष्ट कर उम्हु सुननामक पद्धति से एक स्पान पर दर्शाते हुए विभिन्न आचार्यों के माध्य अभिमत को बतलाने वाला नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थ है । प्रथमांतर सागरनन्दी ने प्रथमांतर तथा ग्रन्थ के अन्तिम पदों में उपर्युक्त तथ्यों को बतलाते हुए स्वयं ही भरतमुनि के साथ नाट्यग्रन्थाके अन्य आचार्यों के मतों को भी तुलना दरते हुए प्रस्तुत करने की बात कही है । प्रथमांतर द्वारा भरतमुनि के मत से गुरुस्थूप देते हुए प्रस्तुत करना पद्धति को मौलिक रूप देने के लिये है, वयोः ३ सभी नाट्य-शास्त्रीय ग्रन्थ भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को उपजीव्य बनाकर ही अपना विदेष-विवेचन करते रहे हैं । इसी कारण सागरनन्दी के इस ग्रन्थ में भी नाट्यशास्त्र की कारिकाओं को या तो लक्षणनिदर्शनं प्रयोग में तथेष्व उद्दृत किया गया है या फिर नाट्यशास्त्र के पाठ से मिलता-जुलता लक्षण प्रस्तुत किया गया है और यही स्थिति नाट्यशास्त्रीय गत्यत्थों की भी है जहाँ इसी भावना का अनुसरण किया गया है ।

भरतमुनि के उत्तरकालीन आचार्यों में कोहूल अपग्राह है । प्रथमि आचार्य अभिनवगुप्तपाद को तरह सागरनन्दी ने कोहूल का नामोलेवनुद्देश ग्रन्थ उल्लेख नहीं किया है जिन्हे दिव्यमान लक्षणों के आपार एव सिद्धान्तों को देखने पर साझे हो जाएगा ति सागरनन्दी ने कोहूल द्वारा प्रतिपादित तथ्यों को विश्वार से अपने दर्शन में निर्दिष्ट किया है । हमें आचार्य अभिनवगुप्तपाद द्वारा निर्दिष्ट नाट्यशास्त्रीय विवरणों में यह भी विद्यत है कि नाटिका, सृष्टि आदि अनिरिक्त रूपक प्रभेदों के दर्शन कोहूल आचार्य द्वारा ही प्रतिपादित है । इसी तथ्य को आचार्य हेमचन्द्र ने तथा उनके निर्भूत्य रामचन्द्र एव गुणवद्व ने भी अपना नाट्यानुशासन-वृत्त उपाय नाट्यरूपेन्द्रवृत्तिं में निर्दिष्ट किया है । कुछ विद्वानों द्वा मत है कि

नाट्यशास्त्र के मूलभौम में कोहुत्तचार्य की अनेक कार्तिकामे प्रविष्ट हैं तथा रूपक-प्रकरणाध्याम ( ना० शा० स० २०, चौख० सस्क० ) का नाट्कानिष्ठपण कोहुत्तचार्य द्वारा निर्दिष्ट है। इस विषय का हमने अपनी नाट्यशास्त्र संडृढ़ की भूमिका में विस्तार से विचार किया है। सागरनन्दी ने इनको के उन सभी प्रकारों को दिया है जो दशरूपको से अतिरिक्त स्वरूप दाले थे। इनमें से रूपको के कुछ प्रमेद कोहुत्तचार्य द्वारा तथा अन्य विषय हृषि विक्रम, मातृपूप्त, गण, अस्मकुट्ट नखकुट्ट या बादरायण आदि प्राचीन नाट्यशास्त्रीय आचार्यों के द्वारा उच्चावित थे, जिनके ग्रन्थादि के सम्प्रति विलुप्त हो जाने से हमें इनके विषय में पृथक्-पृथक् जानकारी नहीं मिल रही है। सागरनन्दी ने इन रूपकप्रमेदों का विभेदक नामकरण न करते हुए ( विस्तार से ) इनका स्वरूप सोदाहरण निरूपित किया है। विभेदक नामकरण न करने का एक कारण यह भी ही सकता है कि एक धनञ्जय तथा उसकी परम्परा के अन्य प्राचीन नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थकार इन्हे कदाचित् तृत्य ( या नृत ) भेद ही मानते थे। परन्तु सागरनन्दी के पदचाद्भावी आचार्य द्वारदत्तनय, अमृताकन्दयोगिन्, विश्वनाथकविराज, कामराजदीक्षित आदि ने कोहुत्तचार्य के द्वारा निरूपित इन अतिरिक्त रूपकप्रमेदों का विस्तार से विवरण दिया है। श्री विश्वनाथ कविराज ने इन रूपकप्रमेदों का पृथक् नामकरण 'उपरूपक' करते हुए इनकी स्वतन्त्र स्थिति भी बतलाई है। सागरनन्दी ने अपने समय में प्रचलित रूपकों के दस भेदों के अतिरिक्त अन्य प्रमेदों का जिस मनोयोग से सोदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया वह तत्कालीन प्रचलित नाट्यशास्त्रीय विचारसंग्रहि को दिखलाते हुए बहुमूल्य सूचना प्रदान करने के कारण ऐतिहासिक महत्व रखता है।

नाटकलक्षणरत्नकोश यद्यपि समग्र नाट्यशास्त्रीय विषयों के गम्भीर अनु-चूलनकर्त्त्वार्थों के लिये पर्याप्त सामग्री नहीं देता किन्तु इस ग्रन्थ के अध्ययन को भावश्यकता भी विषयगत पूर्णता के लिये तथा इसकी असाधारण स्थिति के कारण 'अनिवार्य' है। इसका कारण यह है कि इस ग्रन्थ का अनुहीलन दो विशेष गुणों या केन्द्रविन्दुओं द्वारा आधार बनाते हुए किया जाता चाहिए। इनमें प्रथम है— अज्ञात नाट्यशास्त्रीय आचार्यों की रचनाओं से सक्षणादि निरदर्शन एवं अज्ञात नाट्यरचनाओं से उदाहरण सकलन करना। दूसरा है नाट्यशास्त्र के अनेक सैद्धान्तिक विषयों का विभिन्नसा प्रदर्शन के साथ एक ही स्थान पर सक्षेप में समावेश करते हुए स्थापन। इस प्रकार जहाँ प्रसिद्ध नाट्यरचनाओं के अनेक उदाहरणों के प्रसार में अनेक पाठान्तर इस ग्रन्थ में हमें मिलते हैं वही अनेक चर्चित तथा अज्ञात नाट्यशास्त्रीय साहित्य के तथ्यों का अवबोध होकर सहृदय नाट्यशास्त्र के विस्तीर्ण क्षेत्र का भी इसी ग्रन्थ से पता चलता है।

नाटकलक्षणरत्नकोश में प्राप्त होनेवाली नाट्यशास्त्र के अन्नात आचार्यों द्वी तालिका देखने से विशाल नाट्यशास्त्रीय बाह्यमण्ड का पता लगता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि उस समय बैवल धनञ्जय तथा धनिक द्वारा अनुमूल नाट्यारम्परा ही प्रवाहित नहीं होती थी अन्य पाराएँ भी विद्यमान थीं, जिनके अस्तित्व की सूचना हमें इसी ग्रन्थ के सहारे प्राप्त होती है। इस प्रकार अनेक आचार्यों के एक स्थान पर तुलनात्मक मन्त्रव्य उपस्थापित कर इस ग्रन्थ ने महर्ष-पूर्णं भूमिका निभाई है। इसके अनुशीलन से पह विवार अधिक बक्षाली हो जाता है कि प्राचीन नाट्यशास्त्रीय रचनाओं के व्यापक अनुशीलन से ही नाट्यशास्त्रीय विद्वान्तों का विवेचन करना चाहिए, जिनका आधार लेने के कारण ही आचार्य अभिनवगुप्तपाद तथा शारदातनय वे ग्रन्थों की ऐतिहासिक एवं सुदृढ़ स्थिति हो सकी तथा जिनकी उदात्तविचारसंरचित भी इसी बारण नाट्यसिद्धान्तों के व्यव-स्थित उपस्थापन में अधिक समर्पण होती।

### नाटकलक्षणरत्नकोश में उद्भूत नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थफ़ार

**मातृगुत आचार्य—**नाटकलक्षणरत्नकोश में अनेक नाट्यशास्त्रीय आचार्यों के मतों के निदर्शन मिलने से अनेक प्राचीन परम्पराओं का भी आभास मिलता है। इनमें सर्वाधिक उच्चेष्ठनीय आचार्य है मातृगुप्ताचार्य। कर्तृपूर्ण की राज-संरग्णी में प्राप्त विवरण के अनुसार मातृगुप्त नाट्यशास्त्र के अप्रतिम पण्डित, कवि तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। ये भर्तुमेष्ठ जैसे एवं दिव के समवालीन एवं उसके आश्रयदाता भी थे। इनका हितिकाल सोलहवीं शताब्दी है। मातृगुप्ताचार्य ने नाट्यशास्त्र पर स्वतन्त्रग्रन्थ लिखा था जिसके उद्दरण अनेक नाट्यशास्त्रीय प्राचीन तथा नाट्वों की प्राचीन टीकाओं में मिलते हैं। नाट्यशास्त्र के ऐतिहासिक दृष्टि तथा सोलहवीं शती में विद्यमान सुन्दरमित्र ने मातृगुप्त को नाट्यशास्त्र का एक व्याख्याकार भी माना है। मातृगुप्त के मतों का सागरमन्ती ने उस स्थानों पर निदर्शन किया है।

**राहुल, कार्त्त्यायन तथा गर्ग—**सागरमन्ती ने राहुल का मत एवं बार निदर्शित किया है। आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने भी राहुल का मत अभिनव-भारती में दिखलाया है जिससे इनके नाट्यशास्त्रीय रचनाकार होने की प्रतीति होती है। राहुलाचार्य के अतिरिक्त सागरमन्ती ने कार्त्त्यायन का भी एवं बार मत उद्भूत किया है। आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा भी कार्त्त्यायन का मत निदर्शित होने से ये भी जिसी स्वतन्त्र नाट्यशास्त्रीय दर्शके रूपमित्र हैं। नाटकलक्षण-रस्तहोष में गर्ग का वैवर नाट्यशास्त्रीय पारप्रशार के रूप में दर्शेन्मात्र हो

प्राप्त है उदरण नहीं । ये सभी प्राचीन आचार्यां हैं ।

**असमकुट्ट तथा नवकुट्ट**—इन दोनों आचार्यों का नाम्यशाल में भरतपुत्र के रूप में उल्लेख मिलता है । सागरनन्दी ने असमकुट्ट का चार स्थानों पर तथा नवकुट्ट का दो स्थानों पर उल्लेख किया है । विश्वनाथ कविराज ने अपने प्रसिद्ध प्रन्द साहित्यदर्शण में भी असमकुट्ट तथा नवकुट्ट का मठ दिया है । जिससे इन आचार्यों द्वारा नाम्यशाल पर स्वतन्त्र प्रन्दों लिखने की सूचना मिलती है । ये प्राचीन आचार्यां थे ।

**बादरायण, —शातकर्णि तथा चारायण—नाम्यशाल में बादरायण को भरतपुत्र बतलाया गया है ।** सागरनन्दी ने बादरायण का होने स्थानों पर उल्लेख किया है । सागरनन्दी ने शातकर्णि का एक बार उल्लेख किया है । बनवर्षदायव की स्थिति उपाध्याय प्रणीत टीका में भी शातकर्णि आचार्यां का उल्लेख मिलता है । इसी प्रकार चारायण का एक स्थान पर 'रेलकोष' में उल्लेख किया गया है । ये सभी नाम्यशाल पर स्वतन्त्र प्रन्दों के लेखक द्वे जिनके ग्रन्थ सम्प्रति अप्राप्य हैं । ये सभी प्राचीन आचार्यां हैं ।

**श्रीहर्ष, विक्रमनराधिप—ये नाम्यशाल के स्वतन्त्र प्राप्तकार द्वे जिनका माटकलसणरत्नकोश के पृष्ठ ३०७ ईंटिप्पी में विवरण दिया गया है ।** हमने भरतमुनि के विषय में सर्वज्ञता होने से अधिक विस्तार नहीं किया । मेरे द्वारा सुम्पादित एवं व्याख्यात नाम्यशाल ( चौहम्बा, वाराणसी ) की भूमिका को इस सन्दर्भ में देखना चाहिए ।

**पद्मश्री—**इनका पद्मश्री या पद्मश्रीगणी नाम था । इनको प्रसिद्ध रचना 'नागरसुरेस्व' है जो कामशाल का प्रबन्धप्रन्द है । इन्होंने कुट्टनीमठ का उल्लेख किया है अत ये उसके रचयिता रामोदरगुप्त के पश्चाद्भावी हैं । रामोदरगुप्त काश्मीराधिप जयापीढ़ के समापित्त द्वे जिनका स्थितिकाल ३० वा ३५—३६ तक था । रामतरंगिणी में इनके कुट्टनीमठ का भौउल्लेख मिलता है । अतः पद्मश्री का स्थितिकाल दसवीं शती का आरम्भ माना जा सकता है । नागरसुरेस्व एक अतिसुन्दर लक्षणप्रन्द है । जिससे सागरनन्दी ने दस उद्धरण द्वादशरण लिये हैं ।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाएगा कि नाम्यशालकोश का दोनों नाम्यशालीय आचार्यों के उल्लेख करने तथा उनकी माम्यताओं को भी पद्मश्रीगणी प्रस्तुत करने के कारण अधिक व्यापक हो गया है ।

## ग्रन्थयैशिएष—

नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के विषय में सागरनन्दी का दृष्टिकोण भरतमुनि के दबनों को प्रमुख मान्यता प्रदान करते हुए स्वतन्त्रतापूर्वक पाहा सिद्धान्तों को अन्य आचार्यों से लेना रहा है। इसी वारण सागरनन्दी के समय में चार्चित शास्त्ररस के विषय में जहाँ धनञ्जय तथा अभिनवगुप्तपाद ने अपने मन्त्रव्य उपस्थापित किये वहीं नाटकलालणरत्नकोशकार ने इस विषय पर सौन साधा। इसी प्रकार आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने जिस प्रदर्शन को वाद में उठाते हुए यह विवेचित विषय कि नाटक का नायक ऐतिहासिक तृप्तो को वयो वनाना धार्हिए। सागरनन्दी ने इस प्रदर्शन को मातृगुप्त आचार्य के मत के अनुसार ऐतिहासिक पात्र को नायक बनाने की बात कहते हुए नायक के ऐतिहासिक होने पर नाटक में कोई हानि नहीं है, स्वीकार कर मातृगुप्त का समर्थन किया। ऐसा करते हुए इन्होंने महाकवि कामिदास के मालविकाग्निमित्र के नायक अग्निमित्र, विशाखदत्त के मुद्राराजस तथा देवी चन्द्रगुप्तम् जैसे ऐतिहासिक नायकों वाले नाटकों को समर्थन दे दिया तथा इसी वारण-ऐसी उचनाओं के नाटक में परिणित करने को बड़ भी मिला। इस प्रकार नाट्यशास्त्र के उपयोगी सिद्धान्तों को लेने के कारण सागरनन्दी का दृष्टिकोण न केवल अधिक व्यावहारिक ही या किन्तु यह परिपवर्त नाट्यविज्ञान पर माधुर छोड़े से अधिक व्यापक भी या।

सागरनन्दी की एक और प्रवृत्ति भी है। वे जब भी नाट्यशास्त्रीय मत-मतान्तरों को तुलनात्मक निदर्शन के साथ प्रस्तुत करते हैं तो उस विषय के गम्भीर विवेचन में न जाकर केवल विभिन्न मतों का सार देते रहते हैं। यह प्रवृत्ति धन्य के उद्देश्य तथा विषय के अवशेष का एक महत्वपूर्ण रहस्य है। इस क्रम में जिन नाट्यशास्त्रीय आचार्यों के मान्य सिद्धान्तों को सबलित किया गया है उस वार्य ने तीव्र मतभेदों से बचते हुए कुछ प्राचीन मान्यताओं की रक्षा ही की है जिसका महारथ सालसरसाण से उस नहीं बांदा जा सकता।

इस विषय में हम सागरनन्दों द्वारा निर्दिष्ट स्पष्टों के प्रभेदों को लेते हैं जहाँ आचार्य अभिनवगुप्त ने स्पष्टों के भरतोक दर्श दिभेदों की सोदाहरण व्याख्या दी वहीं उन्ने अपने समय में विद्यमान तथा कोहृष्ट, भोज आदि आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट आय माटिशार्दि प्रभेदों के ( उपराकों के ) लक्षणादि देना तो दूर रहा उनकी स्थिति या उदाहरणों तक को ग्रन्थात रोक दिया थोर केवल उनके अनिरिक्त स्वरूप की सूचना दे वर अपने इतन्य की इतिहासी समझी। धनञ्जय ने भी अपने दशाधर में आओं में लाटिरा जैसे अन्य एक प्रभेद को भरतमुनि के आपार पर निर्दिष्ट अवशिष्ट वर अन्य प्रभेदों की वृत्तप्रेक्ष में गमन करते हुए केवल सूचना भर दी। महाराजापिताज भोज ने अपने गुप्तरिद्ध प्रण-

शुद्धारप्रकाश ( १२ अध्याय ) में रूपको के इन अतिरिक्त विभेदों को लक्षणादि देकर निर्दिशित भर किया किन्तु सागरनन्दी ने इन समग्र प्रभेदों का लक्षणादि के अतिरिक्त उदाहरण देते हुए निरूपण किया । इसी क्रम को आगे चलकर रामचन्द्रगुणचन्द्र ने अपने नाट्यटप्पणसूत्र में, शारदातनय ने भावप्रकाशन में तथा विश्वनाथ कविराज ने 'साहित्यदर्पण' में आगे बढ़ते हुए स्थापित किया । इस प्रकार यद्यपि सागरनन्दी ने रूपक तथा उपरूपको का पृथक् वर्गीकरण नहीं किया किन्तु उपरूपको के विभेदों को नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में सलक्षण रखने की परम्परा को एक धारा का स्वरूप अवश्य प्रदान किया जो आगे चलकर गतिशील प्रवाह को धारण करते में समर्पण हुई ।

नाटकलक्षणरत्नकोश में नाटक के स्वरूप तथा इसके समय अंगों, रूपक-प्रभेदों तथा नाट्यालङ्घार एवं नाट्यांगों का सुसम्बद्ध विवेचन है । इसके अतिरिक्त रस के स्वरूप को बिना अधिक विस्तार दिये हुए इसमें रक्षा गया है तथा यही क्रम पूर्वरङ्ग के विवेचन में भी है । इसमें संगीत और नृत्य का केवल संकेतमात्र किया गया है तथा सभी विवेचन व्यावहारिक हाटि से प्रस्तुत किया गया है । साहित्यदर्पण के रचयिता विश्वनाथ कविराज ने इसी परम्परा के ग्रन्थों का सामान्यत तथा नाटकलक्षणरत्नकोश का बिना उल्लेख करते हुए दिग्गेन्द्र आधार लेकर नाट्यशास्त्रीय विषयों का प्रतिपादन समग्रता के साथ व्यवस्थित रूप से किया है यह प्रस्तुत ग्रन्थ के परिणीतन से स्पष्ट हो जाएगा ।

हम पूर्व में भी बतला आए हैं कि नाटकलक्षणरत्नकोश का आयाम तथा विषयसेत्र भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की तरह व्यापक नहीं है तथा अपने विवेचन में भी यह पर्याप्त सौमित्र है । इसी कारण इसमें नाट्योत्तर्ति, प्रेसागृह, नृत्य एवं अभिनय, वाज्ञिक अभिनय तथा उसके पाद्य, आदि प्रकार, स्वरकाकुआदि विधान, लोकधर्मी एवं नाट्यधर्मी प्रकार, सिद्धियाँ, संगीत के स्वर, वर्ण अलङ्घार, जाति शार्दिङ्ग स्वरूप, आहोद्य विधि शार्दिङ्गशास्त्रीय विषयों का विवेचन नहीं है । तथापि यह ग्रन्थ नाट्यशास्त्रोक्त रस, लक्षण, रूपकप्रभेद, नाट्यज्ञ, संघर्षज्ञ, वृत्ति तथा प्रवृत्ति का सुस्पष्ट विवरण देता है । इसमें कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ अस्पष्ट लक्षण के कारण विषय को समझने में रुकावट आती है । ऐसे स्थानों में विषयमुक्त, अलङ्घावतार, पठाकास्थानक पञ्चाङ्गाभिनय, मात्यलक्षण तथा भाषण के स्वरूप निरूपक विवरण को गिनाया जा सकता है ।

### नाटकलक्षणरत्नकोश में उद्धृत नाट्यरचनाएँ

नाटकलक्षणरत्नकोश के उदाहरणों का क्षेत्र व्यापक है यह हम बतला आए हैं । इसमें कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल तथा विक्रमोदयीय, भवभूति के

चतुर्वर्षित तथा मालतीमाधव, विशाक्षरत के मुद्रारासां स तथा देवीवान्द-गुप्तम्, हवं के दलावनो तथा मागानन्द, भाट के स्वजनयास्पदत तथा चाहृत, शूद्रक के मृच्छकटिक, दिव्यनाग की कुन्दमाता, राजसेवर की कपूर-भड़जरी तथा विद्वालभिज्ञका तथा भट्टनारायण प्रणीत वैष्णवधार आते हैं। ये सभी प्रसिद्ध तथा उपनिषद् नाट्यरचनाएँ हैं हिन्दु इनके अतिरिक्त ऐसी नाट्य-रचनाओं से भी नाटकलक्षणरत्नबोध में उदाहरण सहूलित किये गये हैं जो अन्नात, अप्रसिद्ध तथा अनुपलब्ध हैं। इन रचनाओं के विषय में हम आगे यथा-प्राय जानकारी के आधार पर सामान्य-परिचय अर्थात् प्रस्तुत कर रहे हैं।

( १ ) उत्कण्ठितमाधव—( काव्य ) इस ग्रन्थ का उपरूपको के अन्तर्गत काव्य प्रभेद में उल्लेख निया गया है। इसके स्वरूप तथा रचयिता के विषय में अधिक जात नहीं है।

( २ ) उदात्तराधवम्—( नाटक ) नाटकलक्षणरत्नबोध में उदात्तराधव का उल्लेख दो बार मिलता है। दशरथक के वरलोक के आधार पर इसके रचयिता मायुराज उचनाम मायुराज हैं। राजानक कुन्तक ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ वक्तोक्तिजीवित में न केवल इस नाटक का उल्लेख ही किया है हिन्दु वही इस नाटक के नामकरण के कारण कायावस्तु में किये गये वरिवर्तनों भी चर्चा है। मध्यकाल के नाटकों में उदात्तराधव नाटक अतिथिय लोकप्रिय रहा होगा। न केवल दशरथक में, कुन्तक के वक्तोक्तिजीवित तथा सागरनन्दी भी प्रस्तुत रचना में ही मायुराज के उदात्तराधव का उल्लेख हुआ किन्तु भोजदेव के विस्तीर्ण ग्रन्थ शूद्राकरप्रवाण तथा सरस्वतीवर्षाभरण में, हेमचन्द्राचार्य के वाम्यानुशासन की स्वेच्छावृत्ति में, रामचन्द्रगुणचन्द्र के नाट्यदर्शणसूत्र में तथा विश्वनाथ कविराज के साहित्यदर्शन में भी इसके उदरण सर्वनिष्ठ किये गये हैं।

राजसेवर के अनुसार मायुराज कल्पुतिथा मे इवि थे। राजसेवर भी मायुराजप्रशस्ति जल्हण की शूक्रिमुत्तावलि में इस प्रवार है—

मायुराजसमो वज्ञे नाम्य बलचुरि, इवि ।

उदात्त चमुतस्त्वु इति वा तुहिनोऽग्रद ॥

( जल्हण-शूक्रिमुत्तावलि—४५ )

इस प्रवार राजसेवर के इस उल्लेख में मायुराज का श्मिनिराज एवं वो राहार्दी वा रहा होगा ऐसी बल्यना सम्भवता उचित मानी जाएगी। मायुराज ने तापसदत्यराज नाटक भी भी रचना की थी। यह नाटक चम्प्रति उदात्त शोना है।

( ३ ) उर्द्धशीमद्देन—(ईहामृग)——नाटकलक्षणपरत्नकोश मे ईहामृग के लक्षण ग्रसंग मे इसका उल्लेख मिलता है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है तथा ग्रन्थ भी अनुपलब्ध होने से इसके विषय मे अधिक बात कहसा संभव नहीं है।

( ४ ) उपाहरण—( नाटक ) नाटकलक्षणपरत्नकोश मे इसका उल्लेख मिलता है। ग्रन्थकार के विषय मे न तो कुछ जात है न ग्रन्थ ही चपलब्ध है। इधर जो रुद्रचन्द्रदेव निर्मित उपाहरण या उपारागोदया मिलता है तथा जिसे इन पंक्तियो के लेखक ने सम्पादित भी किया है वह सागरनन्दी से परतर्वा रचना है अतएव इससे उद्धरण लेना इस ग्रन्थ मे संभव नहीं लगता।

( ५ ) कलावायतीमाधव—( शिल्पक ) सर्वश्रेष्ठम इसका उल्लेख नाटकलक्षणपरत्नकोश के द्वारा ही प्राप्त होता है। अमृतानन्द योगिन् ने इसको सह्यापक का उदाहरण माना है पर सागरनन्दी ने इसे शिल्पक का। साहित्य दर्पण तथा भावप्रकाशन ने भी इसे शिल्पक का उदाहरण ही माना है। रचना सम्प्रति प्राप्त नहीं होती।

( ६ ) कलावती—सागरनन्दी ने इसके तृतीय अङ्क से एक उद्धरण दिया है। इसके स्वरूप तथा रचयिता आदि के विषय मे कुछ भी अधिक जात नहीं है।

( ७ ) कामदत्ता—( भाषिका ) सागरनन्दी के अतिरिक्त अमृतानन्द योगिन् ने भी इसे भाषिका के उदाहरण मे निर्दिष्ट दिया है। उदात्त नामिका बाले भाषिका को एक विशेष भेद होम्बी मान कर यारदातनय ने इसी ग्रन्थ की दर्चा दी है। सम्प्रति यह ग्रन्थ अप्राप्य है।

( ८ ) कामदत्तापूर्णि—नाटकलक्षण रत्नकोश मे इसका एक उद्धरण ही संकलित है। इससे इसके स्वरूप का कोई पता नहीं लगता पर कदाचित् यह कामदत्ता का अन्तिम अंक है ऐसा प्रतीत होता है। इसके लेखक आदि का नाम अज्ञात है।

( ९ ) कुन्दशेखरविजय—( ईहामृग ) सागरनन्दी ने इसे ईहामृग का उदाहरण बताया है। भावप्रकाशन तथा बहुल्पमिश्र ने इसका नाम 'कुनुमशेखरविजय'—लिखा है। हो सकता है सागरनन्दी के नाटकलक्षणपरत्नकोश की भविष्य मे प्राप्त निची प्रति मे 'कुनुमशेखरविजय' नाम मिल जाए। तब तक मूर्तपाठ के अनुसार यही नाम ठीक होगा। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है।

( १० ) कीचकभीम—( नाटक ) सागरतन्दी के उद्धरणों के बाधार पर इसे नाटक माना जा सकता है। परन्तु इसके रचयिता आदि का कुछ भी विवरण नहीं मिलता।

( ११ ) कृत्यारावणम्—( नाटक ) नाटक लक्षणरत्नकोश में कृत्यारावण नाटक से उद्धरण लिये गये हैं। यह नाटक प्राचीन है तथा अपनी विदेश नाट्य-रचना के बारण प्राप्त। सभी मध्यकालीन विद्वानों के द्वारा समीक्षित भी रहा है। इसके उल्लेख भोजदेव के शृङ्खारप्रकाश में, हेमचन्द्राचार्य प्रणीत काव्यानुचरण में, रामचन्द्रगुणचन्द्र के नाट्यदर्शन विवृति में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त ने इस नाटक से ८ बार अपनी नाट्यशास्त्र की सुप्रसिद्ध टीका अभिनवभारती में उद्धरण लिये हैं। आचार्य कुन्तक के 'वकोकिजीवित' में इसकी समीक्षा मिलती है। शारदातनय के 'मावप्रकाशन' तथा विश्वनाथ कविराज के साहित्यदर्शन में भी कृत्यारावण के उद्धरण मिलते हैं। इतना सब होने पर भी इस सफल नाट्यरचना के रचयिता का नाम आजतक विदित नहीं हो पाया और न ही इस नाट्य-रचना की बोई प्रति प्राप्त हुई है।

( १२ ) केलिरैवतक—( हङ्कोषक ) सागरतन्दी ने इसका उल्लेख उपर्युक्त के एक प्रकार हङ्कोषक के उदाहरणम् में किया है। भाव प्रवाशन तथा अमृतानन्दयोगिन् के साथ तथा साहित्यदर्शन में भी इसका उल्लेख मिलता है। सम्प्रति अन्य अग्राप्त है।

( १३ ) क्रीडारसततल—( शीगदित ) नाटकलक्षणरत्नकोश में इस कृति को शीगदित का उदाहरण बतलाया है। अलबारसंप्रह में अमृतानन्द योगिन् ने तथा साहित्यदर्शन ने भी यही विवरण दिया है। कदाचित् यह पूर्वपरम्परागत विवरण है जो उदाहरणादि के लिये देता ही सभी ने के लिया हो। इसके विषय में अन्य वार्ते जात नहीं हैं।

( १४ ) घोमेयी—( नाटिक ) सागरतन्दी के उम्म पह नाटिक प्रसिद्ध रही होगी। सम्प्रति यह अनुपलक्ष्य है। इसका अन्य किसी नाम्यशास्त्रीय रचना में भी विवरण नहीं मिलता।

( १५ ) छलितराम—नाटकलक्षणरत्नकोश में उद्युत इस नाटक का वर्ता अस्तान है। इस नाटक के वर्ई उद्धरण कुन्तक के वकोकिजीवित में, भगिन के दशस्त्रकावलोक म, भोज के शृङ्खारप्रकाश तथा सरस्वतीरक्षाभरण में, रामचन्द्रगुणवाह के नाट्यदर्शनमूल में भी मिलते हैं, जिनसे इस नाटक की शोहित्रियता एव दिग्दाता का पता लगता है। सम्प्रति अग्रारगुहीय राष्ट्रकाचार्य के सप्रह में विद्यमान 'चन्द्रितराम' नाटक भी कृतिमित्र प्रति का हम

ज्ञान है। जिसका उल्लेख आप्रेवट ने अपने कट्टलाग्स केटलौगरम् में क्र० स० ४११४ पर किया है। पर्याप्ति इसके लेखक का नाम राज तक अज्ञात ही है।

( १६ ) ज्ञानकीरणधव—( नाटक ) नाटकलक्षणरत्नकोप में इस नाटक के २० से अधिक उद्धरण लिये गये हैं। इस नाटक के विषय में तथा इसके रचयिताके विषय में और अधिक कुछ भी ज्ञान नहीं है।

( १७ ) तापसवत्सराज—( नाटक ) इसके लेखक है मायुराज जिनका 'उदात्तराधव' रचना के प्रस्तुत परिचय दिया जा चुका है। तापसवत्सराज के छं अक हैं जिनमें उदयन तथा वासवदत्ता के प्रणय की कथावस्तु को लेफ्ट नाटक का निर्माण किया गया है।

( १८ ) दूसाहृद—इसका नाममात्र उल्लेख होने से इसे सुभट कवि की रचना नहीं मानो जा सकती। इसका रचयिता अज्ञात है।

( १९ ) देवदत्तहृति—( ? ) इसको सभवत रत्नकोशकृताविति के समान ही नाटक के लिये परिवर्तित कर सागरनन्दी द्वारा कारिका रूप में दिखलाया गया है। परन्तु इस नाम के विसी नाट्यकार का कही भी अन्यत्र नाम नहीं मिलता। अन्यकार अज्ञात है।

( २० ) देवीचन्द्रगुप्तम्—( नाटकम् ) देवीचन्द्रगुप्तम् के लेखक हैं मुद्राराजस नाटक के रचयिता विशासदत्त या विशासदेव। इसकी कथावस्तु ऐतिहासिक है तथा इसमें घ्रुबदेवी तथा चन्द्रगुप्त का आव्याप्त निवृद्ध किया गया है जिसकी पुष्टि वाणमट्ट के हृष्टचरित तथा राजदेवर की काव्यमीमांसा के विवरणों से होती है। ऐसा लगता है कि इसके रचनाकार ने दोनों चन्द्रगुप्तों को ( अर्पण चन्द्रगुप्त मौर्य तथा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ), अपने नाटकों के नामक बनाते हुए नाट्य रचनाएँ की थीं। इसके अतिरिक्त इनकी 'अभिसारिकविज्ञितक' नामक नाटक अन्य रचना का उल्लेख अभिनवभारती में मिलता है तथा भोज के शृङ्खार-प्रकाश में भी। इस नाटक को वत्सराज उदयन का चरित्र लेकर लिखा गया था। इसके अतिरिक्त विशासदेव ने सभवत राष्ट्रवाभ्युदय या राष्ट्रवानन्द जैसे नाटक की भी रचना की थी, जिसका प्रसिद्ध पद 'रामोऽस्तु जगतीह विक्रमगुणः प्राप्तः प्रसिद्धं पराम्' है तथा जिसको अनेक आलंकृतिक विद्वानों ने अनेक बार अपनी रचनाओं में विवेचित किया है। इयकी पुष्टि 'सदुक्तिकर्णमृत' में उद्दृत इसी पद से हो जाती है। सम्प्रति इनकी प्राप्त रचना के बाल 'मुद्राराजस' है तथा देव रचनायें इस समय उपलब्ध नहीं हैं। विशासदेव का स्थितिकाल भोज तथा सोड्डन से पूर्ववर्ती होने के आधार पर सातवीं शती का इतरार्थ तथा थाठवीं शती का प्रथम चरण माना जाता है।

( २१ ) देयीमद्वादेय—( उल्लोप्तक ) नाटकलक्षणरत्नकोष के साथ-साथ शारदातन्त्र तथा विश्वनाथ ने भी इसे 'उल्लोप्तक' का उदाहरण लिख दिया है । ऐसा ज्ञात होता है कि मह रचना भोज मैं लेफर विश्वनाथ कविराज के समय तक प्राप्त रही होगी ।

( २२ ) नरकवध—( नाटक ) सागरनन्दी के द्वारा उद्भूत इस नाटक का भी केवल नाममात्र दोष है । इसके रचयिता आदि के विषय में विस्तीर्ण प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं है ।

( २३ ) नरकोद्धरण—( डिम ) सागरनन्दी के द्वारा उद्भूत इस रूपक का केवल नाममात्र दोष है । 'डिम' के प्रकार होने से इसका प्राचीनकाल म अस्तित्व रहा होगा ऐसी प्रदीति इदं होती है ।

( २४ ) नलद्विजय—नाटकलक्षणरत्नकोष पृ० ३० पर इस नाटक का उल्लेख किया गया है । यह भी न तो उपलब्ध है और न इसके रचयिता का नाम विदित हो पाया है । बल्किरसयह के अनुसार यह नाटक बाठ अद्भुत का था ।

( २५ ) पत्रलेखा—( भाण ) नाटकलक्षणरत्नकोष में पत्रलेखा का भाण के रूप में उल्लेख मिलता है । इसके लेखकादि ज्ञात हैं ।

( २६ ) पद्मावती परिणय—( प्रकरण ) नाटकलक्षणरत्नकोष के अविरिक्त शारदातन्त्र ने भी प्रकरण के पात्र विभाग करते हुए इसी रचना को उदाहरण रूप में सन्वेदित किया है । रचना सम्प्रति अनुलब्ध है और रचयिता का नाम अज्ञात ।

( २७ ) पुष्पदूर्घितक—( प्रकरण )—इसके रचयिता का नाम जात नहीं है । इसके उद्धरण कुम्तिर के वक्रोत्तिजीवित, धनिक वै दशरूपवावलोद ( प्रक० ३।४५ ) तथा अभिनवभारती ( शब्द २ पृ० ४३२ ) में उपलब्ध होते हैं । इसके अविरिक्त नाट्यदर्शनमूल में रामचान्द्रपुण्ड्रवद्व ने तथा विश्वनाथ कविराज ने साहित्यदर्शन में इसी प्रकरण का उल्लेख किया है । इस प्रकरण में समुद्रदत्त वणिक ( नायक ) तथा नन्दपन्ती ( नायिका ) का बास्तव है तथा वल्पित कथा में देवायत्त पात्र का प्रतिपादन किया गया है ।

( २८ ) घालचरित—नाटकलक्षणरत्नकोष में इसके १ उद्धरण सहित किये गये हैं । इसी के 'उत्साहातिशय वत्स' इत्यादि पद्म को साहित्यदर्शन में विश्वनाथ कविराज ने भी ( ६।८५ ) उद्धृत किया है तथा वह भी 'विधान' वै उदाहरण म ही । इस नाटक के रचयिता का नाम अज्ञात है तथा यसका अनुपात्ति है ।

( २९ ) विन्दुमती—( दुर्मिलिका ) सागरनन्दी तथा अमृतानन्द योगी ने दुर्मिलिका का यही उदाहरण दिया है । इसके रचयिता का नाम जानात है ।

( ३० ) भगवदज्ञुक—( प्रहसन ) इसके रचयिता महेन्द्रविक्रमबर्मा माने जाते हैं । इसकी गणना प्राचीन नाट्यरचनाओं में है । इसके रचयिता का ई० स० ६१० का एक शिलालेख प्राप्त है जिसमें 'भगवदज्ञुक' का उल्लेख है प्राप्त होने के कारण इसका रचनाकाल उठी शती का अन्तिम चरण माना जाता है । इस प्रहसन में एक परिकाद् तथा एक वैश्या की हास्योत्पादक कथावस्तु ली गयी है । भगवदज्ञुक प्राप्त रूपक है ।

, ३१ ) भीमविजय—( नाटक ? ) सागरनन्दी ने साध्यादिनान्दक के उदाहरण इसी से दिये हैं इससे स्पष्ट है कि यह नाटक है जिसकी प्रसिद्धि उस समय रही होगी । सम्भवतः इसके लेखक तथा रचना आदि के विषय में अधिक विवरण नहीं मिलता ।

( ३२ ) मदनमञ्जुला ( का )—इसका मदनमञ्जुला नाम से भी सागरनन्दी ने उल्लेख किया है । इसके स्वरूप आदि के विषय में इससे अधिक विवरण नहीं मिलता है ।

( ३३ ) मदनिकाकामुक—( रासक ) सागरनन्दी ने इसे रासक के उदाहरण में उद्धृत किया है । इसके विषय में अधिक विवरण ज्ञान नहीं ।

( ३४ ) मायाकापालिक—( सहाय ) सागरनन्दी ने सहायक के उदाहरण में इस रचना का नाम बताया है । कदाचित् यह पूर्ववर्ती परम्परा को उथैव प्रस्तुत करना प्रतीत होता है । विश्वनाय कविराज ने साहित्यदर्पण में भी इसी रचना का उल्लेख किया है । इसके लेखक तथा रचना के विषय में अन्य कुछ भी ज्ञात नहीं है ।

( ३५ ) मायाभद्रालसा—( नाटक ) सागरनन्दी ने इस नाटक से अनेक उद्धरण लिये हैं । नाटक के विषय में अन्य तथ्य ज्ञात है तथा नाटक भी नहीं मिलता ।

( ३६ ) मारीचदण्डितक—( नाटक ) सागरनन्दी ने निवंहणसन्धि के उदाहरण प्रसंग में इस नाटक का उदाहरण दिया है । अमृतानन्द योगिन् तथा भावप्रकाशन के विवरण से ज्ञात होता है कि यह पञ्चाङ्गु नाटक या । नाटक के रचयिता का नाम ज्ञात है तथा सम्भवतः प्रन्थ भी अप्राप्य है ।

( ३७ ) भेनकान्तुप—( बोटक ) सागरनन्दी ने इसको बोटक का उदाहरण बताया है । अमृतानन्द योगिन् तथा भावप्रकाशनकार इसे नवाङ्गु बोटक मानते हैं । इसके रचयिता का नाम ज्ञात है ।

( ३८ ) राम्भानलकृवर—( नाटक ? ) सागरनन्दी ने इससे एक उद्दरण लिया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई नाटक है । इसके विषय में बीर अधिक जात नहीं है । रचयिता की धैर्यी प्रशादमयी लगती है ।

( ३९ ) राघवाभ्युदय—( नाटक ) इस नाटक के सागरनन्दी ने पर्याप्त उद्दरण लिये है । पिछले परिचयक्रम से इस नाटक के लेखक विशाखदत्त विदित होते हैं । इनके मुत्रसिद्ध पद्म 'रामोऽसो जगतीह विक्रमगुणे' को सदुकृति-कषमृत में विशाखदेव के नाम से उद्धृत किया गया है । सागरनन्दी के उल्लेख से जब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पछ राघवाभ्युदय नाटक वा है तो फिर दोनों उपर्युक्त प्रयाणों के अधार पर इसके रचयिता विशाखदत्त ही छह-रहे हैं । सागरनन्दी ने इसके एक अङ्कु का नाम सदा दस उद्दरण लिये हैं जिससे इसकी लोकप्रियता स्पष्ट है । भोज ने भी शृङ्खालप्रकाश में 'रामोऽसो जगतीह' इत्यादि पद्म उद्धृत किया है । कदाचित् लिपिप्रसाद से वही ( परि० १८ । पृ० ५३६ ) राघवानन्द नाम ही गया है । या फिर राघवानन्द ही इस नाटक का नाम हो किन्तु एकाधिक बार जब सागरनन्दी ने राघवाभ्युदय नाम निर्देश करते हुए इसका उल्लेख किया है तो फिर इसे राघवाभ्युदय ही मानना निर्भावन्त होना चाहिए ।

राघवाभ्युदय नामक एक अन्य नाटक रामचन्द्र सूरि ने भी बनाया था जो नाट्यदर्शनमूल के लेखक है, परन्तु सागरनन्दी के बाद इनका स्थितिकाल हाने से इनकी रचना से ही सागरनन्दी ने उद्दरण लिये यह असङ्गत हो जाता है । रामचन्द्र प्रणीत राघवाभ्युदय भी सम्मति दुर्देश है तथा इसका भी उल्लेखमात्र नाट्यदर्शन में ही विद्यमान है ।

( ४० ) राधा—( दीपी ) उदाहरण के लिये इसका सागर ने उल्लेख दिया है पर बाज तक इस प्रत्यक्ष की प्राप्ति नहीं हुई न ही इसके रचयिता के बारे में कुछ जात हुआ ।

( ४१ ) रामचिक्रम—( नाटक ) सागरनन्दी ने इसमें दो उद्दरण लिये हैं । इसके रचयिता तथा एव्य के विषय में अन्य जाते अज्ञात हैं ।

( ४२ ) रामानन्द—( नाटक ) सागरनन्दी ने इस नाटक के उदाहरण दिये हैं । इसके अतिरिक्त इसका उल्लेख विद्यवत्तमात्र विविदाज्ञ तथा धिहभूपाल ने भी दिया है । इसके रचयिता आदि के विषय में इसमें अधिक जात नहीं है ।

( ४३ ) रामाभ्युदय—( नाटक ) इसके रचयिता यदोवर्मी ऐ । यह नाटक श्रीराम के बास्यन को भाषार से भर द्या अद्वीत में निर्मित पा । दुन्तह,

भोज तथा अभिनवगुप्ताचार्य ने इसके अवतरण दिये हैं। क्षेमेन्द्र ने 'मुखृत्त-  
तिलक' में तथा वसुभद्रेव ने 'मुभापिताकली' में रामाभ्युदय के उद्धरण देकर  
इनके रचयिता का नाम यशोवर्मा बतलाया है।

यशोवर्मा कान्यकुद्ग प्रदेश के प्रस्थात शासक थे जिनके दरबार में भवन-  
भूति जैसे नाट्यकार आवश्य लिये हुए थे। इस कारण यशोवर्मा भी नाटककार  
रहे हींगे इसमें आश्चर्य की कोई जात नहीं है। राजतरङ्गिणी के वर्णन से यह भी  
जात होता है कि यशोवर्मा को काश्मीर के अधिपति ललितादित्य ने युद्ध में  
पराजित किया था। अतएव यशोवर्मा का स्थितिकाल अष्टम शताब्दी मरना  
जाता है। रामाभ्युदय से सागरनन्दी ने उद्धरण लिये हैं। इसी नाटक से बाद में  
रामचन्द्रगुणचन्द्र ने नाट्यदर्पणसूत्र में, शारदातनय ने भावप्रकाशन में तथा  
विश्वनाथ कविराज ने साहित्यदर्पण में भी अवतरण लिये हैं।

( ४४ ) रेयतीपरिणय—सागरनन्दी ने इसका निदर्शन एक बार प्रवेशक  
के सन्दर्भ में किया है। इसके विषय में अन्य विवरण अनुपलब्ध है।

( ४५ ) ललितनागर—( भाण ) सागरनन्दी के द्वारा 'ललितनागर' का  
भाषण के रूप में उल्लेख किया गया है। बहुकृपमिथ ने भी दशरथक टीका में  
इसीका उल्लेख किया है परन्तु इसके लेखक आदि का विवरण अज्ञात है।

( ४६ ) घकुलवीथी—( वीथी ) सागरनन्दी ने इसकी वीथी के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। इसके रचयिता आदि का नाम ज्ञात नहीं है।

( ४७ ) यालिवध—( प्रेषणक ) सागरनन्दी के अनिरिक्त भावप्रकाशन,  
अलहुआसपह तथा साहित्यदर्पण में भी इस रचना को 'प्रेषणक' का उदाहरण  
बतलाया गया है। इस रचना के विषय में अधिक विवरण ज्ञात नहीं है।

( ४८ ) विलासवती—( नाट्यरासक ) सागरनन्दी के अतिरिक्त शारदा-  
तनय, अमृतानन्द योगिन् एवं विश्वनाथ कविराज ने भी इसी 'नाट्यरासक'  
का उदाहरण बतलाया है। यह रचना अप्राप्य होने के कारण इसके रचयिता  
आदि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

( ४९ ) चीणावती—( भाणी ) इस एकाढ़ू उपरूपक का सागरनन्दी ने  
उदाहरण भाणी का दिया है। भावप्रकाशन में भी इसका उल्लेख भाणी के रूप में  
मिलता है। इसके अतिरिक्त इसके विषय में अधिक ज्ञात नहीं है।

( ५० ) वृद्धोद्धरण—( डिम ) सागरनन्दी ने तथा शारदातनय ने इस  
रचना को डिम के उदाहरण रूप में निर्दिष्ट किया है। 'डिम' के विभिन्न  
प्रकारों में उद्धृत इस रचना के अप्राप्य होने के कारण अधिक विवरण ज्ञात  
नहीं है।

( ५१ ) शक्तानन्द—( समवकार ) सागरनन्दी में इस रचना को 'समवकार' के उदाहरणरूप में रखा है। इसके अतिरिक्त इस रचना का अव्यक्त कहीं उल्लेख नहीं मिलता। रचयिता आदि का विवरण भी अन्य के अप्राप्य होने से नहीं मिल सकता।

( ५२ ) शर्मिष्ठापरिणाय—( नाटक ? ) सागरनन्दी ने 'प्रवर्तक' के प्रसङ्ग में इससे उद्दरण दिया है। नाटक के रचयिता आदि का विवेच विवरण प्राप्त नहीं होता।

( ५३ ) शशिकामदत्ता—सागरनन्दी ने प्रवेशक के प्रसङ्ग में ( ना० ल० १०० १२ ) इसके तृतीयबाहु का उल्लेख किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी नाटक या प्रकरण का नाम है। इसके विषय में और अधिक विवरण ज्ञात नहीं है।

( ५४ ) शशिविलास—( प्रस्थान ) इसका नाम सागरनन्दी ने शशिविलास दिया है परन्तु वहुलेखमित्र ने कदाचित् इसी वा शशिकला नाम दिया है। शशिविलास के लेखक आदि के विषय में और अधिक ज्ञात नहीं है।

( ५५ ) अद्वारतिळक—( प्रस्थान ) सागरनन्दी ने इसका प्रस्थान के उदाहरण रूप में उल्लेख किया है। इसी प्रकार भावप्रकाशन, अलद्वारसंग्रह एवं साहित्यदर्पण में भी विवरण मिलता है जहाँ इसे 'प्रस्थान' ही माना है। इसके लेखक आदि के विषय में कुछ भी अधिक ज्ञात नहीं हो पाया।

( ५६ ) सत्यभाषा—( गोष्ठी ) सागरनन्दी ने ही इस रचना को गोष्ठी के निदेशन में उद्धृत किया है। अन्य आचार्यों ने गोष्ठी के उदाहरण में रैदतपदनिवार वा उल्लेख किया है। उपर्युक्त पहुँ रचना भी नहीं मिलती।

### नाटकलक्षणरत्नकोप वा प्रस्तुत संस्करण

नाटकलक्षणरत्नकोप वा प्रस्तुत संस्करण भी १० छिन्हित द्वारा सम्पादित सदृश-उपर्युक्त आधार बनाकर स्वतन्त्ररूप से पुनः सम्पादित कर तैयार किया गया है जिसमें कार्तिकाश्री की सहायता लगाकर शारायाद्वितीर्ण रूप में हथय दण्ड में विमिहता लाई गई है। उदाहरणों समेत उद्दरणों के बाही सम्पर्क यथासाध्य प्राप्य अन्यों की देखभाट याकापानी से जिये रहे हैं। नाटकलक्षणरत्नकोप में विषयों के विभागानुसारी कोई पृष्ठक से अध्याय या परिच्छेद नहीं मिलते हैं तथा न ही इतने छोटे घटय में इसी शाराय दण्डता ही मूलप्रन्थकार ने समझी होगी। अगले

श्री डिल्ली की तरह प्रत्येक अनुच्छेद की पृष्ठकू संस्थान देकर ग्रन्थ को प्रस्तुत न करते हुए केवल कारिकाओं की संस्था से ही संकेतों को निर्दिशित किया गया है। ऐसा करने से अध्येताज्ञन रत्नकोश में प्रमाणायं लिये गये उद्धरणों को कारिकासंस्था दिखलाते हुए सरलता से दिखला सकेंगे तथा छोटे उद्धरणों को पृष्ठसंस्था दिखलाते हुए भी प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अदिरिक्त विषय को सुवोध बनाने के लिये संक्षिप्त टिप्पणिया भी लगायी गयी है, जिनका उपयोग इस ग्रन्थ के अनुशीलनकर्ताओं को विषय को विस्तार से देखने, तुलना करने आदि जनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हो सकेगा। इस प्रकार सपरिश्रम और सप्रयत्न प्रस्तुत ग्रन्थ विद्वज्ज्ञानों के हाथ में दिया जा रहा है। इसका 'नीरक्षीरचिष्ठेक' भी उन्हीं के द्वारा सम्भव भी है परन्तु बाधा और विश्वासी पही है कि मेरे इस कार्य से उन्हें अवश्य सन्तोष होगा और यह ग्रन्थ उनके स्नेह की अधिकाधिक प्राप्त कर सकेगा जो मेरे परिश्रम की सफलता भी होगी।

### आभार

नाटकलक्षणरत्नकोश का सम्बादन तथा व्याख्यान लेखन जबलपुर विश्वविद्यालय के भाषा शोध संस्थान के मेरे कार्यकाल में हुआ था जिसमें उस समय के मेरे सभी मित्रगणों ने यथाशक्ति सहयोग किया था। मैं उन सभी का इस यद्यपता के लिये हृदय से आभारी हूँ। इस सन्दर्भ में श्री हर्षा० राजकली पाण्डेय जी ( अद्व स्वर्गीय ) का आत्मीयतापूर्ण सौहृद अतिशय उत्तेजय है तथा धर्मेय हर्षा० होरालाल जी जैन अध्यक्ष-संस्कृत, पालि-प्राकृत विभाग का स्नेहपूर्ण परामर्शी। मैं इन दोनों विद्वानों के प्रति अपनी हार्दिक हृतज्ञता प्रकट करता हूँ। नाटकलक्षणरत्नकोश के मुद्रण काल में सुहृदवर हर्षा० रुद्रदेव शिष्याठी—( प्राध्यापकलालबहादुर संस्कृत-विद्यापीठ, देहली ) का भी सदा सहयोग रहा जिसके लिये उन्हें धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

अन्त में चौखम्बा सस्त्रृत सीरीज आफिस, वाराणसी के प्रधान व्यापार्यापक गोलोकवासी बाबू कृष्णदास जी गुप्त का भी आभार मानता हूँ जिनने प्रसप्रतापूर्वक इस ग्रन्थ को प्रकाशित करना स्वीकारा था।

मुझे इस बात को कहते हुए अतिशय विपाद हो रहा है कि इस ग्रन्थ के प्रकाशन के पूर्व ही चौखम्बा-प्रकाशन सस्त्रृत के आधार-स्तम्भ समे बन्धुद्युप श्री जयकृष्णदासजी गुप्त तथा श्रीकृष्णदासजी गुप्त का कुछ ही दिनों के अन्तर से असमय मे गोलोकवासी हो गया। यह घटना मुझे आज तक शाल्य सी चुभती रहती है वया व्यापित भी कर रही है। पर सन्तोष है कि उन्हीं दोनों

बाधुदय के स्मारक स्वरूप 'जयहृष्णदास-हृष्णदास प्राच्यविद्या प्रन्थमाला' के तृतीय पुण्यरूप में यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है।

वर्तमान सुयोग्य व्यवस्थापक बधुदय जी भाई मोहनदासजी गुप्त एवं श्री बिट्ठलदासजी गुप्त का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने मेरी रुग्णावस्था के बारें पैयपूर्वक मुद्रणकाल में मेरी ओर से होडेवाले विलम्ब को प्रेमपूर्वक सहते हुए कार्य बो आगे बढ़ाया। श्री दण्डद रामचंद्र जी हाँ व्याकरणाचार्य वा मुद्रण के सुन्दरस्थित सम्पादन में परम सहयोग रहा तथा इसी कारण यह प्रथम इसने व्यवस्थित रूप में प्रकाशित हो रहा। मैं अन्त मे पुन उन सभी सहयोगियों तथा मित्रों वा भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरी कृतियों के अवलोकन एवं अनुशीलन में हिचि दिखलाई।

मन्दसौर,  
ई० १९७२ ]

सुधीजन हृष्णकौशी  
बाबूलाल शुक्ल, शास्त्री

# विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मंगलाचरण	१	सन्धिनिरूपण	४५
काल्यप्रशंसा तथा ग्रन्थ प्रतिज्ञा	२	मुखसन्धि	५४
नाटकलक्षण	३	मुखसन्धि के अंग	५६
कथावस्तु का स्वरूप तथा उसके		उपचैप	५६
विभेद	७	परिकर	५७
अवस्था	८	परिम्यास	५८
भारतम्	९	विलोभन	५९
प्रथम्	९	युक्ति	५९
प्राप्तिसम्भव	१०	प्राप्ति	६०
नियताति	१०	समाधान	६१
फलयोग	११	विधान	६१
मातृगुस के अनुसार पांच		परिभावना	६२
अवस्थाएँ	१२	उपदेश	६३
भाषा	१३	करण	६३
भारतवर्ष में घासादि के नियम	१५	भेद	६३
अर्थप्रकृति	१८	प्रतिमुखसन्धि	६४
धीज	१५	प्रतिमुखसन्धि के अंग	६५
विन्दु	१७	विलास	६५
पताका	२०	परिसर्प	६६
प्रकरी	२१	विशुत	६७
कार्य	२२	तापन	६७
इतिवृत्त एवं उसके विभेद	२३	नर्म	६८
आधिकारिक कथावस्तु	२३	नर्मद्याति	६८
प्रासङ्गिक	२३	प्रगामन	६८
अङ्क	२४	विरोध	६९
नायक	२७	पर्युपासन	६९
अङ्क के नियम	२९	पुष्प	७०
प्रवेशक	३२	वज्र	७०
दिव्यकम्भक	३७	उपन्यास	७१
अङ्कवतार	४१	वर्णसहार	७१
अङ्कमुख	४२	गर्भसन्धि	७१
चूलिका	४३	गर्भसन्धि के अंग	७२

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अमूलाहरण	५३	भानन्द	८८
मार्ग	५४	समय	८८
रूप	५५	अनुयोग	८९
उदाहरण	५६	उपगृहन	८९
क्रम	५७	भाषण	८९
समह	५८	पूर्ववाक्य	८९
अनुमान	५९	काव्यमंहार	९०
प्रार्थना	५९	प्रशस्ति	
वरिच्छ	६०	सन्ध्यन्तर ( अन्तरसन्धियाँ )	९२
तोटक	६१	साम	९३
ज्ञाधिवल	६१	भेद	९३
उद्वेग	६२	दान	९४
विद्वच	६३	दण्ड	९४
विमर्शसन्धि	६३	वध	९४
विमर्शसन्धि के अग	६०	प्रयुक्तप्रतिक्रिय	९५
अपवाद	६०	गोप्रसवलित	९५
सम्पेट	६१	साहस	९६
द्रव तथा विद्य	६१	भय	९६
शक्ति	६२	घी	९६
व्यवसाय	६२	माया	९६
प्रसाद	६३	क्षोब्ध	९७
द्रुति	६३	हज्	९७
खेद	६३	संवरण	९७
प्रतिरेप	६४	आन्ति	९७
विरोपन	६४	हेत्यवधारण	९७
आदान	६४	दूत	९९
सादत	६५	उपधि	९९
प्रतोचना	६५	इवण्ण	९९
निर्वहणसन्धि	६५	चिन्म	९९
निर्वहणसन्धि के अग	६६	मद	१००
अपै	६६	पतासास्थानक	१००
प्रधन	६६	प्रथम पतासास्थानक	१०१
निर्णय	६७	द्वितीय	१०२
परिभाषण	६७	तृतीय	१०३
द्रुति	६७	चतुर्थ	१०४
प्रसाद	६८	कृतियों द्वारा उनके विभेद	१०५

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
भारती वृत्ति	१०६	स्थेय	१४१
भारती वृत्ति के चार प्रकार	१०८	गान्धीय	१५१
प्रशोचना	१०८	लहित	१४१
गान्धी	१०९	ओदार्य	१४२
पूर्वरह	११०	तेज	१४२
सुश्रधार	११०	अभिनय के विभेद	१४३
जर्जरस्तुति	११३	वाद्य-( अभिनय )	१४३
दिग्विद्यना	११४	सूचा-( अभिनय )	१४४
प्रस्तावना ( तथा उसके अंग )	११९	अहुर-( अभिनय )	१४४
उद्घात्यक	१२०	शास्त्र-( अभिनय )	१४४
अवलगित	१२१	निवृत्यहुर ( अभिनय )	१४५
कथोदृघात	१२१	लक्षण ( निरूपण )	१४५
प्रदोगातिशय	१२२	भूपण	१४५-१४६
प्रवर्तक	१२२	गुण निरूपण	१४६
सात्यती वृत्ति	१२५	इलेप	१४६
सात्यती के प्रकार	१२६	प्रसाद	१४६
उत्थापक	१२९	समता	१४६
परिवर्तक	१२९	माधुर्य	१४६
सँझाप	१३०	सुकुमारता	१४६
सांघार्य	१३०	अर्थव्यक्ति	१४६
कैशिकी वृत्ति	१३१	उदाहरण	१४६
कैशिकी के प्रकार	१३१	ओज	१४६
नर्म	१३१	कान्ति	१४६
नर्मस्कोट	१३३	समाधि	१४६
नर्मगम्भ	१३४	अचरसहात	१४७
नर्मस्कम्भ	१३४	शोभा	१४७
आरम्भी वृत्ति	१३५	उदाहरण	१४७
आरम्भी के प्रकार	१३५	हृत	१४७
महिष्पत्तक	१३६	मंशय	१४७
अवपात	१३७	दृष्टन्त	१४८
वस्त्रयापन	१३७	प्राप्ति	१४८
सम्फेद	१३८	अभिग्राह्य	१४८
नायक ( के सहज ) गुण	१३८	निर्दर्शन	१४८
शोभा	१३९	विवक्त	१४८
विलास	१४०	सिद्धि	१४९
माधुर्य	१४०	विरोपण	१४९

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
गुणतिपात	१५५	विसर्ज	१७५
अतिशय	१५६	ददलेश	१७५
तुश्यतक	१५७	उसेजन	१७६
पदोच्चय	१५८	निवेदन	१७६
दिष्ट	१५९	परीवाद	१७६
उपदिष्ट	१६१	उपपत्ति	१७६
विचार	१६०	परिहार	१७७
विवर्य	१६०	उद्यम	१७७
अश	१६१	आधर्य	१७७
अनुनय	१६१	दुक्षि	१७८
माला	१६२	अनुवृत्ति	१७८
दाविष्य	१६२	माहात्य	१७८
गहण	१६३	अष्टमा	१७८
अर्थापत्ति	१६४	प्रहर्य	१७८
प्रसिद्धि	१६५	पश्चात्ताप	१७९
पृथक्का	१६५	आदीसन	१७९
साहृद्य	१६७	अहङ्कार	१८५
मनोरथ	१६७	अध्यदमाय	१८५
ऐश	१६८	उस्कोत्तेन	१८१
संखेप	१६८	यवं	१८०-
गुणहीर्वन	१६९	गुणानुवाद	१८०-
अनुक्तसिद्धि	१६९	रस निरूपण	१८२
ग्रियोक्ति	१७०	शक्तार	१८३
नाट्यगालङ्कार	१७१	हास्य	१८४
आजी	१७२	हास के प्रभेद	
आकृत्य	१७२	(रिमित, हसित, विद्युति, उप-	
अभिमान	१७३	हसित, अतिहसित साधा-	
करट	१७३	क्षयहसित) १८५-१८६	
याद्वा	१७३	हस्य	१८६
प्रवर्तन	१७३	रौद्र	१८६
इद्या	१७३	घीर	१८७
चोभ	१७३	भयानक	१८८
अर्थ ग्रियोपण	१७४	घीमत्तम	१८९
प्रोग्राम	१७४	अनुकृत	१९०
मीति	१७४	भाव, विभाव एवं अनुभाव-	
आशयान	१७५	निरूपण	१८१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
स्थायीभाव	१९२	स्तम्भ	२०४
संचारीभाव निरूपण	१६३	स्वेद	२०४
नियेदु	१९३	रोमाञ्च	२०५
गलानि	१९३	स्वरभेद	२०५
शङ्का	१९४	घेपथु	२०५
धस्या	१९५	घैबर्य	२०५
मद	१९५	अशु	२०६
अम	१९५	प्रलय	२०६
आलस्य	१९६	स्तपकोंके प्रयोगके उपयुक्त समय	२०७
वैन्य	१९६	भावाविधान	२०८
चिन्ता	१२६	नाटकीय पात्रों के स्वरूप	
मोह	१२७	तथा कार्य-निरूपण	२०९
स्मृति	१२७	पात्रों की सम्बोधन विधि	२१२
मति	१२७	पात्रों का नामविधान	२१३
घीडा	१२७	पात्रों के सम्बोधन आदि के	
चपलता	१३८	( अनुरूप ) शब्द	२१५
हर्ष	१३८	अभिनवयादि के सूचक शब्द	
आवेग	१३८	द्वे उनकी प्रयोग विधि	२१६
जहाता	१३९	नायिकाओं के सहज गुण	२२०
ऐति	१३९	शोभा	२२०
गवं	१३९	कान्ति	२२१
विषाद	१३९	दीसि	२२१
औसुक्य	१३९	माझुर्य	२२२
निदा	२००	घैर्य	२२३
अपस्मार	२००	प्रावाणभ्य	२२३
प्रदोष	२००	औदार्य	२२३
अमर्प	२०१	योग्यनावस्थाएँ	२२४
अवहित्य	२०१	प्रथमावस्था	२२५
उप्रता	२०१	द्वितीयावस्था	२२५
रथाचि	२०१	तृतीयावस्था	२२६
उन्नाद	२०२	चतुर्थावस्था	२२७
गरण	२०२	मान तथा उसके विभेद	२२८
ग्रास	२०२	भुग्य	२२८
वितकं	२०२	मनाल्लमुग्य	२२९
शौच	२०३	समृद्ध	२२९
भाविकभाव	-	अतिसमृद्ध	२३०

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अवस्थाएँ	२३१	मौर्य	२५७
अभिलाष	२३२	मद	२५८
चिन्ता	२३३	सप्तन	२५९
अनुस्मरण	२३४	रूपकों वे ( अन्य ) भेदोपभेद	
गुणकथा	२३५	निरूपण	
उद्गा	२३६	नाटिका	२६०
दिग्लाष	२३७	घोटक	२६२
आत्म	२३८	प्रकरण	२६३
उन्माद	२३९	स्थायोग	२६४
जड़ता	२४०	अङ्ग	२६५
मरण	२४१	हिम	२६६
नायिकाओं के प्रकार	२४२	समवकार	२६७
वास्तवसंज्ञा	२४३	श्रिविद्वत्, श्रिहप्त तथा	
विहोत्किण्डिता	२४४	प्रियहारनिरूपण	२६७
परिदिता	२४५	ईद्वागृहा	२६८
विप्रलब्धा	२४६	भाण	२७०
कलहान्तरिता	२४७	भाण के अंग	२७१
प्रोपितमत्संका	२४८	गोपपद	२७१
इवाधीनभर्तुंका	२४९	स्थितपात्र	२७२
अभिसारिका	२४१०	आवीनपात्र	२७२
कुण्डला तथा वेश्या	२४११	घैमृदक	२७२
इनकी चेष्टाएँ	२४१२	पुष्पगणिका	२७३
समया नायिका	२४१३	प्रस्त्रदेवक	२७३
चेष्टालझार	२४१४	सैन्यद	२७४
दीला	२४१५	उत्तप्रसुचक	२७४
विलास	२४१६	उत्तरोत्तरक	२७५
विरिद्धिति	२४१७	दिगुच्छक	२७५
पिघम	२४१८	ग्रहसन	२७६
किलकिलित	२४१९	वीथी	२७७
मोहिति	२४२०	वीथी के अंग	२७७
पुट्टमित	२४२१	उद्धारायक	२७७
विद्वोक	२४२२	ध्वनिगित	२७८
छलित	२४२३	नाटिका	२७९
विहृत	२४२४	आयस्यनिदृत	२८०
द्वाव	२४२५	अस्त्रप्रलाप	२८०
देढ़ा	२४२६	दाख्येणी	२८१
विद्वेष	२४२७	-	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मृदु	२८१	शून्यत्व	२९६
अधिवल	२८२	ग्रहोभ	२९६
छुल	२८३	वैशारद्य	२९६
क्रिगत	२८४	सम्फेट	२९७
स्थाहार	२८५	आशासन	२९७
गण्ड तथा उसके भेद	२८६	बोधन	२९७
अद्वित	२८७	प्रहर्ष	२९८
प्रपञ्च	२८८	प्रशस्ति	२९८
गोमुकी	२८९	प्रस्थान	२९९
सॅल्लाप	२९०	काव्य	२६६
शिशपक	२९१	हल्लीसक	२६६
शिशपक के अंग	२९२	श्रीगदित	२६६
उरकण्ठा	२९३	भाणिका	२००
अवहित्य	२९४	भाणिका के अंग	२००
प्रदर्शन	२९५	विन्यास	३००
प्रथन	२९६	उपन्यास	३००
आशंसा	२९७	विरोध	३०१
तकँ	२९८	अनुदृति	३०१
संशय	२९९	साध्यस	३०१
ताप	२१०	समर्पण	३०२
उद्गुग	२११	सदार	३०२
भौत्य	२१२	भाणी	३०२
आलस्य	२१३	दुर्मतिका	३०२
अप्रतिपत्ति	२१४	प्रेषणक	३०३
विलाप	२१५	सट्टक	३०४
वान्य	२१६	रासक	३०४
अनुगमन	२१७	नाट्यरासक	३०५
विस्मय	२१८	उल्लाप्यक	३०५
सादृश	२१९	अन्योपस्थार	३०५
उच्छ्रवास	२२०	परिशिष्ट	३०५
चमलकार	२२१		

## ग्रन्थ-संकेत

अभिनवभारती	:	४० भा०
अलङ्कारमंग्रह	:	५० सं०
मावप्रकाशन	:	भा० प्र०
दशरूपक	:	८० रु०
काल्यालङ्कारसूचि	:	का० सू०
कुन्दमाला	:	कु० भा०
मृष्ट्युकटिक	:	मृ० क०
नाट्यदृष्टिण	:	ना० द०
नाट्यशास्त्र	:	ना० शा०
नाटकलक्षणरत्नकोशः	:	ना० ल० इ० को०
हरनावर्टी	:	हरना०
घणीसंहार	:	घे० स०
अभिज्ञानशाकुन्तलः	:	ज्ञाकु०
शृणारप्रकाश	:	शृ० प्र०
साहिरयदृष्टिण	:	सा० द०

श्रीसागरनन्दिप्रणीतः

# नाटकलक्षणरत्नकोशः

सटिष्पण-‘प्रभा’-हिन्दोव्याख्योपेतः

महलाचरणम्—

अगणितगुणौ धमिन्युं नाटकविद्या प्रसाशिता येन ।  
तमजमनादिमनन्तं गौरीकान्तं नमस्यामः ॥ १ ॥

व्याख्यातुर्महलाचरणम्

सिन्दूरपूरामणकुम्भदम्भाद् भानु मढान्मूर्जिन कलिन्दूरन्याम् ।  
दधाति यश्वन्द्रधर रिजेतु गजानन त हडि भावयामः ॥ २ ॥  
यन्दे निदान जगता हिमाद्रेस्तपसा फलम् ।  
संज्ञीयितज्ज्ञ शिवयोस्त महो ध्यान्तशान्तये ॥ ३ ॥

महलाचरण—अपरिमित गुणों के सामर, अनादि, अनन्त और  
अनन्मा उन पार्वतीमङ्गल भगवान् शिव को मैं नमस्कार करता हूं  
जिनने नाटकविद्या को [ ससार में ] प्रकृति दिया ।

१ गौरीकान्तम् = पार्वतीबहुम भगवान् शिव । प्रथारम्भ में पार्वता क  
माप नगवान् शिव की बन्दना के द्वारा उसका नाटकविद्या के मूलभूत देवता  
तथा शूद्र के उत्पादक देवता हुना सूचित किया है, वर्णोंकी शूद्र के ताण्डव  
और शास्य के विभेदों का क्रमतः शिव और पार्वती के द्वारा शूद्रन किया गया  
था । ( इष्ट-कालिदास—‘रत्नेश्वरमाहृतश्वतिकरे स्पाङ्गे विभन्न द्विधा’ ।  
मालिदि० खण्ड १५ ) । नाट्यशास्त्र के प्रधान उपदेशा तथा नृत्यों के प्रदर्शक  
भगवान् शिव हीं थे । श्रावनकाल मैं सदानिति भरत प्रर्णात श्रावन नाम्द  
शास्य शूद्रदृश थ उपलब्ध था जिसके उद्दरण नाट्यशास्त्र की अभिनवगुहस्तुत  
शारदा ( १०१-१ पृष्ठ ९ ) तथा भावप्रकाशन में प्राप्त होते हैं ( भा० प्र० पृ०  
१०८ ) । शिवों के द्वारा निर्मित इस प्रार्चन अन्य का सदानिति भरत प्रर्णात  
नाट्यशास्त्र भी मात्रा जाता था ।

काव्यप्रशंसा—

कथीना गुणवत्साध्यं फलपर्यन्तमतिंनीम् ।

वीति सर्गफलप्राप्तिहेतुभूतां प्रमृष्यते ॥ २ ॥

**काव्यप्रशंसा**—भक्तविदों की गुणशालिनी रचना कल्पान्त तर्फ  
प्रियमान रहती है तथा ऐसी रचनावें स्थगी की प्राप्ति में निमित्त बनने  
वाली कीति की भी मर्जना करती है।

तद्गुणनिर्णये शास्त्रं प्रमाणमतो नाटकलक्षणं दशाहृपसमृपिष्ठी-  
तमन्यमुनिनामै सप्तसितं सोदाहरणश्च वक्ष्याम ।

विदियों की रचना की गुणशालिता का निर्णयकरने में शास्त्र ही  
मानदण्ड होता है, इनलिए नाटक तथा अन्य (इन्हों) रूपरा वे लक्षणों  
को मूल्य भरतमुनि तथा अन्य आचार्यों के द्वारा अभिहित लक्षणों के  
साथ उदाहरण देते हुए (प्रस्तुत पन्थ म) बतलाया जा रहा है।

काव्यप्रभेदा —

तत्कान्य द्विषा विदधति सुविष्य अत्यमनिनेयम् । अधर्पं—मुनक-  
कुलक कोश-सर्गनद्वादिवद्भम् । अमिनेय नटन्, षष्ठरण, प्रहमनम्,  
अङ्क, व्याख्यांग, भाण समरकार, वीथी, टिम ईरामृगश्चेति दयंतानि  
रूपराणि । अन्यान्यपि नाटकालद्वारार्थं वक्ष्यन्ते ।

**काव्य के प्रभार**—विद्वज्ञन काव्य का दो प्रभारों में प्रियमान करते  
हैं—(एक) हृष्य तथा (दूसरा) थठ्य । अव्यक्ताव्य के अन्तर्मत मुनक,  
कुलम, कोश तथा मर्गबद्ध काव्य (महाकाव्य, राष्ट्रकाव्य आदि)

१. यहाँ 'मुनि' शब्द में उल नाटकाव्य के रचिता भरतमुनि का ही  
अभिहित नहीं किया गया किन्तु भरत के गूर्वतर्ती प्राचान तथा उत्तरकार्तीन  
आचार्यों के लिये भी 'मुनि' शब्द का प्रयोग किया गया है । मुनि का अर्पं  
हमने 'नाट्यशास्त्र पर रचना करने वाले आचार्य' किया है । प्राकृत धार्य की  
यही विद्वज्ञता भी है कि हमसे धनश कार्यालय पद्मतुर्भों पर विभिन्न आचार्यों  
के मुन्नामुक पद्मनिय मन्त्राय दिय गए हैं । नाट्यशास्त्र की युद्ध एवं निरापिद  
रघनालों तथा मातृगुप्त, दर्य, विषम जादि के मनों के इसी प्रथ म  
विजय उहौन प्राप्त है ।

रचनाएँ आती हैं। दृश्य ( अभिनेय ) काव्य के अन्तर्गत रूपकों के दस विभेद आते हैं। जैसे—नाटक, प्रकरण, प्रह्लन, अङ्क, व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, डिम तथा शिदामृण

### नाटकस्वरूपम्—

तत्र रूपकेपूलुष्ट्वाद्वहुगुणकीर्णत्वाच्च सर्ववृत्तिनिष्पत्त्वस्य नाटक-  
स्यैव स्वरूपनिहृषणमभिधीयते । यथाह भगवान् पितामह—

नाट्य (नाटक) सर्वत्र—सर्वप्रथम हम यहाँ नाटक का लक्षण बतला रहे हैं क्योंकि वह सभी रूपकों में सर्वोल्हृष्ट होता है। सभी गुणों से समन्वित और सभी 'वृत्तियों' से निमित्त किया जाता है। जैसा कि भगवान् पितामह ( ब्रह्मा<sup>१</sup> ) ने कहा है—

धर्मादिसाधनं नाट्यं सर्वदुःखापनोदकृत ।

अनुसेपध्वमृपयस्तस्योत्थानन्तु नाटकम् ॥ ३ ॥

क्रम्यः पात्रमभूदीतं सामन्यः समपद्धत ।

यजुङ्योऽभिनया जाता रसाश्राथर्वणः स्मृताः ॥ ४ ॥

हे ऋषिगण ! धर्मादि पुरुषार्थ ( चतुष्पद ) के सामनभूत और सभी ( लौकिक ) दुखों के अपर्हर्ता 'नाट्य' का आप सेवन कीजिये। इस नाट्य का मुख्य या उल्कुष्ट रूप 'नाटक' माना गया है।

इस ( नाट्य ) का निर्माण ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत,

१. वृत्तियों के लक्षण ( इसी ग्रन्थ में ) आगे वर्तलाएँ गए हैं।

२. सदाशिव के समान पितामह ( ब्रह्मा ) भी नाट्यशास्त्र के आदिम आचार्यों में थे पितामह से भी भरतमुनि ने नाट्यवेद वा शान श्रात् कर नाट्यशास्त्र की रचना की थी। नाट्यशास्त्र के प्रथमाध्याय में यह कथा विस्तार से दी हुई है। 'धर्मादिसाधनम्' धर्मादि कारिका भावप्रकाशन में भी योद्दे पाठान्तर के साथ पितामह ब्रह्मा के नाम से उद्देश मिलती है ( द्रष्टव्य भा० घ० पृ० २६८ G O S Baroda ) पितामह ब्रह्मा के द्वारा प्रणीत ग्रन्थ प्राचीन था तथा इसे 'महभरत' प्रणीत नाट्यशास्त्र भी कहते थे। अभिवनगुणपादाचार्य ने नाट्यशास्त्र की व्याख्या में यहभरत का उल्लेख किया है परन्तु सरप्रति महभरत का कोई पृथक् ग्रन्थ प्राप्त नहीं होता। ( इस विषय में नाट्यशास्त्र के १११ तथा ६६९ पर अभिवनगुणपादाचार्य द्रष्टव्य है । )

यजुर्वेद से आह्निक अभिनयों को तथा अथर्ववेद से रसों को लेकर किया गया है।

न तच्छ्रात्मं न तच्छिल्यं न मा पिदा न सा कला ।

न तत्पर्मं न योगो वा नाटके यत्र दृश्यते ॥ ५ ॥

ऐसी कोड़ि पिदा पिनान ( शिष्प ) ज्ञान, कला एवं मिथ्रयोग या कर्म नहीं है निसे नाटक में देखा न जा सकता है ।<sup>१</sup>

महारसं                          महाभोग्यमुदारवचनान्वितम् ।

महापुरुष्यमञ्चारं      मालद्वारन्तु      नाटम् ॥ ६ ॥

नाटक म उत्तम या पूर्ण रस ( महारस ) रहता है, इसमें मनोरनन की अपरिमित क्षमता होती है, इससी भाषा गमीर होती है, ( इसमें ) उत्तम पात्रों के कार्य ( चरित्र ) रहते हैं और ( कार्य या नाट्य द्वे ) अलगारा वा समुचित सञ्चित भवित्वे रहता है ।<sup>२</sup>

अन्येऽपि —

अपि ग्रस्येत पिद्विर्मुचिरभ्यामर्हायलाम् ।

न हु नाटमपित्रेयं सर्वलोकानुरक्षनी ॥ ७ ॥

अन्य आचार्यों का कथन है कि पिद्विजन या ज्ञानी पुरुष अपने अभ्यास तथा ज्ञान व बल पर चाहुं मुक्ति की उपलब्धि मरलता से कर लें परन्तु सभी मूर्मण्डल की अनुरक्षनी नाट्यमित्रा की ( उपलब्धि या ) पूर्णता की प्राप्ति बढ़िन है ।

तन् मिमिद्द नाटक नम ।

उच्यते — देवादीना पूर्णृचानुररितम् । यदाह भरताचार्य ।

प्रथा — अन्द्रासो फिर इस नाटक का स्वरूप बतलाइ ?

उत्तर — ऐसा आदि उ द्वारा प्रिदित कार्यों या अतीत की दमन्या का बनुज्जरण मर प्रशंसन 'नाटक' कहलाता है । जैसा कि यहा प्रिम्ममिति ने कहा है — ।

---

स्वतन्त्रा तथा मैल्लशास्त्र १११० भास्त्र प्रदास ( G O S ) ७० २२२  
प्रिम्ममिति वहाँ प्राप्त है । तथा १११० पर अभिव्यक्तारती भी दृष्ट्य ।

देवतानां मनुष्याणां राजां लोकमहात्मनाम् ।

पूर्ववृत्तानुचरितं नाटकं नाम तद्वेत् ॥ ८ ॥

देवताओं, मानवों, राजाओं तथा लोकोत्तर पुरुषों के अतीत में किए हुए सत्कारों का अनुकरणात्मक प्रदर्शन ‘नाटक’ कहलाता है।

प्रख्यातवस्तु विषयं प्रख्यातोदात्तनायकम् ।

राजर्पिंश्चरितं तथा दिव्याश्रयोत्थितम् ॥ ९ ॥

नानाविभूतिसंयुतमृद्धिविलासादिभिर्गुणैर्युक्तम् ।

अङ्क-प्रवेशकाल्यं भवति हि तन्नाटकं नाम ॥ १० ॥

( ना० शा० १८१०-१६ )

जिसकी कथावस्तु प्रख्यात हो, नायक प्रसिद्ध और उदात्त (धीरोदात्त) हो, राजाओं की जीवनी हो, दिव्य पात्रों या घटनाओं के सहारे जिसमें नायक का उत्थान बतलाया जाता हो, जिसमें विभूति, समृद्धि, विलास आदि गुणों का समावेश हो तथा जो अङ्क और प्रवेशक से युक्त हो तो उसे ‘नाटक’ समझना चाहिए।

तथा पुनरप्याह—

नृपतीनां यच्चरितं नना-रसभावचेष्टिर्वहुधा ।

सुखदुःखोत्पन्निकृतं विज्ञेयं नाटकं नाम ॥ ११ ॥

इति ।

( ना० शा० १८१२ )

आचार्य भरतमुनि ने (इसके अतिरिक्त) और भी कहा है—जिसमें सुख-दुःख तथा अनेक रस-भावों से अभिव्यक्त होने वाला राजाओं का चरित्र प्रदर्शित किया जाता हो तो उसे ‘नाटक’ समझना चाहिए।

तत्र प्रख्यातवस्तुविषयमिति राजर्पिंश्चरातानां राजां प्रसिद्ध-

१. कथावस्तु के तीन प्रकारों में प्रख्यात कथावस्तु का आधार पुराण या इतिहास होता है। प्रख्यात कथावस्तु के अन्तर्गत जिसी राजा को ही नाटक का नायक बनाने का धर्मप्राप्त है धार्मिक तथा नीति आदि से परिचालित जीवन के स्थवरित पद्म का प्रदर्शन करता। इसके पीछे नाटक द्वारा नैतिकता के प्रतिपादन का उद्देश्य परिलक्षित होता है जो नाटक की चरमपरिणति तथा पूर्ण विकास की दशा के पश्चात् अपेक्षित हो गया था।

मात्यानं वस्तु यत् त्वं लोकानामनुरजनद्दर्श । यथा-रामस्य पितुराजा-  
नुष्ठानादिदुष्करक्रियाऽन्यग्रसाय मियापहारमनुप्रतिरूपेचितरावण-  
वर्गविक्रमानुष्ठानधर्म, तथा जीमूतवाहनादीनां शरीरदानादिदुष्करक्रि-  
याऽचरणम्, एवम्भूतमात्यानं वस्तु विषयो यस्य ।

राजीर्वंशचरितमिति-सोमसूर्यवंशजातानां चरितम् । दिव्याश्रयो-  
त्थितमिति-दिव्याना महेश्वरजीमूतवाहनादीनां चरितम् । सुखदुखोत्तचि-  
कृतम्-तदेतद्रामयुथिष्ठिरवृचान्तेष्वभिव्यक्तमेव ।

प्रख्यात ( कथा ) 'वस्तु' का आशय है कि इसमें किसी प्रसिद्ध  
राजवंश में जन्म लेने वाले राजा की कथा रखना चाहिए, क्योंकि  
नाटक का मुख्य कार्य होता है प्रजाजन का अतिशय मनोरंजन करना ।

जैसे : श्रीराम का अपने पूज्य पिता की अश्वा पालन घरने के लिए  
कठिन प्रत या उष्टुपूर्ण जीवन को स्वीकार करना और अपनी भार्या के  
अपहरण करने पर क्रोध से अपने शशु रावण के धर्ष के लिए पराक्रम-  
पूर्वक ऐसा कार्य करना जो कि धर्म या कर्तव्यपालन है । इसी प्रकार  
जीमूतवाहन 'आदि उदात्त नायकों' या अपने शरीर सक और परोपकारार्थ  
अर्पण कर देना आदि लोकोत्तर कर्त्त्वों का आचरण करना । अतएव इसी  
प्रकार के प्रेरक या लोकोत्तर कार्यों में पूर्ण आरण्यन जिसकी कथावस्तु  
बनें ये ही 'नाटक' हो सकते हैं । नाटक में राजाओं की जीवनी रखने  
का आशय है कि नाटक यी कथावस्तु चन्द्र या सूर्यवंश में उत्थन होने  
वाले प्रसिद्ध राजाओं की जीवनी हो । दिव्य पात्रों पे सहारे उत्थान या  
आशय है कि ( नाटक में ) भगवान् शिरै या जीमूतवाहन जैसे  
नायकों या चरित्र रखना चाहिए ।

१. 'वस्तु' का दूसरा एर्थ इतिहस्त है । भरन में 'इतिहासं तु नाट्यस्य  
शरीरम्' ( अस्पाय २११ ) में कथावस्तु की इतिहस्त भी कहा है । यही नाट-  
कीयकथा भी कहलाता है । आजकल इन दोनों शब्दों को मिलाकर कथावस्तु  
( Plot ) शब्द गढ़ लिया गया है जो बहुप्रचलित है ।

२. जीमूतवाहन-नागानन्द नाटक मायक (मित्रपर उक्तरानी) का नाम ।

३. 'यितुराजाह' नामक दिम में शिवजी नायक थे । हायश उक्तेष्व  
नामवाच्च में ( ४१९ ) मिलता है तथा हायश यितुराजाह के प्रदर्शन पा-  
उहरेप भी दिया गया है जो मंभवत, प्राचीन तथा प्रथम नामवर्णना थी ।

सुख और दुःख से मिथित या उत्पन्न होने वाले चरित्रों का श्रीराम तथा युविंश्चि के जीवन में घटित कार्य या घटनाओं से स्वतः स्पष्टीकरण हो जाता है।

### बस्तुस्वरूपं तद्भेदाश्च—

तस्येवविधस्थ नाटकस्येतिवृत्तं भवति उपात्तं प्रतिसङ्कृतम् । उपात्तं पुराणसिद्धं रामादिवृत्तान्तं । प्रतिसङ्कृतं यद् उपात्तं केवलं कविना ‘किञ्चिदुत्पाद वस्तिति’ मुनिवचनात् प्रपञ्चितम् । यथा— नागानन्दे गौरीगृहाद्यङ्कत्रय वर्तमानमपि नृपतेर्महाभूतस्य कविवुद्दिप्रकर्षादासादितवीजविन्दुदिक् यदि भवति भवत्येव ( तन् ) नाटकविपथम् ।

कथावस्तु तथा उसके विभेद—(इस प्रकार के) ‘नाटक’ की कथावस्तु या ‘तो उपात्त’ होती है या प्रतिमस्तृत । उपात्त कथावस्तु वह है जो पुराणों में प्रसिद्ध (घटनाएँ) हो; जेसे श्रीराम आदि के चरित्र । प्रतिमस्तृत कथावस्तु वह है जिसे परम्परा में केवल कविजन गृहीत करते रहे हैं । मुनि<sup>१</sup> ने कहा है कि प्रतिसङ्कृत-कथा में उत्पाद या कल्पनाप्रसन्न कथाओं के रूप जा सकता है । हमने मुनि का यही मत यहाँ दर्शाया है । जेसे नागानन्द नाटक में गौरीगृह से आरम्भ होने वाले तीनों अङ्क । यदि किसी वर्तमान मासक्रम नृपति की जीवनी में भी कविमंशल से वीज, विन्दु आदि नाक्षयाङ्कों को पूर्ण व्यवस्थित रूप में निर्धारित करने हुए रखा जाए तो ये भी किसी नाटक की कथावस्तु बन सकते हैं ।

१. प्रायात इतिवृत्त या वस्तु के उपात्त तथा प्रतिसंस्कृत उपभेद ही मानना चाहिए । इस प्रकार महाकाव्य, पुराण ( तथा इतिहास ) से ली गयी कथा का नाटकीय प्रस्तुतीरण ‘उपात्त’ तथा मूल कथा म विवित घटनाओं का संयोजन या परिपूर्ति रूप में मूलकथा का प्रस्तुतीरण ‘प्रतिसंस्कृत’ समझना चाहिए ।

२ यह मत ‘मातृपुस’ का है । शारदातन्त्र ने इस मत को अपने प्रन्थ में भी निर्दिष्ट किया है । ( दृष्ट्य-भावप० पृ० २३४ ) ।

अथावस्था —

तस्येतिवृच्छ्य पञ्चावस्था भवन्ति ।

संसाध्ये फलयोगे तु व्यापारः कारकस्य यः ।

तस्यानुपूर्व्या मित्रेयाः पञ्चावस्थाः प्रयोक्तृभिः ॥ १२ ॥

यथारम्भः प्रयत्नश्च ग्रासिमम्भव एव च ।

नियता च फलप्राप्तिः फलयोगश्च पञ्चमः ॥ १३ ॥ इति

( ना० शा० २१।७-८ )

अवस्थाएँ—इस कथामस्तु या इतिवृत्त की ( अग्रभूत ) पाँच ‘अप्रस्थाएँ’ ही हीं हैं ।

फलप्राप्ति ये लिए उसके कर्त्ता या नायरु का जो कार्य होता है उसकी कमशा पाँच अप्रस्थाएँ प्रयोक्ताजन जानें । ये हैं ( १ ) आरम्भ, ( २ ) प्रयत्न, ( ३ ) ग्रासिमम्भव, ( ४ ) नियतफलप्राप्ति तथा ( ५ ) फलयोग ।

आरम्भ —

तत्र चीजस्यौत्सुक्यमात्रवन्ध आरम्भः । यथा कोशलाङ्के—

मुरोराज्ञा यत्र प्रभवति नितान्त न निवृति

मुदे शातिशोतिर्भवति न पुन कार्यपरता ।

न नन्दन्तुद्वृत्ता प्रियमुपगता यत्र सुद्धदो

गुणा हीष्टा यत्र प्रहृतिचपला नार्थविषयाः ॥

तद्विधातुमयमारम्भ ।

आरम्भ—इनमें ‘आरम्भ’ अप्रस्था उसे कहते हैं जिसमें उद्देश्य पूर्णि के लिए इच्छा या धीतूद्दल का धीजहूप में प्रदर्शन होता है । जैसे कोशलाङ्क में—

जहाँ पिता जी का आदेश पालन ही मुख्यतः विद्या जाना है, पराभव नहीं, जहाँ अपने परिवार के प्रति प्रीति ही आनन्द माना जाता है, अपने कार्यों में तत्पर रहना नहीं, प्रियमन्तु को पाकर जहाँ मित्रगण ही प्रमग्न होते हैं, उद्दण्ड द्वेष्ठाचारी नन नहीं और जहाँ स्वभावतः

१ साधप्रस्थेति च पाठ नाट्यग्रन्थे ।

अस्थिर या परिवर्तनशील गुण ही अभीष्ट होते हैं सांसारिकपदार्थों की ओर मुड़ना नहीं।

इन्हीं सब कार्यों को करने के लिये 'आरम्भ' नामक (यह) अवस्था रखी गयी है।

### प्रथल —

प्रथल इति । फल्योगमपश्यत एव तत्र व्यापार प्रथलः । यथा  
कुलपत्पङ्के—'जात मे पर्येण भस्मरजसा तच्चन्दनोद्धूरन्तनिति' ।

प्रथत्न—फलप्राप्ति की परवाह किये बिना उसके लिए किया जाने वाला (सतत) कार्य 'प्रथत्न' कहलाता है। जैसे 'कुलपत्यक' में—'मेरे लिये चन्दन का लेपन' राख मलने जैसा कष्टशायी हो गया है, इत्यादि वर्थन ।

### प्रासिसम्बव

प्रासिसम्बव इति । भावमानेण फलस्य या प्राप्ति सा प्राप्ति-  
मम्भवः । यथा सुर्यीवाङ्के—

त्वहस्तिहपभाषि प्लुतकनकगिरिशान्तिमुत्पादयन्तो  
वक्त्रैर्लीक्षारसामै सपदि विदघतानेकमूर्यामिव धाम् ।  
येलस्त्राङ्गूलहेलाचलितकृतगिरिव्यस्तवन्या धरित्री  
कुर्वणा सम्पत्तनु क्षय इव भर्तु वानरा राक्षसेषु ॥

प्रासिसम्बव—जब किसी फल की केवल विचार मात्र मे उपलब्धि हो तो उसे 'प्रासिसम्बव' समझना चाहिए। उदाहरणार्थ सुर्यीवाङ्के<sup>1</sup> में— "अपने शरीरों की पीली चमक से उड़ते हुए सोने के पर्वतों का भ्रम पैदा चरने वाले, लाल के समान अपने लाल मुरांओं से उदय होने वाले अनेक सूर्यों से युक्त आकाश को बना देने वाले और पूँछ की फटकारां से पृथ्यी के अनेक पर्वतों की जड़ों को ढीला कर देने वाले (ये) वानर राश्मियों का नाश करने के लिए यात्याचक के समान दृढ़ पड़ेंगे।"

1. सायुराज या मानवाज विवित 'उदाच्चरायव' नाटक के द्वितीयअङ्क का नाम ।

2. सुर्यीवाङ्क = उदासराधव के चतुर्थाङ्क का नाम ।

यग्नी भीता की स्थिति मात्र के अवगत हो जाने पर राक्षसों के नाश का विचार करने से ( इसे ) 'प्रानिमम्भव' समझना चाहिए ।

### नियनापि —

नियनापि निश्चना निश्चिना फल्प्रातिरुपस्थितेवेति यावत् ।  
यथा वेणीमहारे —

पूर्यन्ता सलिलेन रव-कलशा राज्याभिपेकाय ते  
कृष्णात्यन्तचिरोजिष्ठो च कमरीवन्धे करोतु क्षणम् ।

गमे शातकुशार-भासुरकरे धन्त्रदुमोच्छेदिनि  
क्रोधान्धे च वृक्षोदरे परिपत्त्याजौ कुत सरय ॥

( वै० सं० ६।१२ )

**नियतफलप्राप्ति**—उहाँ निश्चिन [ नियत ] रूप में फल की प्राप्ति ही जाए उसे 'नियतफलप्राप्ति' भमझना चाहिए । जैसे वेणीमहार में—  
“अपने राज्याभिपेक के लिए रव के कलशों में जल भर दिया जाए ।  
कई दिनों से दूर हुए अपने केशों को बाध कर द्वीपशी उत्तर मनाए ।  
क्षत्रियरूपी वृक्ष को उत्तराङ्गने और तीक्ष्णघार बाले परदू वा धारण  
करने से चमचमाने हाथों बाले भगवान् परशुराम और क्रेष्ण के कारण  
मदमत्त हो जाने बाले भीमसेन के युद्ध में उत्तरजाने पर फिर ( इनसी )  
सफलता में भला किसे मन्देह हो मरता है !”

अथवा अरानेरपचयपरम्परा नियता च फल्प्राप्तिरिति अइमहुद्दृः ।  
यथा जानकीराघवे पष्टुके लक्षण —

दूरशोक्तनुभुमर्णविटपी छिक्कम्बया शशजित्  
स्थाणु धमाह्नमितो निकुञ्जगृहन् कुम्भ म चोम्बीलित् ।  
पौरमर्यु रजरदुमस्थितमनीरानामदुर्गेऽस्ति ते  
घम्नेय व्यमनाट्यो किम्बुनाप्यायो यदुचाम्यति ॥

अस्मिन्दु ह आचार्य का कहना है कि जब शानु वी निरन्तर परात् “  
शोनी जाए नो उसे 'नियतफलप्राप्ति' भमझना चाहिए । जैसे जानर  
राघव के छटे अद्व में :—

**लक्षण**—आपने दूर तक कैले हुए उस उभत कुम्मकर्ण रूपी वृक्ष को काट दिया, इन्द्रजीत रूपी दृढ़ का पृथ्वी पर लुढ़का दिया और उस (कुम्भ ?) की घनी कैली हुई माड़ियों को उदाढ़ डाला है। अब ये कैला सेनाहीन रावण रूपी पुराना वृक्ष सरलता से उदाढ़ जा सकता है, जो बिना किलावन्डी के अपने स्थान पर जम कर डटा हुआ है। हे आर्य ! इस प्रकार हुमायूँ रूपी सम्पूर्ण वन उदाढ़ जा चुका हैं, अब आप क्यों अपने मन को अधीर कर रहे हैं ?

### फलयोग —

अभियेतमनुरूपं क्रियाकलं यत्र निफल स फलयोगः । यथा  
जानकीराघवे प्रथमाङ्के—

**सीता-**( समयम् ) अह रामभद्र, परिचायेहि । हरदि मं  
रखसाहमो ( अयि रामभद्र परिचायस्व । हरति मां राक्षसाधम् । )

**प्रियवदा—**हला मा भायादि । जइ असौ तुम हरिस्तेदि  
ता वाणरचअपरिखुतो समुद्रकंतारं विलघित्र रामभद्रो एदं रखसाहमं  
चावादइस्तदि तुमं अ पच्चाहरइस्तदिति तडेमि । ( हला मा मैषी ।  
वदसौ त्वा हरिष्यति तदा वाणरचपरिवृत्तस्तमुद्रकान्तारं विलहृष्य  
रामभद्रः एनं राक्षसाधमं व्यापादयिष्यति त्वाच्च प्रत्याहरिष्यतीति  
तर्हयामि । )

**फलयोग—**जय किसी के अनुकूल कार्य या परिणाम व्यर्थ हो  
जाए तो उसे 'फलयोग' समझना चाहिए। जैसे जानकीराघव के  
प्रथमाङ्क में—

**सीता—**( डरते हुए ) हाय ! राम, मेरी रक्षा कीजिये । यह नीच  
राक्षस मुझे हर ले जा रहा है ।

**प्रियवदा—**सति, क्यों डरती हो, यदि वह तुम्हें हर लेगा तो  
रामभद्र यानरों की सेना लेकर, वन और समुद्र को लाघ वर उस नीच  
राक्षस को मार डालेंगे और तुम्हें वापस लौटा लाएंगे । मैं तो यही  
सोच रही हूं ।

इति मुससन्धावुदीर्णं यद्रावणव्यापादनं सीताप्रत्याहरणश्च तज्जि-  
वर्हणसन्धौ 'लङ्घाधीशप्रभृति रिद्वो घातितास्ते च साध्वी लवधा सीते'-

स्थादिना द्वयमपि माधितम् । इति पूर्वोक्तस्याविरोधेन रावगस्य ये वध सीतायाश्च प्रयाहरणं म फलयोगः प्रतिपत्त्य इति ।

इम प्रसार मुगमन्ति मे वनलाप हुए—रावण का वध और मीना का लौटा लाना—इन दोनों कार्यों की निर्देशमन्ति मे ‘लङ्घा के म्यामी रावण आदि शत्रुओं को मार डाला गया है और पतिनवा मीना को ब्राह्म कर लिया गया है’ (इत्यादि) वचनों के द्वारा मिद्दि की गयी । इसे ही पिछली वार वहे गए वथन के अनुकूल कार्य मन्पादन वरने के कारण (अर्थात् रावण का वध और मीना का लौटाना इन दोनों कार्यों को) ‘फलयोग’ मममना चाहिए ।

एनाश्च प्राप्तवस्था मद्भेदनो मातृगुसेन कल्यन्ते—

प्रारम्भो रावणवधे राप्रभृतिवैश्यमम् ।

प्रयत्र शूष्णेणगुया कृतः मीनापद्मारतः ॥ १४ ॥

मुग्रीप्रम्य च मन्येन मञ्जातः प्राप्तिमम्भवः ।

नियता फल—मन्पासिः कुम्भर्णादिमङ्गले ॥ १५ ॥

यो देव रावणपतेः कार्यो दुष्टमतेर्वधः ।

फलयोगः म गमस्य धर्मकार्यार्थमिद्द्य ॥ १६ ॥

एतत् राष्ट्राभ्युदये सुन्दरमेव ।

मातृगुसनाचार्य ने इन्हीं पाँचों अवस्थाओं को मंडोप मे इस प्रसार चनाया है—

रावण वध के लिये पूर्व मे खरदूरण आदि राक्षसों का वध वरना ‘आरम्भ’ शूष्णेणग्य के द्वारा किया हुआ मीना हरण तक वा कार्य ‘प्रयत्र’, श्रीराम की सुषीर के माथ मैत्री करना ‘प्राप्तिमम्भव’, कुम्भर्ण आदि राक्षसों का नाश हो जाना ‘नियतफलप्राप्ति’ तथा अन्त मे श्रीराम द्वारा दुष्टव्या रावण के किये जाने वाले वध को ही श्रीराम को धर्म, अर्थ तथा वाम का भावक होने के कारण ‘फलयोग’ मममना चाहिए ।

ये नभी अवस्थाएँ राष्ट्राभ्युदय मे स्पष्टन उपलब्ध हैं ।

तत्त्वाटकं मिश्रं कर्तव्यम् । उत्तमाधममध्यमपापाणा मापाभिर्मिश्रं कर्तव्यम् । मापाश्च—

मागध्यवन्तिजा प्राच्या शौरसेन्यर्धमागधी ।

वाहीकी दाक्षिणात्या च सैताः परिकीर्तिः ॥ १७ ॥

नाटक की रचना भिन्नभाषाओं में की जाती है अर्थात् इसमें उत्तम, मध्यम और अधम भाषाओं की भाषाओं का मिश्रण रहता है। ये भाषाएँ सात ( मानी जाती ) हैं। यथा—मागधी, अग्न्ती, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धमागधी, वाहीकी और दाक्षिणात्या ।

तद्विभागोऽन्यत्र दर्शयितन्य, इह तु ग्रन्थविस्तरभयात् दर्शित ।

मृदुशब्दाभिधानव्य कर्तव्यमिति-मृदु सुकुमार शब्दोऽत्र विधातन्य । अभिधानमपि प्रसिद्धं सुवोपत्वामृदु कर्तव्यम्, न तु मा स्पृशेति वक्तव्ये लक्षणाधीनतया मा स्पाक्षीरिति वक्तव्यम्, चन्द्रमुखीति वक्तव्ये धरलमुखीति न वक्तव्यमित्यर्थ ।

इन भाषाओं का विभाग अन्य ग्रन्थों में दिखलाया गया है, हम उसे यहाँ प्रिस्तार भय के कारण यहाँ नहीं दिखलाना चाहते हैं ।

नाटक में कोमल शब्दों ( यथा अभिव्यञ्जनाओं ) का प्रयोग रहना चाहिए अर्थात् सुकुमार शब्दरचना नाटक में रखी जाए। ये शब्द ऐसे हों कि उनका अर्थ प्रसिद्ध, सहज और शीघ्र अवगत हो जाए और उसमें कोमलभाषा भी हों। जैसे ‘मा स्त्रशा’ के स्थान पर व्याकरण आदि शब्दों के आप्रह पर ‘मा स्पाक्षी’ का प्रयोग नहीं करना चाहिए या ‘चन्द्रमुखी’ के स्थान पर धरलमुखी पद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए ।

नाटकादीनेतानि भारतवर्षमधिकूल्य कर्तव्यानि । तत्रैव सुखदुख-योस्मन्मव । अन्यत्र सुखमेव न दुखमस्ति । अत एवाचार्यः—

इन नाटक आदि ( रूपक के प्रकारों में ) भारतवर्ष में घटित घटनाओं को ही रखना चाहिए क्योंकि मानव जीवन में सुख-दुःख की (व्यग्रस्थित) प्राप्ति यहीं होती है। अन्यत्र ( या दूसरे वर्षों में ) केवल सुख ही रहता है दुःख नहीं। दूसरे वर्षों में जो पर्यंत ( उपगम ) आदि हैं उनमें केवल विहारजन्य आनन्द ही उपलब्ध होता है और इसीलिये वहाँ दुःख का मिश्रण नहीं हो पाता। इसी को आचार्य ( भरतमुनि ) ने घतलाया है। यथा :—

तद्वारतेऽत्र वर्षे कर्तव्यं काव्यन्धेषु ।

तस्माद्वारतमिदं वर्षेष्वेतेषु विदितेषु ॥ १८ ॥

उपग्रन्थमनक्रीडानिहारनारीरतप्रमोदाः स्युः ।  
 तेषु हि वर्णेषु सदा न तत्र दुःखं न चा शोकः ॥ १९ ॥  
 ये तैषामपि वासाः पुराणगदेषु पर्वताः कथिताः ।  
 मम्भोगस्तेषु भवेत्कर्मारम्भस्तथा द्विस्मितिः ॥ २० ॥  
 शेष सुवोध एव । ( ना० शा० १८१७-१०० )

नाटक आदि में इने वाली सारी घटनाएँ भारतवर्ष से घटित होने वाली रहनी चाहिए। इसीलिये इन सारे ज्ञात या प्रसिद्ध स्थानों में नाटकीय घटनाओं का लद्यभूत प्रदेश भारतवर्ष ही माना जाता है। क्योंकि दूसरे वर्षों या लोकों में सदा उपग्रन्थिहार, आमोद-प्रमोद, क्रीडा, गिलास, स्त्रीक्रीडाएँ आदि होते रहते हैं इसीलिए वहाँ कभी शोक या दुःख नहीं रहते। पुराणों में जिन दिव्य लोक या पर्वतों का वर्णन दिया गया है वहाँ ( दिव्य या अन्य प्रकारों यानि ) पात्रों का विहार, आमोद प्रमोद हो सकता है किन्तु यार्यों का चेत्र भूमण्डल या भारतभूमि' ही रखना उचित होता है।

शेष याते स्पष्ट है ।

### अधार्थ—प्रकृतय—

अस्य च नाटकस्य पञ्चार्थप्रकृतयो भवन्ति । नाटकीयवस्तुन् पूर्वोक्तस्य पञ्च प्रकृतय स्वभावा भवन्ति । नैतान्परित्यज्य नाटकार्थां सम्भवन्ति । तथथाचार्य —

अर्थप्रकृतिः—नाटकीय कथाप्रस्तु में पाँच 'अर्थप्रकृति' होती हैं। अर्धांत पहिले जिस कथाप्रस्तु को भवलाया जातुका है उसकी ये

१ यहाँ सामान्यत गृध्री के तथा विदेशन भारतीय वायुमण्डल के अनुकूल मानवों के जीवन पर आधृत स्पृहों का ही निर्माण करने पर वह देते का भास्य है—पात्रों के जीवन तथा कर्यों से मानवी भावना की समानता रहना, वर्षोंकि मात्र भावों के अनुकूल पात्रों के जीवन या कार्य न रहे सो रम-प्रसीति में वाधा उपस्थित होती। इसी कारण उभी वृद्धकों का वार्षिक भूमण्डल पर गामान्यत तथा भारतवर्ष पर विदेशन घटित घटनाएँ ही रखा जाता रहा है, वर्षोंकि इस मध्यार के अतिरिक्त नाट्यशरदर्शन का दूसरा बार्द वार्ष मुख्य नहीं होता है ( जहाँ इसाई विश्वदृश्य व्यापार । भर० नाट्य० ) ।

पॉचों अर्थप्रकृतियों स्वभाव मानी जाती है और इन्हें छोड़ कर नाटकीय कथावस्तु का कोई सरल्य या उद्देश्य नहीं होता। जैसा कि आचार्य ( भरत ) ने भी कहा है —

अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ।

बीजं विन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च ॥ २१ ॥

( ना० शा० २१२० )

कथावस्तु की स्वभावस्वरूपा इन पॉच अर्थ प्रकृतियों को अवश्य जानना चाहिए और इनका नाटकीय सविधान से यथोचित सुयोजन ( भी ) करना चाहिए। ये अपस्थाएँ हैं : ( १ ) बीज, ( २ ) विन्दु, ( ३ ) पताका, ( ४ ) प्रकरी तथा ( ५ ) कार्य ।

तत्रबीजम्—

बीजं नाटकार्थस्य फलभूतस्य कारणम् । तदू यथा—

किञ्चिन्मात्रं समुद्दिष्टं वहुधा यद्विसर्पति ।

यादत्कलापसानन्दं तद्वीजमिति कीतिरम् ॥ २२ ॥

किञ्चित्स्तोकं प्रश्लेष्ण्यायोपक्षेपप्रभृतिभिरङ्गैस्तमुद्दिष्ट कथितम् ।

वहुधा विसर्पति फलावसान यावच्छीजमित्यर्थ ।

बीज—नाटक के प्रमुख फल या लक्ष्य का मूलभूत कारण 'बीज' कहलाता है। इसका लक्षण इस प्रकार है—'हृपरु के आरम्भ में जो अल्प मात्रा में सकेतित या सृज्य होकर अपना विस्तार आगे लक्ष्यसिद्धि या फलप्राप्ति तक करता चले और फल के पूर्णत उपलब्ध होने के बाद समाप्त हो जाए तो फलप्राप्ति तक निरन्तर विद्यमान रहने याने अर्थ प्रकृति के उस अङ्ग को 'बीज' कहते हैं।'

लक्षण में 'थोड़ी मात्रा में सकेतित करने' का आशय है कि यह श्लेष्य, छाया या उपक्षेप ( सूक्ष्यत्व ) में से किसी एक अङ्ग के द्वारा कहा जाता

१. भोज के शूद्धारप्रकाश में भी इसी भाव से इष्ट करते हुए यतलाया है। जैसे बीज का भारोपण ब्रह्म जड़ जमाने, पते निश्चलने, डाल बढ़ने से लम्ब वृक्ष का स्वरूप धारण करते हुए पह्ले पुष्पादि से विस्तार घरते हुए फल देना है उसी प्रकार नाटकीय बीज की भी समझना चाहिए। ( दृष्ट० शृं० श्र० शश्याय १६, बीजलक्षण )

है। 'अपना विस्तार करे' से आशय है कि अर्थप्राप्ति के (फलोपलनिधि के) बाद ही यह अपने व्यापार का सकोच या सहार करता है और फल-प्राप्ति तक वरावर विश्वमान रहता है।

अन्यस्त्वाह—

इष्टार्थसाधनं वीजमुसमुत्पातमुद्रतम् ।

अन्विष्टं फलितं पञ्च सन्दिष्टान् दर्शयेत् क्रमाद् ॥ २३ ॥

दूसरे आचार्यों का महना है कि—

'इम्मु या उद्दिष्ट प्रयोजन का साधन 'बीज' पहलाता है, और यह क्रमशः वे प्रयोजन, अद्वृति होने, उठने, फैलने और फलने की पाँचों अपन्थाओं को अपने विश्वास के द्वारा दिखलाता है।

तत्र प्रस्त्रेषो द्विर्थवचनम् । छाया कथासाम्यम् । उपक्षेप अर्थोप स्थाम् । एमिङ्गैस्तद्वीजमुच्यते ।

यहाँ श्लेष का अर्थ है ( पात्र के ) कथन में दो अर्थों का एक साथ रहना। छाया का अर्थ है कथाया कथन में समानता रहना। किसी अर्थ को उठाना या सरेतित करना 'उपक्षेप' होता है। इन अझों के द्वारा या विश्वमान रहने के कारण यह 'बीज' कहा जाता है।

तत्र श्लेषः यथा घेण्याम्—

सत्पक्षा मधुरगिर ग्रामाधिलाशा मदोद्रतारम्भा ।

निष्पन्निति धार्तीराष्ट्रा । काल्यशान्मेदिनीशृष्टे ॥ ( वे० १।६ )

जैसे श्लेष का उदाहरण वेणीसंहार में :—

अर्व—अच्छे पक्ष ( पर समायक ) याने, मधुरभाषी, दिशाओं की प्रसापिन ( भूषित, अधीन ) करने याने ये धार्तीराष्ट्र ( हृस, धृतराष्ट्र रे पुत्र कीरणगण ) आज फालपश ( शहदश्रूतु ये या मृत्यु ये ममय ये उपमिथत हो जाने के कारण ) पृथ्वी पर आ रहे हैं ( उत्तर रहे हैं, गिर रहे हैं ) ।

छाया यथा जानमीराधर्म—

नीता दुर्गमगाधगारिधिनल देत्येत् हृत्वा च सं

य पृथ्वी मुज्जगेन्द्रभोगमुक्तं प्रयानयन् प्रेषमीम् ।

मीढा क्रोडतनु स केटभरिपु पुण्यातु युमाङ्गत् ।  
स्वास्थ्यम्बस्त्यवनैकहेतुरमरै सानन्दमभ्याचित् ॥  
छाया ना उदात्तण जैसे जानकीराघव ने ।—

मंमार वे सुख और वल्याण वे एकमात्र धारण वे मगवान् त्रिष्णु आपना पातन करें जिन्हें दैत्यों द्वारा अग्राय समुद्र-तल ने पहुँचायी गयी पृथ्वी के नरों के निमास-स्थान ( पाताल ) से प्रेयसी के समान लौटा ली और ( उस ) असुर का संहार व्र दिया, जिन्हें लीला के लिए ही चाराह शरीर धारण किया, कैटभ दैत्य का सहार किया तथा जो देवताओं द्वारा थानन्दपूर्वक अर्चित हुए ।'

उपक्षेपः यथा कुन्दमालायाम्—

सूत्र—क एप आर्याद्वानेन साहायकं मे सम्पादयति ( निख्प्य )  
कष्टमतिक्रमं वर्तते ।

दक्षेश्वरस्य भवने सुचिर स्थितेति  
रामेण सोकपरिवादभयाकुलेन ।  
निर्वासितां चनपदादपि गर्भगुर्वी  
सीता वनाय परिकर्पति लक्ष्मणोऽयम् । ( कु० मा० १।८ )

उपक्षेप का उदाहरण जैसे कुन्दमाला में—

सूनधार—अरे यह कौन है जो आर्या को बुलाने में मेरा हाथ बड़ा रहा है । ( ध्यान से देख कर ) हाय ! हाय ! बड़ा करुणात्मक हाय है—

लंदा के स्वामी राघव के राजभूमि में यह कई दिन रही इस जनापदात् के भय से घबड़ाए हुए श्रीराम के द्वारा गर्भ के भार से भारी हो रही इस सीता देवी को अपने प्रदेश से बाहर यन में पहुँचाने के लिए लक्ष्मण जल्जी-जल्दी ले जा रहा है ।

विन्दुः—

विन्दुरिति विन्दुः । विच्छिन्नायामपि धारायां यथा जलविन्दु-

१. यह जानकीराघव का नामीपद ( सा ) प्रभीत होता है ।

२. ना० ल०

पटलपर्यन्तेष्वन्तरन्तरा लब्धनिजविशात् पयमा पतनमभिन्दुमज्यति  
तथायमपि प्रयोजनमित्यर्थः ।

विन्दु—‘विन्दु’ जलविन्दु के समान होता है। जैसे जलधारा के दूट जाने पर भी जलविन्दु खूंदों के बीच-बीच में गिराते हुए अपनी स्थिति बनाए रखता है और जलधारा के गिरने की सूचना देता रहता है ठीक उसी तरह बीच-बीच में गिर्छन्न होने पर भी अग्निच्छन्न सा रुक्कर यह विन्दु भी प्रयोजन की सूचना देता है।

यथा—

प्रयोजनानां विच्छेदे यदगिर्छेदकारणम् ।

यावत् समाप्ति कार्यस्य स विन्दुरिति कथ्यते ॥ २४ ॥

इस प्रकार विन्दु वह है जो प्रयोजनों के बिचर जाने पर भी उनकी अग्निच्छन्नता का कारण बन कर कार्य या फल की पूर्णता पर्यन्त बना रहता है। (अर्थात् आनुपङ्किक कार्यों के मध्य या उन कार्यों के द्वारा प्रधान प्रयोजन के थोड़ा विच्छन्न हो जाने पर भी जो कथाप्रस्तुति की अग्निच्छन्नता वो बनाए रखने से कारणीभूत हो उसे ‘विन्दु’ समझना चाहिए।)

यथा वैष्णवां भीम —

लाक्षा-गृहानल-विपाक्ष-समा प्रयैः

भाणेषु विचनिचयेषु च न प्रहत्य ।

आकृप्य पाण्डवपृष्ठपरिधानकेशान्

स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्ट्रा ॥ ( वे० ३१८ )

जैसे वैष्णवीसहार में —

भीमसेन—लाक्षागृह में आग लगा कर, दिप्पूर्ण भोजन घरया पर और सभा में हमारा अपमान वर, हमारे भ्राण्डों और सम्पत्ति पर प्रहार कर तथा पाण्डवों की धर्मपत्नी के पेश और यद्यों वो सीच कर भी धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी म्यम्य बने रहेंगे?

इस प्रसार प्रस्तुत उदाहरण में हुर्योधिन द्वारा किये हुए अनेक अपमानों की परम्परा बदलाते हुए वौरय-क्षयहृषी प्रयोजन की अग्निच्छन्नता प्रकट की गयी है।

अन्ये तु । यद्धि नाटकार्थस्य प्रकृतिभूतमवमानोत्साहाभ्यां मत्यङ्कं परिकीर्त्यते स विन्दु । यथा राघवाभ्युदये कैकय्या, प्रत्यङ्कसुत्कर्त्ति-नम् । वेण्याच्च कीर्त्यते द्रौपदीकेशाकर्पणम् । उत्साहे च जीभूतवाहनस्य सर्वाङ्के कीर्तनमिति । स च कार्यस्य समाप्तिं यावत् प्रवर्तयितव्यः । यथा जानकीसंहाराङ्के राम —

ताताज्ञाया स्थितमविकृत कैकयीप्रार्थितानां

लब्धस्तेपामवधिरटवोवाससंवत्सराणाम् ।

लङ्घाधीश्यप्रभृतिरिपिवो धातितास्ते च सीता

साध्वी लब्धा किमधिकमत प्रार्थयेत्वांसुरेन्द्र ।

दूसरे आचार्यों का मत है कि—जो नाटक के प्रयोजन या मूलभूत कार्य को अपमान या उत्साह के द्वारा प्रत्येक अङ्क में निरन्तर बतलाता जाए उसे ‘विन्दु’ भमफना जाहिए । जैसे राघवाभ्युदय के प्रत्येक अंक में कैकयी की चर्चा रखना । वेणीसंहार के प्रत्येक अंक में द्रौपदी के केशों को सीधे चाहने की बात दोहराना । नागानन्द के प्रत्येक अंक में जीभूतवाहन के उत्साह का कथन करना । यह कार्य की पूर्णता या उद्देश्यसिद्धि तक बराबर रखा जाता है । जैसे जानकीसंहार नामक अङ्क में ।

राम—मैंने अपने पूज्य पिता की आङ्गा का निस्संकोच पालन कर माता कैकयी के द्वारा चाहा गया चौदह घर्षों का घनवास पूर्ण किया, लङ्घा के स्वामी रावण जैसे शत्रु का हनन कर सती साध्वी सीता को फिर प्राप्त करलिया । हे देवाधिपते इन्द्र, अब मैं आपसे और किन वस्तुओं की प्रार्थना करूँ जो इनसे अधिक हों !

अथैप विन्दोरपरं पश्च । यथा रावणस्य वधे मारी चखरादिसैन्य-  
कुम्भकर्णन्द्रजितामनवरतवधदर्शीनम् । कौरवाणाच्च द्रोणादिवधदर्शनव्वेति ।

विन्दु का एक दूसरा कार्य भी है । यह है रावण के वधरूपी मुख्य प्रयोजन के बीच मे मारीच, तत्त्वान्य खरदूपण, कुम्भकर्ण तथा इन्द्रजित आदि राक्षसों के वधों का निरन्तर आनुपांगिक रूप मे बतलाते जाना या वेणीसंहार मे दुर्योधन के वधरूपी मुख्यप्रयोजन के बीच मे कौरव एव द्रोणाचार्य आदि का संहार दिलाना ।

## पताका—

ध्वजोपरि निहितपताकेन पताका । यथेयमेकदेशे स्थायिनी  
सम्मुखपि सैन्य धोतयति यथा चेयमपि नाटकैनदेशवर्तिनी नाटक  
सम्मुखेन प्रदायति । तद्यथा—

पताका—किसी ( उण्डे या ) बाग पर चढ़ाये गए धन के  
समान होती हैं और जैसे किसी एक स्थान पर विद्यमान होतर भी  
धज सारे सैन्य की उपस्थिति सूचित भरता है वैसे ही नाटक के एक  
भाग में स्थित रह कर भी ( वह ) पताका सारे नाटक को प्रक्षिप्त  
करती है । जैसा कि कहा भी गया है—

यद्यवृत्तं हि परार्थं स्यात्प्रधानस्योपकारकम् ।

प्रधानवच कल्पेत पताका सामिधीयते ॥ २५ ॥

( ना० शा० २१।२४ )

जो घटना किसी अन्य उद्देश्य से रखी जाने पर भी मुख्य कार्य में  
सदायना होती हो या मुख्य कार्य के सम्पादनार्थ प्रमुखस्पृष्ठ में  
संयोगित की जाए तो उसे ‘पताका’ समझना चाहिए ।

यस्या वृत्तं वर्तनं परार्थं परप्रयोजनार्थं प्रधानस्योपकारक मन् ।  
स्वयमपि पौरुषातिशयार्थं प्रधानवच् कल्पेत् सा पताका । यथा  
वेण्यां-कर्णस्य चरितं दुर्योधनसुपत्रुं प्रवृत्तं स्वपौरुषार्थमपि । सा गर्भ-  
ज्वरमयै च निर्वर्तते इति नात्यनितिमेतदवगन्तन्यम् ।

अर्थात् जिसकी रुपापना दूसरों के किसी कार्य के सम्पादनार्थ  
रखी जाए और फिर भी प्रधान कार्य की महायन हो जाए, जो मुख्य  
कार्य सम्पादक होने के बारें प्रधान कार्य के समान ही रखी  
जानी हो तथा जिसका उद्देश्य पुरुषार्थ की अतिरायता को प्रदर्शित  
करना हो तो ऐसी घटना को ‘पताका’ समझना चाहिए । उदाहरणार्थ  
वेणीमहार नाटक में रखा गया एक पा धरिय जो दुर्योधन के  
उपशारार्थ रखा गया था पर यह अपने स्वयं के पुरुषार्थ या महत्व के  
फारण प्रधानकार्य जैसा मात्लशाली भी हो गया है ।

‘पताका’ की स्थिति गर्भ या अवमर्शमन्धि के बाद नहीं रहती यह  
पथम एवं दूसरे नियम के रूप में नहीं ले लेना चाहिए ।

अन्ये पताकेल्युपनायकचरितमेव स्थूलार्थमुपवर्णयन्ति । तेनान्तर-  
व्याख्यापि सिद्धयति । उपनायकेन तायकसुपकर्तुं प्राधान्यमवलम्ब्य  
यत् कियते सा पताका । यथा—मकरन्दस्य माधवमुपचिकीषोर्मालिती-  
रूपत्वादिकम् इति ।

कुछ आचार्य पताका को उपनायक का चरित्र बतलाने हैं । यह  
बात मोटे तोर पर ही लेना चाहिए । इससे यह भी अन्तर्निर्दित अर्थ  
सूचित हो जाता है कि उपनायक के द्वारा प्रधान नायक के उपकारार्थ  
प्रधान लक्ष्य की पूर्ति-हेतु जो उद्योग किया जाए उसे भी 'पताका'  
समझना चाहिए । उदाहरणार्थ मालतीमाधव में मकरन्द का माधव की  
सहायता के लिये स्वयं मालती का वेषधारण करना पताका है ।

### प्रकरी

पुष्पप्रकरव्यविहिता या शोभा जनयति सा प्रकरी ।

### तदूयथा—

शकरी—पुष्पों के टेर के समान किसी एक विशेष स्थान पर एकत्र  
करने जैसी जिसकी अतिशय शोभा हो जाती हो उसे 'प्रकरी' कहते  
हैं । जेमा कि आचार्य ने कहा भी है :—

फलं प्रकल्प्यते यस्याः परार्थं केवलं बुधैः ।

अनुवन्धविहीनां तां प्रकरीमिति निर्दिशेत् ॥ २६ ॥

जिसका फल किसी अन्य (मुख्य) पात्र के लिए रहता हो परन्तु  
फिर भी जो कथावस्तु से अविच्छिन्नता न रखे तो उसे 'प्रकरी'  
समझना चाहिए ।

यस्या प्रयोजनं परार्थं परस्य हेतों प्रकल्प्यते जायते । अनुवन्धो  
नैरन्तर्येण प्रवर्तनम्, तेन विहीनां त्यक्ताम् उत्पन्नप्रनाशमित्यर्थः । यथा  
यथा कुलपत्यहै ।

अर्थात् जिसका प्रयोजन यह फल दूसरे पात्र के लिए रहा जाता  
हो । अनुवन्ध का अर्थ है कथावस्तु के साथ निरन्तर अन्वित रहना ।  
यह अनुवन्ध से हीन होती है अर्थात् इसमें नैरन्तर्य या अविच्छिन्नता

नहीं रहती तथा यह उत्थन होती है और समाप्त भी हो जाती है। जैसे 'बुलपार्श्वक' में—

जटायु—आ क्षुद्र राक्षसापद, क मे सुतपथूपहन्त्य गच्छती  
त्यादिरावणजटायुपोर्वतान्तेष्वभिव्यक्तमेव ।

'जटायु—अरे नीच रामण ! तू मेरी पुत्रधू को हार पर कहाँ ले  
जा रहा है ?' इत्यादि जटायु और रामण के सवादों में 'प्रकरी' स्पष्टतः  
दियाँ हैं देती हैं।

### कार्यम्

यदर्थे काव्यस्यारम्भः भिष्ठे यस्मिन् भमापनम् ।

आनुपहिरुमम्पन्नं तत्कार्यमिति कव्यते ॥ २७ ॥

कार्य—जिसके लिए काव्य का प्रारम्भ किया जाए तथा जिसके पूर्ण  
होने पर काव्य की समाप्ति हो तो आनुपगिक कार्यों के हारा मम्पन्न  
होने वाले उस अङ्ग को 'कार्य' भमापना चाहिए।

यदाह मरतः—

यदाधिकारिकं कार्यं पूर्वमेव प्रकीर्तिम् ।

तदर्थे यः समारम्भस्तद् कार्यमिति कीर्तिम् ॥ २८ ॥

( ना० शा० २१।२६ )

जैसा कि आचार्य भरतमुनि ने कहा है :—

मैंने परिले लो आधिकारिक ( मुराय ) कार्य बनलाया उम ( कार्य )  
की पूर्ति के लिए जिसे आरम्भ किया जाता हो वह 'कार्य'  
कहलाता है।

पूर्वमेव प्रकीर्तिमिति द्विविधं कार्यम् आधिकारिकमानुपहिरुमिति  
च । यथा—

पठिले बनलाने वा आशय है कार्य ये आधिकारिक और आनुप-  
गिकस्तरहूप में दो भेद रहना। जैसे—

१. बुलपार्श्व का पही उदारण भावप्रकाशन में सी ब्राह्म होता है।  
( प्राण्य भा० प्र० व० ३० ३०३ G O.S )

इतिवृत्तं हि नाथस्य शरीरं परिकीर्तिंतम् ।

पञ्चमिः सन्धिभिस्तस्य विभागः परिकीर्त्यते ॥ २९ ॥

इतिवृत्तं द्विधा चैतदुधस्तु परिकल्पयेत् ।

आधिकारिकमेकं स्यात् प्रासङ्गिकमथापरम् ॥ ३० ॥

( ना० शा० २१।१,२ )

इतिवृत्त या कथामस्तु नाटक का शरीर कहा जाता है। इस इतिवृत्त के पाँच सन्धियों के द्वारा विभाग किये जाते हैं। इसके दो प्रकार हैं—एक आधिकारिक और दूसरा प्रासङ्गिक ।

इतिवृत्तमाल्यान नाटकस्य शरीर यत्, बुधस्तद्विधा कारयेत् ।

इतिवृत्त पा अर्थ है नाटक की कथा जो नाटक का शरीर माना जाता है। बुध जन उसके दो भेद करते हैं।

एकमधिवृत्तं पिन्दाद् द्वितीयमानुपङ्गिकम् ।

यत् कार्यं हि फलप्राप्तेः समर्थं परिकल्पयते ॥ ३१ ॥

तदाधिकारिकं ज्ञेयमन्यत् प्रासङ्गिकं रिदुः ॥ ३२ ॥

( ना० शा० २१।२—३ )

इस इतिवृत्त के दो भेद होते हैं इनमें से एक को आधिकारिक और दूसरे क प्रासङ्गिक या अनुपगिक कहा जाता है। फलप्राप्ति के लिए मुख्यरूप में जो कार्य उपयुक्त हो या सामर्थ्य रखता हो उसे 'आधिकारिक' और इससे अविरिक शेष कार्यों को प्रासङ्गिक समझना चाहिए।

फलप्राप्तिप्रधानभूतमाधिकारिक तस्यादन्यत् प्रासङ्गिकमिति ।

रावणस्य यधे कार्यं यथाभूदानुपङ्गिरुः ।

सुग्रीवमात्मसात् कर्तुं नधो रामेण वालिनः ॥ ३२ ॥

फलप्राप्ति के लिये मुख्यरूप से अनुप्रित कार्य आधिकारिक तथा शेष कार्य प्रासङ्गिक कहलाता है। जैसे श्रीराम द्वारा किया गया रावण का यथ 'आधिकारिक' और इसी कार्य के लिए सुग्रीव को अपना सहायक बनाने के लिए रिचा गया वाली काथ 'प्रासङ्गिक' कहलाता है।

अन्यस्त्याह—कथायामेन कथान्तरमुपकारकृदानुपङ्गिनमिति ।

दूसरे आचार्यों का भत है कि एक वथा में दूसरी वथा का इस प्रकार सम्बिवेश किया जाए कि वह मुख्यरार्थ में संग्रहक हो जाए तो उसे 'प्रासङ्गिक' वथामस्तु समझना चाहिए । यथा ॥—

कारणात् फलयोगस्य वृत्तं स्यादाधिकारिकम् ।

तस्योपकरणार्थं तु कीर्त्यते द्वातुपनिकम् ॥ ३४ ॥

( ना० शा० २११४-५ )

फलय या मुख्यरार्थ से निसवा सीधा सम्बन्ध आता हो उसे 'आधिकारिक' तथा मुख्यरार्थ में उपकारक या संग्रहक देने वाला इतिवृत्त गीण होने के कारण 'प्रासङ्गिक' या 'आनुपनिक' समझना चाहिए ।

तदर्थो य समारम्भ इति आधिकारिकस्यैव निष्पत्तये यस्तमारम्भ उद्यमो विधीयते । प्रधानमार्योपक्षेष इत्यर्थ । यथा वैष्णाम् ॥—

'प्रेशनाल किल तत्र भवत' इत्यादि ।

संग्रहक कार्य का आशय है वे कार्य जो आधिकारिक इतिवृत्त को पुष्ट करने के लिए उद्यम स्वरूप किये जाएँ और इस प्रकार मुख्य उद्देश्य के उपकारक बनते हैं । जेसे वेणीसहार में—

'यह श्रीकृष्ण जी के प्रवेश का ममय है' इत्यादि ।

एपा वीजादीना कापि कस्यचिन् प्राधान्यमन्येषा गुणभाव ।  
तथा चोक्तम् ॥—

इन वीजादि में कभी किसी एक की प्रधानता और दूसरे की गीणता हो जाती है । जैसा कि यहां भी है मि—

एपां तु यस्य येनार्यो यतश्च गुण इत्यतः ।

तत्प्रधानन्तु इर्तेव्यं गुणभूतान्यतः परम् ॥ ३५ ॥

( ना० शा० २११२७ )

इनमें जिमसे मुख्य उद्देश्य की मिद्दि का साधा सम्बन्ध रहना हो उसे प्रधान तथा ( इसके अनिरिक्त ) गोप की गीण गममना चाहिए ।

अद्वः

तद्वाद्वयेहाद्वामिति । अह व्याख्यानप्रान्यप्य परिच्छेदयिता ।

स च सन्ध्यक्षवशादस्यैव नाटकस्यावस्थां प्रसर्मीक्ष्य विन्द्रादीनां  
विन्तराद्वा कर्तव्य । पञ्चादिदशतंस्यापर्वते स रङ्गजातम्ब चानु-  
बन्धाद् भवति ।

**अह—**यह ( इतिहृत ) अहू और प्रपेशक से युक्त रहता है । 'अहू' का कार्य है डितिवृत्त के विभाग करने हुए उनमी सीमा या परिमाण बतलाना । सन्ध्यङ्गों को नाटक की अपस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तथा विन्दु आदि के विस्तार को विचार कर यह अहूमिभानन दरना चाहिए । नाटक में अहू की संख्या पाँच से लेकर दस तक होती है और 'अहू' को रङ्गमञ्च की आवश्यकता के कारण रखा जाता है ।

**'नानाविधानपुक्तो भावेश्वरमैश्वर्य गृहो भगेद'** ॥ ३६ ॥

( ना० शा० २०१२१ )

'चह अंक अनेक प्रयोग तथा उद्देश्यों से युक्त तथा रस एवं भावों' से व्याप्त रहता है ।'

नानाविधानानि वहवः प्रयोगस्तैर्युक्तः । भावैरिति स्थायिभि-  
न्नासादिभिर्निर्देदादित्यभिचारिभिर्सात्त्विकैरपि रोमाञ्चादिभिर्भिर्विरै रसैश्च  
शृङ्गारादिभिर्गृहं उपगृहो भवेत् ।

अनेक उद्देश्यों का आशय है कि इसमें यहुत से कार्य होते हैं । भाव वा अर्थ है ( रति आदि ) स्थायीभाव, ग्राम, निर्वेद आदि संचारी भाव तथा रोमाञ्च आदि सात्त्विक भावों से युक्त तथा रस शब्द से आशय है शृङ्गार आदि रनों से गृह अर्थात् युक्त या व्याप्त रहना चाहिए ।

**यत्तर्थस्य नमास्तिर्यन्तं च गीजस्य भवति संहारः ।**

**किञ्चिद्वल्मिन्दुः सोऽहू इति सदागगन्तव्यः ॥ ३७ ॥**

( ना० शा० २०१६ )

1. 'अहू' को भाव तथा रसों से गृह भवनना-भट्ठलेष्ट का मत है । लभिनवगुप्तराद ने इसको धा० भा० में उद्दृत किया है । यथा—भावेश्वरमैश्वर्य गृहं द्वन्द्व ष्यासोऽरोऽहूमन्देनेत्यन्ते इति भट्ठलेष्टक्षया । गृह इति पाठं ष्याचक्षिरे ( नाट्यशास्त्र १० १३ Vol II, पृ. ४३५ )

जहाँ किमी एक कार्य या उद्देश्य के पूर्ण हो जाने के फारण समाप्ति हो जाती हो, जहाँ 'धीज' का अर्थात् प्रधान कार्य का अंशतः निष्पर्य निवलता हो एव जो विन्दु से थोड़ा (अपना) सम्बन्ध रखता हो उसे 'अङ्कु' कहते हैं।

यत्वार्थस्यानुपङ्गिकस्य समाप्ति । वीजस्य प्रधानार्थस्यांशत

• संहरणम् । स्तोकश्च विन्दो प्रचार । सोऽङ्कादवगन्तव्य ।

एक कार्य से का आशय है कि आनुषांगिक या गौण कार्यों की पूर्ण हो जाने पर समाप्ति हो जाना । मुख्य कार्य या उद्देश्य की आशिक पूर्ति के कारण धीज का जहाँ संकोच या संहार हो जाता हो तथा 'विन्दु' के मर्याद का थोड़ा विस्तार होता हो । यह सभी 'अङ्कु' से बतलाया जाता है [अर्थात् 'अङ्कु' के यही कार्य होते हैं] ।

ये नायकाः निगदितास्तेषां प्रत्येकचरितसम्भोगः ।

नानावस्थोपेतः कार्यस्त्वङ्कोऽपिहृष्टश्च ॥ ३८ ॥

( ना० शा० २०।१७ )

पहिले जिन नायक आदि पात्रों को बतलाया गया या उन सभी की विभिन्न अवस्था तथा कार्यों को जिसमें अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाए उसे 'अङ्कु' समझना चाहिए परन्तु अङ्कु में रखे जाने कार्य फैलाए हुए या त्रिलम्बित नहीं होने चाहिए ।

नाटके नायकाश्वलार पद्म वा स्युस्तेषा चरितमभोग । नाना-दशायुक्तोऽङ्क कार्य । अविहृष्टश्च स चरितमभोग आम्यानस्तुना दूरवर्ती न कर्तव्य य आधिकारिकार्यस्य सञ्जिधीयते इत्यर्थ । न केवल नायकानाम् नायकदेवीपरिजनपुरोहिताभात्यमार्थग्रहाना नैपरमान्तरविहितश्चरितमभोगोऽप्यङ्क स वेदितव्य ।

नाटक में चार या पाँच पात्र मुख्य [नायका] होते हैं तथा अङ्क में इन्हीं का कार्य प्रदर्शित किया जाता है । अङ्क में पात्रों की विविध दशाओं की मयोजना रहनी चाहिए । पात्रों ये कार्यों या लम्या प्रिस्तार या फैलान नहीं रहना चाहिए तथा ये मुख्यरथा (आधिकारिक कथारस्तु) में दूर हट वर नहीं रहें (विन्दुमुख्यरथा के उद्देश्य में जुहा रहना चाहिए) । केवल मुख्य पात्रों का ही चरित्र इसमें नहीं रहता विन्दु [इसमें] नायक, महादेवी तथा उनकी परिचारिकाओं,

पुरोहित, अमात्य, सार्थग्राह (सेनापति) आदि पात्रों के विविधरसों से पूर्ण चरित्र भी रखे [चिनित किये] जाते हैं। इन सभी लक्षणों से युक्त भी 'अङ्क' का स्वरूप मसम्मना चाहिए।

### नायकः

नायका इति। वीजविन्दुदिसवलितस्य नाटकस्य नाव्यमन्तं न्यर्तीति नायक। स एव धर्मकामार्थफलभाग् मवति। स च परार्थ सम्पादनाद् धर्मम्, इष्टाहनालभात् कामम्, अपूर्ववस्त्वधिगमादर्थ मधिगच्छति। सर्वथा येन सर्वं समाप्त्यते स खलु नायक चतु प्रकृतिक धीरोद्धत्, धीरललित्, धीरोदात् धीरप्रशान्तथ। तत्र धीरोद्धता देवता, धीरललितो नृपति, धीरोदात्स्वसेनापतिरमात्यथ, धीरप्रशान्त श्रोत्रिय सार्थवाहथ। एम्यो मित्रा सङ्कीर्णका पदचारेयु बोद्धव्यास्तत्रते इति। नायिकाथ दिव्या राजपत्न्य कुलजा वेश्याप्रभृतय।

नायक—‘नायक’ वह होता है जो वीज विन्दु आदि से युक्त नाटक को पूर्णता भी ओर ले जाकर नेतृत्व वरे। क्योंकि यही नाटक के उद्देश्य या फल को समाप्ति पर्यन्त ले जाता है तथा धर्म, अर्थ या काम की उपलब्धियों का अधिकारी या भोक्ता होता है। इसे ही दूसरों के उपकारार्थ उद्योग करने पर धर्मप्राप्ति, इष्ट प्रियतमा की उपलब्धि होने के बारण कामप्राप्ति तथा अपूर्य (बहुमूल्य) वस्तुओं के लाभ होने के बारण अर्थप्राप्ति होती है। कड़ने का आशय यही है कि जो नाटक से मूल उद्देश्यों से अतिशय सामीप्य रहने हुए सारे वार्यों को सिद्ध करता या पूर्ण करता हो उसे ‘नायक’ समझना चाहिए। यह नायक प्रकृतिभेद के बारण चार प्रकार का होता है। यथा—  
(१) धीरोद्धत, (२) धीरललित, (३) धीरोदात तथा (४) धीरप्रशान्त। इनमें देवता ‘धीरोद्धत’, राजा ‘धीरललित’, सेनापति और अमात्य ‘धीरोदात’ तथा श्रोत्रिय, (व्राद्धाण) और श्रेष्ठि (सेठ) ‘धीरप्रशान्त’ होते हैं। इन पात्रों के अतिरिक्त अन्य पात्र सङ्कीर्ण [मित्र, अतिरिक्त या पूरक पात्र जिन्हे सम्प्रति *Estra* कहते हैं] फैलाते हैं। ये पात्र नायक-नायिका आदि के साथ रहने वाले कार्य या व्यवहार के अनुसार भिन्नभिन्न करके जाने जाते हैं। दिव्यस्त्री, महारानी, कुलीन वन्याएं तथा गणिका आदि भी नायिकाएं होती हैं।

किं काव्यम् ? नान्यमनुकरणम् । यथा चोक्तम्—

प्रश्न—नान्य किसे कहते हैं ? उत्तर—(अवस्थाओं के) अनुकरण को । जैसा कि बतलाया भी है—

अन्यस्था या तु लोकस्य सुखदुःख-समुद्भवा ।

तस्यास्त्वभिनयः प्राङ्गेनार्द्ध्यमित्यभिधीयते ॥ ३९ ॥

‘मानवों की सुख दुःखात्मक दशाओं का अनुकरणात्मक प्रस्तुती करण या अभिनय ‘नान्य’ कहलाता है ।’

अभिनयः

कोऽभिनय ? अभिमुख नयत्यर्थानिति अभिनय ।

प्रश्न—अभिनय किस बाते हैं ? उत्तर—नो धटनाओं या कार्यों को नेत्रों द्वे सम्मुख ला कर प्रत्यक्षगत् प्रस्तुत कर देता हो ।

‘सच्चिहितनायकोऽङ्कश्च कार्य’ (ना. शा. २०।३१) । ये नायक-पूर्व कथितास्ते तत्र सच्चिहिता चर्त्तव्या । नायको नायिका च नायको । एक प्रधानो नायक अपरश्च तस्योपनायक । हन्तव्यश्च (प्रति-) नायक एव । एषामेरुतमस्य सच्चिधिनाङ्क कर्त्तव्य । यथा प्रतिज्ञाभीमे भीम । सुन्दरमानुमत्योर्दुर्योधन । अघत्यामाङ्के स एव । धूतराष्ट्रे स एव । सहारे तु युधिष्ठिर । प्रथाननायकसच्चिधिरपि दृश्यते वचित् । यथा मायामदालसे पद्मस्वप्नहेषु कुनलयाश्च नागानन्दे च पश्चस्वप्नहेषु जीमूतगाहन दृति ।

‘अङ्क’मे नायक “कारहनाआपरश्च होता है” (ना०शा०३०।३१) । अर्थात् निन नायकों द्वे पक्षिले बतलाया गया हैं उन्हें अङ्क भूमि रखा

१ नायक का यहीं धर्म है एष पाप या अभिनेता जा नाटकीय पथा मधोवी महापूर्ण विधि लिय हो । पूर्व पापों में सुषेष, महायक तथा विरोधी पापों को रखा जा सकता है । य सभी नाटकीय प्रयोगत या निर्णाद करने के कारण नायक है । इनम सुषेष नायक का एष हृष्ट यहीं दाना, विनायक या विरोधी का एष तो हृता है परन्तु इस भी इन्द्री नाटकीय नियमों के अनुसार तथा नाटकीय सुविधा भयुविधाओं के अनिरिक्षण गारपाय भाग्यनाभों के परिष्कार मधोवी मानते हुए भाग्यी नाटकों में प्रदृष्ट इन्द्री वरना निरिद भाग्य गया था ।

जाए। नायक शन्द ने नायिका (आदि) पात्र भी समाप्ति है। (नाटक आठि में) एक मुख्य नायक होता है तथा दूसरा उभी का सहाय्य था उपनायक होता है। (नायक का निरोधी होने के कारण) मारा जाने वाला पात्र भी (प्रतिनायक होने व कारण) नायक की श्रेणी में ही आता है। इनमें मे किसी एक की उपस्थिति अङ्क में रहनी चाहिए। जैसे प्रतिष्ठा भीम नामक अङ्क में भीमसेन की, सुन्दरक-भानुमती अङ्क में दुर्योधन की, अश्वायामाङ्क में भी उसी (दुर्योधन) की, धृतराष्ट्राङ्क में भी दुर्योधन की तथा (महार) अन्तिम अङ्क में युविधिर की उपस्थिति रखी गयी है। वहाँ वही (मभी अङ्कों में) प्रधान नायक की उपस्थिति (भी) रखी जाती है [या मिलती है]। उदाहरणार्थ 'मायामदालस' नाटक के पाँचों अङ्कों में कुपलयाश्व (नायक) की तथा नागानन्द के सभी अङ्कों (पाँचों अङ्कों) में जीमूतयाहन की उपस्थिति रखी गयी है।

**क्रोधप्रसादशोकः शापोत्सर्गादिविद्रवोद्धाहौ ।**

**अङ्कुतसंश्रयदर्शनमङ्के प्रत्यक्षज्ञानि स्युः ॥ ४० ॥**

(ना० शा० २०।२०)

अङ्क में रखे जाने वाले कार्यों में क्रोध, प्रसाद, शोक, शापप्रदान (शापोत्सर्ग), भगदड या कान्ति (विद्रव) विवाह तथा कोई आश्रयों त्पादक कार्य या घटना होती है (ये प्रत्यक्षत. प्रस्तुत करने के कार्य नहीं होते हैं)।

अङ्के तस्मिन्नेतानि प्रत्यक्षज्ञानि स्युः । क्रोध क्रोप, प्रसाद, प्रसाचि, शोकः आक्रन्दः, शायोसर्गं शापप्रदानं, विद्रव शङ्काभवत्रा-सकृतो द्रव, उद्वाहः विवाहः, अङ्कुतसंश्रयदर्शनम् अङ्कुतकारिणा दर्शनम् ।

अङ्क में जिन कार्यों या घटनाओं को रखा जाता है उनमें ये है—क्रोप अर्थात् क्रोध, प्रसाद का अर्थ है सभीप जाना या प्रसन्न करने की चेष्टाएँ करना, शोक का अर्थ है कर्तव्यरुद्धन, शापोत्सर्ग का अर्थ है शाप देना, विद्रव का अर्थ है शरना, भय या त्रास के कारण भागने लगना, उद्वाह का अर्थ है विवाह, अङ्कुत संश्रय का अर्थ है ऐसे कार्य या घटनाएँ जिनसे आश्र्य उत्पन्न हो या आश्र्यकारी कार्य करने वाले किसी प्रभावशाली पुरुष आदि का दियाई पड़ना होता है।

युद्धं राज्यभ्रंशो मरणं नगरोपरोधनश्चैव ।  
न प्रत्यक्षाणि सन्ति प्रवेशकैः संविधेयात्मि ॥ ४१ ॥

( ना. शा. २७०२१ )

अहम् मे प्रत्यक्षत मञ्च पर युद्ध, राज्य का पतन, मरण, नगर का चेरा आदि नहीं बतलाना चाहिए । यदि इन्हें बतलाना ही इष्ट हो तो 'प्रवेशक' के द्वारा इन कार्यों की सूचना मञ्च पर डे देना चाहिए ।

युद्धादिक नाह्ने प्रयक्ष कर्तव्यम् ( किन्तु ) प्रवेशकैरेव वक्तव्यम् । यथा—कुम्भाङ्के तिलोत्तमासानुमतीभ्या कुम्भकर्णस्य युद्धमावेदितम् लङ्घोपरोपनश्च प्रागृडङ्के कङ्कालकेन बालिमरणश्च । नलविजये चतुरिका-मालवीभ्या नलस्य राज्यभ्रश । नाह्नेऽभ्युदयित शत्रोरपि वध, कर्तव्य (कन्तु तस्य) अपसारण सन्धिर्गहण वा । एतत्तु नाटके नात्यनितिरूपम् । यतो रावणदुर्योधिनकसादीनां वध एव । स तु न साक्षात् कर्तव्य इत्यर्थ । प्रस्तरे पुन वये स्वातन्त्र्यात् सन्ध्यादिस्सहस्रद्विषय । यथा चास्त्र-स्य राष्ट्रियेण सह सन्धिरेव दण्डित ।

अहम् मे युद्ध आदि वा प्रत्यक्ष प्रदर्शन मञ्च पर नहीं रखना चाहिये पर यदि नाटकीयमया मे ऐसी घटनाएँ रखना इष्ट ही हो तो 'प्रवेशक' के द्वारा इनसी सूचना देना चाहिए । जैसे—'कुम्भाङ्क' मे तिलोत्तमा और सानुमती के द्वारा लङ्घा वे घेरे जाने और कुम्भकर्ण के युद्ध करने की सूचना दी गयी । 'प्रागृडङ्क' मे कङ्कालक के द्वारा बालिमरण वी सूचना तथा 'नलविजय' मे चतुरिका और मालविका के द्वारा राजा नल की राज्य से प्युत होने की सूचना देना ।

'अभ्युदय वा भागी नायक वा (नायक विरोधी) प्रतिनायक वी भी मञ्च पर प्रत्यक्ष युत्स्य नहीं दिखलाना चाहिए । किन्तु इसका भाग जाना, मन्त्रिकरणेना या पकड़ा जाना प्रस्तुत परना चाहिए' । परन्तु यह नियम नाटक पर तत्परतापूर्वक लागू नहीं बरना चाहिए क्योंकि इसमें प्रतिनायकभूत राधण, वस वा दुर्योधन आदि वा वध ही इष्ट रहता है । प्रपरण में करि की इच्छा के अनुमार नायक वी प्रतिनायक वे माय मन्त्रिय आदि रखी जा सकती हैं । जैसे गृन्धवटिक गं (नायक) चाहुदन की (प्रतिनायक) राष्ट्रिय शासार के साथ मन्त्रि थों ही बनलाया गया है ।

एकदिवसप्रवृत्तः कार्योऽङ्के सप्रयोगमधिकृत्य ॥ ४२ ॥

नाटक के एक अङ्क में घटित होने वाली घटनाएँ एक दिन<sup>१</sup> में होने चाली (ही) बतलाना चाहिए।

आख्याने यद्वस्तु वक्तव्यं तदेकदिवसमालम्ब्याङ्के कर्त्तव्यम् ।  
अन्यस्तु-'वासराद्व-कृतो धङ्क' इति । अपरथ-एकरात्रिकृतमेकवासर-  
कृतमङ्के वक्तव्यमिति ।

यत्र तु कार्यवशात् कालमूयस्त्वं तदस्मिन्नङ्के प्रवेशकेन वक्तव्यम् ।  
न तु वर्षादितिकान्तम् । यदुच्यते-'वर्षादूर्ध्वर्ण्तु न तु कदाचित्'  
(ना० शा० २०।२९) इति । तदेतद्वहुकालप्रणेयं नाङ्के विधेयमित्यर्थ ।

अर्थात् नाटकीय कथावस्तु में जिन घटनाओं को एक अङ्क में  
रखा जाए वे सभी एक दिन में घटित होने वाली रहना चाहिए। कुछ  
विद्वानों वा मत है कि एक अङ्क में रखे जाने वाले कार्य या घटनाएँ  
आधे दिन में पूर्ण हो जाने वाले रहने चाहिए। दूसरे विद्वानों का  
मत है कि एक अङ्क में रहने वाले कार्य या घटनाएँ तथा एक दिन एक  
रात्रि में पूर्ण हो जाने वाले रहने चाहिए। आशय इतना ही है कि एक  
अङ्क में दीर्घकाल तक चलने वाली घटनाएँ नहीं रखी जाएँ क्योंकि  
आचार्य ने भी पहा है कि "एक वर्ष से अधिक समय में होने वाली  
घटनाएँ एक अङ्क में न रखी जाएँ" (ना० शा०)। यदि आवश्यकतानुसार  
या प्रयोजनपूर्ण अधिक समय तक चलने वाली घटनाएँ बतलाना ही  
पड़े तो उनकी 'प्रवेशक' के द्वारा सूचना देना चाहिए। सक्षेप में इतना  
ही कहा जासकता है कि एक अङ्क में अधिक समय तक चलने वाले  
कार्यों का समावेश नहीं करना चाहिये।

आस्मस्त्वङ्के—

नाहेतुकः प्रवेशोऽङ्के कस्यापि जायते त्वपि ।

निष्कान्तिरपि ततः स्याद् व्यालम्ब्यार्थं प्रसङ्गस्य ॥ ४३ ॥

अङ्क में चिना किसी प्रयोजन या कार्य के किसी पात्र का मञ्च  
पर प्रवेश नहीं होना चाहिए तथा किसी उद्देश्य या घटना से सम्बद्ध

१. एक अङ्क में ऐसी घटना भी भा सकती है जो एक दिन के किसी  
भाग में घटित हुई हो। (द्रष्टव्य भा० प्र० ष० २३० G. D. S.)

होने पर ही यिना किसी कारण या कार्य के पूर्ण होने पर पात्रों का मञ्च से निष्कर्मण नहीं घतलाना चाहिए।

[अर्थात् सभी पात्रों का मञ्च पर साहेश प्रवेश या निर्गम रखना चाहिये।]

सम्भृति अङ्कविधया प्रवेशमादय उच्यन्ते—

‘अङ्क’ के लक्षण में प्रवेशक आदि का प्रसरण आया था अतएव अब हम प्रवेशक आदि का लक्षण बतलाते हैं।

तत्र प्रवेशकः ।

प्रवेशयति पात्राणि रङ्गमिति प्रवेशक । यदाह मुनि—

अङ्कान्तरानुमारी सह्वेपं समधिकृत्य विठ्ठ्ठिः ।

प्रकरणनाटकविषये प्रवेशक संविधातव्यः ॥ ४४ ॥

(ना० शा० २०१३२)

स च—

परिज्ञनकथानुबद्धः प्रवेशसो नाम विद्रेयः ॥ ४५ ॥

(ना० शा० २०१३१)

‘प्रवेशक’ शब्द की व्युत्पत्ति है जो पात्रों को मञ्च पर प्रवेश कर वाता है। जैसा कि आचार्य भरत मुनि ने कहा है—दूसरे अङ्कों में घटने वाली घटना के सक्षेप में विवरण प्रस्तुत करते वाला ‘प्रवेशक’ होता है। विद्वज्ञ इसकी प्रकरण या नाटक में योजना वरें। ‘प्रवेशक’ परिचारक (या सेवक) श्रेणि के पात्रों [नीचपात्रों] के वार्तालाप द्वारा घटनाओं की सूचना देता है।

परिज्ञना दासीदासकन्तुरीप्रभृतय । कथानुबद्धा परस्परं नायकल्य कथानुकथप्रवृत्ता । अथवा कथानुबद्धा ये नीचमयमास्ते प्रवेशका र्त्याः । रामस्य वनमधिवसतः क तथाविध परिज्ञन । उगीवस्म्यात् दनुमदादय । यदाह मातृगुप्त—

परिचारक या परिज्ञन का अर्थ है दासी दास तथा कन्तुरी आदि पात्र। वार्तालाप या आशय है नायक या वससे सम्बद्ध घटनाओं का परस्पर व्यथन। अथवा नीच या मध्यमश्रेणि के पात्रों द्वारा रिभी

घटना या कार्य का उल्लेख करना जो कथावस्तु से सम्बद्ध हो ‘प्रवेशक’ कहलाता है। प्रज्ञन—श्रीराम को बनवास के समय ऐसे सेवकों की उपलब्धि कैसे संभव हुई? उत्तर—सुश्रीव की मैत्री के कारण उसके प्रियस्त व्यक्ति हनुमान आदि की श्रीराम को उपलब्धि हो सकती है।

“विटापसनिमाद्यैर्मुनिकन्त्रुदिभिस्तथा” इति प्रवेशक वर्णयति । अन्यस्तु—‘प्रक्रमाधीन प्रवेशको नाम’ इति ।

तत्र सर्वेषामुदाहरणम्—रेवतीपरिणये तृतीयेऽक्षे तापस । अभिज्ञाने तृतीयेऽक्षे विग्र । शशिकामदत्ते तृतीये विट । दास्याद्यस्तु प्रसिद्धा एव । प्रक्रमाधीनस्तु अथत्थामाङ्के युद्धग्रस्तावभिकृत्य वसागन्धारुधिरप्रियौ राक्षसौ । तयोरुद्धात्रमपि वचनम्—‘कदाह दुवदशुद्दोषेण ( अहेनि ) वावादेदि चि ( कदाचित् दुपदसुतरोपेणावामपि व्यापादयिष्यति ) । अतएव मायामदालसे तृतीयेऽक्षे गृधभिथुनम् । हुम्भाङ्के तिळोत्तमा सानुमती विद्याधरीदूयम् ।

मातृगुप्तचार्य ने ‘प्रवेशक’ का नवण करते हुए बतलाया कि ‘‘ग्रिट’ तपस्वी, ब्राह्मण, सुनि तथा कञ्चुकी ( आदि ) से युक्त भी ‘प्रवेशक’ होता है’। दूसरे आचार्यों का मत है कि आगे घटनेगाली घटनाओं में सहायता का कार्य ‘प्रवेशक’ से हो जाता है। मातृगुप्त आदि आचार्यों द्वारा प्रवेशक में बतलाए गए पात्रों के उदाहरणामें—रेवतीपरिणय के तीसरे अङ्क<sup>१</sup> में तापस पात्र है, अभिज्ञानशालुत्तल के एतीयअङ्क<sup>२</sup> में ब्राह्मण पात्र है, शशिकामदत्त के तृतीयअङ्क<sup>३</sup> में ग्रिट पात्र है। ‘प्रवेशक’ में दासी आदि पात्रों की प्रायः सभी दृपकों में बहुतता से उपलब्धि होती है।

आगे घटनेगाली घटनाओं की भी प्रवेशक द्वारा सूचना देते हैं—उदाहरणार्थ—अश्वथामाङ्क में युद्ध के विवरण को लेकर वसागन्धा और ऋधिरप्रिय राक्षस के सपाह तथा परस्पर स्नेह और औद्यार्यमरे कथन रखे जा सकते हैं। जैसे—“यह अश्वथामा कहीं दुपदपुत्र के प्रति क्रोध धारण करने से दूर्म ही न भार ढाले” इत्यादि। इसी प्रकार माया-

<sup>१</sup> अभिज्ञानशालुत्तल के तृतीय अङ्क में ब्राह्मण पात्र है अवश्य ग्रिम्नु वहीं विष्टम्भक है प्रवेशक नहीं।

मदालय के तीसरे अङ्क में गुद्धव्यपति हैं। छुम्भाङ्क में तिलोत्तमा और सामुसती नामक दो विद्याघटियाँ हैं।

स च सक्षेपमधिकृत्येति—आख्यानकु न सर्वमङ्के प्रणेतत्यम् ।  
न सङ्क्षेपाङ्के दिवसकृते दिवसार्द्धकृते मासकृतं वर्षकृतं वा सङ्क्षमुपदर्शयि-  
तुमत् सङ्क्षेपार्थं प्रवेशकु कर्तव्य । सङ्क्षेप समाप्त । प्रकीर्णसङ्क्षहणं  
समाप्तमाचक्षते । अन प्रेषकेन कथासङ्क्षहणं कार्यम् । अनन्तरस्य  
पात्रस्य प्रवेशोऽभिधेय । यदाह—'अ (ना) सूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो  
नेव विद्यते' इति ।

'किन्हीं कार्य या घटनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने वे लिये 'प्रवेशक' रखा जाए' का आशय है कि एक अङ्क में 'प्रवेशक' रख कर सारी कथा या कथावस्तु वा एक बड़ा भाग पूरा नहीं कर लेना चाहिए। किसी प्रवेशक या ग्राकृम्भक (सक्षिप्ताङ्क) में एक दिवस, आषे दिन, एक मास या एक वर्ष की सारी घटनाएँ न रखी जाय, रिन्तु कार्यों का संक्षेप में निर्दर्शन मात्र किया जाए। इसीलिए 'प्रवेशक' रखा जाता है। संक्षेप का अर्थ है कथा का सकोच या उमके फैलाव को बम बरना। यहाँ कथा वे वितरे हुए कार्यों या घटनाओं को दीर्घ कर एक साथ समुचित करने रखा जाता है। यही इसकी सामान्यिकता है। इसलिये प्रवेशक के द्वारा कथावस्तु का संक्षेप में स्थापन किया जाता है। इसरे द्वारा आग प्रवेश करने वाले पात्रों की सूचना भी दी जाती है। जैसा बसलाया भी है कि 'यिना सूचना वे मध्य पर किसी पात्र का प्रवेश नहीं होता है'।

स चाङ्कान्तरमन्धिषु कर्तव्य । तत्राहस्यादौ न तु भव्यान्तयोरि-  
त्यर्थ । इदं प्रेषुलक्षणमन्यताप्याचार्य आह—

'प्रवेशक' को दो अङ्कों के सन्धिमध्यल पर रखना चाहिए। अर्थात् इसे अङ्क वे ग्राम्भ में रखा जावा है, किसी अङ्क के बीच में या अन्त में नहीं रखा जाता। प्रवेशक पा लक्षण आचार्य ( भरन मुनि ) ने इस प्रकार बतलाया हैः—

नोत्तममध्यमपुरुषैराचरितो नाप्युदाच्चननकृतः ।

प्रावृत्तमापाचारः प्रयोगमामाद्य कर्तव्यः ॥ ४६ ॥

कालोत्थानगतिरसव्यत्यासारम्भकार्यविपयाणाम् ।

अर्थाभिधानभूतः प्रवेशकः स्यादनेकार्थः ॥ ४७ ॥

( ना० शा० २०८४, ८५ )

प्रवेशक में किसी उत्तम या मध्यम पात्र को नहीं रखा जाता है, इसमें शालीन भाषा या उदात्त वचनों का प्रयोग नहीं होता है और ( प्रकृति या परिस्थितिवश ) पात्रों का प्राकृतभाषा में वार्तालाप रखा जाता है। इस प्रकार प्रवेशक के द्वारा समय की सूचना, समय का चीतना, यात्रा, भावना या रस का परिवर्तन, किसी कार्य का आरम्भ, किसी रिपय, तत्त्व या उद्देश्य का संकेत आदि अनेक कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं।

उत्तमपात्रं न प्रवेशते, नीच एव कर्तव्य । यथा राज्यक्षेत्रे धानर-  
द्वयम् । तदेव नोदात्तवचनम् । तदेव प्राकृतभाषाचारम् । फलमध्याह-  
कालोत्थानस्य कालसंख्यानार्थं गतेर्दूरदेशगमतस्य रसञ्जुदासारम्भस्य  
रसानामन्यथास्त्रणस्य प्रयोगाभिधानमृत इत्यनेनप्रयोजनं प्रवेशकः स्यात् ।  
यदा च साप्तसादय प्रवेशके सन्ति तत्र संस्कृतपाठः एव विधेयः ।

'प्रवेशक'में उत्तम पात्र नहीं रखा जाता उसमें केवल नीच पात्र ही रखना चाहिए। जैसे—राज्यक्षेत्र में दो धानर पात्र। इसमें उदात्तवच-  
नाली भी नहीं रखी जाती है और भाषा भी यहाँ प्राकृत रखी जाती है। अब इमका प्रयोजन भी बतलाते हैं कि इसके द्वारा समय का

१. प्रसङ्गवश अधम पात्रों का न्यायग्रंथ भी संस्कृत या उदात्त भाषा में रखा जा सकता है जब ये किसी घटना या किसी के अभिहित शब्द या कथन का उपयोग करें। ऐसी दशा में पारस्परिक संभाषण में संस्कृत भाषा की भी योजना दी जामरनी है। आधार्य अभिनगण्य का मत है कि परिष्कृत विचारों या विषयों के अवधर पर अधम पात्रों की भी परिष्कृत भाषा रहनी चाहिए। परिष्टृप्त का वाक्य है न केवल संस्कृत भाषा किन्तु प्राकृतभाषा से भी यह कार्य किया जा सकता है। सामरनन्दी का जात्रय दूसरा प्रतीत होता है—  
इनके मतानुसार किसी घटना को सबैप से कहने पर भाषा निर्धित हो परि-  
ष्कृत हो जाएगी पर यदि नीच पात्र अपने अनुभव या जीवन में घटित  
घटनाओं का निर्दर्शन करें तो किर भाषा को परिष्कृत तथा संभाषण-पद्धति  
को उदात्त घनाना अपेक्षित नहीं है।

निर्देश [ समय की अवधि, समय का वीतना आदि ] सुदूर प्रदेश की यागा, रसों का परिवर्तन या विपरीत अवस्था की सूचना आदि अनेक कार्य साधे जाते हैं, पर यदि तापम पात्र 'प्रवेशक' में रखना ही पड़े तो उसकी भाषा संस्कृत ही रखना चाहिए।

बह्वाथ्यमप्यर्थं प्रवेशक सद्विपेत् सन्धौ ।

बहुचूर्णपदोपेतो जनयति खेदं प्रयोगस्य ॥ ४८ ॥

( ना० शा० २०१८७ )

यदि ( दो अङ्कों के ) सन्धिस्थल पर 'प्रवेशक' रखा जाए तो यह अनेक कार्यों तथा घटनाओं को संक्षिप्त करते हुए प्रस्तुत वर सन्धना है। पर यदि इसमें चूर्णक गद्य के अनुमार लम्बी पदावली रखी जाए तो यही नाट्यप्रदर्शन को उबा देने वाला या नीरम भी बना डालता है।

पूर्वार्द्धस्य प्रयोजन दधितमेव । बहुचूर्णपदोपेत् इति । गद्य स्याचूर्णमुत्तिलिङ्ग वृत्तगन्धि चेति । चूर्णं स्तोत्रसमाम खण्डश प्रवृत्तपदम् । यद्वदनकमिति वदन्ति । उत्तिलिङ्ग बहुसमासात्मिका । वृत्तगन्धि वृत्तस्य यत्र गन्धो लक्ष्यते तद् वृत्तगन्धि । चूर्णमित्युपलक्षणमेतत् । बहुपाठधो न प्रवेशक । यदुक्त—बहुचूर्णपदोपेत् प्रवेशको न कार्य । कि स्यात् ? जनयति खेदं प्रयोगस्य । द्रष्टुज्ञाना सेदमायहतीत्यर्थ । अतो गद्यपदाभ्या तस्य पाठो विधेय । ते च गद्यपदे—गद्यमपादपदसन्तानो गद्यमिति । पद्य चतुर्पदीवृत्तमिति । छन्दोविचित्रित्वपादचतुर्ष्यस्य गुम्फेनेति । आचार्या वहु व्याचक्षते इति ।

कार्तिका के पूर्वभाग की छ्याल्या पहिले दिये गये ग्रन्त से हप्त हो जाती है। यहाँ अब चूर्णक गद्य में पदावली रखने का अर्थ बदलता है। गद्य के तीन प्रकार होते हैं। एथा ।—(१) चूर्णक, (२) उत्तिलिङ्ग (—प्राय ) तथा (३) वृत्तगन्धि। चूर्णक उस गद्य को कहते हैं जिसमें स्वल्प समासयुक्त पदावली या समामरहित पदावली रहती है। इसका एक दूसरा नाम 'वदनक' भी है। दीर्घ समासों से पूर्ण गद्य रखना या

१. वदनक को छन्दोविधिरी में वृत्तक कहा गया है। ( एषा प० म० ५४ )

नाम ‘उत्कलिता’ (प्राय) गया है। ‘वृत्तगन्धि’ गदा वह होता है जिसमे पश्च जैसा आभास होता हो या जिसके किसी एक भाग को पश्च जैसा पढ़ा जाते के। लक्षण में ‘चूर्णक’ शब्द को गदा सामान्य के अर्थ में रखा गया है। आशय है कि प्रवेशक मे संगादों की दीर्घसमाप्तयुक्त रचना मे संगासयटुल लम्बे वाक्य नहीं रखना चाहिए। (प्रभ) इससे क्या होगा ? (उत्तर) ऐसा होने पर नाश्वप्रयोग चिंगड़ जाता है क्योंकि लम्बे वाक्यों के रहने पर दर्शक ऊबने लगते हैं। इसलिये गद्य-पद्य दोनों को मिला कर ‘प्रवेशक’ मे पात्रों के संबंध रहने चाहिए। गद्य-पद्यों का स्वरूप है कि जिसमे किसी छन्द के लक्षणानुसार पाद न हो ऐसी शब्दावली या पदमूह ‘गद्य’ कहलाता है। पद्यनहते हैं उन छन्दों या वृत्तों को जिनके चार पाठों के निश्चितस्वरूप मे शब्दावली रखी गयी हो। गद्य तथा पद्य का आचार्यों ने अनेक प्रकार से [तथा पिस्तार से] मन्थों मे निरूपण किया है।

यत्रार्थस्य समाप्तिर्न भवत्यङ्के प्रयोगशाहुल्यात् ।

यहुवृत्तान्तालपकर्यैः प्रवेशकैः साभिधातव्या ॥ ४९ ॥

( ना० शा० २०।८८ )

जहाँ किसी कार्य या उद्देश्य की समाप्ति न होती हो या जहाँ विस्तीर्ण होने से वथा या कार्यों का अन्त न होता हो तो इसी कथा या कार्य के एक लम्बे प्रदेश या भाग को ‘प्रवेशक’ के द्वारा संक्षिप्त रूप मे थोड़े शब्दों के द्वारा वतलाया जा सकता है।

पूर्वस्मिन्नक्ते प्रयोगानां वाहुल्याद् वर्थस्य कार्यस्य समाप्तिर्न भूता सा परस्मिन्नक्ते वर्तत्या । वहुतरेऽपि वृच्छन्तेऽल्पकथै स्वल्पवचनैः समाप्तीया इत्यर्थ ।

अर्थान् किसी पिछले अङ्कु मे कथा के विस्तीर्ण होने या नाश्वाभिनयों वे आधिक्य के सारण यदि वे समाप्त न होती हों तो उन्हें आगे अङ्कु मे ‘प्रवेशक’ के द्वारा रखा जाए। (इस प्रकार) घटनाओं या कार्यों के अधिक या लम्बे रहने पर उन्हें थोड़े से या संक्षिप्त संशादों वे द्वारा ममपर रूप मे प्रस्तुत किया जा सकता है।

विकल्पम्:

प्रवेशकस्तावदुक्त । विकल्पम् आह चारायणः—‘प्रकरण-

नाटकयोविष्फम्भक' इति । प्रवेशकस्थानीय एवासौ । परमियोस्तु  
विशेष

विष्फम्भक—प्रवेशक का लक्षण हमने बतला दिया, अब विष्फम्भक  
का लक्षण बतलाते हैं । 'चारवण' आचार्य ने विष्फम्भक का लक्षण  
बतलाते हुए कहा है कि "प्रकरण और नाटक से विष्फम्भक रहता  
है ।" यह प्रवेशक के स्थान पर या उसी के विकास में रहा जाता है ।  
परन्तु इसमें निम्न विशेषता रहती है —

**कुतोऽपि स्वेच्छया प्राप्तः सम्बद्धो नोभयोरपि ।**

**विष्फम्भकः स पित्रेयः कथार्थस्यापि उच्चकः ॥ ५० ॥**

यह विसी (फल के) उद्देश्य से अपने ही स्वरूपानुसार रखा जाता  
है । इसमें नायक या प्रतिनायक के प्रवेश का संबन्ध नहीं रहता  
तथा यह वथापस्तु के फल या उद्देश्य का सरेत देता है । इनीलिए  
इसे 'विष्फम्भक' कहते हैं ।

**कुतोऽपि हेतो स्वयमेवागतः । सम्बद्धो नोभयोरपि नायस्तद्विष-**  
**क्षयोरपि न प्रतिपद् । हर्षाद्विष्फम्भकेन विष्फम्भक उच्यते । यथा**  
**नागवर्माङ्के यज्ञमोम —**

**'कुलपतिरेय न येवलमहसपि दृष्टिजडीभूत'** इत्यादि ।

अपने ही स्वरूपानुसार वा आशय है जिस विभी कारण या  
उद्देश्य को दृष्टिगत रसाते हुए स्वयं के लक्षणानुसार उपस्थित दिया  
जाता है निहेतुप इसकी स्थापना नहीं होती । इसमें प्रवेश या  
रूपायण आदि ये द्वारा नायक या प्रतिनायक में से जिसी भी पात्र  
से उपस्थिति नहीं रखी जाती है । 'विष्फम्भक' की मार्यादता  
की जिन मानो जाती है पर्योगि यह हर्ष यी सीनगति वा  
भी इमोशन । [विष्फम्भक वा अर्थ है ग्रन्थ । ग्रन्थ विभी भगवन  
निगरण होता है । मनुष्यों द्वारा स्वेच्छापूर्ण गति न हो रही हमी तरह  
या प्रसाद में रहते हैं । रेषां या प्रसाद रोकने के कारण इसे  
विस्तृतपार्य पलाप द्वारा रेषां या प्रसाद रोकने के कारण इसे  
'विष्फम्भक' समझ । ॥५०॥] उदाहरणार्थ—'तागवर्माङ्क' में—

२. इस उदाहरण ५ रथिराज उपाध्याय ने भी भगवन का नाम ऐ उद्दृत  
दिया है । (१० अमध्यर १० १० ५० Ns Ed तथा भाव १० प्र १० २१५ ।)

यज्ञसोम—वेवल कुलपति ही नहीं विन्तु मैं भी हर्ष के कारण जड़ हो गया हूँ इत्यादि ।

स च द्विविधो ज्ञेय । सस्कृतभाषी शुद्धः मालतीमाधवे सौदामनीवत् । तथाविध एव नीचेनानुगत सङ्कीर्ण । यथा रामानन्दे क्षपणकृत्पालिकवत् ।

इस विष्कम्भक के दो प्रकार होते हैं । निसमें वेवल सस्कृत भाषा में समाद रहें उसे ‘शुद्ध विष्कम्भक’ समझना चाहिए जैसे मालतीमाधव में सौदामनी के समान । इसी विष्कम्भक ने जब नीच पात्रों के कारण भाषाभेद हो जाए या दो भाषाओं का सम्मिश्रण हो जाए तो सङ्कीर्ण या मिश्रविष्कम्भक समझना चाहिए । जैसे रामानन्द में क्षपणक और कापालिक पात्रों के मिलते से बनने वाला विष्कम्भक मिश्रविष्कम्भक ।

न महाजनपरिवारं कर्तव्यं नाटकं प्रकरणं या ।

ये तत्र कार्यपुरुषाश्वत्तारः पञ्च वा ते स्युः ॥ ५१ ॥

( ना० शा० ३०)८९ )

नाटक या प्रकरण में अनेक पात्रों को या नायक आदि के सम्बन्धी अनेक पात्रों को नहीं रखना चाहिए । इनमें जो महत्वपूर्ण या कार्यकर्त्ताओं में मुख्य मुख्य हों उनमें से चार या पाँच व्यक्तियों को ही चुन कर रख लिया जाए ।

नायकस्य तद्विपक्षस्य च ये ये महाजना प्रधानभूता न ते सर्वे नाटकप्रकरणयोः परिचारकत्वेन व्यापारयितव्या । तेषा मध्ये ऋषीविल मिनश्वत्वार पञ्च वा कर्तव्या । अपरे बहिरेव कार्यत् कीर्तनीया । अद्वैतप्येक एव निर्वाहयिता कर्तव्य । तत्रेकस्य नोधशोऽग्रादयः प्रत्यक्षमुमो दर्शयितव्या । यथाश्वत्थामाहे स एवैको निर्वाहयिता । तस्यैवैकस्य क्रोधशोऽग्नविति ।

अर्थात् नायक या प्रतिनायक के जितने प्रधान सहायक या सम्बन्धी युक्त हों उन तभी को नाटक या प्रकरण में नहीं रखना चाहिए । इनमें से वेवल चार या पाँच उन्हीं पात्रों को ( आपश्यकता-नुसार ) ले लेना चाहिए जिनमीं कार्य के लिए अपेक्षा रहे । शेष (दूसरे) पात्रों के कार्यों का वेवल अलग से उल्लेख भर कर देना पर्याप्त

हे । (एक) अङ्क में केवल उसी व्यक्ति का निवेश किया जाए जो किसी नाटकीय उद्दोषेय या भार्या का निर्वाह करता हो । एक अङ्क में सुरक्षतः एक व्यक्ति के ही शोक, क्रोध आदि भावों का निर्वाह रहना चाहिए । उदाहरणार्थ—‘जन्मत्यामाङ्क’ में केवल अन्धत्यामा नामक पात्र ही सुरक्षतः कार्य का निर्वाहकपात्र है, अतएव इस अङ्क में केवल इसी पात्र के शोक, क्रोध आदि भावों को प्रमुखता से दर्शाया गया ।

प्रधानवस्तुनिर्देशाद्वति हि नाटकादीना नामेति । प्रधानस्य निर्देशाद्वस्तुनिर्देशाद् वा नाटकादीना नाम कर्तव्यम् । यथा ‘जानकी-राघवम्’ नाम नाटकम् । रामानन्दम् । वस्तुनिर्देशात्—(यथा) कुन्दमाला नाम नाटकम् । (प्रधानस्य निर्देशात्) प्रकरणमपि मालती-माधवं नाम । वस्तुनिर्देशात् मृच्छकटिकम् नाम प्रकरणम् । अहोऽपि सुमीवाङ्क, शक्तिर्नामाङ्क इति ।

नाटक का नाम कथापस्तु वे किसी प्रमुख पात्र या घटना आदि के आधार पर रखा जाता है । अर्थात् नाटक आदि रूपकों का नाम-बरण नाटकीय कथापस्तु में रहने वाले किसी प्रधान पात्र या घटना आदि विषयों के आधार पर करता चाहिए । उदाहरणार्थ (प्रधान पात्र वे नाम पर रखे गए नामों में) जानकीराघव तथा रामानन्द नामक नाटक । कथापस्तु वे आधार पर अधिक विषय के आधार पर रखे गए नाम वाले नाटक हैं । उदाहरण है ‘कुन्दमाला’ नाटक । इसी प्रकार प्रधान पात्र वे आधार पर रखे गए नाम वाले प्रकरण का उदाहरण है “मालतीमाधव” तथा विषय या घटना वे आधार पर रखे गए नामवाले प्रकरण का उदाहरण है ‘मृच्छकटिक’ । इसी प्रक्रिया से न केवल रूपकों के किन्तु सदन्तर्याती अहों वे भी नाम रखे जाते हैं । उदाहरणार्थ सुमीवाङ्क या शस्त्रवाङ्क इत्यादि ।

‘देवतादर्शनान्तं भवति दि नाटकं नाम’ ।

नाटक की समाप्ति किसी देवता (या भगवपुत्र) वे दर्शन दे गाथ करना चाहिए ।

नाटकमिदं देवताना दर्शनान्तं कर्तव्यम् । नायकम्याभ्युदयनिमित्तम् । यथा—घणीसंहारे वासुदेव । नागानन्दस्यान्ते गौरी । देवर्पयोऽपि कवचित् । तेऽपि देवतातुल्या एव ।

नाटक की समाप्ति देवता के दर्शन के साथ करने का उद्देश्य है— नायक का अभ्युदय बतलाना। घर्योंकि बिना देवता या दिव्य सहायता के नायक का अभ्युदय मंभव नहीं है। उदाहरणार्थ चेणीसंहार नाटक में भगवान् श्रीकृष्ण का दर्शन होता। नागानन्द नाटक में भगवती गीरी का दर्शन होता। कहीं-कहीं देवर्थियों का दर्शन भी पाया जाता है तो इन्हे भी देवता के तुल्य समझता चाहिए।

अथार्थोपक्षेपकाः—

अङ्कावतारोऽङ्कमुखं विष्कम्भकप्रवेशकौ ।

चूलिकेति च पञ्चास्मिन्दर्थोपक्षेपकाः स्मृताः ॥ ५२ ॥

( ना० शा० २११०४ )

अर्थोपक्षेपक—नाटक आदि रूपकों में पाँच अर्थोपक्षेपक होते हैं। यथा—( १ ) अङ्कावतार ( २ ) अङ्कमुख ( ३ ) विष्कम्भक ( ४ ) प्रवेशक तथा ( ५ ) चूलिका ।

तत्र विष्कम्भकप्रवेशकावुक्तावेव । एतस्मिन्नाटके अर्थोपक्षेपका अर्थप्रतिपादकास्तु इमे पञ्च वोङ्कव्या ।

इनमें से विष्कम्भक और प्रवेशक के लक्षण बतलाए जा चुके हैं। ये पाँचों अर्थोपक्षेपक नाटक के किसी कार्य या दृश्यता की पूर्वि में सहायक होते हैं [ या रूपकान्तर्गत किसी विषय या घटना की सुचना देते हैं ] ।

अङ्कावतारः—

अङ्कावतारं अङ्कस्यावतारणम् । यथा—

समाप्यमान एकस्मिन्नक्ते द्यन्यस्य सूचनम् ।

समाप्तो हि नाथोक्तैः सोऽङ्कावतर इप्यते ॥ ५३ ॥

( ना० शा० २१११० )

अङ्कावतार—अङ्कावतार अर्थात् अङ्क को आगे चढ़ाना। जैमा कि ( आचार्य भरतमुनि ने ) लक्षण किया है—

यदि किसी एक अङ्क की समाप्ति के अवसर पर ही मङ्ग पर आने

१. द्वादशमाहस्त्री संहिता से उद्दृत इसी कारिका का बहुरूप मिथ ने भी दशरथ की दीपा में उहोंग किया है। द्वादशमाहस्त्री नाथशास्त्र का विस्तृत संस्करण था। ( इष्टम् JOR Vol VIII पृ० ३२९—३२० )

वाले ( अगले ) अङ्कु वी सक्षेप से सूचना दी जाए तो उसे नाट्यशास्त्र  
विद्वान् 'अङ्कुवतार' कहते हैं ।

यथा गौरीशुद्धे जीमूतवाहन ॥—

तापाचक्षीणघृष्णन्दरसौ बाहू कपोलौ वहन् ॥

सप्तकैर्निन्दकर्णतालपवै सवीज्यगानानन् ।

सम्प्रत्येप विशेषसिक्तद्वयो हस्तोजिश्वै शीकरैः

गाढायस्तक्तु स्तद्वामिष दशा धत्ते गजाना पति ॥

( नागा० ११२० )

जेसे ( नागानन्द दे ) गौरीशुद्ध नामक अङ्कु मे—

जीमूतवाहन—अत्यन्त गर्भी के कारण यह रस्तिराज उसी क्षण मे  
गण्डस्थन की रागड से चूते हुए घन्दन के रस के लग जाने से पीले  
हो जाने वाले कपोलों को धारण करता हुआ, अच्छी तरह से सिक्त  
अपने कानों को धारा और बुमाते हुए उसकी हथा से परा फलते  
हुए, अपनी सूझ ( हाव ) से फैके हुए जलबिन्दुओं से यम स्थल को  
सींचता हुआ अनियार्य उक्षणा से उत्पन्न गिरही की अनुष्ठ दशा  
जैसी असद्दीय अवस्था को प्राप्त कर रहा है ।

अनेनार्थेनायमात्मनो मलयन्तुक्षणठियामागामिनीमपस्था कथयन्ता-  
त्मनश्चरितसम्भोगमङ्के सूचयति ।

इम प्रकार (गायत्र) स्वयं ही इम वथन के द्वारा अपनी दशा बत-  
लाकर अपने साथ होने वाली मलयन्ती दे मिलन थी घटना को अपनी  
ही उक्षणा के द्वारा प्रवला देता है जो थगने अङ्कु मे प्रवित होती है ।

अङ्कुमुखम्

सुन्तं सरलाङ्काना ज्ञेयमद्भुतं कुर्विरिति ॥ ५४ ॥

येनैकत्र सरलानामद्वाना सूत्रण त्रियने तदद्भुतम् । यथा  
मालतीमाधरे प्रसरणे धाम्नदक्षयम्लोकितयो प्रथमाहत सौदामिनीमार्ता  
प्रस्तावत कपालुण्डलाधोरघण्टादिकथाभि सरलमेन कथितमद्भु-  
तात्मिति ।

अङ्कुमुग—नाट्य मे होनेवाले मधी पायों पा एवं दी स्थान पर  
सूत्र रूप मे वथन पर देना 'अङ्कुमुग' समझना चाहिए ।

अर्थात् जिनके द्वारा (नाटक आदि के) नमी अङ्कों की घटनाओं को एक माथ निलाकर (एकमूल से) बनलाया जाए उसे 'अङ्कसुत्र' कहने हैं। जैसे—मालतीमाधव (प्रकरण) के प्रथम अङ्क में ही कामन्दकी और अपलोकिता के द्वारा परम्पर ममापण में मीदामनी के प्रसङ्ग में कपालकुरुत्तला और अधोरवण्ट आदि के द्वारा किए जाने वाले सारे भावी कार्य और घटनाओं का निषेप में छ्लेख करना।

### चूलिका

मेज्जाशब्दोऽयं नेपश्यस्थानम्बिनानां कार्यनगाद्विहितानामालापानाम् । यथा—

अन्तःपटीमध्यगर्तः सूतमागवद्वन्दिभिः ।

अयोपक्षेपणं यत्र क्रियते मा हि चूलिका ॥ ५५ ॥

( ना० शा० २०१०७ )

चूलिका—चूलिका शब्द तेपथ्य में पिण्डान पानी के प्रयोजनवश किये जाने वाले सम्मापणों का नाम है। जैसा कि कहा है—

'जब सूत, मागध या बन्दीजन के द्वारा पैदे के पीछे से ही किसी अर्थ का सकेन या सूचना दी जाए उसे 'चूलिका' कहा जाता है' ।<sup>१</sup>

सूता, सारथी, मागधा, स्तुतिपाठका, बन्दिनो नमाचार्या ।

एषियंटर्थप्रकाशन किञ्चन सा चूलिका नाम ।

सूत का अर्थ है रथ को चलानेवाला सारथी। मागध = जो स्तुति करता है। बन्दि का अर्थ है कोई नग्न साधु (मामान्यतः जैन साधु)। इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जब किसी अर्थ या कार्य की सूचना नेपश्य में दी जाए तो उसे 'चूलिका' समझना चाहिए।

यथाद्वत्थामाङ्के सूतः—

आचार्यस्य श्रिमुनगुरोर्न्यस्तशङ्कस्य शोकात्

द्रोणस्याज्जी नयनसलिलकालितादर्ननिलस्य ।

१. भावप्रकाशन में जो चूलिका का उल्लेख दिया गया है वह (भी) उपर्युक्त दृष्टि से समानता रखता है तथा इसी प्रशार नाव्यशास्त्र की आधी कारिका भी समानता लिप्त है। (६० भा० प० २० २१७ तथा ना० शा० २११०७)

मौरी पाणि पलितधवले न्यस्य कृत्वा नृशंसं

भृष्टयुम्भु स्वशिविरमयं याति सर्वे सहध्वम् ॥ (वे० सं० ३।२०)

जैसे अश्वत्थामाहू मे—

मूत—पुत्रशोक के कारण निरस्त आचार्य द्रोण के—जो सारे संसार के गुरु हैं और जिनका मुँह अशु से गीला हो रहा है—बुद्धापे से सफेद बालों वाले मस्तक को हाथ लगा कर धृष्टयुम्भु अपने पडाव पर लौटा जा रहा है और आप सभी देव रहे हैं।

यथा मुद्राराखमे तृतीयेऽहे—

बन्दी—

भृष्णाद्यप्तेगेन प्रभुर्भवति न प्रभु ।

परंरनभिमूलाङ्गस्त्वमिव प्रभुरुच्यसे । ( मु० रा० ३।२३ )

एषा नियमस्तूपलक्षणम् । अन्येऽपि पठन्ति ।

तथा मुद्राराखमे जैसे—

बन्दी—उत्तम भृष्णादि के धारण कर लेने मात्र से कोई स्वामी नहीं हो जाता किन्तु जिसकी आज्ञा का कोई उल्घन न वर पाए ऐसे आप जैसे व्यक्ति ही प्रभु हो सकते हैं।

मृत, मागध आदि पात्रों को उपलक्षण समझना चाहिए। यदि दूसरे पात्र भी इसी प्रकार नेपव्य से किसी बात का कथन या सङ्केत देने हों तो उसे भी ‘चूलिका’ समझना चाहिए।

यथा वेणीमहारे भीम

उम्भ फरेण परिघट्यत सलील

दुर्योधिनम्य पुरतोऽपद्वताम्बरा या ।

दुश्शासनम्य घरकर्षणभिन्नमौलिः

गा द्रौपदी कथयत ए पुन प्रदेशे ॥ ( वे० स० ६।३५ )

उदाहरणार्थं वेणीमहार नाटक मे भीमसेन वी निम्न उक्ति चूलिका ही है।

भीम—लीतापूर्वक अपने हाथों से जांघ को छोड़ने वाले दुर्योधिन के गम्भीर दुश्शासन ने जिसपा यम तीक्ष्ण था और घेशी को गीर्वाचने पर जिसधी वेणी तुग गयी थी पह द्रौपदी अम एहाँ है, यतलाइये ?

जानकीराधवे प्रथमाङ्के रावणस्य पाठः ( यथा )—

रे क्षत्रिया शृणुत मे दशकन्धरस्य  
दोर्दर्पनिजितसुराधिपतेः प्रतिजाम् ।  
सीता विवाहयतु कोऽपि धनुर्गनक्तु  
नेष्याम्यहं पुनरिमामपहत्य लङ्घाम् ॥

इसी प्रकार जानकीराधव नाटक के प्रथमाङ्क में रामण की निम्न उक्ति भी चूलिका है—अरे क्षत्रियों, अपनी भुजाओं से इन्द्र को पराजित कर देनेवाले मुझ रावण की प्रतिज्ञा सुनो। चाहे कोई धनुष तोड़ कर सीता से विवाह कर ले परन्तु मैं उसी सीता का अपहरण कर अभी लङ्घा से जाता हूँ।

अतएव मुनिर्भरताचार्य, अस्मकुद्धश—

अन्तःपटीनिविष्टैर्यत् क्रियतेऽर्थनिवेदनम् ।

अन्तर्यवनिकासंस्थैश्चूलिकार्थप्रकाशनम् ॥ ५६ ॥

( ना० शा० २११०७ )

आचार्य भरतमुनि और अरमधु आचार्य ने भी कहा है कि :—

यदि पर्दे के पीछे विद्यमान ( किसी ) पात्र के द्वारा किसी अर्थ या घटना की सूचना दी जाए अथवा किसी अदृश्य पुरुष के द्वारा पर्दे के अन्दर छिप कर किसी अर्थ का प्रकाशन किया जाए तो उसे ‘चूलिका’ समझना चाहिए।

सन्धयः—

पञ्चसन्धि नाटकं कर्तव्यम् । अस्य नाटकस्य पञ्च सन्धयो भवन्ति  
द्विति नियम् । यथोच्यते—

पूर्णसन्धि तु तत् कार्यं हीनसन्ध्यपि वा एुनः ।

नियमात् पूर्णसन्धिस्याद्वीनसन्धिस्तु कारणात् ॥ ५७ ॥

( ना० शा० २१११६ )

सन्धियाँ—नाटक में पाँच सन्धियों होती हैं। अर्थात् नाटक में पाँच सन्धियों को आग्रहक रूप में रखने का नियम है। जैसा कि कहा भी है—यह पाँच सन्धियों से युक्त या फिर कुछ सन्धियों से हीन भी

हो सकता है। नियम के अनुसार सारी सन्धियों से युक्त नाटक को होना चाहिए पर किसी वारणरश इसे कम सन्धियों गला भी किया जा सकता है।

यद् पूर्णमन्थि तत् पञ्चमन्थैव कर्त्तव्यम् । यस्य पुनराख्यानपञ्चमुन  
न्वल्लवाद्वाद्वायने सन्धिमृतत् गच्छ हीनमन्थि स्यात् । तत्रापि नियम ।  
यथा—चतुर्थस्यक्लोपे तद्विलोपे प्रिचतुर्थयोः ।

द्वितीयनिचतुर्थाना प्रिलोपे लोप इत्यते ॥ ५८ ॥

( ना० शा० २११७ )

मर्भी या पूर्ण मन्थियों से आशय है कि नाटक में पाँचों सन्धियों का रहना आमर्थ है, परन्तु कथापञ्चमुने के छोटे नोंते के वारण मन्थियों कम करना पड़े तो उसे 'हीनमन्थि' नाटक कहते हैं। मन्थियों को कम करने का भी नियम है [ तथा तद्विलोपे ही आख्यवद्वायने पर सन्धियों कम की जाएँ ] एवं मन्थि कम करने की उद्दा म चौंबी मन्थि रम की जाए, यदि दो नन्धियों रम करना हो तो तीमरी और चौंबी मन्थि कम करना चाहिए तथा तीन मन्थियों कम करने की नियनि म दूसरी, तीमरी तथा चौंबी मन्थि को कम करने का नियम [ इसके अनिरिक्त प्रथम तथा अन्तिम सन्धि को स्पष्टी में कम नहीं किया जाता है । ]

हीनमन्थिनि एवस्य मन्थेनेपिङ्गर्हने चतुर्थस्य सन्धेरदर्शनम् ।  
द्वयोस्त्रीयचतुर्थयो । त्रयाणा द्वितीयत्रीयचतुर्थानामियर्थ । मासङ्गि  
वस्याभिक्षारिस्यार्थे वर्तमानस्य यदि विस्तगत् सन्धयो विधातुं पञ्चापि  
ग्रह्यन्ते तदाय नियमा नादवर्त्तन्यतयाऽस्युगान्तन्य । यथा—

यदि मन्थियों कम करना दूष हो तो एवं मन्थि को कम करने की मिथनि म चतुर्थमन्थि को, तो की अदेशा में तीमरी और चौंबी मन्थियों दो तथा तीन मन्थियों रम करने की विधेश्च हो तो दूसरी, तीमरी तथा चौंबी मन्थियों का कम करने का चाहिए, परन्तु आधि वारिक या प्रामणिक घयारस्तु इनिष्टार करन पर यदि पाँचों मन्थियों यन नाएं तो हीनमन्थि के नियम को आमर्थर मानस्तर उपरा अनुमरण नहीं कराया जाए । जैसा कि आचार्य भलमुनि ने भी कहा है —

प्रासङ्गिके परार्थत्वान् त्वेष नियमो भवेत् ।

यद्दृच्छुं तु भवेत् किञ्चित्तद्योज्यमविरोधतः ॥ ५९ ॥

( ना० शा० २१।१८ )

यह नियम श्रातगिक कथामस्तु पर लागू नहीं होता क्योंकि उनका कार्य प्रधान कथा या आधिकारिक कथामस्तु का उपकार या सहायता करना होता है । इसलिये जो भी कार्य या इतिवृत्त हो उन्हें बिना किसी विरोध के सन्धियों में रखना चाहिए ।

दृतं यद् तद्विरोधत् सन्धीना प्रयोक्तव्यम् । सन्धि परस्परं कथारानां सद्वटनम् । यथोक्तम्—सन्धीयन्तेऽर्थं परस्परमेभिरिति सन्धय । यथा—मुख, प्रतिमुख, गर्भः, विमर्शः, निर्वहणव्वेति । एषा लक्षणं मात्रगुप्त एतादृशं वर्णयति—

इनमें जो भी कार्य या इतिवृत्त हो उन्हें 'पूर्णतः' सन्धियों में रखना चाहिए परन्तु वे परस्पर सहकारी हों यह आवश्यक है । सन्धि का अर्थ है कथामस्तु के अंश या विषयों का परस्पर संयोजन या जोड़ । जैसा कि कहा भी है यह—सन्धि उसे कहते हैं जिनमें परस्पर कथामस्तु के उद्देश्य या कार्यों का जोड़ या संयोग रहे । इन सन्धियों के नाम हैं— ( १ ) मुख, ( २ ) प्रतिमुख, ( ३ ) गर्भ, ( ४ ) विमर्श तथा ( ५ ) निर्वहण । मात्रगुप्त आचार्य ने इनका इस प्रकार लक्षण दिया है :—

प्रार्थना विषयौत्सुक्यमारम्भो हेतुचिन्तनम् ।

वीजं माध्योपगमनं मुखसन्ध्याविति त्रयम् ॥ ६० ॥

साध्य या उद्देश्य के लिए अभिलाप्य होना 'बौत्सुक्य', साध्य की प्राप्ति ये लिए कारणों का विचार करना 'आरम्भ' तथा साध्य की ओर अभिमुख होना या उसकी अंशतः प्राप्ति होना 'वीज' होता है । ये तीनों मुख्यमन्धि में रहते हैं [ तथा ये ही तीनों इसके अग होते हैं ]

लाभः साधनमम्पत्तिः प्रसरः प्रसूता किया ।

वीजमाध्यनसम्बन्धः इनि प्रतिमुखे त्रयम् ॥ ६१ ॥

साध्य की प्राप्ति के साधन जुट जाना 'लाभ', साध्य की प्राप्ति

के लिए किये गये कार्यों का विस्तार हो जाना 'प्रतर' तथा बीजें पा साध्य से सम्बद्ध हो जाना 'विनु' कहलाता है। ये तीनों प्रतिषुध सन्ति में होते हैं।

**सम्भोगो योग्यता तद उद्देशः सिद्धिर्दर्शनम् ।**

**मित्रसम्पत् पताकेति त्रयं गर्भं प्रकीर्तिम् ॥ ६२ ॥**

आनन्द का उपभोग करना या उसे करने की पात्रता होना 'संभोग', कार्य की सिद्धि का आभास होना या उसका दियलाई पड़ने लगना 'उद्देश' तथा सभी मित्र आदि का सहायतार्थ एकत्र हो जाना 'पताका' कहलाता है। ये तीनों गर्भसन्धि में रहते हैं।

**नायः कारणवैधुर्यं क्षितिच्छेयः सगिमता ।**

**पुनर्वीजेन सम्पत्तिविमर्शेण गितयं भवेत् ॥ ६३ ॥**

मुख्य कार्य या माध्यसिद्धि में या उसके कारणों में गित्रों का उत्पन्न हो जाना या उनका घट चढ़ जाना 'नाय', गित्रों के साथ अभीष्ट प्राप्ति का योग लगना 'सगिमता' तथा बीन का पुनर अपने रूप में प्राप्त होना 'सम्पत्ति' कहलाती है। ये तीनों रिमर्श-सन्धि में रहते हैं।

**अभिप्रेतार्थसम्पत्तिः सिद्धिः साध्यस्य सिद्धता ।**

**प्रारब्धस्य च निर्वाहो भवेन्निर्वहणे त्रयम् ॥ ६४ ॥**

इष्टार्थ की पूर्णत उपलब्धि होना 'अभिप्रेतार्थसम्पत्ति', उद्देश्य का सिद्ध हो जाना 'सिद्धि' तथा आरभ किये हुए कार्य का पूर्णतः निर्वाह वरना—'निर्वाह' कहलाता है। ये तीनों निर्वहणसन्धि में रहते हैं।

**माधुरः साधनं साध्यं मिद्दिः सम्भोग एव च ।**

**इत्पादुः केऽपि नामद्वाः सन्तः साध्यादिपञ्चकम् ॥ ६५ ॥**

इति

युद्ध नामवाचार्यों के मन में माध्यादि पद्मन इस प्रकार रहते हैं। यदा—( १ ) माधुर, ( २ ) साधन, ( ३ ) माध्य, ( ४ ) सिद्धि तथा ( ५ ) सम्भोग।

१. नाटकलक्षणरत्नकोश में 'चित्तमाप्तन—माधुरम्!' पाठ या परम्परा हमी प्रत्य के विवरण में 'बीज' शब्द प्राप्त होता था अत इसने यमानि लगाने के लिए इसने मूल में 'बीजताप्तनसामवन्ध' पाठ दे दिया है।

तत्र यथा—मायामदालसे नाटके प्रथमेऽके गालवस्य महर्षेस्ताल-  
केतुवधमिच्छत् प्रार्थनाया कुबलयाधस्य राजस्तपोवनगमनौसुक्य-  
मारम्भ । तस्यैव सवादे—

अब हम इनका लक्षणसमन्वय करते हैं । जैसे—मायामदालस  
नामक नाटक के प्रथमाङ्क में तालवेतु नामक राक्षस के घट की  
अभिलापा से गालव झूपि द्वारा प्रार्थना करना ‘ओसुक्य’ तथा  
कुबलयाध राजा का घन में जाने की उत्कण्ठा करना ‘आरम्भ’ है । जैसे  
राजा के साथ किया गया गालव का निम्न सवाद—

एते क्षमा वयमपि द्विष्टो निरोहु  
किन्त्वेष दुष्टदमिनस्त्व राजधर्म ।  
तत्सौख्यमुत्सूज दिनानि कियन्ति शारु  
मुष्टि पचस्व भम तात गृहं भजस्व ॥

[ गालम— ] “हम भी अपने शत्रु का नाश करने की सामर्थ्य  
रखते हैं परन्तु दुष्टों का दमन करना राजा का हा कर्तव्य ( अधिकार )  
है । अतएव हे तात, कुछ दिन और सुर की चिन्ता छोड़िये, फलों की  
मुद्रियों से सन्तोष कीजिये और मेरे इसी घर में निवास कीजिये ।”

अत्र राजधर्मस्याख्यानात् ‘यागस्य निष्पत्नपष्टाहश्च मे भवितेति’  
गमनहेतुचिन्तनम् ।

इस प्रकार इस कथन में राजधर्म का उल्लेख कर तपोवन में आने  
का उद्देश्य स्पष्ट किया गया कि ‘अब निर्यन्त यज्ञ सम्पन्न किये जाएंगे  
तथा यज्ञ का प्राप्ति भाग भी प्राप्त होता रहेगा ।’

वीजं तत्रैव—

देवरातर्दुहितुरमवद्वालस्तालकेतु.  
पौरस्त्याद्वेरधरनगरी यश दर्पेण शास्ति ।  
मायायोगादहरत् सुता मेनकायाश पाप  
स प्रत्यूह क्रुपु दुरुते दुष्प्रधर्षे मुर्नीनाम् ॥ इति ।

तथा ‘वीज’ का उदाहरण इसी नाटक के निम्न श्लोक में है—  
असुर देवरात की पुत्री ने तालवेतु नामक वालक उत्पन्न किया जो पूर्वी  
४ नाठ ल०

पर्वतमाला के नीचे वसी हुई नगरी में साभिमान शासन कर रहा है। इस पापी तालेयेतु ने अपनी माया द्वारा मेनका की पुत्री [मदालमा] का अपराध चर लिया और यही अपने जघन्य आचरणों से मुनियों द्वारा स्त्रै जाने वाले यद्वा भ (निरन्तर) पिंड उत्पन्न करता रहता है।

इति मेनकामुताया मदालमाया हरणं तेन तालेयेतुना कृतिमिति  
कथयता मदालसाया मत्याहरणस्य परभूतस्य बीजमिदमुस, तच्च  
साध्योपगमनं भवति । मुखसन्धि निर्भिर्क्षणैर्युक्तं स्यादित्यर्थं । रामो  
मदालसायास्तस्या द्वितीयेऽक्षे यत् पाणिप्रहणं स एव साधनसम्पत्तिः ।  
तेनैव अधिष्ठिणा दर्चेन मार्गणेन तालेयेतुवधमास्थाय प्राप्तेनेष्टस्य सम्पत्तिः ।  
यद्वाह सुप्रभा—

तथा मेनका की पुत्री मदालमा का तालेयेतु राश्रम द्वारा विद्या  
गया अपराध चतुलाकर उसी को फिर वापस लौटालानारूपी लद्य  
का यहाँ जो धीनारोपण किया गया उसे 'बीज' ममकना चाहिए।  
यही साध्य या उद्दिष्ट भार्या के प्रति होने वाला झुकाव पैदा करता है।  
इस प्रधार मुखसन्धि में होनेवाले तीनों तत्त्व या अङ्ग बनलाए गए।  
तथा द्वितीयाङ्क म उसी मदालमा का होनेवाला विद्वाह ही लद्य यी  
उपलक्ष्य के लिए होने वाली माध्यम सम्पत्ति का जुटाने वाला होने  
से 'लाभ' है तथा तालेयेतु के वध के एकमात्र करण वाण को शृणि  
द्वारा नायर कुरुक्षयात्रा को प्रदान करना ही इष्टार्थ की प्राप्ति है। जैसा  
कि सुप्रभा के निम्न कथन से स्पष्ट है :—

तव सरल्युरय वाणो हत्या कन्यामस्तिष्ठुचम् ।

उन्मोचयितृमायातो भासीं शिखिन सुताम् ॥ इति

तुम्हार मित्र को दिया हुआ यह वाण पन्या के अपहर्ता उम दुष्ट  
का हनन करेगा। यह वाण वास्तव में अपि धी मानम पुत्री (मदालसा)  
की मुक्ति के लिए ही आया है।

तेन यथा पातालेन्तु — 'आ पापे, त्वं मे ग्रातर व्यापाच  
गच्छसी' ति गमतनिरोप कुर्वणस्य पुनर्रागुष्टान प्रसरः । क्रियाया  
स्यरप्मगाया प्रमरान् । तत्रैव—

इसी नाटक में पातालवेतु का शत्रुता प्रकट करते हुए मदालसा को रोक कर यह कहना कि—“अरी पापिन, तू मेरे भाई को मरवा कर कैसे चली जाएगी”—आदि से फिर शत्रुता बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ निरोध या रोकने की किया द्वारा शत्रुता का बढ़ाना दर्शाया गया है जो 'प्रसर' है। तथा इसी नाटक में—

मदालसा—( सभयम् ) अज्जउच, परिचायाहि । रुधह मं पुणो  
वि अं हृदासो । [ आर्यपुत्र, परिक्रायस्व । रुणद्वि मा पुनरप्ययं  
हताश ]

मदालसा—( छरते हुए ) आर्यपुत्र, बचाओ, यह आततायी मुझे  
फिर रोकना चाहता है।

इति रोधात् पुनरपि हरणस्योदृघाटो विन्दु । स एव साधनस-  
म्बन्धः । यथा तत्रैव कुबलयाश्च —

इस प्रकार मदालसा को रोकने की घटना की पुनरावृत्ति होना  
उसके अपहरण की पूर्वघटना को पुनः स्मरण करवा देता है। यही  
विन्दु है। तथा यही साध्य से साधन का सम्बद्ध होना भी है जो इसी  
नाटक में कुबलयाश्च के निन्द्र कथन में देखा जा सकता है।

कृत्स्नामरातिनिधनाध्वरलब्धदीक्षां  
पाणौ धनुर्मम वरोरु कृतं भयेन ।  
पद्माचिसत् सरसुलेपुनिकृच्छ्रेत्य—  
मृद्धविलीकृतवलीनि दिग्नतराणि ॥

कुबलयाश्च—हे सुन्दरो, तुम मत डरो, देखो, मेरे हाथ में जो  
घनुप है उसने देवताओं के समस्त शत्रुओं के नाशरूपी यज्ञ की दीक्षा  
प्रहण कर की है। अब तुम मेरे तीस्रीधारावाले बाणों से मारे गए राक्षसों  
के भस्तकों की पांतों से दूर तक भरी हुई दिशाओं को दी जाने वाली  
घलि को देसो।

इति वचसा साधनेनेपुणा ( च ) सह सम्बन्ध. सूचिन । इति  
त्रियुतं श्रतिसुक्षम् । तस्यैव तृतीयेऽहे—

इन शब्दों के द्वारा बाणरूपी साधन से साध्य [ दिशाओं की  
घलि या शत्रुपथ ] का सम्बन्ध स्पष्ट हृप में अभिहित किया गया है।

यही 'विन्दु' है। इस प्रकार हमने प्रतिमुखसंनिधि के तीन रूप [ भी ] घटलाए। [ सथा ] इसी नाटक के तीसरे अङ्क में—

कण्ठे वरोहु विनिरेशय मे मृणाल—

नालाधिदैवतभिमा निजवाहुवलीम् ।

या प्राप्य दैत्यसुभट्टारमटीकठोर—

जाताहृवथ्रममह न पुन स्मरामि ॥

हे सुन्दरी, कमलतन्तु की अधिष्ठात्री देवता के समान अपनी कोमल बाहुलता को तुम मेरे गले मे लगाओ निमसे कूर दैत्यों के साथ किये गए भयबर युद्ध से होनेवाले श्रम को मैं भूल जाऊँ।

इति राज्ञ सुरतेच्छा सम्भोग, तत्र च योग्यता । यथा—  
मदालसा—'फुरद मे दाहिण लोअण' [ स्फुरति मे दक्षिण लोचनम् ]  
इति ।

उक्त वथन मे राजा का निलासों की आकृक्षा या आनन्द का उपभोग की आकाश्य करना ही 'सभोग' है तथा इसकी प्राप्तता भी राजा मे ही आती है। जैसा कि निम्न उदाहरण मे—मदालसा—मेरी दाहिनी आँख फडक रही है।

अनिष्टस्य वियोगस्य उद्गुप्त उद्गेद । तत्र प्रतिषात् सिद्धि-  
दर्शनम् । राज्ञ. कल्याणाय स्फुरत्विति वाक्यम् !

इसमे अनिष्टकारी वियोग का प्रबन्ध होना घटलाया गया है तथा उसी दुसरा का नाश घटलाना ही कार्य की सिद्धि का दर्शन होने से 'उद्गेद' है। इसलिए राजा के मङ्गल की अभिलापा मे ही मदालसा की आँख फडकने का शुगुन घटलाया गया है।

तत्रैव कुटिलस्मायया मृत्युर्ये अर्चिपि पतिना मदालसा न दहता  
दहनेन मैत्री दर्शनेति मित्रमन्यन्मित्रलाभ । इति त्रियुनो गर्भ ।

इसी प्रकार कुटिलस द्वारा मदालसा को मारने के लिए आग मे फैज देने पर भी अग्नि का ज्येन जलाना ही मित्रों का सम्मान मे एक बोना है। इस प्रकार इसी नाटक मे लक्षणानुसार 'गित्रमन्यन्' भी रिक्षमान है। इस प्रकार 'पर्भमन्यि' ये भी तीनों तत्र घटलाए गए ।

चतुर्थेऽहे मदालसाया नाशो दक्षित स च राज्। मुख्यकारणस्य वैयुर्ये भवेत्। तत्रैव वृहदधेन पितुस्तपःफलं कथयतो राज् श्रेय कथितम्। तत्र च गृहमानीय तस्य समर्पयितव्येति सविज्ञतया तालकेतु प्रभृतीना वधे वीजस्य सम्पत्तिरिति त्रियुतो प्रिमर्शः।

तथा इसी नाटक के चतुर्थाङ्क में मदालसा का खोना बतलाया गया जो राजा के दुर्भाग्य के कारण मुख्यकार्य या साध्यसिद्धि में प्रिज्ञ होने से 'नाश' है। तथा इसी में वृहदश्वने अपने पिता के तपस्या के कल का वर्णन करते हुए राजा का भावी सुख बतला देने से 'सविधनता' है। है। तथा इसी नाटक में मदालसा को घर लाकर राजा को प्रदान करने का कार्य करने में विज्ञभूत तालकेतु है अतः उसी के वध के लिये सारे साध्यसाधनों का पुन जुटाना ही 'सम्भाति' है। इस प्रकार 'विमर्शसन्धि' के तीन तत्त्व होते हैं।

सहाराङ्के शब्दुनित सुबाहो मदालसाया। समागमेनाभिप्रेतार्थस्य सम्पत्ति. कथिता। सिद्धिसाध्यसिद्धता। यथा—

( तथा ) अन्तिम अङ्क में शत्रु के विजेता सुबाहु और मदालसा के लौट आने की घटना—'अभिप्रेतार्थसम्पत्ति' है।

उद्देश्य का सिद्ध हो जाना ही 'सिद्धि' होता है जो निम्न उदाहरण में है—

'शोकादेवी त्वयि निपतिता त्वच्छखाभिर्न दम्धा

लब्धो वस सुरपतिरिपुच्चसयोग्य सुबाहु ।' इति

शोक की अवस्था में देवी अग्नि में गिर गयी थी पर कृपा कर आपने उसे अपने शोलों से नहीं जलाया। और मैंने अपने पुत्र सुबाहु को भी प्राप्त कर लिया जिसको मारने की अनेक चेष्टाएँ देवराज इन्द्र के शत्रुओं ( असुरों ) ने की थीं।

असुराणां ध्वंस साध्यस्तस्य सिद्धता सूचिता। उपकान्तस्याविरोधेन सकलस्य समापनं निर्वाह। इति पञ्चसन्धिलक्षणम्। तथा च भीमविजयेऽपि साधको भीम, साधनं वासुदेवेन दत्ता गदा, साध्य दुर्योधननिधन, युधिष्ठिरस्य राज्यं ( राज्यप्राप्ति ) सिद्धि, भीमस्य कृतकृत्यता नीताया द्वौपद्या सुरतोषमेग सम्भोग। इति साध्यादिपञ्चकम्। मातृगुप्तेन सहक्षेपात् सन्ध्यङ्गनिरपेक्षमेवेदं लक्षणमुक्तम्।

इस प्रकार इसमें असुरों का नाश खपी साध्य की सिद्धि बतलाने से—‘सिदि’ है। और इस प्रकार आरम्भ किये हुए समस्त कार्यों का पूर्णता निर्वाह हो जाने के कारण—‘निर्वाह’ भी बन जाता है।

यहा हमने मातृगुम के अनुसार घटित होने वाले तत्वों को दर्शाने हुए पाँचों सन्धियों के लक्षण बतलाये।

साध्यादि पञ्चक को ‘भीमविजय’ पर भी घटित किया जा सकता है। यथा—साधक है भीमसेन, साधन है भगवान् वासुदेव द्वारा दी हुई गदा, साध्य है दुर्योधन का वध तथा भिद्धि है युधिष्ठिर की राज्यप्राप्ति। अपने उद्योग तथा शीर्य से भीमसेन द्वारा द्रीपदी की अभिलापाओं की पूर्ति करना तथा इसी के साथ किये गए विलास आदि कार्य ‘सम्मोह’ है। इस प्रकार उक्त नाटक में अन्य आचार्योंद्वारा बतलाए गए साध्यादि पञ्चक भी देखे जा सकते हैं।

मातृगुप्ताचार्य ने यह लक्षण विना सन्ध्याहों को बतलाते हुए वेदल संत्वेष में ( कथावस्तु के प्रसार विभाजन आदि का निर्दर्शन वर्त्याने के लिये ) बतलाया है।

### मुखसन्धि

समग्रलक्षण नाटकमुद्दिदिक्षुराचार्य पुनराह—

नाटक के सम्पूर्ण लक्षण को विस्तार से बतलाने की इच्छा से आचार्य [ भरत मुनि ] ने मुगादिसन्धियों द्वे क्रमशः लक्षण बतलाते हुए सर्वप्रथम मुखसन्धि का लक्षण इस प्रकार दिया है।

यत्र वीजममुत्पचिर्नीनार्थरमसम्भवा ।

काव्यशरीरानुगता क्षमुर्य परिकीर्तिम् ॥ ६६ ॥

( ना० शा० २१३७ )

जब अनेक रम तथा भारों की अभिव्यक्तिनाओं द्वे माय नाटक के शीर्जार्थ द्वी उद्घापना यी जाए—जो नाटकीय काव्य रचना या नाटकीय व्यायस्तु यी अनुदूलना को सम्प्रभ बरती हो—तो यह ‘मुखसन्धि’ बदलानी है।

वीजं नाटकम्य फलभूतम्य हेतु । यहुमगारथार्थः सम्भवो यस्या  
सा तथोक्ता उत्पत्तिरिति । कान्यर्थीर्तं नाटकस्य यस्तु । यत्रवंविपं

बीजमुत्पन्नते तनुखम् । यथा बालचरिते रामायणे विधामित्रेण रामे  
कथितम्—

नाटक की फलग्रामि का मुख्य कारण ‘बीज’ कहलाता है। इससे  
कथामस्तु के अनेक कार्यों या विषयों की उत्पत्ति होती है। बाल्यशरीर  
का अर्थ है नाटकीय कथामस्तु का ढांचा। जहाँ इसी प्रकार बीज की  
उद्घावना हो उसे ‘मुखसन्धि’ समझना चाहिए।

उदाहरणार्थ ‘बालचरित’ में रामायण की कथामस्तु में श्रीराम के  
प्रति विश्वामित्र की यह उत्ति—

रक्षोरुधिरपानस्य वाणाना भव रघव ।

इदमाचमन तावत्ताडकास्त्रं भविष्यतीति ॥

हे राम, तुम्हारे बाणों को राक्षसों का रधिरं पान सुलभ रहे और  
इस ताडका का नाश रूपी कार्य इनका आचमन बने।

बीज राक्षसाना वधफलस्य मुख पौत्रोक्तमतो मुखम्

यहाँ रामसों का वध करने रूपी फल का आरम्भ में ही उल्लेख कर  
देने में यह ‘मुखसन्धि’ का उदाहरण है।

साहचर्येण बीजस्य मुख एव हि केचन ।

विन्दुमादौ प्रकुर्वन्ति नाटकार्थपिदो जनाः ॥ ६७ ॥

बीजविन्दू मुखे दर्शयित्यायिति पक्षान्तरमेतत् ।

हुद्ध आचार्यों का मत है कि साहचर्य के बारण मुखसन्धि में  
बीज के साथ विन्दु को भी आरम्भ में ही रख देना चाहिए। अर्थात्  
इन आचार्यों का पक्ष यह है कि मुखसन्धि में ही एक साथ बीज तथा  
विन्दु की स्थापना बीजाए।

क्वचित् कमशु एव निर्देश ।

कहीं कहीं इन दोनों को कमशः प्रस्तुत करने का (भी) निर्देश  
मिलता है।

तथान्यथाप्याचार्य आह—

आचार्य ने इसका एक दूसरा लक्षण भी बताया है। जैसे :—

यस्मिन्नारुपान्बीजस्य श्लेषेण च्छाययापि वा ।

कियते कीर्तनं सद्ग्रिस्तन्मुखं परिकीर्तिंतम् ॥ ६८ ॥

जहाँ श्लेष या द्वाया के द्वारा नाटकीय कथा के बीज का उच्चेष्ठ किया जाए तो उसे ( भी ) युधजन 'मुखसन्धि' जानें ।

तदेतद्वीजस्य कीर्तनं पूर्वमुदाहृतमेव । तस्य द्वादशाङ्गानि  
यथा—

इम प्रकार अभिहित बीज का लक्षण उदाहरण आदि पहिले बतलाया  
जा चुका है । इम मुखसन्धि के बारह अङ्ग होते हैं यथा—

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम् ।

युक्तिः प्राप्तिः समाधानं विधानं परिभासना ॥ ६९ ॥

उद्देदः करणं भेदो द्वादशाङ्गानि चै मुखे ॥ ७० ॥ इति

[ ना० शा० २१।५३, ५४ ]

मुखसन्धि के बारह अङ्ग ये हैं—

( १ ) उपक्षेप ( २ ) परिकर ( ३ ) परिन्यास ( ४ ) विलोभन  
( ५ ) युक्ति ( ६ ) प्राप्ति ( ७ ) समाधान ( ८ ) विधान ( ९ ) परि-  
भासना ( १० ) उद्देद ( ११ ) करण तथा ( १२ ) भेद ।

उपक्षेपः

तत्र काव्यार्थत्तिरुपक्षेप । यथाह—

उपक्षेप—'उपक्षेप' का लक्षण है ( कवि की ) नाट्यरचना में प्रस्तुत  
प्रयोजन या विषय का आरम्भ होना । जैसा कि आचार्य भरत ने भी  
वहा है :—

काव्यार्थस्य समुत्पत्तिरुपक्षेप इति सृतः ॥ ७१ ॥

( ना० शा० २१।६५ )

नाट्यरचना के प्रयोजन या विषय को सक्षेप में निर्देशित परगा या  
आरम्भ परगा 'उपक्षेप' कहलाता है ।

यथा वेणीमंहारे प्रथमाहे—

निर्माणवरदहना प्रशमादीणां

नन्दन्तु पाण्डुतनया सह माघेन ।

रक्तप्रसाधितमुव्र धतविग्रहाश्च

स्वस्था भवन्तु कुरुराजमुता सभूत्या । ( वे० १७ )

जैसे वेणीसहार के प्रथमाङ्क में ।—

सन्धि होने पर विद्रोपामिन शान्त हो जाने के कारण पाण्डव भगवान् श्रीकृष्ण के साथ प्रसन्न हो जाएं और अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा सम्पूर्ण भूमण्डल पर अधिकार कर लेने वाले कौरव भी अपने सेवकों के साथ स्वस्थ हो जाएं । ( शत्रुओं के मूलोच्छेद होने के कारण वैरामिन के शान्त हो जाने से पाण्डव श्रीकृष्ण के साथ आनन्दपूर्वक रहे तथा अपने रुधिर को पृथ्वी पर फैलाते हुए कौरव अपने सेवकों सहित स्वर्ग को सिधारें । )

जानकीराघवे प्रथमाङ्के—

रामस्य रावणकुलक्षयधूमकेतो

प्रीतिं तनोत्यमृतसन्धुरियं कथैव ।

वाच. कथे. सहदयश्चुतिरत्नपारी—

पेया भवन्तु न भवन्तु कृतं श्रहेण ॥

तथा जानकीराघवे नाटक के प्रथमाङ्क में ( भी ) :—

राक्षसों के कुलों का पिनाश करने में धूमकेतु के समान भगवान् श्रीरामचन्द्र जी की प्रस्तुत कथा अमृतसागर के समान हैं, जो प्रीति का विस्तार करती हैं । इसकी काव्य रचना चाहे कतिपय सहदय-शिरोमणिज्ञन की कर्णपेय बनें या न बने इस रिपय में किसी आप्रह की अपेक्षा ( लेखक ) नहीं ( रखता ) है ।

परिक्रमः

समुत्पन्नेर्थं यदर्थवाहुल्यं स परिक्रमः । यदाह—

समुत्पन्नार्थवाहुल्यं झेयः परिकरस्तु सः ॥ ७२ ॥

( ना० शा० २११६५ )

परिक्रम—आरम्भ की हुई इसी कथायस्तु के उद्देश्य या कार्य का आये और विस्तीर्ण हो जाना ‘परिक्रम’ समझना चाहिए । जैमा कि आचार्य ( भरतमुनि ) ने कहा हैः—‘प्रस्तुत काव्यार्थ [ कथायस्तु के कार्य या

युक्ति—उद्देश्य सिद्धि के लिये योजना या कार्य पर व्याचार करना 'युक्ति' कहलाता है।

यदाह—

'मन्मधारणमर्थीनां युक्तिरित्यभिधीयते'। ( ना० शा० २११६७ )  
जैसा कि कहा भी है—  
प्रयोजन या कर्तव्यों का निश्चय करना 'युक्ति' कहलाता है।

तद् यथा—

अस्ताक्षोऽपि बलवान् हन्त्यारं पश्य शान्तिः ।

बासनाक्षाणि कान्यस्य द्विष्ट्यस्तिपोर्वधे ॥

जैसे—

मासर्थगत् पुरुष [ अपनी शक्ति के कारण ] विना [ घडे ] शक्तो  
ये भी अपने शत्रु पर विनय प्राप्त स्तर लेता है। जरा शिर्षु को तो देखो,  
उनके पास द्विष्ट्यक्षिपु के वध के ममय कैसे और वित्तने शम्भ  
विद्यमान थे ?

प्राप्तिः

मुर्त्यार्थस्य यदुपगमनं सा प्राप्तिः ॥ ७६ ॥

प्राप्ति—लक्ष्य या मूल उद्देश्य वो प्राप्ति होना 'प्राप्ति' कहलाता है।

यदाह—

'मुर्त्यार्थस्योपगमनं प्राप्तिरित्यभिधीयते'। ( ना० शा० २११६७ )

जैसा कि कहा भी है—

मुरुष प्रयोजन या इष्ट विषय का माहचर्य 'प्राप्ति' कहलाता है।

तद् यथा ( वेष्याम् )—

मन्मामि वौरवयतं समरे न षोपाद्

दुशासनम्य रथिरं न पिचाम्युस्त ।

सशुर्ण्यामि गदया न सुयोधनोद्

सम्प्य यरोतु भगवा नृपति पशेत् ॥ ( वै० ११५ )

जैसे—मैं युद्ध में उन पक्ष में वौरवा या वोध में गदन न पहुँचे  
दुशासन वी द्वारी का लट्ठ भी ( श्रनिशालुमार ) न पियूँ अपनी

गदा से (मैं) 'सुशोधन की जंघाओं को न तोड़ूं और हुम्हारे पूज्य महाराजा (युधिष्ठिर) इसी पिनिमय [अर्थात् पांच गाँधों की प्राप्ति] पर कोरबों के साथ सन्धि करें ?

### समाधानम्

वीजार्थस्योपगमनं यत्समाधानम् ।

समाधान—वीज का अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना [या वीज के लक्ष्य का टीक तरह से जम जाना] 'समाधान' कहलाता है।

### यदाह—

वीजार्थस्योपगमनं समाधानमिति स्मृतम् ॥ ७७ ॥

(ना० शा० २१६८)

जैसा कि आचार्य भरत ने भी कहा है—

वीजार्थ की उपलब्धि हो जाना 'समाधान' समझना चाहिए।

अन्योन्यासकालभित्रद्विप्रथिरवसासान्द्रमस्तिष्कपङ्के

मझाना स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविकान्तपत्तौ ।

स्तीतासूक्ष्मानगोष्ठीरसदशिवशिवात्युर्गृत्यक्षवन्धे

सद्वामैकार्णवान्त पर्यसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥

(वे० १२७)

### जैसे :—

युद्धस्थल रुपी सागर के गम्भीर जल में परस्पर अभिहत हाथियों के शीर्ण एव क्षतपिक्षत मस्तकों से निकलते हुए खून, मांस, चर्बी और मस्तिष्कों के बीचड़ में धसे हुए रथों पर पैर रख कर जहाँ योद्धा आक्रमण कर रहे हों (और) रक्त पान करने पर प्रसन्न होकर नाचने वाली शृणाली के अमगल शब्दों को तुरही मान कर नाचने वाले कथन्यों से भयावह हो जानेवाले प्रदेशों में धूमने का पाण्डवों को बहुत अभ्यास है।

### विधानम्

सुखदुखहो योर्थस्तद्विधानम् ।

विधान—सुख और दुखों से भिन्नित कार्य का होना 'विधान' कहलाता है।

यदाह—

सुखदुःखानितो योऽर्थस्तद्विधानमिति स्मृतम् ॥ ७८ ॥  
( ना० शा० २१।६८ )

जैसा कि आचार्य भरत न भी वहा है—

जो घटना, विषय या कार्य मुप दु से सुक्त या मिथित रहे उन्हें 'विषय' समझना चाहिए।

तद् यथा वालचरिते—

उत्साहातिरिय बत्स तव धाल्यञ्च पश्यत ।

मम हर्षविषयदाभ्यामाकान्त युगपन्मन ॥

जैसे वालचरित में—

हे पुत्र, जब मैं एक और तुम्हारे इस अतिरिय साहस को और दूसरी और तुम्हारी धाल्यायस्था को देखता हूँ तो मेरा मन एक साथ हर्ष और विषय से भर जाता है।

( यथा वा ) वेण्या भीम —

मूय परिभवत्तान्तिलज्जाविधुरितान्तम् ।

अनिदेशेपितकौरव्य न पश्यसि धृतेदरम् ॥

( वे० १।३६ )

या किर वेणीसहार वे निम्न पद्म में—

भीम—निरन्तर अपमान की प्राप्ति से होन वाले कष्ट और लज्जा से मलिन गुरुमाले इस भीम को अब तुम विनाकौरवों के समान होने तक नहीं देयाएगी।

परिभावना

इत्यहलान्तरादायी स्वार्थः परिभावना ॥ ७९ ॥

( ना० शा० २१।६९ )

परिभावना—ऐमा आग्रहपूर्ण व्यथन जिसके मध्य में कौन्तूल मन्त्रियष्टि रह 'परिभावना' समझना चाहिए।

यदाह द्वीपटी—एवं, कि ऐसो लगे लगे समरदुही ताडी-अदि [ नाथ, किमेष क्षणे क्षणे समरदन्दुभिस्त्वाद्वने ] ।

जैसा द्वौपदी का यह कहना—‘स्वामिन्, युद्ध का यह भगवान् वार चार क्यों पीटा जा रहा है’?

**उद्घेदः—**

वीजार्थस्य प्ररोहो यः स उद्घेद इति स्मृतः ॥ ८० ॥

( ना० शा० २१६९ )

उद्घेद—बीज के अर्थ या कार्य के अकुर के रूप मे फूट पड़ना या प्रकट हो जाना ‘उद्घेद’ कहलाता है।

**यथा—**

कृतं रावणनाशस्य वीजस्याधिप्रोहणम् ।

मारीचादिवयेनैव रामेणामितवर्चसा ॥

**जैसे :—**

अपरिमित सामर्थ्यशाली श्रीरामचन्द्रजी ने मारीच आदि के वध के द्वारा रामण ही के विनाश का बीज अङ्कुरित कर डाला।

**करणम्**

प्रकृतार्थसमारम्भः करणम् ॥ ८१ ॥

**करण—**उद्दिष्ट या प्रस्तुत कार्य का आरम्भ करना ‘करण’ कहलाता है।

यथा वेण्णां प्रथमाङ्गे भीम.—

देवि, गच्छामो वयमिदार्त्तं कुरुकुलक्षयाय ।

**जैसे वेणीसंहार के प्रथमाङ्ग मे :—**

**भीम—**देवि, अब हम द्वीरों का संहार करने के लिए जा रहे हैं।

**भेदः**

सह्वातेन मिलितस्यार्थस्य भज्ञो भेदः ।

**भेद—**धनीभूत या एकत्र भार ( या समूह ) का भंग हो जाना ‘भेद’ कहलाता है।

यथा दशरथं कौशिकमुक्तवान्—

रामोऽयं वलशून्यश्च शुलशून्यश्च ताढकाम् ।

कथं हन्यादिति प्राह राजां कौशिको मुनि ॥

मत्यभावादयं रामो रक्षयुतसमापनम् ।  
करिष्यति इति राजन् सेहविहवभाषणैः ॥  
एतानि मुखाङ्गानि ।

जैसे—विश्वामित्र से दशरथ ने पूछा—बालक होने से अशक्त और रहस्य पूर्ण अखों का ज्ञान न होने से यह राम इस ताड़का का हनन कैसे कर पाएगा?

विश्वामित्र ने उत्तर दिया—हे राजन्, श्रीराम मेरे प्रभाव से इन राज्ञसों का नाश करेगा इमलिए तुम अपने प्रेम के धारण ऐसे घबराहट पैदा करने वाले शब्द मत बोलो। इस प्रभार ये मुग्धसन्धि के अन्त चलता रहे।

**प्रतिमुखं यथा—**

अब प्रतिमुग्धसन्धि का लक्षण बललाते हैं।

**प्रतिमुखम्**

चीजस्योदृधाटनं यत्र दृष्टनष्टमिति क्वचित् ।

मुखाद्वितस्य सर्वस्य तद्वै प्रतिमुखं स्मृतम् ॥ ८२ ॥

( ना० शा० २१३८ )

**प्रतिमुग्धसन्धि—**मुग्धसन्धि में स्थापित उस भीज का—जो कभी लद्य और अलद्य स्वप्न धारण करता रहा था—जब शिकास या प्रकट होना दिग्गजाई दे तो उसे 'प्रतिमुग्धसन्धि' समझना चाहिए।

दृष्ट कारणस्वप्ने कार्यरूपेण नष्टम् । प्रथमसन्धी वीजरोपणाद् दृष्टम् । यथारससार्वार्थप्रवृत्तानुपद्धिस्त्रयेण नष्टमिवान्तरितमिति । तन्योदृधाटनं पुन भ्रातृन कर्तव्यम् । यथा वैष्णवी भीम भ्रात—“सञ्चर्णयामि गदया न सुयोधनोह” । द्वितीयेऽक्षे कन्तु भी—‘भग्नं देवस्य भीमेनेति’ अमङ्गलरीतनादुर्भ-भङ्गमुदृधाटिवान् । जनरीतिपरे यथा राम सीता प्रस्तुतवान्—

लद्य या दिग्गजाई पड़ने या आशय है कारण स्वप्न में दिग्गजाई पड़ना परन्तु पार्य स्वप्न में नहीं दिग्गजाई देना। प्रथम या मुग्धसन्धि में भीज यी स्थापना करने परे कारण लद्य का गिराई देना स्पष्ट होने लगता है।

रस के अनुसार प्रवृत्त होने वाले कार्य का जब किसी गौण या अमुख्य कार्य द्वारा आच्छादन होता हो तो उसे लद्य का द्वा द्वा हुआ (अलद्य) हुआ हृष समझना चाहिए [यह कार्य भी मुख्य उद्दोश्य को प्रकट करने के लिये होता है] विकास या प्रकट होने का आशय है उसी वीजार्थ का फिर से प्रकाशन करना। जैसे वेणीसंहार में भीम की यह उक्ति—‘क्या मैं अपनी गदा से मुर्योधन की जंधा को न तोड़ू?’ अथवा वेणीसंहार के दूसरे अङ्क में कञ्चुकी द्वारा अभिहित—‘इद, तोड़ दाला’ शब्दों से दुर्योधन का अमगल प्रगट करते हुए भीम के द्वारा होने वाले भावी ऊरुभग को सरेतिव करना।

लङ्घासमृद्धिमापन्नः क्रीडारण्ये सपुत्र्यक ।

कच्छिष्ठोहितपत्रस्त्वामशोकोऽसौ हरिष्यति ॥ इति

अथवा जैसे जानकीराघव में श्रीराम का सीता के प्रति निम्न कथन भी—रक्तपङ्खवधारी, विहारवाटिका में अवस्थित एव हृषिगोचर होनेवाला यह अशोकवृक्ष सभवत तुम्हें अपनी लुभावनी पुष्पावली और विपुल शाखाओं से (अवश्य) आहुष्ट कर लेगा।

अयक्षा (दूसरा अर्थ)

संभवतः शोकद्वित एवं अपनी लालपत्तियों के कारण लक्षा की समृद्धि करते हुए जिसने सम्पन्नता प्राप्त की थी वह विहारवाटिका का पुष्परुचिमान से युक्त प्रदेश तुम्हें (अवश्य) हर लेगा।

अस्य च त्रयोदशाहानि । यथा—

विलासः परिसर्पथ विधुतं तापनं तथा ।

नर्मनर्मद्युतिश्वैव तथा प्रगमनं पुनः ॥ ८३ ॥

विरोधश्वैव विद्येयः पर्युपासनमेव च ।

पुष्पं वज्रमुपन्यासो काव्यसंहार एव च ॥ ८४ ॥

प्रतिमुख सन्धि के तेरह अङ्क होते हैं। ये क्रमशः इस प्रकार हैं:—(१) विलास (२) परिसर्प (३) विधुत (४) तापन (५) नर्म (६) नर्मद्युति (७) प्रगमन (८) विरोध (९) पर्युपासन (१०) पुष्प (११) वज्र (१२) उपन्यास तथा (१३) वर्णसंहार।

विलासः

समीहा रतिभोगार्थी ‘विलास’। सम्मोगो वा सुरतोत्पन्नो विलास इति संज्ञित ।

विलास—राजि भार के लक्ष्यभूत पदार्थ या व्यक्ति की अभिलापा रखना 'विलास' कहलाता है। अथवा पारस्परिक संयोगजन्य आनन्द का नाम ही 'विलास' समझना चाहिए।

यथा जानकीराघवे द्वितीयेऽक्षे राम —

अपि भुजल्तोक्षेपादस्या छृतं परिम्भण  
प्रियसहचरीक्रीडालापे श्रुता अपि सूक्ष्यं ।  
नवपरिणयमोढावत्या मुमोक्षतियवतोऽ  
प्यलसवलिता तिर्यग्दृष्टि करोति महोत्सवम् ॥

( सर० कण्ठा० २१४२ )

जसं जानकीराघव क द्वितीय अङ्क मे—

श्रीराम—इसरे द्वारा अपनी भुजमङ्गी के ऊपर उठाने भर से आलिङ्गन घन जाता है तथा अपनी प्रिय सरियों के साथ किये गए दिनों पूर्ण वार्तालाप मे अभिहित शब्द सुनने पर एव नदीन विगाह दोने से लज्जीली रहने वाली सीता ये प्रयत्नपूर्वक अपना मुद्र थोड़ा ऊपर उठाने पर उमरी धक्की भी तिरछी चित्तमन अनिशय आनन्द उत्पन्न कर रही है।

परिमर्पणः

प्रथम दृष्ट्य पश्चान्नष्टस्यानुमरणं परिमर्पणः । यथा तत्रव —

मयि किल पुरा द्वै पश्चान्न दृष्टिपद्मं गते  
सुतनुरुन्यमूर्च्छिमोधौ दिनानि यहून्यपि ।  
भृशमधिगतस्त्वर्या सेय न मामभिभाषने  
क्षिपति च मुहुर्व्याजाद् दृष्टिं सुधान्नपितामिव ॥

परितर्पण—अभीष्ट वस्तु के एक थार दिग्याई पड़ने के थार छुप हो जाने पर उमरा पुनः अन्वयण करना 'परितर्पण' कहलाता है।

जैमे इमी ( जानकीराघव ) नाटक मे—

श्रीराम—एक थार मुद्र देत दर और फिर पुष्प देर न दिग्याई पड़ने पर ये मूर्छाँ के साथ मे दूष जाकी हैं और फट्ट दिन धीन जाने पर अनुभय वरने लगती है। फिर धीर-धीरे ये थोड़ा पैरं घर पर मुक्त मे

नहीं बोलती पर किसी बहाने से अपनी अमृत से सनी दृष्टि को मेरी ओर झुका लेती है।

### विधुतम्

आदावनुनयस्य कृतस्यापरिमहो विधुतम् ।

विधुत—आत्मभ मे किये जाने वाले सान्त्वनापूर्ण शब्दों या प्रार्थना को स्वीकार न करना [ या उन पर ध्यान न देना ] ‘विधुत’ कहलाता है। जैसे भानुमत्यङ्क मे —

यथा भानुमत्यङ्के दुर्योधन.—

विकिर धवलदीर्घिपाङ्गसंसर्पि चक्षु  
परिजनपथवर्तिन्यव किं सम्भ्रमेण ।  
स्मितमधुरमुदार देवि मामालयौचै.

प्रभवति मम पाप्योरज्जलिस्त्वं स्पृशास्मान् ॥ (व० २।१६)

दुर्योधन—प्रिये, तुम अपने कान तक दिस्तीर्ण इन धवल नेत्रों को सेवा कार्य के उद्यत इस जन की ओर लगाओ। क्यों व्यर्थ ही घटराती हो ? मुझसे मनवास से आपूरित चित्ताकरणक एव मधुर सम्भाषण तो करो। मे दोनो हाथ जोड़ रहा हूँ तुम उन्हें छू भर दो।

### तापनम्

अपायदर्शनं यत्तत् तापनम् ॥ ८५ ॥

यथा कदलीगृहे—

सागरिका—दुल्हहजणाणुराओ लज्जा गरुद परव्वसो अप्पा ।

पिअसहि विसमं पेम्मं मरणं सरणं प वर एकम् ॥

दुर्लभजनानुरागो लज्जा गुर्वा परवश आत्मा ।

प्रियसखि विशमं प्रेम मरण शरणं केवलमेकम् ॥ )

( खला० २।११ )

तापन—किसी कष्टदायी या अनिष्टकारी वस्तु का दिग्बलाई पड़ना ‘तापन’ कहलाता है। जैसे कदलीगृह मे —सागरिका—मेरा अनुराग

ऐसे पुरुष मे हैं जिसका मिलना दुर्लभ है, इधर लाज बहुत आरही है और अपने बश से आत्मा भी नहीं रही। सति, प्रेम वडा दुखदायी होता है। अब सिर्फ़ मर जाना ही अपने दुखों को दूर बरने के लिये [ बचा है या ] महारा है।

### नर्मद्युतिः

नर्मपुरस्ताद् वक्तव्यम् । श्रीडाविहोमार्थं हास्य नर्मद्युति । यथा  
तत्रव—

**विदूषक** — भो ववस्स, जे एदस्स लुक्खपादये कि पि महाभूदं पठिवसदि । [ भो वयस्य, यद् एतस्मिन् लुक्खपादये किमपि महाभूत प्रतिवसति ]

**नर्म नर्मद्युति**—परिहासपूर्ण शब्दों का प्रत्यक्ष कथन 'नर्म' हीता है तथा श्रीडा मे किया जाने वाला ऐसा परिहास जो हुभाता ( भी ) हो 'नर्मद्युति' कहलाता है। जैसे इसी अक मे:—**विदूषक**—मित्र, उस मामन द्विराई देन वाले लकुच घृक्ष मे एक महाभूत रहता है।

### प्रगमनम्

उत्तोरचरचाक्यं प्रगमनम् । यथा रामविक्रमे द्वितीयेऽक्षे

प्रगमन जहाँ उत्तरप्रयुक्ति मे उत्तरोत्तर स्थाप उत्कृष्ट घनतं चलें उसे 'प्रगमन' समझना चाहिए। जैसे राम विक्रम नामन नाटक के द्वितीय अक मे—

जनक — भद्र, कुत आगम्यते ?

जनक — भद्र, आप पहाँ से आ रहे हैं ?

यदु — अज्ञ, अरणदो ( आर्य, अरप्यन )

यदु—अरण्य से ।

जनक — कि तत्र श्रोतुमयेतु या न प्राप्यते । येन दूरतराध्य-  
क्षेयोऽनुभूयते ।

**इनक**—क्या यही सुखभवापूर्वक सुमहे अवश और अध्ययन प्राप्त नहीं हो पाया निर्मदं लिए ( आपते ) लक्षा रास्ता पार फर इननी दूर थाने पा पर उठाया ।

वहु—कुदो भयेहि रम्भसेहिं विरोहं भूद अज्ञाण । अद्दो वा  
तपस्मिन्जणोचिदो वाकारो’ इत्यादि । [ कुतो भये राक्षसैर्विरोध भूतमा-  
र्याणाम् । अच्चा वै तपस्मिन्जनोचितो व्यापार । ]

वहु—हमारे आचार्यों का किसी कारण राक्षसों से वैर वहु गया  
था और फिर दूर तक रास्ता पार कर आ जाना तो तपस्मिन्यों का  
सामान्य कार्य है ही ।

### पिरोधः

या तु व्यसनसम्प्राप्तिरिंग्रीष्ट इति कीर्तिः ॥ ८६ ॥

यथा जानकीराघवे द्वितीयेऽङ्के—

पिरोध—विपत्ति का आ जाना ‘पिरोध’ कहलाता है ॥ ८६ ॥

जैसे—‘जानकीराघव’ नाटक के द्वितीय अक्ष में—

हला पिअदे, एषिणा सह समुप्पणो विरोहे कि अज्ञउच्चमि  
भविस्सदि त्ति उत्तम्भदि मे हिअअ । [हला प्रियम्बदे, एतेन सह समुत्पन्ने  
विरोधे किमार्यपुत्रे भविष्यतीति उत्तम्भति मे हृदयम् । ]

मति प्रियम्बदे, इनके साथ विरोध हो जाने पर आर्यपुत्र का अब  
क्या होगा यह सोचकर मेरा मन बड़ा आकुल हो रहा है ।

### पर्युपासनम्

कुदस्यानुवय पर्युपासनम् । यथा दशरथ कुद्धं भार्मवं  
द्वृष्टोक्तवान्—

पर्युपासन—कोधी पुरुष को अनुवय-प्रित्य द्वारा शान्त कर देना  
‘पर्युपासन’ कहलाता है । जैसे कुद्ध परशुराम के प्रति महाराज दशरथ  
की यह उक्ति ।—

अलं भार्गव वालेऽस्मिन् रामे समरतृण्णया ।

न हि द्विपतडायात् सहते चूतपादप ॥

हे भार्गव ऋषि, इस छोटे से बालक राम के साथ आप युद्ध की  
इच्छा क्यों कर रहे हैं? छोटा आम का वृक्ष क्या हाथी से टकर  
ले सकता है?

### पुष्पम्

विशेषवचन पुष्पम् । अन्यद कियायामितरक्रियाधिक्यं विशेष-  
वचनं तत्पुष्पम् । यथा जानकीराघवं द्विर्गियेऽके—

पुष्प—चिलार्पक प्रिशिष्ठ वास्यावली 'पुष्प' कहलाती है । अर्थात्  
मिनी एक बी डिकि ने दूसरी अधिर उत्कृष्ट या वैदग्ध्यपूर्ण उकि की  
नयोनना बर देना 'पुष्प' हाता है । जैसे जानकीराघव ने द्विर्गिय  
अक मे—

मा भैणीमिथिलाधिगजतनये दिष्याद्युना वर्धसे  
मढ विद्धि निष्प्रियस्य भुजयोर्भिर्येण गुर्वेरपि ।  
आक्षेपे हसता स्वपौरप्रकथालपैद्यवज्ञावता  
व्यधायनयित्यनामुक्तमृता रमेण रामो जित ॥

मिथिलाधिपति जनक की पुन्नी सीने, तुम मत टरो । तुम्हारी  
रिजय हो । क्योंकि तुम्हारे स्वामी के प्रिशाल बाहुओं के परामर्श ने  
मभी ढीर बर दिया है । भगवान् परशुराम वे आदेषों को हँस बर  
मह लेने वाले और अपने पुरुषार्थ की प्रशंसा पर इयान न देने वाले  
श्रीराम ने उन्हीं के घनुप पर अब प्रत्यक्षा चढासर नहीं को  
पराजित बर आला है ।

### बन्नम्

बन्नप्राय बचन बन्नम् । यथा पुंमने—

वज्र—मुँह पर ही कठोर बचन फर हालना 'वज्र' कहलाती है ।  
जैमे पुंमनाहूँ मे—

अन्नदत्तम् पुंछे भविभ एतिभ धाल रामणे उवणीद सीदं  
अन्न विष एविअदि । [ आर्यपुरस्य पुंछे भूता पताकन् राल  
रामणे नोपनीता भीतामयापि न परिचीयने ]

यह आर्यपुर ना पुन तिने पर भी रामण द्वारा इनमें भग्न तक  
प्ररण की गयी गीता दी नहीं पाचान रहा है ।

१. पुगरनाहूँ - उन्निराम भारह हे ( धनिम ) अह या नाम । मग्निं  
यह नाटक अप्याय है ।

### उपन्यासः

उपतिष्ठिकूनो योऽर्थं स उपन्यासः । यथा जानकीराघवे  
द्वितीयेऽक्षे शतानन्द —

इदं पुनरुपचित्पदशरथस्य वचनमुपश्रुत्य भूशमानन्दिता स्म ।  
‘राज्यं मुक्तमशत्रुं पौरुषकथेत्यादि’ ।

उपन्यास—युक्तियुक्त वचनों का प्रस्तुत करना ‘उपन्यास’ समझा चाहिए। जैसे जानकीराघव के द्वितीय अक्ष में शतानन्द—इस महाराजा दशरथ के इन तथ्यपूर्ण वचनों को सुनकर बहुत प्रभाव है कि ‘राज्य प्राप्त हो गया और शत्रुओं की अब दूर तक चर्चा नहीं रही’ इत्यादि।

### वर्णसंहारः

वर्णितस्यार्थस्य तिरस्कारो वर्णसंहारः । यथा कदलीगृहे  
विद्युपरु—

मुहरा कहु एसा गम्भासी । [मुखरा खलवेषा गर्भासी । ]

वर्णसंहार—एकबार कहे हुए वचनों की अबहेलना करना ‘वर्णसंहार’ कहलाता है। जैसे कदलीगृह नामक अक्ष में—

विद्युपरु—यह जन्मजात गधी बड़ी मुँहजोर हो रही है ।

चतुर्णां वर्णानां सम्मिलनमपि केऽपि वर्णयन्ति । यथा—

आद्यणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चारणवृत्तयः ।

रामप्रवसने भूप केर्या चाप्यनिन्दयन् ॥ इति ॥

बुद्ध आचार्यों का मत है कि—चारों वर्णों का एकत्र सम्मेलन ‘वर्णसंहार’ कहलाता है। जैसे :—

श्रीराम के बनास के अवसर पर उपस्थित होने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चारण मध्ये ने महाराज दशरथ और केन्द्रीयी दी निन्दा करनी शुरू की।

### गर्भः

नाटकस्य मध्यलाद् गर्भ ।

उद्ग्रेदस्तस्य वीजस्य प्राप्तिरप्राप्तिरेत् च ।

पुनश्चान्वेषणं यज्ञ स गर्भ इति संस्मृतः ॥ ८७ ॥

**गर्भमन्धि—**नाटक के मध्यरत्ति स्थान में रहने के कारण 'गर्भमन्धि' कहा जाता है। [जैसा कि आचार्य ने कहा भी है ]

जब थीन अदुरित या प्रकट होमर (किर) तिरेहित हो जाए तथा आगे चलमर उमी वा फिर अन्वेषण किया जाए तो उसे 'गर्भमन्धि' नममना चाहिए।

**मुख—प्रतिमुखाभ्या मुखोथातस्य वीजस्य यत्र उद्भेद प्राशाशनम् ।**  
यथा जानरीराघवे तृतीयेऽद्वै

बीज वे अदुरित होने का आशय है मुख तथा प्रतिमुख सन्धि में रिसित या प्रकाशित होने वाला बीज वा प्रकट होता। जैसे जानरीराघव नाटक के तृतीय अरु में —

**सुप्रीव —**

जानरी हरता मन्ये दशकण्ठेन रक्षसा ।

विनाशायात्मनो वेर रामे महदनुष्ठितम् ॥ इति ।

**सुप्रीर—**मेरा तो मत है कि रामराम रामण ने मीता का अपरण कर धीराम पे माथ जो शयुता भी है वह उमरे अपने ही विनाश के लिए होमी।

**नाटकादी वस्तुद्वय भवति विपिर्वा निषेधो वा । तत्र प्राप्तिष्ठापो विपिरप्राप्तिष्ठापो निषेध ।**

नाटक आदि स्त्रपकों में दो यातें होती हैं—एक विधि और दूसरा निषेध। विधि कहते हैं प्राप्ति होने को तथा इसी के विपरीत अप्राप्ति होने को निषेध यहा जाता है।

**प्राप्तिष्ठापो यथा वीजमारव्यं रक्षमां क्षयः ।**

**नीरं मीतापहरणं रामस्यामश्यकार्यताम् ॥ ८८ ॥**

विधि या प्राप्ति या उपादरण है—रक्षमां के विनाश या आरभ करना। यही बीज है जो रामराम रामण पे द्वारा धीमीता के अपरण परने पर धीराम पे द्वारा रामगां को ममूल उच्छ्रेत परने में अप्रश्यक पर्वद्वय यह जाता है।

**अप्राप्तिष्ठापो यथा—उद्यनस्य पासवद्वासक्तस्य गुणा देश-**

चष्टमेन मन्त्रिणा लावणकदाहव्या जादू वासवदत्ताया अपाप्तिर्दर्शिता ।  
पुनश्च तस्यास्तपः समाचरणान्वेषणम् । एवं प्रकारो गर्भं ।

निषेध का उदाहरण है—वासवदत्ता के प्रेम में छूटे हुए उदयन के राज्य पर जब शत्रुओं का आक्रमण हो रहा था तब भी महाराजा उदयन द्वारा प्रतिकार न किये जाने की विधि जानकर मदामन्त्री थैगन्धरायण द्वारा लावणक को जलाकर इसी बहाने से वासवदत्ता को छुपा देना। किर उसी रानी की बड़ी तपस्या के बाद खोज करना। गर्भमन्त्रिय का यही स्वरूप माना गया है।

अस्य व्रयोदशाहानि यथा—अभूतोदाहरणम्, मार्गं, रूपम्,  
उदाहरणम्, क्रमं, संग्रहं, अनुमानं, प्रार्थना, उत्क्षिप्तम्, तोटकम्,  
अधिवलम्, उद्वेग, विद्रव इति ।

गर्भसन्धि के तेह अंग होते हैं। यथा—(१) अभूतोदाहरण  
(२) मार्गं (३) रूप (४) उदाहरण (५) क्रम (६) संग्रह (७)  
अनुमान (८) प्रार्थना (९) उत्क्षिप्त (१०) तोटक (११) अधिवल  
(१२) उद्वेग तथा (१३) विद्रव ।

### अभूतोदाहरणम्

कपटाश्रयं वचनमभूतोदाहरणम् । यथा अधत्थामाहौ—

अभूताहरण—कपटभरी शब्दायली का प्रयोग करना ‘अभूताहरण’ कहलाता है। जैसे अधत्थामांक में—

अधत्थामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा  
स्वैरं शेषे गज इति किल व्याहत सत्यवाचा ।  
तच्छुल्लासौ दयिततनय प्रत्ययात्तस्य राजः  
शङ्खाष्याजौ नयनसलिलं चापि तुल्यं मुमोच ॥

( वे० ३।१।)

कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने ‘अधत्थामा मारा गया’ ऐसा स्पष्ट रूप में जोर से कह कर सत्यभाषी होने के कारण भीरे से ‘हाथी’ कह दिया।

---

१. यह विवरण मायुराज या मातृराज उपनाम अनहृष्ट पणीत तापम-  
दल्पराज नाटक के अनुसार दिया गया है।

उसे मुनकर युधिष्ठिर पर विद्यास होने से पुर वत्सल द्रोणाचार्य ने अक्षुभात के माथ शस्त्रों का भी रण में परित्याग कर डाला ।

**मार्गः**

तच्चार्थकथनं मार्गः ॥ ८९ ॥

यथा जानसीराधवे तृतीयेऽह्ने हनुमान्—

यस्ताङ्गना निहतवान्तिश्वरेव येन भज्ञ धनु पशुपतेविंजितो भृगुर्वा ।

एक खरादिनिधन विद्धे प्रवीर त राधवं शरणमेहि हिते स्वमिच्छन् ॥

**मार्ग—** यथार्थ चात की ( प्रकृत विषय से सम्बद्ध ) उद्घोषणा करना ‘मार्ग’ बहलाता है । जैसे जानसीराधर के तृतीय अक्ष में हनुमान— जिमने अपनी शैशवाधस्था में साड़वा राक्षसी चा इनन किया, शकर वे धनुष को तोड़ डाला और परशुराम ली को परान्ति घर दिया, जिम अफें थीर थेषु ने घर आदि राक्षसों वो यमलोक पहुँचा दिया जहाँ श्रीराम की शरण में अपना हित चाहो तो आ जाओ ।

**रूपम्**

चित्रार्थसमायुक्तो वितर्ण रूपम् । यथा महेताङ्के—

मन प्रृख्यै चल दुर्लक्ष्यथ तथापि मे ।

कामेनैतत्कथं विद्ध सम सर्वं शिलीमुमै ॥ ( रत्ना० ३।२ )

**रूप—** किसी आध्यार्थित्याकृ घटना वी गिरकर्मणं वाक्यो द्वारा स्थापना करना ‘रूप’ बहलाता है । जैसे नदेशाद मे :-

( मेरा ) मन रक्षाद मे नी चबरा होता है और इमरा पाना बड़ा पठिन है शिर काम ने इसे अपने सभी याणों से तुल्न कैसे दीय डाला ?

**उदाहरणम्**

सातिश्यं वचनशुदाहरणम् । यथाध्यन्थामाद्वे ‘यो य एव विभक्तिं’ ( र० ३।३२ ) इत्यादि ।

**उदाहरण—** अनिशय उनेनना या उत्कर्ष युज धार्म्य विन्यास फो ‘उदाहरण’ समझना चाहिए । जैसे अश्यधार्माकृ मे अश्यधार्मा— ‘पाण्डितों की सेना में जो जो शम्भ्रधारी थीर है’ इत्यादि ।

क्रमः

मविष्वत्त्वोपलभिध क्रम । यथा<sup>३</sup>श्वत्थामाङ्के—

कृप — राजन्, द्रोणपुत्रेण सुमहान्समरभारो बोद्धमध्यवस्थित भवता च कृतपरिकरोऽयमुच्छेत् लोकन्यमपि समर्थं किं पुनर्युधिष्ठिरबलमिति ?

क्रम— भावी घटना या अभिग्राय वा उन्नयन 'कृप' कहलाता है । जैसे अश्वत्थामाङ्क में —

कृपाचार्य—राजन्, द्रोणपुत्र ने सम्राट के बड़े दायित्व को वहन करने की प्रतिज्ञा की है अत एय यदि मेरे विचार से आप इनका सेनापति दें पद पर अभियेक कर दें तो य तीनों लोकों का सहार कर सकते हैं फिर पाण्डियों की सेना का सहार कर ढालना कौन बड़ी बात होगी ?

संग्रहः

सामदानादियुक्त वाक्य सद्ग्रह । यथा वेण्याम्—

धृतराष्ट्र—वत्स, यदि मन्यसे तदाहमेव किञ्चिद्विज्ञापयामि ।

मंग्रह—प्रियरचन और बान आदि से पूर्ण कथन 'संग्रह' कहलाता है । जैसे वेणीसहार में ।

धृतराष्ट्र—पुत्र, यदि हुग मानो तो मे ( ही ) तुम्हें कुछ बतला दूँ । अनुमानम्

रूपस्यानुगमनमनुभानम् । रूप्यते इति रूप वस्तु ।

अनुमान—किसी वस्तु या दृश्य पदार्थ को देख कर उसी के आधार पर उसके समस्त शेष भाग का कल्पना के द्वारा अनुमान या निश्चय कर लेना 'अनुमान' कहलाता है । निसका स्वरूप दिलाई पड़े उसे रूप या वस्तु कहते हैं । जैस —

तस्यानुमानयति काव्यनस्तनितिगौर

कायश्च सूर्यतन्त्रयत्वग्नृप्यता च ।

शरीर वा सोने के समान चमकीला आर गौर वर्ण होना ही उसके सूर्यपुत्र होने और युद्ध में किसी से पराजित न होने की सूचना दे रहा है ।

प्रार्थना

अभ्यर्थनायुक्त वचन ग्रार्थना । यथा सम्पात्यङ्के—

**प्रार्थना—**सिसी बात की याचना प्रकट करने वाली यचनायती वो 'प्रार्थना समझना चाहिए। जैसे सपाति नामक अद्वैत में :—

**मायावती—**धुत, वीस म पहारेसि अणुइयम् अणुरुतं । [ धूत, कथं मा प्रहरसि अनुदिवसमनुरात्रम् ]

**मायावती—**धूत, तुम मुझे दिन रात क्यो प्रताङ्गित वरते रहते हो? उत्थिपत्तम्

**बीजोद्देशनमुखितम् ।** यथा वालचरिते—

राज्य जनह्राजेन्द्रमुताप्राप्तिपणीकृतम् ।

मुग्रीवस्य कपोर्देच रामेण हतयालिना ॥

अत्र गर्भवीजस्य सिद्धे च उद्देशन कृतम् ।

**उत्क्रित—**बीज को प्रकट कर देना 'उत्क्रित' कहलाता है। जैसे वालचरित में —

ननदननिनी सीता को आम बरते मे महायता देने की शर्त पर श्रीराम ने वाली को मार कर इविराज सुवीर को राज्य दिया है।

यहाँ गर्भसन्नि मे यिद्यमान बीज और सिद्धि को प्रकट कर दिया गया है।

**तोटकम्**

सरव्यवचन तोटकम् । तत्रैव रादण —

एष नो निहतज्ञातिस्नेहोद्भृत्त पतिव्यति ।

तोधामिरचिराद्वैरिसैन्यजीर्णवने महान् ॥

**तोटक—**आवेशा या क्रोधपूर्ण वचनों को 'तोटक' कहते हैं। जैसे इसी नाटक में।

**रादण—**हमारी यह क्रोधात्मि अपनी जाति के नाशस्थी स्नेह वो छलका कर शीघ्र ही शयुओं के जीर्णमन पर गिर जाएगी।

**अधिगलम्**

कपटस्यान्यथाकरणमधिगलम् । तथा मम्पात्यहे

**अधिगल—**किसी छल या माया का दूसरी ओर मोड देना या दूसरे ही अर्थ मे जे लेना 'अधिगल' समझना चाहिए। जैसे सपाति-अंक मे :—

हनुमान्—रावणप्रयुक्त्यानवा भवितव्यम् ।

अङ्गद—न तावदस्या कपटासिन्धामे दूरमधिमआः स्म ।

हनुमान्—यह निश्चित ही रावण के द्वारा कैलायी गयी [माया] है।  
अगद—पर हम इसके कपट नाल मे दूर तक नहीं हूँचे हैं।

उद्घेगः

नृपतिजनितभयमुद्घेग । यथा सम्पात्यङ्के—

अङ्गद ( सोद्घेगम् ) ।

किं हृष्टा युवराज इत्यभिहित पापोऽहमिक्षाकुणा

किं सञ्चिन्त्य भयापि वानरपतेराज्ञेयमालभिता ।

आनन्दा शैलपरम्परास्वपि भया हृष्टा न सा मैथिली

किं बक्ष्यामि वनान्निवृत्य जडधीराणास्थिते राघवे ।

उद्घेग—राजभय से पैदा होने वाली घबडाहट को ‘उद्घेग’ कहते हैं। जैसे सपाति अरु मे—

अगद—( घबराने हुए ) भगवान् श्रीराम ने मुझ पापी को क्या देख कर युवराज रुग्न और मैंने भी यानराज सुपीव की आङ्गा को क्या सोच कर न्वीकार किया था। हाय। एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर भटकने पर भी मैं साता जी को न देख पाया। अब बिना बुछ पता लगाए इस वन से लौटता हूँ तो वहाँ आशा लगा कर बैठे हुए श्रीराम को मैं क्या बतला सकूँगा ?

विद्रवः

शङ्काभयनासकृतो विद्रव । यथा—

विद्रव—आशाका, भय या घबडाहट से पैदा होने वाली भगदड को ‘विद्रव’ समझना चाहिए। जैसे—

खरादिविहित घोर शुल्वा रुलकुल बने ।

शङ्का रामस्य सीताया भय गस्सतपस्तिनाम् ॥

दण्डकारण्य वन मे यह आठि राक्षसों का घोर कोलाहल सुन कर श्रीराम को आशंका, सीता जी को भय और तपस्तियों को घबडाहट उत्पन्न हो गयी।

एकैकृतं येचिदिच्छन्ति ।

बुद्ध आचार्यों का मन है कि ये भाव एक ही पात्र या व्यक्ति में एक साथ रहना चाहिए ।

### प्रिमर्शः

अथ विमर्श । ननु प्रिमर्श इति कोऽर्थः १ उत्त्यते—गर्भेण सन्धिनो-  
द्विजस्य वीजार्थस्य लोभनारिण आश्लेषणमयुक्तो [ यो ] भवति स  
विमर्श । यदाह—भरतमुनि —

विमर्शसन्धि—अथ प्रिमर्शसन्धि बहलाता हूँ । ( प्रश्न ) प्रिमर्श  
शब्द से क्या तात्पर्य है ? ( उत्तर ) गर्भसन्धि में जिस वीजार्थ का  
विकास हुआ था उसमें प्रलोभन आदि के द्वारा और अधिक जमागट  
यैदा कर देना 'प्रिमर्श' बहलाता है । जैसा कि आचार्य भरत मुनि ने  
( भी ) बतलाया है :—

गर्भनिभिन्नरीजार्थों पिलोभनकृतोऽपि वा ।

तस्य वाश्लेषसंयुक्तः स प्रिमर्श इति स्मृतः ॥ ९० ॥

जहाँ गर्भसन्धि में प्रकट या प्रिमित वीजार्थ प्रलोभन  
( व्रोध या दुर्मनि ) आदि के संयोजन के द्वारा और प्रिमित हो जाना  
हो वह 'प्रिमर्शसन्धि' कहलाता है ।

### अन्यस्तवाह—

प्रकीर्णस्यार्थजातस्य प्रिमर्शद् यत्र संश्लिः ।

शत्रोरुपनयो भूयान् प्रिमर्शः स च कथ्यते ॥ ९१ ॥

दूसरे आचार्य वा मन है कि जहाँ वितरे हुए या फैले हुए  
वार्यों वा पिचारपूर्वक सवरण ( एकत्रीकरण, वैनीकरण ) किया  
जाए तथा रात्रि वा सामर्थ्य बढ़ा चढ़ा रहे तो उसे 'प्रिमर्शसन्धि'  
मनमना चाहिए ।

### अन्यस्तवाह—

सम्प्रदाप्य यद् कार्यं प्रस्तावेनेह किञ्चन ।

मनस्यायाति सन्देहं प्रिमर्श केऽपि तं मिदुः ॥ ९२ ॥

अन्य आचार्यों का मत है कि जब कार्य या प्रयोजन प्राय पूर्णता की स्थिति तक पहुँच जाए और उनको पूर्णता के विषय में सन्देह भी बना रहे तो उसे कुछ आचार्यगण 'विमर्श सन्धि' मानते हैं।

अस्य विमर्शस्त्रिधा भवति—विलोभनसमुद्ग्रव , क्रोधज व्यसनजश्च ।  
तत्र विलोभनकृतो यथा—मायासीतापणेन रामस्य राक्षसैर्जनित सन्देह  
विमर्श । राघवाभ्युदये रावणेन आरठवृक्षसन्धौ जालिनी राक्षसी  
सीताल्पेण रामस्य जनित सन्देहे विमर्श । यदाह—

इन वीजार्थ का विचारपूर्वक संदरण या विमर्श तीन प्रकार से किया जाता है—( १ ) प्रलोभन के द्वारा ( २ ) क्रोध के द्वारा तथा ( ३ ) ( किसी ) विपत्ति के द्वारा ।

प्रलोभन ( विलोभन ) के द्वारा होने वाले 'विमर्श' का उदाहरण है—राक्षसों द्वारा माया-मीता को श्रीराम को अप्रित करते हुए मन्देह उत्पन्न करना । राघवाभ्युदय ( रामाभ्युदय ) नाटक में लंकाधिपति रावण के द्वारा आरंभ किये गए कूट-व्यापार में 'जालिनी' नामक राक्षसी को मीता रूप में श्रीराम को बतला कर सन्देह उत्पन्न करना 'विमर्श' है । जैसा कि वहाँ कहा गया है :—

कथमिथ विदधामि तस्य सन्धि कथममरेन्द्रगिरा भवामि वास ।

इति विपमविवर्तमानचिन्तात्तरलमतिर्व विनिश्चिनोमि किञ्चित् ॥

मैं इससे सन्धि कैसे कर लूँ ? और मैं देवताओं के अधिपति इन्द्र की प्रशस्तियों का लड़य कैसे बनूँ । आज हमें विरोधी विचारों के आवर्त्त में घूमने के कारण अस्थिरत्वाला होकर मैं कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ ।

क्रोधजो यथा—

शशुभिर्वित्सराजस्य पुरोरोधैनिर्दिशितः ॥ ९३ ॥

क्रोध से होने वाले 'विमर्श' को वत्सराज उदयन के नगर पर ऐरा दालकर शशुओं ने प्रकट किया है ।

व्यसनकृतो यथा वेण्याम्—युधिष्ठिर.

तीर्णे भीषमहोद्धौ कश्यपि द्रोणन्ते निर्वृते  
कर्णर्गीविषभोगिनि प्रशमिते शश्येऽपि याते दिवम् ।

भीमेन प्रियसाहसेन रमसादल्पावशेषे खेपे  
सर्वे जीवितमश्य वयममी वाचा समारोपिता ॥ (वि० ६।१)

विष्णु (व्यसन) से होने वाले 'गिरजाँ' का उदाहरण है, वर्णी सहार म युधिष्ठिर का निभ्न कथन—जब किसी प्रसार भीमरूपी महा समुद्र को पार कर लिया था, द्रोणरूपी अग्नि भी बुझ गयी, कर्णरूपी विष्णुर्प भी शान्त हो गया और शल्य भी स्वर्प को निधार चुरे थे। इतना सब होने और यिन्य के थे डे अश वे अवशिष्ट रह जाने पर साहसी भीमसेन न अपनी शीघ्रता और उद्धत कथनों से हम सभी का जीवन सफ्ट मे डाल दिया।

अस्य त्रयोदशाङ्कानि—अप्याद, सम्फेट, द्रव शक्ति, व्यवसाय, प्रसाद, शुति, खेद, प्रतिपेध, विरोधनम्, आदान, सादन, प्रोत्तेचना चैति।

रिमर्श सन्धि के तेरह अग होते हैं। यथा —(१) अप्याद (२) सम्फेट (३) द्रव (४) शक्ति (५) व्यवसाय (६) प्रसाद (७) शुति (८) खेद (९) प्रतिपेध (१०) विरोध (११) आदान (१२) सादन तथा (१३) प्रोत्तेचना।

अप्यादः

तत्र दोपप्रव्याप्ननमपवाद । यथा जानकीराघवे मायालक्ष्मणे  
रायण —

अवज्ञान श्वीति क्षितिधरमुताया कपिरमी-  
त्यधिक्षेपो नन्दिन्यथ रघुपतेऽरटरणम् ।

अमी दोपा मर्वे ध्रुवमधिगतोत्पाककटव  
वरिष्यन्ते धोर व्यसनमधुना राक्षमपते ॥ इति

अप्याद—किमी पात्र च दोपों को प्रर्यात ररना या उन दोपों का दर्णन वरना 'अप्याद' कहलाता है। ऐसे जानकीराघवे नाटक ये माया लक्ष्मण नामक अड म —

रायण—श्री समस दर परंताधिरान दिमात्य दो मुरी पार्यती जी का नेरे हात अप्यान ररना जब नि व नन्दी दो तू बन्दर हैं कह फर हाटरी थी तथा राघव की धर्मपत्नी का अपदूरण ररना।

( आज ) नेरे द्वारा किये हुए हम ये ( अब मुझे ) अपना फल दे रहे हैं तथा मुझ राक्षसाधिपति को ये अब भारी विपत्ति में डाल देंगे ।

### सम्फेटः

रोषग्रथितं वाक्यं सम्फेटः । यथा वेणीसंहारे—

सम्फेट—क्रोधपूर्ण सम्भापण करना 'सम्फेट' समझना चाहिए । जैसे वेणीसंहार में—

युधि—ननु भीमसुधोधनयोरिति कथ्यताम् ।

युधिष्ठिर—भीम और दुर्योधन का कहिये ।

चार्वाक —आ अविदितवृत्तान्त एव मा पृच्छसि ।

चार्वाक—अरे ! तुम बिना किसी बात को जाने ही भेरी बात काट रहे हो ।

यथा वा—वासवदत्तासङ्केतके ( रत्ना ३ )

वासवदत्त—अज्ञउच्च गिरजो ( बखु ) अर्थं जग्नो जो अज्ञ-उत्तस्त एवं पि हिअं जाणिअ पुणो वि कुपिदेदि । [ आर्यपुत्र, निर्लङ्घ ( सखु ) अयं जन य आर्यपुत्रस्य पदमपि हृदयं जात्वा पुनरपि कुप्यति ] ( रत्ना० अ० ३ )

अधिना वासवदत्ता सङ्केतक नामक ( रत्ना० अ० ३ ) अ० मे :—

वासवदत्ता—आर्यपुत्र, मैं बड़ी निर्लङ्घ हूँ । जो मैंने आपके हृदय की अभिलाषा जान कर भी ( अब तक ) इतना क्रोध किया ।

### द्रवः विद्रवथ

गुरुल्यतिक्षो द्रवः । शङ्कादिभिर्मनस क्षोमो विद्रव । स एव परिमपृतो द्रव । यथा वेणीसंहारे युधिष्ठिर,

गुरुणां बन्धूना क्षितिपतिसहस्रस्य पुरतः

पुरामृदस्माकं नृपसदसि योऽसौ परिमव ।

प्रिये तस्येदानी द्वितयमपि पारं गमयितुं

क्षमं प्राणाना वा कुरुपतिपशोर्वास्य निपनम् ॥ ( वे० ६।५ )

॥ इति ॥

**द्रव व विद्रव—**पूज्यजन की मर्यादा वा उल्लंघन करना 'द्रव' होता है तथा आशका आदि के द्वारा मानसिक क्षेभ हो जाना 'विद्रव' कहलाता है।

विद्रव ही जब किसी के अपमान वा सम्पत्ति करे तो 'द्रव' घन जाता है। चुनादरणार्थ वेणीमहार में

**युधिष्ठिर-सभा** में पहिले हम लोगों का जो अपमान हमार पूज्य गुरुजन, शुद्धिविदों और राजाओं के सम्मुख किया गया था उसका अन्त दो बातों से ही हो सकता है। (एक) हम लोगों वे प्राणों का अवमान या (दो) पशु तुच्छ लड़मति कीरपराज दुर्योधन का आन रण में हनन होना।

### शक्तिः

विरोधप्रराम शक्ति । यथा चूडामणिसहारे—

शक्ति—पिरोधों का शान्त हो जाना 'शक्ति' कहलाता है। जैसे चूडामणिसहार नामक ( नागा० अ० ५ ) अङ्क में—

जीमूतवाहन—नित्य प्राणामिधातात् श्रतिविरम कुरु प्राक् कृते  
चामुतापम् । ( ना० न० ५।२४ ) इत्यादि ।

### गरुडः

अज्ञाननिद्राययितो भवता प्रतिवेधित ।

सर्वमाणिवधादेप विरतोऽयप्रभृत्यहम् ॥इति॥ ( ना० न ५।२५ )

**जीमूतवाहन—**तुम अब प्राणियों वे हिंमा रूपी दुर्वर्जों से गिरत हो जाओ और पिछले कार्यों पर पश्चान्तराप फरो। इत्यादि।

**गरुड—**मैं अभी तक अज्ञान की निद्रा में सोया था। आन आपने उससे मुझे जगा दिया है। अब मैं आन से सभी प्राणियों की हिंसा करना बन्द बर रहा हूँ।

### व्यवसायः

प्रतिज्ञाहेतुसस्ति वाक्यं व्यवसायः । यथा वेणीसंहारे

पाषाणलकु—जानाति मुयोपनो जलसस्तम्भर्ना विद्याम् इति ।

व्यवसाय—प्रतिज्ञा तथा हेतु आदि से युक्त वचनागती को ‘व्यवसाय’ कहते हैं। जैसे—वेणीसहार नाटक में—( अङ्क ६ )

पाञ्चालक—दुर्योधन जलस्तम्भनी विद्या को जानता है ॥ इत्यादि।

### प्रसङ्गः

अपस्तुतार्थव्यापन प्रसङ्ग । यथा तत्रैव—

प्रसङ्ग—किसी अप्रस्तुत तथ्य या घटना का उल्लेख करना ‘प्रसङ्ग’ कहलाता है। जैसे वेणीसंहार नाटक में ( अङ्क ६ )

‘हा भीम’ हा कान्तारवासिय, हा जतुगृहसमुद्रसमुत्तरणयान-पात्र’ इति ।

ओ मेरे प्रिय भीम, वनवास में हम लोगों के सबसे बड़े सहायक, लाय के महल रूपी समुद्र को पार करवाने में हमारे लिये जलयान ( जहाज ) स्वरूप, इत्यादि ।

### चुतिः

तर्जना आर्धर्षणा । अधिक्षेपकृत वाक्य चुतिः । दुरुक्तिपरिणामा आहुतिरत्राभिमता । यथा तत्रैव-पाञ्चालकः—

‘जन्मेन्द्रोविमले कुले व्यपदिशसी’त्यादि ( वे० सं० ६।७ )

चुति—किसी पात्र का अपमान करना ‘चुति’ कहलाता है। यहाँ अपमान किसी ढाट ढपट [ तर्जना ] या किन्हीं ऐसे शब्दों के कथन द्वारा किया जाता है जिसका परिणाम भयंकर या विपरीत हो जाए। जैसे वेणीसहार नाटक में—

पाञ्चालक—तुम अपना जन्म निर्मल चन्द्रवश मे बतला रहे हो और इत्यादि । ( वे० सं० अ० ६।७ )

### खेदः

मनश्चेष्टासमुत्पन्न श्रमः खेदः । यथा जानकीराघ्ने पष्ठेऽङ्गे

### रामः

इहैवास्ते सीता करकिसलयन्यस्तवदना

विनिन्वाना वातीं तत्र भम च साध॑ त्रिजट्या ।

विमर्दे रक्षोभि. भतिदिवसमाविर्गवति न

समुद्रान्तप्राणा क्षिपति रजनी वासरमपि ॥

**खेद—**मानसिक या शारीरिक कार्यों के बरने से होने वाली थकावट को 'खेद' समझना चाहिए। जैसे ज्ञानवीरग्रन्थ के पघु अंक मेंः—

राम—अपने कर किसलय पर भैंह टिका कर त्रिजटाराक्षसी के साथ सीता तुम्हारे और मेरे समाचारों पर विचार करती हुई यहाँ बैठी हुई है। यह प्रतिदिन किये जा रहे राश्रसों के सहार के कारण मन में आशंका लिये हुए दिन और रात को चिताती है और प्राणों में आउलता लिए हैं।

### प्रतिपेधः

ईप्सितार्थप्रतीघात् प्रतिपेधः । यथा चूडामणी—

**प्रतिपेध—**इष्ट पदार्थ की प्राप्ति में विघ्न का आ जाना 'प्रतिपेध' कहलाता है। जैसे चूडामणि अक मे

शहूचूड—'गोकर्णमर्णवतटा'मित्यादि ( नागा० ५।६ )

**शहूचूड—**मैं समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण लीर्थ को प्रणाम कर शीघ्र ही उस स्थान पर आ पहुँचा हूं जहाँ सर्पों का हनन किया जाता है, इत्यादि ।

### विरोधनम्

कार्यात्ययोपगमनं विरोधनम् । यथा वेणीसहारे कन्तुकी—

एष दुरात्मा कौरवापसद क्षतजपाटलाम्बर समुत्थितरक्तभीपण-  
गदाशनि उद्यतकालदण्ड हवान्तः तत्रभवती पाष्ठाल ( राज ) तनया-  
मितस्तत परिमार्गयमाण इत पवाभिवर्तते इति । ( व० सं० अ० ६ )

**विरोधन—**कार्य या उद्देश्य के पूर्ण होने के अपनार पर इसी विघ्न का सकेत या प्राप्त हो जाना 'विरोधन' कहलाता है। जैसे वेणी-  
सहार नाटक में

कञ्जुकी—रक्षा वीजिये महाराज, यह नीच फौरपति जिसने परम  
और शारीर खून से लथपथ होने से लाल हो चुके हैं और जो अपनी रक्त  
रंजित गदा को कालदंड के समान ऊपर उठाने हुआ यम के समान  
द्रौपदी को ढूढ़ता हुआ इधर ही चला आ रहा है।

### आदानम्

वीजकायोपगमनम् आदानम् । यथा पहित्यङ्के—यासपदर्ता—  
अज्ञात्तु साअरिआ विवज्ञद् । परिचयदु अय्युठतो । [ आर्यपुर,

सागरिका विषयते । परित्रायतान् आर्यपुत्र ॥

राजा—( सहर्पम् ) एष गच्छामीति ( रत्ना० अ० ४ )

आदान—बीज भूत जार्यों का समृद्ध या साधनों का उपलब्ध हो जाना ‘आदान’ समझना चाहिए । जैसे पलित्यङ्क में—वासपदत्ता—आर्यपुत्र, सागरिका मर रही है । उसे बचाइये । राजा—( सहर्प ) अभी जाता हूँ ।

### सादनम्

अपमानकृत वाक्यं सादनम् । यथा वेणीसंहारे—

‘ऊरु करेण परिघट्यत’ ( वे० सं० ६१२५ ) इत्यादि ।

सादन—अपमानपूर्ण वचनों का कथन करना ‘सादन’ कहलाता है । जैसे वेणीसंहार में

‘बडे जोश से अपने हाथ से जांघों को ठोकने वाले दुर्योधन के सम्मुख जिसका बख खींचा गया था और केशों के खींचने से जिसकी वेणी खुल गयी थी वही द्रौपदी अब कहाँ है ?’ इत्यादि

### प्ररोचना

प्ररोचना च विजेया संहतार्थग्रदर्शिनी ॥ ९४ ॥

यथा जानकीराघवे पष्टेऽद्वे लक्ष्मण—‘दूरमोक्तकुम्भकर्णविटपी’ व्यादि ।

प्ररोचना—प्रारम्भ किये हुए कार्य का निर्वाइ या पूर्णता दिखलाने वाले कथन को ‘प्ररोचना’ कहते हैं । जैसे जानकीराघव के पछु अंक ने लक्ष्मण—उन्नत वृक्ष के समान दूर तक फैल जाने वाले कुम्भकर्ण रूपी वृक्ष ( ना० ल० २० को० पृष्ठ १० ) को ‘इत्यादि ।

### निर्वहणम्

समाप्तिः सम्यगर्यानां प्रस्तुतानां महाजसाम् ।

नानाभावोत्तराणाञ्च भवेन्निर्वहणं तु तत् ॥ ९५ ॥

निर्वहणमन्धि—आरम्भ किये गए उन सभी महत्वपूर्ण एवं उत्तमोत्तम भावों से युक्त कार्यों की पूर्णतः समाप्ति या फलोपलद्धि हो जाना ‘निर्वहणमन्धि’ कहलाता है ।

पूर्वं प्रस्ताविताना बीजादीनामर्थाना यत्र निर्वृद्धतया समापनं  
तत्रिवर्धहृणमित्यर्थः । अस्य च चतुर्दशाङ्कानि । यथा—अर्थ, प्रथनं,  
निर्णय, परिभाषण, द्युतिः, प्रसाद, आनन्द, समय, अनुयोगः,  
उपगृहन, भाषण, पूर्ववाक्यं, काव्यसंहार, प्रशस्तिरिति ।

अर्थान् पहिले से प्रस्तावित बीज आदि कार्यों का अपनी उद्देश्य-  
पूर्ति या फलप्राप्ति हो जाने पर पूर्णत समापन हो जाता हो तो उसे  
निर्वर्धहृणसन्धि समझना चाहिए । इस सन्धि के छोड़कर अंग होते हैं ।  
यथा —(१) अर्थ, (२) प्रथन, (३) निर्णय, (४) परिभाषण, (५)  
द्युति, (६) प्रसाद (७) आनन्द, (८) समय, (९) अनुयोग, (१०)  
उपगृहन, (११) भाषण, (१२) पूर्ववाक्य, (१३) काव्यसंहार तथा  
(१४) प्रशस्ति ।

अर्थः

तत्र प्रधानार्थोपक्षेषं अर्थः । यथा मारीचवच्छितके—

अर्थ—मुख्य कार्य या उद्देश्य का निर्देश करना ‘अर्थ’ कहलाता  
है । जैसे ‘मारीचवच्छितक’ ( नाटक ) में—

लक्षण—‘आर्य, प्रविश्य लङ्घा गृद्धता पौरजनानामतिथिसत्कार ।’

लक्षण—आर्य, आप लकड़ में प्रवेश धीजिए और वहाँ के  
नागरिकों द्वारा किये गए सत्कार को स्वीकार कीजिये ।

ग्रथनम्

कार्यणा वहनामुपक्षेषो ग्रथनम् । यथा जानकीराष्ट्रे संहारे  
लक्षण—

ग्रथन—अनेक कार्य या उद्देश्यों को फिर से दोहराना या संवेतित  
परना ‘ग्रथन’ कहलाता है । जैसे जानकीराष्ट्र नाटक ये संहार नामक  
( अन्तिम ) अक मे—

ते राक्षसा प्रतिदृताः खरदूषणात्मा  
निर्विमृश्यचिजनितश्च तपो मुनीनाम् ।  
यत्रस्य शत्यमयमस्तमितो दशास्य  
स्तस्य त्वयाद्य निदिता च विभीषणे थी ॥

लक्ष्मण—आज सर दूषण आदि सभी राक्षस मार डाले गए हैं, मुनिजन की तपत्या में अब कोई पिछन नहीं रह गया, देवराज इन्द्र का शत्रु रारण भी मार डाला गया और उसका राज्य भी आपने विभीषण को दे दिया।

### निर्णयः

अनुसूतार्थकथनं निर्णयः । यथा पलित्यङ्के—

स एवाहं मन्दभाग्य । ( रत्ना ४ )

रत्नावली—सावद् अब मंदभाग्यि ( सैवाहं मन्दभागिनी )

( रत्ना० अ० ४ )

निर्णय—( नायक आदि के हारा ) अपने पिछले किये गये कार्यों का धर्णन करना 'निर्णय' कहलाता है। जैसे पलित्यङ्क में—मैं वही भाग्यहीन हूँ ।

रत्नावली—और मैं भी वही अभागिनी हूँ ।

### परिभाषणम्

परिवादश्चतं परिभाषणम् । यथा वेणीसंहारे भीमः—

मुद्भ्रु भामार्य, क्षणमेरम् । सयमयामि तावत् सुयोधनरुभिरोक्षितेन पाणिना पात्रात्या दुःशासनहस्तावक्षुष केशपाश्यमिति ।

परिभाषण—पत्रों का परस्पर आरोपपूर्ण कथन या दोषकथन 'परिभाषण' कहलाता है। जैसे वेणीसहार में—( अङ्क ६ )

भीम—महाराज मुझे एक क्षण के लिये छोड़ दें। मैं पहिले हुयों-घन के रक्त से सने इन हाथों से द्रीपदी की उस वेणी को तो बांध दूँ जिसे दुश्शासन ने खीच वर सोला दिया था ।

### द्युतिः

ईर्प्याम्लेशोपशमनं द्युतिः ॥ ९६ ॥

यथा कामदक्षापूर्ति

चन्द्रः—पुच्छिओ कि पि अगुणरूप आचरिदं, तं एस्तेसं सञ्च-खण्डिलं कदुअ पसरेमि । [ पुच्छ, किमप्यननुरूपं आचरितं, तदेकदेशं यत्खण्डकं कृत्वा प्रसारयामि । ]

**धूति—** इच्छा और क्लेश का हड़ जाना 'धूति' कहलाता है। जैसे कामदक्ष के अतिम अर्थ में —

**चन्द्र—** पुत्रियों, मैंने तुम्हारे साथ जो थोड़ा अनुचित व्यवहार किया था इसलिये तुम्हें इष्ट देने वाली अपनी किरणों को मैं सहस्रों भागों में ढुकड़े करते हुए ऊपर फेंक देता हूँ।

### प्रसादः

**शुश्रूपाद्युपपन्नार्थः प्रसादः ॥ ९७ ॥**

#### यथा पलित्यक्षे

**वासवदत्ता—** अइ एचिअ दाव बहिणिए बहिणिर्चर्ण भोदु ।  
( अये, एतावदपि तावद् भगिन्या भगिनीत्व भवतु । )

**प्रमाद—** शुश्रूपा आदि के द्वारा प्रसन्न करना या अपनी आज्ञा कारिता का प्रदर्शन करना 'प्रसाद' कहलाता है।

#### जैसे पलित्यक में—

**वासवदत्ता—** बहिन, इसी से अब हम दोनों बहिनें बन जाएँ।

### आनन्दः

**वानिलक्षार्थागम आनन्दः । यथा तत्रैव—**

**राजा ( बाहू श्र्यार्य )—** को देव्याः प्रसाद नानुमन्यते ।

**आनन्द—** अपने इष्ट अर्थ या वस्तु की प्राप्ति हो जाना 'आनन्द' कहलाता है। जैसे उसी अक में—

**राजा—** ( हाथ कैलाते हुए ) देवी के प्रसाद को भला कौन स्वीकार न करेगा ?

### समयः

**विरोधप्रगमन समयः । यथा सत्रैव**

**वासवदत्ता—** अञ्जउच्च, दूरे एदाए णादिजणो तह करेदु अञ्ज-उच्चो जह बघुअण ण सुमरेदि । [ आर्यपुन, दूरे एतस्याः ज्ञातिज्ञ-तथा करोत्वार्थपुन यथा बन्धुजनं न स्मरति । ]

**समय—** विरोध या द्वेष का शान्त हो जाना 'समय' कहलाता है।  
जैसे उसी अक में—

वासवदत्ता—आर्यपुत्र, इसका नैहर बहुत दूर है अतएव आप ऐसी व्यगस्था रखें कि यह अपने बान्धवों की याद न करे।

### अनुयोगः

युक्तकार्यान्वेषणमनुयोगः । यथा जानकीराघवे संहाराके—

राम ( सदर्षम् ) वत्स विभीषण, आनन्दवाप्पाकुलितलोचनस्त्वां न पश्यामि । सत्यं कथयसि न दग्धा जानकी ।

अनुयोग—प्रस्तावित कार्य की जाच या अन्वेषण करना ‘अनुयोग’ कहलाता है। जैसे जानकीराघव के अतिम अक मे ।—

श्रीराम—( प्रसन्न होकर ) वत्स विभीषण, मैं आनन्दाश्रु से आंखों के भर जाने के कारण तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ । क्या सचमुच सीता आग मे नहीं जली ?

### उपगृहनम्

अद्युतमासिरुपगृहनम् । यथा वेणीसंहारे—एते खलु भवन्तो व्यासवाल्मीकीत्यादि ।

उपगृहन—किसी आश्चर्योरह पश्चार्थ की प्राप्ति हो जाना ‘उपगृहन’ कहलाता है। जैसे वेणीसहार मे ।—ये व्यास वाल्मीकि आदि—

### भाषणम्

सामवादादिसभ्यन्तं भाषणं भाषणम् । यथा

विश्वभूति—स्थाने देवी देवीशब्दमुद्वहसि । इत्यादि ।

भाषण—भास, दान आदि से पूर्ण सम्भाषण को ‘भाषण’ कहते हैं। जैसे विश्वभूति—( वसुभूति ? ) [ रला० अङ्क ६ ]

हे देवी, आपको सम्बोधित किया गया देवी शब्द अपने गौरव के अनुरूप ही है इत्यादि ।

### पूर्ववाक्यम्

चीजोद्वाटनं पूर्ववाक्यम् । यथा वेणीसंहारे

भीमः—बुद्धिमतिके, क सा भानुमती । परिभवतु सम्प्रति पाण्डव-दारान् ।

**पूर्ववाक्य—** जीज की फिर से उद्घाचना करना 'पूर्ववाक्य' कहलाता है। जैसे वेणीसहार मे—

**भीमसेन—** दुद्धिमतिवे, घरला वह भानुमती अब कहाँ है? अब आकर वह पाण्डुदंपत्नी को अपमानित क्यों नहीं करती?

### काव्यसंहारः

वरप्रदानमप्नासि काव्यसंहारः। यथा वेणीसंहारे—

'कोषान्यैस्सरलं हत रिपुकुलम्' इत्यादि ।

**काव्यसंहार—** (नायक को) वर आदि की प्राप्ति होना 'काव्यसंहार' कहलाता है। जैसे वेणीसहार मे—

कोध मे आकर हमने सम्पूर्ण शब्दुपक्ष का सहार कर डाला। (पाचों भाई सुरक्षित रूप मे जीवित बच गए, दुर्नीति से उत्पन्न होने वाले पराभव रूपी सागर को द्रीपदी ने पार कर लिया। आप भगवान पुष्पोचनम होकर भी हमे आदर से सम्बोधित कर रहे हैं अतः इससे अधिक अब और क्या अभ्यर्थना फूल कि जिससे प्रसन्नता अधिक हो?)

### प्रशस्तिः

नृपद्विजातिगवादीना शिवावधारणपूर्वं काव्यस्यावधारणं प्रशस्तिः ।

### यथा—

प्रीतः पृथ्वीमवतु नृपति स्वस्ति भूयाद् द्विजेभ्य-

क्षेम गावो दधदु समये तोयमव्दा सृजन्तु ।

काव्यात् काम स्कुटसमुधावाहिनी काव्यकर्तुं

कीर्ति स्तिम्या रघुपतिकथेवानधा दीर्घमास्ताम् ॥

वरि (नाट्यकार) द्वारा राजा, श्रावण वथा गी आदि की महल-पामना करते हुए काव्य का समापन 'प्रशस्ति' कहलाता है। जैसे— प्रसन्न होकर राजा पृथ्वी का पालन ये श्रावणों का कल्याण हो, गीएं कुशलतापूर्वक रहें और यथासमय मेघ जल बरसाते रहें। इस रूपना वे फारण वरि की कीर्ति सुपार्विणी हो जाए और वह रूपना रामायण ऐ समान प्रशस्त और दीर्घजीवी यजे।

इति चतु पृथ्वीनि नाटकेऽपश्यं कविभिः कर्तव्यानि । सम्मि-

श्राण्यपि द्वित्रिसंख्यायुक्तानि अन्तरसन्धिषु भवत्येतानि रसभावपेक्षया ।  
यदाहाचार्य —

नाटक में इन चौंसठ अङ्गों का कवित्वन अवश्य निवेश करें। रस या भाव को ध्यान में रखने हुए इन अङ्गों को मिलाते हुए दो या तीन अङ्गों में भी इन सन्धियों में एक साथ रखा जा सकता है। जैसा कि आचार्य भरत ने कहा है:—

यथा-सन्धि तु कर्तव्यान्यङ्गान्येतानि नाटके ।

कविभिः काव्यकुशलैः रसभावमपेक्ष्य च ॥ १८ ॥

मन्मिथ्राणि कदाचित् स्युडित्रिसंख्याप्रमाणतः ।

जात्वा कार्यमवस्थाञ्च मन्धिष्ठङ्गानि नाटके ॥ १९ ॥

( ना० शा० २१।१०५-१०६ )

कुशल नाट्यकार को हपक में इन सन्धियों की योजना रस या भावों को देख कर करना चाहिए जो सन्धि के साथ अनुकूलता तथा स्थिति के साथ औचित्य रखें।

अभिनय के अवसर कार्य और अवस्था को ध्यान में रख कर इन सन्धियों को पृथक् पृथक् या दो तीन अङ्गों में मिला कर नाटक में संयुक्त करना चाहिए।

नाटकमिदं कथावन्धमालोक्य पूर्वमागे विस्तरणीयं पश्चाद्देहं च संहारणीयम् । तस्मिंश्च य उदाचा भावास्तेऽधारणीया ।

यथाहाचार्यः

काढ्यं गोपुच्छाग्रं कर्तव्यं काव्यवन्धमासाद्य ।

ये चोदाचा भावास्ते सर्वे पृष्ठतः कार्याः ॥ १०० ॥

( ना० शा० २०।४२ )

अर्थात् नाटक की कथावस्तु का पूर्वार्थ में विस्तार तथा उत्तरार्थ में संक्षेप करना चाहिए तथा उत्तरार्थ में देवल उदाच या तीव्रतर भावों को ही रखना चाहिए। जैसा कि आचार्य भरत ने खतलाया है:—

नाट्यरचना काढ्य के तत्वों का मामिक स्पर्श लिए हुए और आकार में गोपुच्छ जैसी रहे तथा जो इसमें भी उदाच या तीव्रतम भाव हों उन्हें अन्त में रखा जाए।

निर्वहणे चास्मिन् सन्धौ अद्भुतरस वर्तन्य ।

यथा—

सर्वेषां काव्यानां जानारसभावयुक्तियुक्तानाम् ।

निर्वहणे कर्तव्यो नित्यं हि रसोद्भुतस्तज्ज्ञः ॥ १०१ ॥

( ना० शा० २०।४३ )

विपदन्तरनिर्माणं केचिदिच्छन्ति मूर्खः ।

ज्ञानक्या ज्यलनज्यालाप्रवेशेन विपत् पुनः । १०२ ॥

निर्वहणसन्धि में अद्भुतरस की योजना अन्त में अवश्य की जाए।  
जैसा कि कहा भी है—

रस तथा भावों से पूर्ण प्रत्येक नाल्यरचना के अन्त में अद्भुतरस की योजना अवश्य की जाए।

दुष्क विदानों का मत है कि अन्त में एक विपत्ति की ओर योजना की जाए जैसे रात्रि की विजय के बाद सीताजी की अग्निपरीक्षा घतलाना।

अपरस्त्वाह—मुखादिसन्धीना रीतिक्लोपन्यासश्च लेश्तोऽत्र कर्तव्य इति च ।

दूसरे आचारों का मत है कि मुख आदि सन्धियों में होने पाले कार्य या घटनाओं का सज्जेप में निर्वहण सन्धि में भी सकेन रहा जाए।

अथ सन्ध्यन्तराणि

एतेषामेव सन्धीनामेष्विश्वतिप्रदेशा अर्थवशाद् भवन्ति । यथा—

साम भेदः प्रदानञ्च दण्डश्च वध एव च ।

प्रत्युत्पन्नमतिलक्ष्म गोपस्पलनभेद च ॥ १०३ ॥

साहसश्च भयश्चेव धीर्माया क्रोध एव च ।

रुजः संग्रणं श्रान्तिस्तथा हेत्वग्रधारणम् ॥ १०४ ॥

दूतोपधी तथा स्वमधित्रिं मद् इति स्मृतम् ॥ १०५ ॥

( ना० शा० २१।४८-५० )

प्रयोजनवशाद् यावन्त एते प्रमेष्ट शम्यन्ते तावन्तं सन्धिषु प्रदर्श्य-  
यितन्त्रा ।

अन्तरसन्धियाँ या सन्ध्यन्तर—कथावस्तु या नाट्यरचना के प्रये जनयश इन सन्धियों से इक्कीस अन्तरसन्धियों का निवेश किया जाता है, ये सन्ध्यन्तर' (प्रदेश) कहलाते हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं :—(१) साम, (२) भेद, (३) प्रदान (दान), (४) दण्ड, (५) वध, (६) प्रत्युत्पन्नमतित्व, (७) गोप्रस्थलन, (८) साहस, (९) भय, (१०) धी, (११) माया, (१२) कोष, (१३) रुक्, (१४) संवरण, (१५) ध्रान्ति, (१६) हेत्ववधारण, (१७) दूत, (१८) उपधि, (१९) स्वप्न, (२०) चिन्म तथा (२१) मद। सन्धियों से नाटकीय कथावस्तु के प्रयोजन के लिए जितने अङ्ग असुक्ल हों उन (अङ्गों) को योजना इनमें से लेकर प्रयोग प्रस्तुत करना चाहिए।

इनके 'क्रमशः' लक्षण इस प्रकार हैं —

### साम

तत्र मधुरवचनैरनर्थान्विर्तनवाक्यं साम । यथा कुम्भाङ्के सारण—  
'ज्ञाता यस्य वृहस्यतिस्तदखिलं देवो न जानाति किमित्यादि' ।

साम—मधुर वचनों द्वारा किसी विपत्ति से सरक्षण का कथन करना 'साम' कहलाता है। जैसे कुम्भाङ्क में सारण—जिसे वृहस्पति जान सकता है वसे क्या आप नहीं जानते ? इत्यादि ।

### भेदः

भेदः पृथग्भाव । यथा प्रतिज्ञाभीमे भीमः—

भेद—भिन्न या अलग हो जाना 'भेद' कहलाता है। जैसे प्रतिज्ञा-भीम नामक अंक में—

अत एवाद्यप्रभृति भिन्नोऽहं भवद्वय । इत्यादि ।

भीम—आज से मैं इसी कारण आप लोगों से अलग हो रहा हूँ । इत्यादि ।

१. सन्ध्यन्तर या सन्धियों की अवान्तर दशाओं का नाट्यशास्त्र में उल्लेख प्राप्त होता है। भरत और भोज के ग्रन्थों में धी के स्थान पर 'ही' तथा उपधि के स्थान पर 'लेख' मिलता है। नाट्यदर्शण ने सन्ध्यन्तरों को भरत से भी प्राचीन नाट्यमन्त्रदाय से भाग्यत परम्परागत अङ्ग माना है (ह० नाट्यदर्शण c. o. s पृ० १०२) प्राचीन होने के कारण ही भग्निदं रहने से नाट्यदर्शणकार तथा धनिक ने इनके हाशण नहीं दिये ।

## दानम्

दानं यथा नागानन्दे वध्यशिलायां जीमूतवाहन —

संरक्षता पक्षगमद्य पुण्य मयाजितं यत् स्वर्गरीदानात् ।

भवे भवे तेन ममैवेवं भूयात् परार्थं स्वलु देहलाभः ॥

( ना० नं० ४१२६ )

प्रदान—दान का देना ही 'प्रदान' कहलाता है। जैसे वध्यशिला मे —

जीमूतवाहन—इस नाग की रक्षा के लिए अपने शरीर को प्रदान करने पर मैंने जो पुण्य प्राप्त विद्या इत्यादि ।

## दण्डः

दमन दण्डः । यथा रत्नावल्या तृतीयेऽद्वे

चेटी—सहि सामरिण, अब्नंतरं पविसिअ वहं वधन वा पावेहि ।

[ सखि सामरिके, अभ्यन्तर प्रविद्य प्रविश्य वधं बन्धनं वा प्राप्नुहि । ]

दण्ड—नियन्त्रण रखना या सजा देना 'दण्ड' कहलाता है। जैसे रत्नावली के तृतीय अङ्कु मे—

चेटी—सहि सामरिके, चलो अब्र भीतर और वध या कारागर प्राप्त कर ।

## वधः

वधो व्यापाद । यथा कुलपत्येऽ रावण—भवत्वस्य दोर्दर्पमपकृत्य सुखेन लङ्घा गच्छामीति ।

वध—नाश या हनन करना 'वध' कहलाता है। जैसे कुलपत्येऽ मे—

रावण—ठीक, अब मैं पहिले इसको भुजबल वा मजा चराऊँ और फिर लंका को चलूँ ।

## प्रत्युत्पन्नमतित्वम्

प्रत्युत्पन्नेऽर्थे मतिवैदर्यं प्रत्युत्पन्नमतित्वम् । यथा चित्रशा-  
लिकायाम्—

**प्रत्युत्पन्नमतित्व—** कोई समस्या या संकट पैदा हो जाने पर दुष्टि कौशल का प्रदर्शन ‘प्रत्युत्पन्नमतित्व’ समझना चाहिए। जैसे चित्रशालिका मे :—

**माठरः—**

एक गदा दुरीया आअदा । [ एक गता द्वितीया आगता । ]

**माठर—** एक गया और दूसरा आ गया ।

**धरणी—**

अज्ञ, भण भण का गदा का आगदा । [ आर्य, भग भण का गता का आगता । ]

**धरणी—** आर्य, कौन गया और कौन आया ?

**माठरः—**

मम वदुस्स सीसवेअणा गदा वभुमखा आ अदा । [ मम वृद्धस्य शीर्षवेदना गता वुभुक्षागता ]

**माठर—** मुझ घूड़े का सरदर्द गया और भूख आयी ।

**गोत्रस्तलितम्**

नामान्तरप्रहृणं गोत्रस्तलितम् । यथा रम्भानलकूचरे—

**गोत्रस्तलित—** सहसा इसी ( प्रतिपक्षी ) का नाम मुँह से निकल जाना ‘गोत्रस्तलित’ कहलाता है । जैसे रम्भानलकूचर मे :—

नल—प्रसीद भेनेऽहमुपारतोऽस्मि

नल—मैने, तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं मर रहा हूँ ।

रम्भा—प्रसादतां साहमपैमि रम्भा ।

रम्भा—आप उसे [ मेना को ] मनाइये, मैं रंभा हूँ और यहाँ से अब जा रही हूँ ।

नल—अहो विधिर्मे पदसन्निधिस्ते

करोति गोत्रस्तलिताभिशङ्काम् ॥

नल—मेरा यही तो दुर्भाग्य है कि मेरे द्वारा उच्चरित [ मेने ] शब्द [ जिसका अर्थ है समझना ] अपने भमीपतर्ता शब्दों के बारण नुन्हें ‘गोत्रस्तलित’ की आरांका उत्पन्न करवा रहा है ।

## साहसम्

सहसैव शीरमनपेश्य कार्ये प्रवृचिः साहसं सहसा जातम् ।  
यथा—श्मशानाङ्के मालतीदर्शनार्थं माधवस्य भूतेषु महामासविक्रय ।

साहस—शरीर की बिना परबाह किये अकस्मात् आने वाले कार्य में [ प्राणपण से ] जुट जाना 'साहस' कहलाता है । जैसे श्मशानाङ्क में माधव का मालती को प्राप्त करने के लिए महाभूतों को अपने शरीर वा मास प्रदान करना [ महामासविक्रय ] ।

## भयम्

भयं भीति । यथा तत्रैव मालत्या अघोरघण्टाद्वी ।

भय—डरना 'भय' समझना चाहिए । जैसे इसी में सालती का अघोरघट से डर जाना ।

## धीः

परचिचोपलक्षिका बुद्धिर्धी । यथा मुद्राराक्षसे तृतीयेऽङ्के कृतक-  
कलह कृत्वा चाणमये निष्कान्ते—

धी—दूसरों के मन की घात ताड जाने की बुद्धि रखना 'धी'  
समझना चाहिए । जैसे मुद्राराक्षस वे तृतीय अङ्क में बनावटी कलह  
के बाड चाणमय के चले जाने पर :—

कञ्चुकी—दिव्या देव इदानी देव. संवृत ।

चन्द्रगुप्त. ( स्वगतम् )—एवमस्मासु निष्ठामाणेषु स्वर्णार्थ-  
सिद्धिकामं सकामो भवत्वार्थं इति ।

कञ्चुकी—चलो अच्छा हुआ, अब आप राजा हो गए ।

चन्द्रगुप्त—( स्वगत ) हमारे द्वारा इसी प्रकार रहने पर आर्य अपने  
कार्यों में मिद्दि प्राप्त करें ।

## माया

मयेन दानवेन सुराँश्छरलयितु प्रयुक्त क्षय भाया । यथा सुग्री-  
वाङ्के मायाद्वनुमान् ।

माया—वेवताओं को छलने के लिए मय दानव द्वारा किया हुआ प्रथम जैसा कार्य ‘माया’ समझना चाहिए। जैसे सुप्रीवाङ्क में माया-हनुमान् के प्रयोग द्वारा सुश्रीर को ध्रुम पैदा करना।

**क्रोधः**

क्रोधः कोपः । यथा प्रतिज्ञाभीमे—

भीम—आ शैख्यापसद इत्यादि ।

क्रोध—गुस्मा आना ‘क्रोध’ कहलाता है। जैसे प्रतिज्ञाभीम अङ्क मे—

भीम—अरे नीच नट, अमगलपाठक आदि ।

**रुक्**

प्रहारादिप्रभवा, वेदनाः रुजः । यथा शक्त्यद्वे लक्षण । चूडामणौ जीमूतवाहन । लामकायने स एव । तत्र ते पीडा नाट्यनित । अन्येऽपि मन क्षोभबननमनिमित्तदर्शनमपि रुजापक्ष एव व्याचक्षते । यथा (मृच्छकटिके) चारुदत्त—

शुष्कदुमगतो रीति आदित्यभिमुखं स्थितः ।

कथयत्यनिमित्तं मे वायसो ज्ञानपण्डितः ॥ (म० क० १११)

रुज—चोट आदि से होने वाला कष्ट ‘रुज’ कहलाता है। जैसे ज्ञान्यङ्क मे लक्षण को चोट लगना। चूडामणि अङ्क मे जीमूतवाहन को चोट लगना। लामकायनैः अङ्कैः मी उसे ही चोट लग जाना। इन अङ्कों मे ये पात्र शारीर कष्ट का ‘असुभव’ करते हैं [या शरीर की पीड़ा का अभिनय करते हैं]। कुछ आचार्यों का मत है कि मानसिक क्षोभ या अपशकुन का दिखलाई पड़ना भी ‘रुज’ ही का एक रूप है। जैसे—मृच्छकटिक मे [अपशकुन से होने वाले कष्ट का उदाहरण] चारुदत्त—ज्ञान या संकेत देने मे चतुर यह कौआ सूखे पेड़ पर चढ़ कर और सूर्य की ओर मुँह करते हुए रोकर मुक्ते भावी सकट की सूचना दे रहा है।

**संवरणम्**

कथान्तरेऽनिख्यमाणे यथाकार्यपेक्षित्या (यत्) संवरणं तत्संवरणम् । यथानुतापे

१. लामकायनाङ्क—पुष्पदूषितक प्रकरण का दूसरा अङ्क ।

**चितामुखः—**केण सा गव्यदासी जीआदिदा ? [ केन सा गर्भदासी जीवापिता ? ]

**सूमाय—**महती खल्वियं कथा, पथि श्रोप्यसि ।

**मंवरण—**आग्रहयक कार्यों के आजाने पर अग्रान्तर यात्रालाप को चन्द कर देना 'मंवरण' कहलाता है । जैसे अनुतापाङ्कु में :—

**चितामुख—**इस जन्म की दासी को मिसने निन्दा कर दिया ?

**सूमाय—**यद् वडी लम्बी कहानी है । मैं इसे रास्ते में कहूँगा ।

**आन्तिः**

**आन्तिर्ग्रंथम् ।** यथा वेणीसंहारे युधिष्ठिरस्य भीमे एव दुर्योधन-  
बुद्धि ।

**आन्ति—**सन्देह या मिकल्प का उत्पन्न हो जाना 'आन्ति' कहलाता है । जैसे वेणीमहार में युधिष्ठिर का भीम को दुर्योधन समझ लेना । हेरवधारणम्

**हेत्ववधारण हेतोर्मिथ्या—कल्पना । यथाधत्यामाङ्के—**

**दुर्योधनः—**साधु अङ्गराज, साधु । निपुणमभिहितम् ।

**कर्णः—**म चायं ममैकस्याभिप्राय । अन्येऽभियुक्ता अपि नेवेदमन्यथा मन्यन्ते ।

**दुर्योधनः—**एषमेतत् क सन्देह ।

**दत्त्यामयं सोऽस्तिरथो वध्यमानं किरीटिना ।**

**सिन्धुराजमुपेक्षेत नैवं चेत्कथमन्यथा ॥** ( वै० सं० ३।२८ )

**हेत्ववधारण—**किमी मिथ्या कारण की कल्पना कर लेना 'हेत्ववधारण' कहलाता है । जैसे अश्वत्यामाङ्क में :—

१. अनुतापाङ्कु = छठिनराम नाटक के एक झड़ का नाम । इस नाटक में एगामासुर के गुप्तचर चितामुख तथा सूमाय नामक दो राजकीयों के द्वारा छूटनीति वा प्रयोग करते हुए कैक्ष्यी और मन्थरा पर अपनी माया फैला पर धीराम की मौताओं द्योदने के लिये विभज किया जाना तथा शीता के छद्य में विभग उत्पन्न किया जाना यत्तत्या गया है । अतएव मौता का परियाग धीराम के छुलने के कारण ही सभव हुआ था ऐसा वरिणम प्रातुर नाटक का प्रतिपाद दे जो हठहीं दो राजकीयों की दुरभिसन्धियों से हुआ था ।

दुर्योधन—अह्नाधिपति कर्ण, आप ठीक कह रहे हैं।

कर्ण—यह केवल मेरी ही धारणा नहीं है। दूसरे नीतिमान पुरुष भी यही धारणा करेंगे।

दुर्योधन—हाँ हाँ। इसमें क्या शक है?

यदि यही बात न होती तो उन अतिरिक्त द्रोणाचार्य के द्वारा सिन्धु-राज जयद्रथ को अभयदान देने पर भी अर्जुन के द्वारा उसके मारे जाने के समय इस प्रकार उन्हीं से उपेक्षा क्यों हो गयी?

### दूतः

सन्देशदूतः । यथा दूताङ्गदे अङ्गदः ।

दूत—समाचार या सन्देश का लाना या लेजाने का कार्य करने वाला पुरुष 'दूत' कहलाता है। जैसे दूताङ्गद में अङ्गद।

### उपधिः

उपधिश्छलनम् । यथा ( वेणीसंहारे ) युधिष्ठिरे चार्वाकस्य चचनम् ।

उपधि—घोषा देना 'उपधि' कहलाता है। जैसे [ वेणीसंहार माटक में ] युधिष्ठिर के प्रति चार्वाक राक्षस का कथन।

### स्वप्नः

निद्रायां चित्रगतार्थालाप. स्वप्नः । यथा कीचकभीमे—'एतां सतीमि'त्यादि ।

स्वप्न—( अपनी ) बुद्धि में आने वाली विचित्र वातों का नींद में थडबडाना 'स्वप्न' कहलाता है। जैसे कीचकभीम में—इस सती को... 'इत्यादि' कथन।

### चित्रम्

चित्रम् आलेख्याभिमतजनदर्शनोपाय । यथा नागानन्दे द्वितीयेऽङ्के जीमूतवाहन.—वयस्य,

प्रिया सन्निहितैवेयं सङ्कल्पस्थापिता पुरः ।

दृष्टा दृष्टा लिखाम्येनां यदि तत् कोऽन्न विस्मयः ॥

( नागा० २१९ )

चित्र—किसी रेखाचित्र या प्रतिकृति के द्वारा प्रियजन को देखना 'चित्र' कहलाता है। जैसे नागानन्द के हितीयाङ्क मेंः—

जीमृतवाहम्—मेरी कृपनाओं वे द्वारा लाई गयी प्रियतमा तो मेरे सामने ही विद्यमान है। मैं उसे बार-बार देख कर यदि यहाँ अकित करूँ तो इसमें क्या आश्वर्य हो सकता है?

मदः

सुरापानप्रभवो विकार मदः। यथा तमालवीष्यक्षे ।

शेखरः—चेडा चेडा को मा चालेदि । [ चेट चेट, को मा चालयति । ]

चेटः—भट्टके, शुला । [ भर्त, शुरा । ] इति ।

मद—शराब पीने के बाद होने वाला नशा 'मद' कहलाता है। जैसे तमालवीष्यद्वू मे—

शेसर—अरं चेट, यह गुड़ कीन घुमा रहा है?

चेट—मालिक, यही शराब है।

सन्ध्यन्तरप्रदेशा सन्धीनामन्तरे चाकारपुरुषवचनानि लेल्योक्तयः  
विधातया । यदाह—'लेल्योक्तिराकाश्ववचनमन्तरा सन्धिष्ठिति' ।

ये इकीम सन्ध्यन्तर या अन्तरसन्धियाँ हैं। इन्हें सन्धियों के बीच मे रखना हो तो तदर्थ दिव्य पात्रों ये वचनों, लेलों और आकाश-भाषित का भी उपयोग किया जाए। जैसा कि वहा भी है—'सन्धियों के बीच मे दिव्य पात्रों के वचन सथा आकाशभाषित ( आदि ) रखे जाएँ'।

### पताकास्थानकानि

पताकास्थानानि चत्वारि काव्यस्यारङ्गारमूतान्यपि निर्वहण-  
सन्धिवज्यं कार्याणि । पताकास्थानानि शोभहेतुनि । तत्र पताकास्थान  
सामान्येनोच्यते—

यत्रान्यस्मिधिन्त्यमाने तद्विज्ञोऽन्यः प्रयुज्यते ।

आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकन्तु तद् ॥ १०६ ॥

यथा दशरथाङ्के—दशरथ रामस्य राज्ये चिन्त्यमाने भरतस्य राज्यं तच्छिक्षात्मिति विषादेनागन्तुकेन व्यभिचारिणा भावेन<sup>(१)</sup> गृहीत पठति—‘रामोऽपि गच्छतु वन्’मित्यादि ।

पताकास्थानक—सन्विधों में केवल निर्बद्धसन्वि को छोड़ कर शेष स्थानों पर चार पताकास्थानों की भी योजना की जाए । पताकास्थानक की योजना से नाटकादि में शोभा का सबद्धन हो जाता है; क्योंकि ये काल्य के किसी उद्देश्य या कार्य की सूचना देते हैं । अब हम पढ़िते पताकास्थानक का सामान्यस्वरूप कहेंगे :—

जब किसी एक कार्य का विचार करने के समय तत्काल वैसे ही अन्य प्रयोनन की भी अतर्कित रूप में प्राप्ति हो जाए [ या उसका संकेत मिने ] तो उसे ‘पताकास्थानक’ समझना चाहिए ।

जैसे दशरथाङ्क में महाराजा दशरथ का राज्य देने का विचार करने के समय भरत को भी उसी प्रकार राज्य देने का विचार कर चाह भै में विषाद नामक अतर्कितसंचारीभाष<sup>(२)</sup> के आवेश में आकर कह डालना—‘राम वन को जाए’ इत्यादि ।

तत्र प्रथमन् ( पताकास्थानम् ) यथा—

मद्दसैवार्थनिष्पच्छिर्गुणवत्युपकारतः ॥ १०७ ॥

( ना० शा० २१। )

तत्क्षणादेव समीहितम्यार्थस्य निष्पत्ति । कुत.<sup>(३)</sup> उपकारत अभिवाङ्मनसिद्धिनिपादनत । तत्पताकास्थानं वैदित्यन् । यथा— चीमूर्तवाहनस्य परार्थे आत्मानं ददत् । चह्नचूडेन न दर्चं वन्यचिह्नं तद् व्याकुलस्य कञ्चुकिनानीय मित्रावलुजनन्या प्रहितं रक्तवासोयुगं दर्चन् । यथा—

कमशः पताकास्थानकों के लक्षणों में सर्वप्रथम पढ़िते पताकास्थानक का लक्षण बतलाते हैं :—

१. यहाँ भागन्तुक भाव का लक्ष्य है किसी व्यभिचारी ( लादि ) भाव के आवेश में भा जामा । अभिनवगुह तथा धनिक में भी यही आशय भपते इन्होंने में प्रकट किया है । ( दृश्य अभिं भा० Vol. III, पृष्ठ १५ तथा दशरथक अद्दलोक १। १४ ) ।

**प्रथम पताकास्थानक—सामाजिक जहाँ किसी गौण या अप्रत्यक्ष विधि से किसी अभीष्ट कार्य अथवा घटना या मंकेत प्राप्त कर लेते हों तो उसे 'प्रथम पताकास्थानक' समझना चाहिए।**

अभीष्ट अर्थ या कार्य का उसी समय प्राप्त हो जाना यहाँ इष्ट है। यह क्यों? क्योंकि जिसकी इच्छा बहुत दिनों से थी उसी इष्ट की इससे पूर्ति हो जाती है—तो इसे लक्षणानुसारी पताकास्थानक ही कहना चाहिए। उदाहरणार्थ जब जीमूतव्याहन दूमरों की प्राणरक्षा के लिए अपने प्राण देने को उग्रत होता है तब शरणबूट उसे अपना वध्यचिह्न नहीं देता पर उसी समय मित्रावसु की माता वे द्वारा भेजे गए दो बछों को घवराहट के कारण क्षचुकी जीमूतव्याहन को दे देता है। जैसा कि जीमूतव्याहन के निन्न व्यवहार से स्पष्ट है—

वासोदुग्मिदं रक्तं प्राप्ते काले समागतम् ।

महतीं प्रीतिमाधत्ते परार्थे देहसुज्ज्ञतः ॥

( नामा० ४।२१ )

उपर्युक्त समय पर लाया गया यह बछों का खोड़ा मुझे बड़ा आनन्द दे रहा है जब कि मैं दूमरों के प्राणों की रक्षार्थे अपने प्राणों को दे रहा हूँ।

**द्वितीयं ( पताकास्थानम् ) यथा—**

वचः सातिशयं शिष्टं काव्यवन्धसमाश्रयम् ॥ १०७ ॥

( ना० शा० २।३।३१ )

वचो वचनम्, सातिशय वृथसाधन, शिष्टं द्वयर्थवचनं, काव्य-वन्धसमाश्रयं प्रस्तुतस्य रागस्याश्रयम् । यथा वेण्याम्—सूरधार—'निर्विणवैदहना।' ( वे० सं० १।७ ) इत्यादि ।

**द्वितीय पताकास्थानक—जहाँ ( किसी ) प्रष्टत शिष्य के अतिशय वर्णन में प्रयुक्त शिष्ट-वचन का रचनारित्याम् किसी अप्रृत अर्थ के भी अनुगूल बन पड़े तो उसे 'द्वितीय-पताकास्थानक' समझना चाहिए।**

वचन का अर्थ है मशाद् । अतिशय का अर्थ है अनेक अर्थों का सापेक । शिष्ट का अर्थ है—जिससे दो अर्थ प्रकट होते हों । रचना-

विन्यास का अर्थ है—ऐसी काव्यरचना जो प्रकृत विषय का वर्णन करे। उदाहरणार्थ वेणीसहार का निम्न पद्म—

सुग्रधार—सन्धि होने पर, पिंडोप की अग्नि के शान्त हो जाने के कारण (शत्रुक्षय हो जाने पर पाण्डुपुत्र भी भगवान् श्रीकृष्ण के साथ आनन्द मनाएँ और उधर पिप्रदविहीन कोरव भी प्रम से समस्त भूमण्डल पर अधिकार कर अपने संबंधों के साथ स्वस्थ हो जाएँ।)

तृतीयं (पताकास्थानम्) यथा—

अर्थोपक्षेपणं यत्र लीनं सविनयं भवेत् ।

श्लिष्ट-प्रत्युत्तरोपेतम् ॥ १०८ ॥ (ना० शा०)

यस्मिन्नर्थप्रकाश लीन सविनयम् औद्धत्यभपास्य मग्नं भवेत् ।

द्वयर्थावभाष पश्चिमत्युत्तरमिति । सप्तिंतानायक्योरुचरोत्तरमस्मिन्नु-  
दाहरणमुपन्यस्यते । यथा—

कान्ते नाथ कुतोऽस्मि किं प्रियतमे दूरं ममैतद्वचो  
जात तेऽय किमन्यनाम विहितं यज्ञेक्षितं जन्मनि ।  
व्यक्तं वृहि कृत त्वयैव सभयासङ्गोऽपि दोषोऽयवा  
यस्तस्यास्तु पतामि ते चरणयो रस्तस्यस्तुते सुप्यताम् ॥ इति ।

सभया चौरिक्या नायकेन सह व्यवहारमाणा सभया कथिता ।  
अन्यत्र सभया परिपदा ।

तृतीय पताकास्थानम्—जहाँ शिष्ट संगादों में विनयपूर्वक प्रस्तुत अर्थ के अधिधान को प्रत्योत्तर प्रणाली में रखने पर किसी अप्रस्तुत या अभिप्रेत अर्थ की अभिव्यक्ति होने लगे तो उसे 'तृतीयपताकास्थानम्' समझना चाहिए।

अर्थात् जहाँ अर्थों की अभिव्यक्ति औद्धत्यहीन रूप में रहने के कारण छुपी रहती हो तथा शिष्ट संवाद उक्ति-प्रत्युक्ति के हृष में रखे जाएँ। जैसे नायक तथा रणिटा नायिका के सधादमय निम्न पद्म में—

प्रिये,

स्यामिन्,

तुम वहाँ हो ?

मैं ( तो ) यहाँ हूँ ।

आप मुझ से अधिक दूर क्यों हैं ?

मेरे यह शब्द ही मुझे दूर किये हुए हैं ।

तुम्हें आन क्या हो गया है ?

आज कुछ ऐसे शब्द सुने [ जो किसी दूसरी नायिका की नामावली के हैं तथा ] जो इस जन्म में देखे और सुने नहीं गये थे ।

तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहती [ कि मैंने क्या किया है ] ?

तुम्हारे द्वारा काँपते हुए आलिङ्गन मिया जाना [ अथवा तुम्हारा कार्यवश सभा में ही बैठे रहना या रम जाना ]

तो इससे तुम्हें कौन कष्ट पहुँच गया ?

यह तो उसे ही हो ।

मैं सुन्दरे पैर पड़ता हूँ ,

तो आपका कल्याण है ।

अच्छा अब बहुत हो चुका, आप सो जाएँ ।

यहाँ मध्यासङ्ग वा एक अर्थ है गुपरूप से कापते हुए अन्य नायिका से आलिङ्गन करना । इसी का दूसरा अर्थ होगा मध्यामङ्ग अर्थात् राजसभा में रम जाना ।

चतुर्थं ( पताकास्थानं ) यथा—

द्वृथर्थो वचनविन्यासः सुदिलष्टः काव्ययोजितः ।

उपपत्या सम्प्रयुक्तः ॥ १०९ ॥ ( ना० शा० २१।३३ )

अर्थद्वयवाची, काव्ययोजनाक्षम उपचितिमान् । यथा जानकी-

राघवे सीता प्रति राम —

लङ्घसमृद्धिमापन क्रीडारण्ये सपुष्पक ।

कञ्चिलोहितपत्रस्त्वामशोकोऽस्ती हस्तिप्यति ॥ इति ।

अस्य प्रयोगो मुखादिसन्धिचतुष्टये कापि विधातव्य । स्वमदूत-  
नेपव्याकाशवचनानि लिखितानि अनन्तरसन्धिपु कथ्यन्ते । पथा वेष्याम-

आधत्यामा—'कथममानुषी वाक्' ( वे० स० अङ्क ३ ) ।

रथराभ्युदये वा—अन्तु सीमिते पौलम्त्यवधावधिरय श्राप ।

रथमण—कर्त्त हस्तिदन्तश्चारी भागवान् मालो व्याहरति ।

**चतुर्थ पताकास्थानक**—जब कारण पुरस्सर कथावस्तु के उपयुक्त दो अर्थों की योजना की जाए [ तथा वे मुख्य अभिप्राय के अतिरिक्त अन्य अर्थ भी प्रकट करें ] तो उसे 'चतुर्थ-पताकास्थानक' समझना चाहिए।

अर्थात् यहाँ शब्द शिष्ट या दो अर्थों वाले होना चाहिए, ये काव्य-रचना में उपयुक्त स्थान पर रहें तथा सकारण या युक्तियुक्त हों। जैसे जानकीराघव ने श्रीराम की निन्न उक्ति '—

रक्षपङ्गवधारी, विहारवाटिका में स्थित तथा दृष्टिगोचर होने वाला यह अशोकवृक्ष संभवतः तुम्हें अपनी लुभावनी पुण्यावली और विपुल शाखाओं से [ अवश्य ] आकृष्ट कर लेगा। ( अन्य अर्थ—

अपनी लाल-लाल पत्तियों से लकड़ी की समुद्धि करता हुआ पुण्यक विमान से युक्त, विहारस्थली अशोकवाटिका का यह शोकरहित प्रदेश संभवतः तुम्हारा हरण अवश्य बरेगा— )

मुख आदि चार सन्धियों में कहाँ भी इन पताकास्थानकों की योजना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सन्धियों के बीच से स्वप्न, दूत, आकाशवाणी तथा पत्र आदि की भी योजना की जा सकती है। जैसे अश्वत्थामाङ्क में :—

अश्वत्थामा—ओर ! यह आकाशवाणी भी ?

तथा राघवाभ्युदय में भी—[ आकाशवाणी ]

'लद्धमण, यह शाप राघव के बध तक प्रभावशाली रहेगा !'

लद्धमण—क्या आकाशगामी भगवान् धायुदेव ने यह कहा है ?

### दृत्तयः

चतुर्वृचीति । चतुर्षो षृच्योऽस्मिन्निति । वृत्तिरिति । नेपथ्य-  
गीतवादित्र-रसभावाभिनयनृत्यजातीनां क्वापि विशेषे वर्तनमितिवृत्ति.  
कथिता ( कथ्यते ? ) । अथवा विलासविन्यासक्षणो वृत्तिरिति ।

एता वृत्तयश्चतुर्वेदीसमाश्रया. यथाक्रमं वाक् सत्त्वलीलाव्यायाम

१. यहाँ सन्धियों के मध्यन्तर में स्वप्न आदि के मंयोजन का उल्लेख मात्रगुप्ताचार्य के अनुसार किया गया है। यथा—

स्वप्नो दूतश्च लेखश्च नेपथ्योऽस्तिस्तथैव च ।

आकाशवचनज्ञेति ज्ञेया ह्यन्तरसन्धयः ॥

( अभिं० शाकू० राघवभट्टीय-स्याल्या N S Ed पृ० २० )

प्रधाना । सात्विक सात्वत्यामाहार्य<sup>१</sup> केशिक्यामाहिकमारभद्राम् नृत्यं भवति । तदेताभिश्चतुरवस्थानानि रूपकाणि सिद्धयन्ति । एताश्च नामत कथ्यन्ते—भारती, सात्वती, कैशिकी आरभटी इति । तत्र भारती कथ्यते—

या पाकप्रधाना पुरुष प्रयुज्या  
स्त्रीयजिता ससङ्गतपाठ्युक्ता ।  
स्वनामधेयैः भरतैः प्रयुक्ता  
ता भारतीं वृत्तिपुदाहरन्ति ॥ ११० ॥

( ना० शा० २२२५ )

दृनियाँ—अब चारवृत्तियों का निरूपण करते हैं । पहले नियम प्रतलाया गया है फि नाटक में चार वृत्तियों का सञ्जिनेश रहता है । वृत्ति का अर्थ है—गायत्र वादन, रस भाव आदि के अभिनय तथा नृत्या के विविध प्रवारा को उब एक विशेष पद्धति या क्रम भ प्रस्तुत किया नाम तो यह “वृत्ति” कहलाता है । या गिलास आदि का क्रमशः प्रस्तुत किया नाना या स्थापन करना ‘वृत्ति’ समझना चाहिए । ये वृत्तियाँ चारा गता का आश्रय लिए हुए हासी हैं तथा क्रमशः घाणी, मत्त, लीला और व्यायाम सी प्रमुखता लिए हुए होती है । भारती वृत्ति में वाचिक अभिनय मात्रती वृत्ति में मात्रिक अभिनय, कैशिकी वृत्ति में आदर्या भिनय तथा आरभटी वृत्ति में आद्विक अभिनय तथा नृत्य रहता है । इस प्रकार चार अप्रस्थाआ ने रूपक इन वृत्तियों के द्वारा निमित्त हो जाने हैं । इन वृत्तियों के नाम हैं—भारती, सात्वती, कैशिकी तथा आरभटी ।

‘भारती करुणाद्धुते’ इति च—

वीराद्धुतप्रदसनैरिह भारती स्यात्  
सात्वत्यपीह गदिताद्धुतरीरीद्रेः ।

१ वृत्ति का यह एक राजनीतर के खनुमार है । ( द०-क० मी० ४० ९ G O S ) ।

शृङ्गारहास्यकरुणैरपि कैशिकी स्या-

दिष्टा भयानकपुतारभट्टी सरोद्रा ॥ १११ ॥

( ना० शा० २२६३ )

अब भारती वृत्ति का लक्षण बतलाते हैं :—

भारती—जिसमें संवाद या बाणी मुख्यरूप में ( प्रसुखता लिए हुए ) है, जो पुरुष पात्रों द्वारा प्रयुक्त की जाए, खियों का जिसमें सन्निवेश न हो, स्थृत भाषण में संवाद हो तथा जटों के द्वारा अपने ही नाम पर जिसका नामकरण किया गया हो तो उसे 'भारती' वृत्ति समझा चाहिए ।

भारती वृत्ति में करुण और अद्भुत रूप रखे जाते हैं ।

वीर, अद्भुत और हास्यरूप में भारतीवृत्ति का, अद्भुत, वीर तथा रौद्ररस में सात्वती वृत्ति का, शृङ्गार, हास्य तथा करुणरस में कैशिकी वृत्ति का और रौद्र तथा भयानकरस में आभटी वृत्ति का प्रयोग इष्ट होता है ।<sup>१</sup>

इत्याचार्यमतमदः सार पुनरयम्—

सर्वान् रसानियं वृत्तिर्मारती व्याप्य तिषुति ।

विभूतिव्योमभूतस्य पदार्थान् सकलानिव ॥ ११२ ॥

नाममात्रसमुद्दिष्टाथतस्मो वृचयो मया ।

एकीभावस्तु सर्वामां भारत्यामेव दद्यते ॥ ११३ ॥

यह आचार्यों का मत है। जिसका सार यह है कि—यह भारती वृत्ति सभी रसों में व्याप्त होकर उसी प्रकार रहती है जैसे आकाश सभी पदार्थों को अपने में व्याप्त करता है।

इन चारों वृत्तियों के नाम उनके प्रकार बतलाने के लिए ही मैंने कहे हैं किन्तु इन 'सभी वृत्तियों का एकीभाव भारती वृत्ति में ही प्राप्त होता है।

<sup>१</sup> सागरनन्दी द्वारा वृत्तियों की विभिन्न रसों में रखी गयी यह योजना भरत के विपरीत है। भरत के अनुसार भारतीवृत्ति 'हास्यशृङ्गार व्युत्पत्ता' होती है। शृङ्गार, हास्य तथा करुणरस में कैशिकी वृत्ति की योजना 'कोहृष्ट' का मत है जिसकी अभिनवगुप्त पाद ने गमाछोचना भी की है। ( द्रष्टव्य-अभिन० भा० Vol II पृ० ४५२ G. O. S.) ।

## प्ररोचना

अस्या धृतेश्वत्वारो भेदा अज्ञत्वमागता । प्ररोचना, आमुखं, धीथी, प्रहसनं तथा । तत्र प्ररोचना—

जयाम्युदयमापन्ना मङ्गल्या पिजयामहा ।

सर्वपापप्रशमनी पूर्वरङ्गे प्ररोचना ॥ ११४ ॥

प्ररोचनाया कोऽर्थ । प्रसिद्धार्थप्रदर्शनी प्ररोचनामिधीयते ।

भारती वृत्ति के चार अङ्ग होते हैं । ये इसके प्रभेद भी हैं । इनके नाम हैं—( १ ) प्ररोचना, ( २ ) आमुख, ( ३ ) धीथी तथा ( ४ ) प्रहसन । अब प्ररोचन के लक्षण को बतलाते हैं ।—

प्ररोचना—पूर्वरङ्ग में प्ररोचना को रखने से यह विजय, विकास, मगल तथा सिद्धि प्रदान करती है और सभी पापों का शमन करती है । प्रश्न—प्ररोचना ( शब्द ) से क्या तात्पर्य है ? उत्तर—इसे प्ररोचना इसलिये कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रसिद्ध विषय या विचारों का प्रदर्शन रहता है । जैसे—

## तथ्यथा—

अम्मोधिवारितरणे भयकातराक्ष्या  
रक्ष्या करे करतलेन दृढ धृतस्य ।  
सोत्कम्प-धर्मपुलकोद्गम गद्दोकि  
सत्त्वाश्रयो जयति कोऽपि हरेविकार ॥

मगुद्र के जल को पार करने में भय के कारण घबडा जानेवाली शोलाद्मी जी को सहारा देने के लिए उनका हाथ थाम लेने के कारण भगवान् श्रीविष्णु के कम्पन, रोमाञ्च और दृटी हुई आयात में सम्भाषणरूपी सात्त्विक विशारदों भी जय हो ।

## अन्ये त्वाहुः—

‘प्रस्तुतस्यैव काव्यस्य यन्निष्पन्नेन वस्तुना । कथनं सा प्ररोचना ।’ इति ।

अन्य अचार्यों का मत है कि प्रस्तुत काव्य या नाटकीय कथायस्तु को सिद्ध या घटित घटना के महत्त्व अभिन्नित धरना ‘प्ररोचना’ कहलाता है ।

यथा नरकवधे—

सुषुं तत्कीडरूपं दनुजपतिवपुर्मदरक्ताक्तदंष्ट्रं  
दृष्टा त्रासेन दूरं भुवमभयवचो व्याहतेऽपि प्रयान्तीम् ।  
मायाकृष्णं पशोधे क्षणविघृतचतुर्भुचिह्नात्ममूर्तिं  
स्वस्थामुत्थापयन् वा द्विगुणमुजलतारोहरोमाच्चिताङ्गीम् ॥  
मुखादिसन्धीनामवतासयादौ प्ररोचना कार्या ।

उदाहरणार्थं नरकवधं मे ‘—

भगवान् श्रीविष्णु के द्वारा लीला के हेतु धारण किये गए वाराह रूप को—जो दानवराज हिरण्यक्ष के रक्त और मज्जा से सना होने से बड़ा भयानक दिश्वलाई दे रहा था—देख कर पृथ्वी भय से त्रस्त होकर भागने लगी । तब भगवान् के द्वारा अभय वचन देकर (मत डरो, मैं दानव नहीं हूँ इत्यादि मान्त्रवनापूर्ण शब्दों से) रोकने का उद्योग करने पर भी न रुकनेवाली पृथ्वी के विश्वास के लिए भगवान् ने स्वयं अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट कर उसे स्वस्थतापूर्वक उठाया तो श्रीविष्णु के स्पर्श से पृथ्वी की भुजलताओं में दुरुना रोमाञ्च हो उठा ।

मुख आदि सन्धियों के आरम्भ के लिए सर्वप्रथम ‘प्ररोचना’ रखना चाहिए ।

नान्दी

नान्द्यपि तत्रैव कर्तव्या । यदुक्तम्

नाटकादिरूपेषु पूर्वरङ्गसमाश्रयात् ।

नान्दी नाम विधातव्या सर्वविभप्रशान्तये ॥ ११५ ॥

नान्दी भी पूर्वरंग में इसी प्रकार आरम्भ में ही रखी जाए । जैसा कि कहा भी है :—

नाटक आदि सभी दृश्य काव्य के प्रकारों में पूर्वरङ्ग के अन्तर्गत नान्दी को अश्रय रखा जाए क्योंकि रङ्गमङ्ग के सभी विन्नों की नान्दी-पाठ से शान्ति हो जाती है ।

का पुनरियं नाम ? पूर्वरङ्गस्याङ्गम् । यथाह वादरायणः—

‘यद्यप्यङ्गानि भूयासि पूर्वरङ्गस्य नाटके ।

तथाप्यवद्यं कर्तव्या नान्दी विभप्रशान्तये ॥

प्रदन—नान्दी क्या है ? उत्तर—यह पूर्वरङ्ग का एक भाग होती है । जैसा कि आचार्य बादरायण<sup>१</sup> ने कहा भी है :—

यद्यपि नाटक में पूर्वरङ्ग के अनेक अङ्गों का विवान अतलाचा गया है परन्तु इन अङ्गों में 'नान्दी' का प्रयोग रङ्गस्थ विश्वे की शान्ति के लिये अवश्य रहना चाहिए ।

यदुच्यते नान्यन्ते सूत्रधार इति । प्रधानमङ्गं पूर्वरङ्गे सूत्रधार-  
प्रयोज्यदेवस्तुतिसमाश्रया आर्हीर्वचनात्मिका द्वादशपदा अष्टपदा  
वा । पदमपि द्व्यमन्त्र सम्मतम् । श्लोकस्य पाद एव पदमिति  
येष्याहुर्तेषां मतेन श्लोकद्वय श्लोकत्रयं वा विधातव्यम् । ये तु सुसिङ्गं  
संज्ञाशब्द पदमिच्छन्ति तेषां सुबन्ततिडन्तपदैद्वादशभिरषामिश्रैक एव  
श्लोक कर्तव्य । अन्यस्त्याह—क्रिया कारकयुक्त वाक्यं पदमिति ।  
उभयमपि प्रसिद्धमेव ।

जैसा कि प्रायः सभी रूपकों में रहता है—नान्दी के पश्चात् सूत्रधार का प्रवेश (इत्यादि) । क्योंकि नान्दी को पूर्वरङ्ग का प्रधान अङ्ग माना जाता है और यह सूत्रधार के द्वारा देवता की स्तुति या आशीर्वादात्मक रूप में (रङ्गमञ्च पर) पाठ की जाती है । इसमें बाहर या आठ पद होते हैं । जिनके मत में 'पद' का आराय श्लोक या पद्म के एक पाठ से हो उनके मतानुसार नाटक आदि दृश्यमाल्य के आरम्भ में दो या तीन पद्मों की नान्दी रहती है । परन्तु जो आचार्य सुबन्त और तिढन्त संज्ञा शब्द को पद मानते हैं उनके मतानुसार एक पद वी भी नान्दी हो सकती है जिसमें बाहर या आठ पद्म हों । बुद्ध दूसरे आचार्यों का मत है कि क्रिया कारक आदि में युक्त वाक्य वो ही यहों 'पद' समझना चाहिए । इनमें आरम्भ के दो मत ही अधिक प्रसिद्ध होने से व्यवहार में आने रहते हैं ।

### सूत्रधारः

क एष सूत्रधारो नाम । आह शतकर्णिः—‘अनुष्ठानं प्रयोगस्य

१. याद्रायण नाथ्यशास्त्र के एक लेपक तथा आचार्य थे । रघुनंत में हनुम मत अनेक दृश्यानों पर उद्धृत किया गया है तथा नाथ्यशास्त्र के अन्य प्रन्यों में भी हनुम के उदारण प्राप्त होते हैं ।

सूत्रं चद्वारयतीति सूत्रधार । पूर्वरङ्गमात्रोपयोगी चहिःपात्रमित्यर्थ ।  
यथाह भरतः—

सूत्रधार—प्रश्न—(नान्दी पाठ का कर्त्ता) सूत्रधार किसे कहते हैं ?  
उत्तर—शातकर्णी<sup>३</sup> आचार्य का मत है कि सूत्रधार वह है जो नाश्व-  
प्रयोग की व्यवस्था धरे क्योंकि नाट्यप्रयाग का सम्पादन ‘सूत्र’  
कहलाता है और उस कार्य का सम्पादक सूत्रधार । इसका कार्य पूर्वरङ्ग  
में ही रहता है और यह नाटकीय पात्रों के अन्तर्गत अभिनेताओं में  
नहीं माना जाता । जैसा कि आचार्य भरत मुनि ने बतलाया भी है ।—

सूत्रधार पठेचत्र मन्यम् स्वरमाधित ।

नान्दीपदैद्वादशभिरष्टाभिर्वाप्यलट्कृताम् ॥

नमोऽस्तु मर्वदेवेभ्यो द्विजातिभ्य शुभं तथा ।

जित सोमेन वै राजा चारोन्य गोप्य एव च ॥

वद्धोत्तर तथैवास्तु हता वद्धाद्विपस्तथा ।

प्रशास्त्वमा महाराज पृथिवी च ससागराम् ॥

राज्यं प्रवर्द्धताद्वैव रङ्गस्यादा समृद्धयताम् ।

प्रेषाऽर्तुर्महान् धर्मो भवतु व्रजमापित ॥

काव्यकर्तुर्यशशापि नित्यमेव प्रवर्द्धताम् ।

इज्यया चान्या नित्यं प्रीयन्ता सर्वदेवता ॥

तब सूत्रधार आठ या बारह पड़ों से निमित्त ‘नान्दी’ का मध्यम  
स्वर<sup>४</sup> से पाठ करे ।

१. शातकर्णि भी नाम्यशास्त्र के लन्यतम आचार्य थे । अन्यरागव की  
रचिति उपाध्याय इति च्यास्त्वा में भी इनकी कारिका प्राप्त होती है ।

( दृष्टि निः सां मंसक० पृष्ठ ७ )

२. सूत्रधार का मध्यम स्वर में नान्दी पाठ करने से आशय है मध्यम  
स्वराधित या अशास्त्राधित प्रयोग का विधान मण्डल किया जाना । यह  
प्रकार शुद्धपाठ्य, पाठ्यतथा भिन्नपञ्चम में से क्षम्यतम हो सकता है ।  
प्रयोग के आरम्भ में भाष्टव्यादों के मध्यम स्वर में रखने का उल्लेख कालिदास  
के मालविकाप्तिमित्रम् में भी प्राप्त होता है । ( विरेण्य द्रष्टव्य-प्रभिः सां  
Vol I पृष्ठ २३७, बृहदेशी पृष्ठ ८५, तथा सद्वीतीरत्नाकर Vol II Adyar  
Ed. पृष्ठ ८२-८४ ) ।

सभी देवों को नमस्कार, ब्राह्मणों का ( या द्विज जाति का ) कल्याण हो, सौम राजा की विजय हो, गौंद स्वस्थ रहें, ब्राह्मण उत्तरोत्तर श्रेष्ठता प्राप्त करें, व्रज के गिर्देष करनेवालों का नाश हो, सागर से युक्त इस प्रध्यो पर राजा शासन करें, राज्य की वृद्धि हो और द्वामञ्च की उन्नति होती रहे, नाट्यप्रदर्शन करवाने वाले व्रज के द्वारा अभिहित महत् धर्मलाभ प्राप्त करें, नाट्यमार ( कपि ) का यश सदा बढ़े और इस नाट्ययज्ञ के द्वारा सभी देवगण प्रसन्न हों।

नान्दीपदान्तरेषु च ह्येव सन्त्विति नित्यशु ।

वदेता सम्युक्ताभिर्विभिस्तौ पारिपार्श्वकौ ॥

जब सूत्रभार नान्दी के पदों का पाठ करे तभी उसके दोनों ओर स्थित पारिपार्श्विक 'ऐसा ही हो' कहते हुए उसके कथन का अनुसोदन करें।

एव नान्दी विवातव्या यथावल्लक्षणान्विता ।

नान्दीप्रयोगे च कृते श्रीतो भवति चन्द्रमा ॥

( ना० शा० ५१९९।१०४ )

लक्षणों के अनुमार निर्मित [ इसी प्रसार की ] 'नान्दी' की ही रचना की जाए क्योंकि उचित या निर्दिष्ट विधि से नान्दी का प्रयोग करने से चन्द्रदेव प्रमन्न होते हैं।

किं फल स्यात् ? रसाधारत्वाचन्द्रमसस्तप्रीतिमुलभा रस-  
सम्पत्य इति । ( तथा हि— )

प्रश्न—चन्द्र देव के प्रमन्न होने का क्या फल होगा ? उत्तर—क्योंकि चन्द्रदेव रसों का अविष्टाता देव माना जाता है और उसके प्रमन्न होने से नाट्यप्रदर्शन में मरमता या रमबहुलता हा जाती है ।'

आशीर्वचनसंयुक्ता नित्यं यस्मात् प्रयुज्यते ।

देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति मंजिता ॥ ११६ ॥

१. शारदातन्त्र का मत है कि रस वा अधिकारी देवता चन्द्र है अनेक नान्दी को भी चन्द्रविषयिणी निर्मिति मानने से प्रयोग में रस नैरमन्य यना रहगा तथा निर्विज्ञ नाट्यप्रयोग पूर्ण होकर सफलता देगा । ( दृष्ट्य भाव प्र० ष० १९० G. O. S. ) ।

क्योंकि इसमें देवता, ब्राह्मण या राजा आदि के कल्याणार्थआशीर्ष-चनात्मक रचना रहती है अतएव इसकी ‘नान्दी’ सज्जा रखी गयी।

**नान्दी पूर्वरङ्गस्याङ्ग मुख्यतमम् । यथाह-प्रत्याहारमार्जनागीत-विधिप्रब्लयोग-चारीमहा चारीप्रोचना-नान्दीजर्जरस्तुतिदिग्बन्दनादीनि द्वाविंशत्यङ्गानि वादगीतनृत्यपूर्वकदेवस्तुतिशरीरस्य पूर्वरङ्गस्येति । नान्दी-प्रोचने कथित एव ।**

पूर्वरङ्ग से नान्दी की महत्वपूर्ण अङ्ग के रूप में गणना की जाती है। वाद्य तथा कंठसंगीत और नृत्य के द्वारा देवताओं की स्तुति के लिए ये अङ्ग होते हैं और इसी लिए ये सभी पूर्वरङ्ग के अंग हैं। इनकी सख्त्याँ बाईंस मात्री गई हैं जिनमें से मुख्य अङ्गों में से कुछ हैं—प्रत्याहार, मार्जना, ब्रह्मयोग, चारी, महाचारी, प्रोचना, नान्दी, जर्जरस्तुति तथा दिग्बन्दना आदि।

**जर्जरस्तुतिर्यथा—**

**ब्रह्मणमभिहितः शकः सुरादीशो ध्वजेन हि ।**

**जर्जरानकरोद्विघान् तेनोक्ता जर्जरस्तुतिः ॥ ११७ ॥**

**जर्जरस्तुति—**नान्दी और प्रोचना के स्वरूप घतला दिये हैं। ‘जर्जरस्तुति’<sup>१२</sup> का निम्न स्वरूप है :—

१—पूर्वरङ्ग के बाईंस अङ्गों में सागरनन्दी ने जिन अङ्गों के नाम नहीं दिये ये इस प्रकार हैं—अवतारण, भारम्भ, घवघ्रपाणि, परिघट्टना, मार्गासारित आसारित, उत्थापना तथा रङ्गद्वार। शारदातनय का मत है कि इन बाईंस अङ्गों के अतिरिक्त मुखा और चिमाम को भी इस ( पूर्वरङ्ग ) के अङ्ग मानना चाहिए [ भा० प्र० पृ० १५४-१५५ G. O. S ] इन अङ्गों के छत्रा आदि नाव्यशास्त्र के पञ्चम अध्याय में विस्तार से दिये गये हैं जो दृष्टव्य हैं।

२—जर्जर शब्द का अर्थ है चौस जिसे हन्दूध्वज के ग्रतीक के रूप में रंगमन्त्र पर स्थापित करने की प्रथा है। नाव्यशास्त्र में जर्जर की उत्पत्ति की कथा में घतलाया गया है कि जब हन्दूध्वज महोरसन के अवगत पर प्रथम नाव्यप्रयोग प्रसन्नत इया गया तो इस्य एव दानवों ने उस में विष ढालते हुए प्रयोग को विगाह दिया तभी हन्दू ने अपने ध्वज से इन विषों का नाश कर दिया। तभी से ‘जर्जर पूजन’ नाव्यप्रदर्शन के अवगत पर पूर्वरङ्ग का एक आवश्यक अङ्ग यस बर प्रचलित हो गया। ( नाव्यशास्त्र अ० १ । १५, १ । ७०-७१ ) ।

ब्रह्मा के द्वारा कहे जाने पर देवराज इन्द्र ने अपने धज से ( उब ) सभी पित्रे का धस कर दाला । वभी मे 'नर्जरस्तुति' का प्रचलन होकर पाठ किया जाता है ।

जर्जर इति एकध्वजस्य पूर्वचार्यदरित सज्जाशब्द ।

प्राचीन आचार्यों के द्वारा इन्द्र न धज के अर्थ मे 'जर्जर' शब्द का प्रयोग किया जाता है ।

दिग्बन्दना यथा—

गृहीत वन्दनां यूयमधिपाः रुकुमां सुराः ।

आसीदत महारा(भा) गा रङ्गरक्षा विधिमे ॥ ११८ ॥

दिग्बन्दना—हे दिशाओं के अधिष्ठित देवगण, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, यहाँ आकार मिराजे और हमारे रङ्गमञ्च की रक्षा करें ।

एपामङ्गाना चान्ते सूत्रधार कार्यमिथते इति नान्दन्ते सूत्रधार ।  
एतदेव नान्दन्तपदवाच्य यदन्तर कायप्रस्तावकप्रवेश इति । कथ  
सूत्रधारमयोज्यत्वमेतेपाम्, कुत व्यवन्ते सूत्रधार । म एव तेषा  
पाठक स एव चान्ते इति ।

पूर्णद्व भे इन्ही अङ्गों के सम्पन्न पर लेने के पश्चात् ही सूत्रधार द्वारा रङ्गमञ्च पर आकर भावो कार्य का निवेदन किया जाता है । इसीलिए 'नान्दन्तेसूत्रधार' जैसे गायक नाटक के आदि में किया जाता है । 'नान्दी के पश्चात्' का यही आशय है कि इन कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् एक पुण्य मञ्च पर प्रवेश करे तथा प्रयोज्य नाट्यप्रयोग ( दरयाच्य ) का प्रस्ताव करे । परन—नय सूत्रधार पूर्णद्व न अङ्गों को सम्पन्न करता है तो फिर उन्ही अङ्गों के पूर्ण हो जाने पर पुनः उभी का प्रवेश जैसे होगा ? योकि जब वही नान्दी का पाठ करता है तो फिर नान्दी दे पश्चात् पुन उराता ही प्रदेश वस्ता मगत नही माना जा सकता ?

सत्यम् । सूत्रधाराशृति स्थापते नामाच्य प्रविशति । सोऽप्यमन्ते स्यात् । यथा—

उच्चर—ठीक है । नान्दी के पश्चात् सूत्रधार के समान ही एक

दूसरा पात्र मञ्च पर प्रवेश करता है। इसे स्थापक ( प्रस्तावक ) कहा जाता है तथा यही नान्दी के बाद मञ्च पर अपना कार्य सम्पन्न करने के लिए आता है। जैसा कि कहा भी है :—

‘प्रयुज्य रङ्गानिष्कामेत् सूत्रधारः सहानुगः ।

स्थापकः प्रविशेत्तत्र सूत्रधारणुणाकृतिः ॥ ११९ ॥

स्थापकस्य प्रवेशे तु कर्तव्यार्थानुगा ध्रुवा ।

सुवाक्यमधुरैः श्लोकैः नानाभावरसानुगैः ॥ १२० ॥

प्रसाद्य रङ्गं विधिवत् कवेर्नामालुकीर्तयेत् ।

प्रस्तावनांततः कुर्यात् काव्यप्रस्तावनाश्रयम् ॥ १२१ ॥

दिव्ये दिव्याश्रयो भूत्वा मानुषे मानुषाश्रयः ।

दिव्यमानुपसंयोगे दिव्यो वा मानुषोऽपि वा ॥ १२२ ॥

मुखशीजार्थसदृशं नानामार्गसमाश्रयम् ।

नानाविर्धेत्तुपक्षेपैः काव्योपक्षेपणं भवेत् ।

प्रस्ताव्यैवं विनिष्कामेन् काव्यप्रस्तावकोऽद्विजः ॥ १२३ ॥

( ना० शा० ५।१४९-१५६ )

पूर्वरङ्ग का भाष्टोपाङ्ग प्रयोग पूर्ण हो जाने पर अपने सहयोगियों के साथ सूत्रधार रङ्गमञ्च से चला जाए तथा सूत्रधार के समान ही गुण, वेश तथा स्वरूप लिए हुए एक दूसरे पात्र स्थापक का रङ्गमञ्च पर प्रवेश होना चाहिए। इस पात्र के प्रवेश के समय नाटकीय कथावस्तु एव अर्थ के अनुरूप ( प्रावेशिकीआदि ) ध्रुवाओं<sup>१</sup> का गान किया जाए।

१. ध्रुवा—नाट्यप्रयोग में गाये जाने वाले गीत जिनमें वर्ण, अलङ्कार लय, जाति तथा पाणि की विधिवत् सङ्गत रहे। इन ध्रुवाओं के पाँच प्रकार माने जाते हैं—( १ ) प्रावेशिकी, ( २ ) आचेपिकी, ( ३ ) नैप्लासिकी, ( ४ ) प्रासादिकी तथा ( ५ ) अस्तरा। ये क्रमशः पात्रों के प्रवेश, परिवर्तन या दूसरा ओर मुड़ना, चिदा होना, चले जाना, प्रमञ्च होना या हर्ष तथा बीच के कार्यों के सन्धिस्थलों के अवसर पर नाट्यप्रयोग की प्रगति में सहायक होकर प्रयुक्त की जाती है। ( इनका विशेष विवरण तथा उदाहरण आदि माट्यशास्त्र के अध्याय ५, १९ तथा २८ पर देखन्य )। रस, परिस्थिति तथा भाव ( आदि ) के अनुकूल इनमें दृन्द चुना जाता है तथा संस्कृत, प्राकृत आदि इसी भी भाषा में इनकी रचना

यह सुन्दर वाक्यों से निर्मित जो रस भाव आदि से पूर्ण पद्यों का पाठ कर प्रेक्षकों को आकृष्ट करे और तदुपरान्त प्रस्तुत नाटक के रचयिता के नाम आदि का उल्लेख करे। इसके पश्चात् प्रस्तुत नाटक को आरम्भ करने वाली प्रस्तावना सम्पन्न की जाए। प्रस्तुत काव्य की सूचना अनेक प्रकार के कार्यों द्वारा दी जाती है। जैसे—नाटकीय कथा में दिव्यपात्र हों तो यह स्थापक अपना वेष दिव्य पात्रों के समान, मानव पात्रों के होने पर मनुष्यों के समान तथा मिश्रित या दिव्यादिव्य पात्र हों तो फिर दिव्य या मानव वेषों में से कोई एक वेष घारण कर 'प्रस्तावना' का कार्य सम्पन्न करे और प्रस्तावना को प्रस्तुत करने के पश्चात् वह भी रङ्गसज्ज से चला जाए।

**अयमत्रार्थ** — उक्तानां पूर्वज्ञानामन्ते समाप्तौ । स्थापक नाम सूत्रधारशब्देन वाच्य । स च 'मुवाक्यमधुरै. श्लोकै' रिति वहुवचनप्रयोगात् पुष्पाङ्गलिमभृति नानाभावरसान्वितान् श्लोकान् अवमपि पठेदित्यर्थ । तत्र यदि पूर्ववदयमपि यशोक्तञ्चाख्यया पठति तदा न कथिद्वौप । यस्तु भरतोपदिष्टः क्रम स तु मानुष्यां समाया सङ्कटया नोपन्यस्त ।

अब हम इसकी व्याख्या देते हैं। अन्त या पश्चात् का आशय है कि पूर्वरङ्ग के इन अङ्गों के पूर्ण हो चुकने पर। स्थापक को भी सूत्रधार शब्द से अभिहित किया जाता है [क्योंकि वेश, गुण और आकृति में यह सूत्रधार के समान होता है]। यही सुन्दर वाक्यों से निर्मित पद्यों से प्रस्तावना सम्पन्न करे। यदौं पद्य शब्द में वहुवचन से यही प्रतीत होता है कि अनेक पद्यों का पाठ किया जाए। ये पद्य अनेक रूप तथा भावों से युक्त हों तथा पुष्पाङ्गलि अर्पण आदि आशय को सकेतित करते हों। यदि सूत्रधार वे समान स्थापक नियमानुसार इन श्लोकों का पाठ करता है तो भी नियम में किसी प्रकार का दोष नहीं समझना चाहिए। भरतमुनि के द्वारा यत्नलाया हुआ पूर्वरङ्ग का माहोपाङ्ग निर्धारक्रम प्रेक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत रहती है पर अधिकांश में भ्रुवाओं की शौरमेनी भाषा में योग्यना परिलिपित होती है। इनके ब्योग का एक उद्देश्य पात्रों की विरिष दर्शान्त्री, भावनाओं तथा घटनाओं को व्यक्तित्व दर्शाना होता है। इनके अतिरिक्त इनके द्वारा पात्रों के वार्य तथा तात्पर्य का भी संकेत हिया जाता है।

नहीं किया जा सकता है क्योंकि वैसा करने में कई कठिनाइयाँ [आ जाती] हैं।<sup>1</sup>

### तत्र सुनन्ततिदन्तैर्द्वादशपदी नान्दी यथा—

सुबन्त तथा तिष्ठन्त पदों से निर्मित द्वादशपदा नान्दी का निम्न उदाहरण है—

अज्ञेयावधितप्यमानतपसां सार्थं श्रिया दीर्घतां  
पुष्णत्यः स्मरधग्विलोचनशिसिज्योति सनाभित्विप ।  
इन्दुग्रन्थनहैमशृङ्गललता.      प्रेष्टद्वियद्वाहिनी-  
सोत शीकरकुन्दकुड्मलभृत शम्भोर्जटा पान्तु वः ॥

भगवान् शिवजी की वे जटाएँ आपकी रक्षा करें जिसमें गङ्गा जी के बहने पर उठने वाली फुहारे कुन्द की कलियों जैसी दिखाई देती हैं और आकाश की ओर उठने वाली श्रीगङ्गाजी की सुशीर्ष अलधाराएँ सुवर्ण की शृङ्गलाओं के समान हैं जो चन्द्रमा को बाधने के लिए आकाश में धूमाव ले रही हों। भगवान् शिवजी के नेत्रों में विश्वमान जो दिव्य ज्योति है उसने इन जटाओं को और चमकीली बना दिया है जो कामदेव को दहन करने वाली हैं। ये जटाएँ इतनी लम्बी हैं कि मानों भगवान् शिव की अनन्तकाल तक चलने वाली तप की साधना को अपने साथ रखने के कारण ही दूर तक फैलने को बाध्य हुई सी प्रतीत होने लगती हैं।

1 भरतमुनि ने पूर्वरङ्ग के अङ्गों को विस्तार से वरलाया पर वाद में इन सभी अङ्गों का परम्परागत व्यवहार पूर्क स्थिति बन कर तथैव नहीं चल पाया तथा धीरे धीरे अधिक विस्तार के कारण उत्थाने वाले प्रयोग अपना अस्तित्व खोने लगे। सागरनन्दी तथा विष्णुनाथ विदिराज्ज के समय नाटकीय प्रदर्शन में विलग्व या विघ्न के आपादक होने से पूर्वरङ्ग के सभी अङ्गों का प्रयोग (टीक से) नहीं होता था। विष्णुनाथ के 'द्वादशीं पूर्वरङ्गस्य सम्बन्धप्रयोगाभावात्' के उम्मेद से पूर्वरङ्ग के अङ्गों का संचेष में अनुमरण या अनुष्टान करने की प्रवृत्ति इष्टत परिलक्षित होती है। सागरनन्दी ने भी पूर्वरङ्ग के आवश्यक अङ्गों का विवरण देकर ध्यावहारिक या धावश्यक कार्यों को सम्पूर्ण करने की अपनी ड्यावहारिक वृत्ति ही यहाँ प्रदर्शित ही।

जब [ रहमञ्च पर ] नटी, बिदूपक या परिपाश्चिम के सूत्रधार के साथ विशिष्ट प्रकारों [ के घननों ] से युक्त तथा अपने कार्यों वो बतलानेवाले वार्तालाप हों या वीथी के किन्हीं अङ्गों से पूर्ण वार्तालाप रखे जाएँ या फिर किन्हीं और ही प्रकार से [ यह ] वार्तालाप किया जाए तो विद्वज्जन उसे प्रस्तावना या आमुख ममझे ।

**अन्यस्तु—अन्यापदेशेन कथानुकूलयाम्यगेकर सानुगो वा सूत्रधार दुर्योदामुखमिति । यथा—**

दूसरे आचारों का मत है कि किसी वार्तालाप के ठ्याज या उपदेश के द्वारा सूत्रधार ही अवेला या अपने किसी सहकारी को माथ रखते हुए 'आमुख' को प्रस्तुत करे ।

‘अन्तर्नेपथ्यमात्रोक्ति—श्रुतिस्मरणदर्शनै ।

स्वैरकैश्चापि वीथ्यकै प्रदुर्योदामुख चुव ॥’ ( इति )

इस प्रस्तावना को नेपथ्य की ओर देखते हुए इसी कथन को सुन कर, स्मरण कर या किसी व्यक्ति को देखकर अपने स्वयं कल्पित किसी कार्य या वीथी के<sup>1</sup> किन्हीं अङ्गों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए ।

### प्रस्तावनाङ्गानि

अस्याङ्गानि । उद्भात्यकावलगितके द्वे वीथ्या कथोद्वातपयोगा तिशयप्रवर्तका । अस्यैवाङ्गानि त्रीणि । एव पश्चाङ्गानि ।

अब प्रस्तावना के भेद बतलाते हैं । उद्भात्यक और अवलगितक नामक दो वीथी के अग या प्रकार प्रस्तावना के भी होते हैं । प्रस्तावना के अन्य तीन प्रभार हैं—कथोद्वात्, प्रयोगातिशय तथा प्रवर्तक । इस प्रकार कुल मिला कर प्रस्तावना के पाच भेद होताते हैं ।

### उद्भातकम्

उद्भात्यकस्यायमर्थ—पदान्यनगगतार्थानि प्रश्नेनावगतार्थं पदै प्रतिपादयतीति यत्तदुच्यते । यथा—

उद्भात्यक—अब उद्भात्यक वा स्पृष्टप घलाते हैं ।

इसे “उद्भात्यक” इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अगात शब्दों या भावों वा प्रश्नोत्तर के द्वारा सुस्पष्ट करते हुए प्रेभवों को आशय बनलाया जाता है । डैसे—

१. वीथी के १३ अङ्गों से उच्चग आदि आगे दिय जा रहे हैं ।

नाटकं कै गुणे शार्थं ये हरन्ति सता मन ।

क तेषां दृष्टमुत्थानं रत्नकोशकृताविति ॥

प्रश्न—नाटक की प्रशस्ता किन गुणों के होने पर की जाए ?  
उत्तर—जिनसे मज्जनों का मन आङूष्ट हो जाए । प्रश्न—उत्कृष्ट रूप  
में इसके लक्षण को कहाँ देखा जा सकता है ? उत्तर—रत्नकोश  
नामक रचना में ।

### अवलगितम्

अवलगितं पात्रससूचनार्थं यदालयनं तद् द्रष्टव्यम् ।

अवलगित—नाटकीय पत्र की सूचना देने के लिए जब रंगमच  
पर किसी परस्पर बार्तालाप किया जाये [ और तदनुसार पात्र का  
रंगमच पर प्रवेश हो ] तो उसे 'अवलगित' नामक प्रकार समझना  
चाहिए ।

यथा

त्रिवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसम्भं हृत ।

एष राजेव दुष्यन्त सारहेणातिरंहसा ॥

( अभिं० शाकु० १५ )

जैसे—‘मैं तेरे सुन्दर और मनोहारी गीत के राग से उसी प्रकार  
पिंच आया जैसे वेग से दौड़ने वाले हिरन से बलान् पिंच जाने वाला  
यह राजा दुष्यन्त हो ।

### कथोद्घातः

कथोद्घातः यत्र सूनधारस्य वाक्यं वाक्यार्थं चा गृहीत्या पात्र  
प्रविशति । तथाथा रत्नावल्याम् यौगन्धरायण—एवमेतत् क सन्देह ।  
'द्वीपादन्यस्मात्' ( रत्ना० १६ ) इत्यादि ।

कथोद्घात—सूनधार के द्वारा कहे हुए शब्द या उसके भाव को  
लेते हुए जब किसी पात्र का मन पर प्रवेश हो जाए तो 'कथोद्घात'  
नामक प्रस्तावना का प्रकार हो जाता है ।

१. नाव्यशास्त्र तथा दृष्टरूपक से अवलगित का यह उद्देश भिन्नता  
रखता है ।

नटी—इस श्रृंगु को जाने दीजिये। यह तो विरही मनुष्यों को सन्ताप देने वाली श्रृंगु है। मैं अपने गीरु के लिए दूसरा श्रृंगु चुन वर गाती हूँ।

अत्र वसन्तर्चीवर्हचि दर्शयन्त्याऽन्या शमिष्ठाया अवस्था प्रवर्तितं  
( दर्शि ) ता ।

प्रस्तुत कथन में वसन्त श्रृंगु के सम्बन्ध में अपनी अस्त्रिय प्रदर्शित करने हुए नटी ने शमिष्ठा की विरहदशा की सूचना दी।

अन्ये तु तुल्यकालप्रवर्तकमेव प्रवर्तकमिच्छन्ति । यथा—  
‘पित्रोर्विधातु शुश्रूषाम्’ ( नागा० १।५ ) इत्यादि । यथा वा—  
‘सायात्रिकैः सह समुद्रगमनमेव साधयामि ।’

विन्दी अन्य आचार्य का मत है कि एक समय में एकसाथ समान रूप से घटने वाली घटनाओं को ‘प्रवर्तक’ समझना चाहिए। जैसे नागानन्द नाटक में—‘अपने माता पिता की सेवा करने वे लिए इत्यादि में हैं। या फिर “मैं अब इन जहाजी सौदागरों के साथ समुद्र यात्रा पर ही चढ़ना हूँ” ( इत्यादि )

यथा—‘विश्वामित्रमुनिर्यथा रघुपते सीताविवाहं प्रति

व्यग्रात्मा यतते तथा वयमसी यत्र विधास्यामहे ।’ इति ।

अध्या—विश्वामित्र शृंगि श्रीराम तथा सीता का विवाह करवाने के लिए जैसे प्रथत्नशील रहे वैसे ही हम लोग भी इस वार्य के लिए प्रयत्न करेंगे। इत्यादि ।

वीर्यज्ञैरिति निर्देशान् नालिकापि कार्या । यथा वासवदचाहरणं  
सूचयन् सूत्रधार—

लक्षण में प्रवर्तक को धीर्थी के अङ्गों के साथ कहा है। इसपा आशय है कि इस प्रकार में ‘नालिका’ का प्रयोग भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ वासवदत्ता के इरण की सूचना देते हुए सूत्रधार पा निम्न कथन —

१। नालिका का सूक्ष्म भागे दिया गया है। ‘हस्ते कण्ठस्य’ श्लोक नालिका का उदाहरण है जिसमें ग्रहेणिङ के समान प्रश्नोत्तर करते हुए नाटक के नाम ( वासवदत्ता-ह-रण ) को प्रस्तुत किया गया है। ऐसे प्रयोग समस्कार उत्पन्न करने या नवीतता लाने के लिये प्रभावशाली रूप माने जाते रहे हैं जो नाटकीयहस्तना का आलड़ारिक्षमत्वार जैसा प्रयोग कहा जा सकता है।

हस्ते कर्णस्य का शक्ति क्षमत्यगतोऽस्ति क ।

परे, किमधितिष्ठन्तो न वाच्या शखिणो हता ॥

कर्ण के हाथ मे कौन शक्ति था ? क्षु और स के बीच कौन रहता है ? शशुओं के द्वारा मारे जाने पर भी योद्धा कहाँ निन्दनीय नहीं माने जाते ?

[ यहाँ तीन प्रश्नों के द्वारा क्रमशः नाटक की नामावाली के अक्षर प्रस्तुत किये गए हैं जिनके क्रमशः उत्तरों को ( १ ) वासवदत्ता ( २ ) ह ( ३ ) रण जोड़ने पर वासवदत्ताहरण नामक नाटक का नाम बन जाता है । यही नालिका कहलाती है । ]

इत्यामुखविधि । भारतीवृत्तिरियं वैदर्भगौडीयपाञ्चालरीहीना  
तिसूणामङ्गं घोदद्वया ।

इस प्रकार आमुख के प्रभेद ( अङ्ग ) बतलाए गए । भारतीवृत्ति वैदर्भी, गौडी तथा पाञ्चाली नामक तीनों रीतियों का अङ्ग बनती है ।

**सात्वती—**

या सात्वतेनेह गुणेन युक्ता

त्यागेन शौर्येण समन्विता च ।

हृषीक्षरा संहृतशोकमाजा

सा सात्वती नाम भवेत् वृत्तिः ॥ १२८ ॥

( ना० शा० २२३८ )

सात्वती—जो सात्वत नामक गुण, त्याग और शौर्य से युक्त हो तथा जिसमें अतिशय हर्ष तथा शोक की ( अर्थात् करुणरस की ) अत्यन्त न्यूनता हो तो उसे 'सात्वती' वृत्ति समझना चाहिए ।

सात्वता गुणा गुरुशुश्रूपादिसद्वृत्तय । यथा—

सात्वत गुण हैं अपने पूज्य माता पिता आदि की सेवा आदि सद्वाचरण । जैमे :—

यथा रामोऽजहाद् राज्य पितुर्भक्त्या क्रमागतम् ।

वनेऽपि न्यवसद् हृष्टशुर्दृशसमा अपि ॥

श्रीराम ने पूज्य पिता जी की भक्ति के कारण परम्परा से प्राप्त

होनेवाले राज्य का परित्याग तो किया ही प्रसन्न होते हुए चीदहर्ष  
का वनवास भी मान्य किया ।

**त्यागे यथा—**

वधो मे हन्तु मां पार्थ, पृथे सार्थस्तु तेऽर्थता ।

इत्यदात् कवच तस्ये कर्णं स्वप्राणनिस्पृह ॥

त्याग का निष्ठ उदाहरण है—

चाहे मेरे द्वारा वध अर्जुन मुझे ही मार द्वाले पर हे माता कुन्ती,  
तुम्हारी बाचना व्यर्थ न जाए । ऐसा कह कर अपने जीवन की कुछ भी  
परवाह न करते हुए कर्ण ने अपने कवचों को उसे हे डाला ।

**शीर्ये यथा—**

एष कृष्णाकचारुर्णं प्राप्तो दुशासनो मया ।

पातु कष्ठित् क्षणं तिष्ठाम्येहि कृष्णे हतो रिषु ॥

शीर्य का उदाहरण :—

मैंने इस द्रौपदी के केशों को खीचने वाले दुशासन को परड  
लिया है । अब इसे कोई बचा ले मैं एक छण रुक्ता हूँ । द्रौपदी,  
आओ । अब यह दुशासन मारा जा चुना है ।

**हपोत्तरे ( यथा )—**

आ, किं शोचाम्यहं श्रीव हतान् वन्धून् दशानन् ।

दशो मुस्त्वाश्च वीक्ष्यध्वं निहतौ रामलक्ष्मणौ ॥

अतिशय द्वये का उदाहरण :—

मैं दशानन हो कर भी अपने युद्ध मे मारे गए प्रियवाधी पर खियों  
के समान शोक करते हुए क्यों रोऊँ ? हे रावण, तुम अपनी आंखों  
से आँसू पोछो और देसों कि राम लक्ष्मण अब शीघ्र ही मारे जाएंगे ।

सैव रौद्रेऽपि । ( यथा ) राघवाभ्युदये रावणं प्रति जटायु—

इसी प्रभार रोद्ररम मे भी ममकना चाहिए । जैसे राघवाभ्युदय  
मे रावण के प्रति जटायु की यह उक्ति —

अवनिरविरथान्तं प्रस्थितैकंकचश्-

पुठकुहरविलोक्यालक्ष्याग्रजिह्वे ।

अरुणहचिरतिर्यवर्तिष्टमैरवास्य.

कवलयतु भवन्त शोधदीतो जटायु ॥

यह जटायु लिमने अपनी चोच की दोनों नोकों को पृथ्वी और सूर्य के रथ ने बीच तक फैला रखा है, जो अपनी लहराती हुई सर्प के समान जीभ को अपने तालु के बीच ने घुमा रहा है तथा जिसने अपने लाल नेत्रों वाले मुह को क्रोध के कारण तिरछा करने से घड़ी भीषण आँखुति बना डाला है, वही अब तुम्हें निगलेगा।

**अद्वृते यथा कुम्भाङ्के**

अद्वसुतरस का उदाहरण कुम्भाङ्क में —

राघव — अहो लाघव वानरस्य ।

राघव — ओ हो ! इस बानर ने वितनी कुरती दिखलाई ।

सीता — हदास, परक्रमति कि ण भणेसि । [ हताश पराक्रममिति कि न भणसि । ]

मीता — दुष्ट, इसे पराक्रम क्यों नहीं कहते हो ।

**अल्पकरुणा यथा**

विवृद्धात्माप्यगाधोऽपि दुरन्तोऽपि महातपि ।

वाढवेनेह जरधि, शोक, क्रोधेन पीयते ॥

धोडा करुण रस का उदाहरण :—

अतिशय विस्तीर्ण, गहरा, अनन्त और महाम् होने पर भी जैसे सामर चडवानल के द्वारा पी लिया जाता है उसी प्रकार क्रोध भी [ विस्तीर्ण, गहन, अपार और महान् होने पर ] शोक के द्वारा पिया जाता है ।

**स्वल्पशृङ्खारो यथा —**

प्रिये तावन्न नेत्राभ्या पास्याम्यद्य तद्वाननम् ।

न दशो यावदथृणि धमन्ति रिषुयोपिताम् ॥

परस्पराधर्षणकृता यथा ( वेणीसहारे )

**स्वल्पशृङ्खारम का उदाहरण —**

प्रिये, मैं जब तक तुम्हारे मुरर के सीन्दर्य का अपने नेत्रों से पान कर रहा हूँ तभी तक शत्रु ललनाओं द्वे तेंत्रों से बहने वाले आँसू रुके हुए हैं ।

**परस्पर दोपारोपण या मुठभेड़ का (वेणीसंहार मेनिम्न) उदाहरण :—**

कर्ण—जात्या तावदवध्योऽसि चरणं त्विदमुदृश्यतम् ।

अनेन लून खड़ेन पतित द्रक्ष्यसि क्षितो ॥

( वे० सं० ३।४१ )

कर्ण—अरे तू चाति से ब्राह्मण होने के कारण चाहे अप्यहो पर तुम्हारे इम उठे हुए पैर को तुम अभी इसी तलवार से कट कर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देगोगे ।

यथा च ( वा )—

शमिष्ठा—तरैप न्यस्यते वामपाद रिरसि धार्यताम् ।

अन्यः पठति—उद्धरेन पुन कृत पतित येत्स्यसि क्षितौ ।

इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण भी है —

शमिष्ठा—मैंने तो तुम पर अपना चाँचा पैर उठा लिया है जो सर पर गिरेगा ।

यह सुन कर उत्तर में दूसरे पात्र ने कहा —

जरा उठाओ तो, तुम देखोगी कि यह पृथ्वी पर कट कर गिर चुका होगा ।

अतएव भरतः

वीराद्युतौद्रसा विजेया स्वल्पशृङ्खारा ।

उद्धतपुरुषप्राया परस्पराधर्षणकृता च ॥ इति ॥

( ना० शा० २२।४० )

इसीलिए आचार्य भरत ने कहा है कि इम यृति में धीर, दीद तथा अद्यमुन रम श्रेते हैं, करुण और शृङ्खारस अल्पमात्रा में रखे जाते हैं। इसमें उद्धत यृति के पात्रों का आधिक्य रहता है और ये पात्र परस्पर दोपारोपण या मुठभेड़ करत हुए प्रस्तुत किय नाह हैं।

अस्याश्वत्वारो भेदा । उत्थापक, परिवर्तक, सलाप सादात्य-  
श्रेति ।

मात्रतीयृति व चार प्रकार हैं—(१) उथापक (२) परिवर्तक  
(३) सलाप तथा (४) साधात्य ।

( यथा ) 'उत्थास्याभ्ययमह त्व ( तावद् ) दर्शयात्मन  
शक्तिम् ।' इसि ।

अरे रे प्रहरस्व पश्यामस्ते शक्तिम् । इत्यादि ।

जैसे—मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तुम जरा अपनी ताकत तो बरलाओ ?

अरे तुम चार करो, मैं तुम्हारी ताकत तो देखूँ ।

महर्पादाश्रयाद्वापि प्राञ्छस्थापको मतः ।

उत्थापक—किसी पारस्परिक सर्वर को [ या सर्वर से उत्पन्न होने वाली चुनीती को ] लेकर किया हुआ कार्य 'उत्थापक' समझना चाहिए ।

योग्येषावहूँ कर्म प्रारब्धं वीक्ष्य निष्फलम् ॥ १२९ ॥

परामृत्यारभेदान्यद् भवेत् म परिवर्तक ।

भेदः साम च दानश्च त्रयं निष्फलताङ्गतम् ।

उद्दरेदण्डमास्थाय यत् स्यात्तत् परिवर्तकम् ॥ १३० ॥

परिवर्तक—आरम्भ किये हुए या किसी योग त्रैम के लिये किये गये कार्य की निष्फलता को देखकर दूसरे कार्य की ओर मुड़ जाना [ या न्से करने लगना ] 'परिवर्तक' वर्ताना है ।

जब साम, भेद और दान की व्यर्थता सिद्ध हो और अपना कार्य पूर्ण करने के लिए 'दण्ड' का सहारा लिया जाए तो उसे]भी 'परिवर्तक' समझना चाहिए ।

यथा राघवाभ्युदये कूटसन्धिना सामदाने निष्फलीमूर्ते रावण स्वरूपमास्थाय-दुरालैलश्मण, तिष्ठ तिष्ठेति व्याहनवान् । अन्ये तु-प्रकृतस्य कार्यस्य दैववरादन्यथैव परिपाक, परिवर्तक । यथा वारि प्रविश्य कार्यमनिच्छेव दुर्योधनो भीमस्य ( उत्तेजक ) वच, श्रुत्वा क्षेषादुत्थित ।

जैसे राघवाभ्युदय ये कूटनीनि के प्रयोग में जब साम, दान व्यर्थ हो गए तो रावण अपने रूप में प्रकट हो कर लक्षण से योला—दुष्ट लक्षण ठहर जा, कहाँ जा रहा है ? । [ यही परिवर्तक है ]

दूसरे आचार्यों द्वारा मर है कि प्रारभ किये हुए कार्य का दुर्भाग्यवश विपरीत फल देना 'परिवर्तक' कहलाता है । जैसे-दुर्योधन जल में धुन कर अपना (रक्षण) कार्य करना चाहता था पर भीम के ( उत्तेजक ) शर्वों द्वारा मुन कर वहाँ से क्रोधावेश में घासर निकल आया ।

साधर्षजो निराधर्षजश्चेति द्विविध सहायो न्यक्कारकारी च । यथा—दुरात्मन्, तिष्ठ तिष्ठ क गमिष्यसि । अयं न भवसि । त्वद्वृष्टादू वैरस्यान्तं गमिष्यामीत्यादि । निराधर्षजो यथा—त्वया सह मयाधीतं श्रुतञ्चेति । अन्यस्त्वाह—

संहाय—किसी को अपमानित करने और न करने से होने वाला 'संहाय' ( भी ) दो प्रकार का होता है तथा इसमें दुर्बचन या पिकार देने वाली शब्दावली रखी जाती है । इनमें से पहिले प्रकार का उदाहरण है—“अरे दुष्ट, ठहर जा, कहाँ जा रहा है ? अब ऐसा नहीं चलेगा । मैं तुझे मार कर ही अपना बड़ला चुकाऊँगा !” इत्यादि । उथा दूसरे प्रकार के ( अर्थात् जिन अपमान किये हुए होने वाला ) संहाय का उदाहरण है—

नाधीतं न श्रुतं सादृ त्वया सह मया क्षचित् ।

इत्यधिक्षित्वान् वाक्यमेकोऽन्यस्याक्षमायुतः ॥' इति ।

एक—मैंने तुम्हारे साथ साथ अध्ययन कर ब्रान प्राप्त किया है । दूसरा—मैंने तुम्हारे साथ न अध्ययन किया और न दिया ही प्राप्त की ।

उपर्युक्त शब्दावली में किसी प्रकार का दुर्बचन कहते हुए चिरस्कार किया गया जो अपना धैर्य छोड़ चुका था ।

**साहात्यः उच्यते—**

मन्त्रार्थकार्यसंसक्तो दोषाद् दैवस्य चात्मनः ।

सहात्यभेदजननः साहात्यः कृट उच्यते ॥ १३१ ॥

अब हम संघातक का लक्षण बतलाते हैं :—

संघातक—मन्त्र तन्त्र, धन या किसी दैवी दुर्घटना के कारण गूढ रूप से समूह या कुदुम्य में भेद उत्पन्न करने वाली शब्दावली या थोजना को 'संघातक' नामकरण चाहिए ।

( यथा ) लावणकदाहे वासवदत्ताया मरणं साधितम् । राघवा-भ्युदये रामं वश्यितु राघेन कृष्णन्धी जालिनी नाम राक्षसी सीता कृनेति । सात्वतीवृचिरियं पाण्डाल्या अङ्ग योद्यत्येति ।

जैसे लावणक में आग लग जाने से वासवदत्ता के मरण को घतलाना या पुष्ट करना । अथवा राघवाभ्युदय में राम को धोया देने

के लिए कूटसन्धि या कपटजाल विद्धा कर राष्ट्रण द्वारा जालिनी राक्षसी को सीता बनाना। यह सात्यतीवृत्ति पांचाली रीति का अङ्ग होती है।

### कैशिकी—

शृङ्गाराभिनयोद्भामि-पाठ्यमाल्यपिभूषणा ।

नृत्यगादिगीताट्या कामसम्भोगलक्षणा ॥ १३२ ॥

सुकुमारकाव्यनन्धामुज्ज्वलवस्त्राभरणवेपाञ्च ।

कामोपचारमहुलां भापन्ते कैशिकीं कवयः ॥ १३३ ॥

**कैशिकी**—निसके सगाद् शृङ्गार रस के अभिनय से पूर्ण, कोमलता और सालित्य लिए हुए हों, जिसकी भाषा अलङ्कारों से और वेप पुष्पमालाओं से आकर्षक बन गए हों व जिसमें नृत्य, गीत तथा वाद ( सगीत ) से युक्त प्रणयकीदाएँ हों तो उसे “कैशिकी” वृत्ति समझना चाहिए।

विद्वन् ( कविगण ) कहते हैं कि कैशिकी धृति में काव्य रचना सुकुमार रहती है, आकर्षक और भड़कीले वस्त्र और अलङ्कारों से सजाए गए वेप रखे जाते हैं तथा आमोद एव विलास बहुल प्रणय व्यापार का वाहुल्य रखा जाता है।

अस्याशत्त्वारो भेदा—नर्म, नर्मस्फोटो, नर्मगर्भ, नर्मस्फङ्गश्च ।

कैशिकीवृत्ति के चार प्रभेद होते हैं। यथा—( १ ) नर्म, ( २ ) नर्मस्फोट, ( ३ ) नर्मगर्भ तथा ( ४ ) नर्मस्फङ्ग ।

परपरादैः पर्ह्यैरश्लीलैश्च पितजितम् ।

शुद्धमन्तर्गताकृतं नर्म स्याच्छब्दगर्भम् ॥ १३४ ॥

उपस्थापितशृङ्गार हास्यवचनधाय नर्म वर्णयन्त्याचार्या ।

**नर्म**—निसमें दूमरों पर आक्षेप, ( निंज ) घठोर शब्द या अश्लील वचनों का प्रयोग न किया जाए उसे ‘शुद्धनर्म’ तथा जहाँ गूढ़गापूर्वक किसी बहाने से आक्षेप आदि का प्रयोग रहे उसे गृद या छद्मगर्भ नर्म समझना चाहिए।

आचार्या का भत है कि जिसमें प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए आरंभ किये हुए परिहासपूर्ण वचन हों तो उसे भी ‘नर्म’ समझना चाहिए।

आबद्धगीतरभसा कर्णेचित्पङ्कवा ।  
कामोत्सवे विलासिन्य क्रीडन्त्यय पुरे पुरे ॥

शुद्ध नर्म रा उदाहरण —

कामोत्सव के अवसर पर थाज प्रत्येक नगर में विलासिनी अगनीएं नवपङ्कवों के आभृपण कानों में पहिने हैं तथा गीत गाते हुए क्रीडा कर रही हैं।

अन्तर्गताकृतं यथा—

कलक्षणितगर्भेण कण्ठेनाघूर्णितेक्षण ।  
पश्य पाशवत कान्तामालिङ्ग्य परिच्छुम्बति ॥

( काव्यादर्श २१० )

गृदार्थ ( या अन्तर्गताकृत ) नर्म का उदाहरण —

देखो, यह परेवा [ कन्तर ] अपनी घूमती हुई आँखों से तथा मधुरध्वनि से अपने कण्ठ को आपूरित करते हुए अपनी प्रिया का आलिगन करते हुए ( उसका ) चुम्बन कर रहा है।<sup>1</sup>

छन्नगमं यथा—

इय नाम गता कान्ता हृदयात् क गमिष्यति ।  
नियदा सहजस्नेहजलेपेन यन्म मे ॥

छन्नगमं नर्म का उदाहरण —

चाहै प्रियतमा इस स्थान से चली जाए परन्तु स्याभाषिक स्नेह-रूपी धर्मलेप से ससक्त होने के कारण भेरेहृदय से कैसे हट सकती है।  
हास्यन्तरनप्राप्य यथा—

वरमशोनतरहर्षकुलो वरो

न पुनरस्मि वरस्तव सुग्रुद ।

भजति पादरताहतिरेकक

पिचति वक्त्रमुराद्य तथापर ॥

इत्युक्तिमि कान्ता हास्यन् कोप त्याजयति ।

1. छन्नना—काव्यादर्श २१० ।

हास्यवचनप्राय ( परिहासपूर्ण वचन ) नर्म का उदाहरण —

हे सुन्दरी, यह अशोक का या मौलसिरी का पेड ही अच्छा है मैं  
तुम्हारा प्रिय हो कर भी उतना प्रिय नहीं हो सका क्योंकि इनमें से  
एक तुम्हारी चरणलक्षा का स्पर्श पा नाता है और दूसरे को तुम्हारे  
गुलज़ की मदिरा की प्राप्ति होती रहती है ।

नायक द्वारा इस प्रकार के कथन से नायिका का मान जन्य कोप  
का छुटवाना नर्म है ।

अन्ये पुनराहुः—

‘हास्येच्छाभयभेदेन नर्मात्र त्रिविध भवेत् ।

शृङ्गारोदीपनो य स्यात् परिहास सविग्रहम् ॥

खीरुंसदोत्तु नर्मैतद्वास्यभेदव्यवस्थितम् ।

सताव्य कुसुमैश्लत्तापीच्छयागत्य दशनम् ॥

प्रियस्य नायिका याति यच्चिद्वाथय गवेत् ।’

दूसरे आचार्यों का मत है कि परिहास, इच्छा या भय के द्वारा  
होने के कारण नर्म के भी तीन प्रकार समझना चाहिए । इनमें नायक  
तथा नायिका का परस्पर विलासपूर्ण और शृङ्गार का उद्दीपक परिहास  
हो तो उसे ‘परिहासत नर्म’ समझना चाहिए । जब नायिका हिंप  
कर नायक को पुष्प फेंक कर मारे और फिर नायक के सामने खड़ी हो  
जाए तो उसे ‘इच्छाथय नर्म’ समझना चाहिए ।

भयाथर्यं यथा—

मेधोद्रच्छ पुर्नगच्छ पुनविंकिर विघुतम् ।

श्लिष्टोऽह यद्ग्रम यान्त्या कुद्रयाप्यर्थना विना ॥

भयाथयनर्म को निम्न उदाहरण से समझना चाहिए :—

मेघ, सुम बार बार धुमडो, धरसो और बिनली कडकाओं क्योंकि  
तुम्हारे इस कार्य से मेरी अनारण कुद्र होने वाली भीत प्रियतमा का  
विना याचना के मुझे आलिंगन प्राप्त हो रहा है ।

नर्मस्फोटो यथा—

गसेन काचिद् व्यवहरन्ती नायिक्यागत्य प्राप्ता । अकिञ्चि-

खुवणिव तूप्णीं स्थिते नायके शङ्खाभयपरा लज्जार्ति यत्र कन्या भवति  
स नर्मस्फोटः ।

**नर्मस्फोट**—जब कोई कन्या गुप्त रूप से किसी नायक से मिले और नायिका आकार वही उसे पकड़ ले तब नायक चुपचाप बैठा रहे और उस कन्या की दशा शक्ता, भय और लज्जा के कारण घबड़ा-हट पैदा करने वाली बन जाए तो इस सारी स्थिति का चित्रण ‘नर्मस्फोट’ समझा जाता है ।

**नर्मगर्भो यथा—**

यत्र प्रच्छाद्यात्मनो रूपं तत्सार्यतिप्रस्त्रे स्थिते स नर्मगर्भं  
उच्यते । यथा—वत्सराजसुतो नरवाहनं प्रभावतीवेषमास्थाय प्राप्तो  
मदनमन्त्रुकाम् ।

**नर्मगर्भ**—जब कोई पुरुष अपने स्वरूप को छिपा कर अपनी कार्य-  
सिद्धि की प्रतीक्षा करते तो उसे ‘नर्मगर्भ’ समझना चाहिए । जैसे वत्स-  
राज उदयन वे पुरुष नरवाहनदत्त का प्रभावती के वेप में मदनमन्त्रुका  
वे पास पहुंच जाना [ नर्मगर्भ है ] ।

**नर्मस्फङ्गो यथा—**

नरसङ्गमसम्भोगो यत्र जायेत मुभ्रुवः ।

नर्मस्फङ्गो शसौ द्वेयस्त्वप्तानभयानकः ॥ १३५ ॥

( ना० शा० २२१२१ )

**नर्मस्फङ्ग**—नायक तथा नायिका वे प्रथम समायम ये अन्यस्त  
पर होने वाले मुरद और बाद में होने वाले भय को ‘नर्मस्फङ्ग’ कहते हैं ।

यथा राजा सह देव्या प्राप्तोऽन्तं पुरयोपिता ।

द्वयोरप्यनयोः कष्टं प्राप्तं फूच्छ्रात् समापितम् ॥ इति ।

कैश्चित्तीवृचिरियं वैदम्यं अहं बोद्धव्या ।

जैसे,—महारानी ने जाकर महाराज को रनियास की एक (कन्या)  
दामी के साथ परङ्ग लिया तब दोनों को भड़ा कष्ट हुआ और बाद में  
वहे प्रथलों से यह निपत्ति हटायी जा सकी ।

कैश्चिकीर्त्ति वैदम्यो रीति का थंग मानी जाती है ।

आरमटी—

समुद्रतप्रायगुणा चीररौद्राद्वृतात्मिका ।

कपटानृतदम्भेषु वचनास्कन्दयोः स्थिता ॥ १३६ ॥

( ना० शा० २२५५ )

आरमटी—जिसमें प्राय उद्धतपुरुषों के गुणों की बहुलता हो, धीर, रौद्र तथा अद्वृत रस हों तथा कपटपूर्ण, ज्वृठे, दभ, वचना तथा परस्पर दोषारोपण या आक्रमण भेरे कार्य ( व्यापार ) हो तो उसे 'आरमटी वृत्ति' भमझना चाहिए ।

युद्धनियुद्धेन्द्रजालमायाछेदनप्लुतादिभिरारमटी जैया । कपटे यथा—लावणकदाहे वासवदत्ताया मरणम् । अनृते यथा—द्रोणवधे अश्वत्थामा हतो हस्तीति श्रुते । प्लुते—मारते समुद्रलद्वनम् । रामायणे लद्वास्कन्दनमास्कन्द् । अथवा अङ्गदेन मन्दोदरीकेशकर्पणम् । सुदूरं रामरामणयो ; नियुद्धं बालीसुम्रीवयोरित्यादि ।

अर्थात् युद्ध, बाहुयुद्ध, जादू, भ्रम, छेदन-भेदन तथा कूदफांद आदि क्रियाओं के द्वारा 'आरमटी वृत्ति' जानी जाती है । कपटपूर्ण व्यापार का उदाहरण है—जैसे लावणक ( प्राम ) में वासवदत्ता का आग में जल कर मरना । अमत्यपूर्ण व्यापार का उदाहरण है—अश्वत्थामा ( धीर से हाथी ) मर गया सुन कर द्रोण का निराश होने से बद किया जाना । कूद फांद का उदाहरण है—हनुमान द्वारा नमुद्र को लांघना । आक्रमण ( आस्कन्द ) का उदाहरण है—लंका को घेर लेना या अगद के द्वारा मन्दोदरी के केशों को रीच लेना । युद्ध का उदाहरण है—श्रीराम और रामण का परस्पर लड़ना । बाहुयुद्ध का उदाहरण है—बालि तथा सुम्रीव की दुश्ती होना । ये चारों उदाहरण ( आटिक्षणि बालमीकि आदि की ) रामायण में [दृव्य] हैं ।

अस्याश्वत्वारो भेदा—सद्धक्षिप्तकम् , अवपात , वस्तुत्यापनं, सम्फेट इति ।

आरमटी वृत्ति के चार प्रभेद होते हैं । यथा—( १ ) सक्षिप्तक, ( २ ) अवपातक, ( ३ ) वस्तुत्यापन तथा ( ४ ) सम्फेट ।

तत्र सद्विस्तु यथा—

मद्विमवभूतिपयः प्रयोगात्रिनिश्चिन्पवान् ।

वहृष्टुम्नोन्यात्कृत्वेष्यः सद्विस्तु भू मतः ॥ १३७ ॥

( नाठ शा० २२१६७ )

सदिश्चरुः—अब सक्रियक का लक्षण बतलात है ।

जिसमें रिपय के मशिन या थोड़े गाड़ों म बतलाया जाता है, जहाँ अनेक प्रकार के गिल्ला से युक्त प्रदर्शन हो तथा जिसके रिप मूशा अनेक प्रकार के पक्ष्मसे छी पुताई के द्वारा विचित्रता लिए हुए हों तो उसे 'भूतिपय' बममना चाहिए ।

नाम्ने यानि रथचर्तवर्द्धनवादीनि श्रियन्ते तानि पुन्न इति श्रीतिश्चनि । यथा नारदेन शिल्पकारदर्श नारद श्वरं भीत । यथा वा सद्वृत्तमादेन कल्या मादावरी हृता । अन्ये पुनर्गम्यत्वं सद्वृत्ति सद्विच्छिन्ननि । ( देखा० भूते ) पूर्वनामकल्याणेनापग्नायद्वच्छम्भव सद्विस्तु । यथा गवेणा गवामपनीय विमीरणम्य गजे दृत्वमिष्टचनम ( इति ) ।

नारद प्रदर्शन के द्वारा भू में आने वाली [ अथवा नारद प्रदर्शन के हैनु चमाए गए ] रथ, दान, रुपच, धन [ मुमीट ] आदि वस्तुएँ पुक्ष करलाती हैं । [ जिन्हें अनेक प्रकार के पक्ष्मों में या पक्ष्मसे में कलाकारों या कारोगारों के द्वारा बनाया जाता है ] । उत्तरण के लिये नारद ने अनेक प्रकार की उम्मुओं को बतला कर नरसात्र का नाम करवाया । या फिर इसका उत्तरण है मध्यमाय रे द्वारा भाग्यवर्ती कल्या या निर्माण करना ।<sup>1</sup>

अन्य अधारों का मत है कि मशियक का यह लक्षण दूसरे प्रकार का है । जनसा भूत है कि पिछले नायक के नारा होने पर उम्मेद स्थान पर दूसरे नायक की स्थापना या उड्ढर ने जाना 'भूतिपय' करलाना है । उत्तरणार्थ श्रीराम द्वारा रामण की नष्ट कर उम्मेद स्थान पर रिपीयण का संशामिष्टक करना ('भूतिपय' है) ।

1. यह नारदय नारद का विवर है जिसका उद्देश एहिं दिया जा सकता है ।

### अवपातः—

भयहर्षविद्रवसम्म्रमाणा क्षिप्रप्रवेशनिर्यणमवपातं विदुर्बुधा । यथा भार्गवेण युद्धाय रामे आहूयमाने वृद्धस्य दशरथस्य मुहु प्रविश्यतो निर्गच्छतश्च सप्तम्म्रम समयं सद्रवं चेष्टितमासीत् । सर्वथा विद्ववस्य चेष्टितमवपातः ।

**अवपात—** भय, हर्ष या घबराइट के कारण लोगों के जल्दी-जल्दी आने और जाने को अतलाना 'अवपात' समझना चाहिए। जैसे परशुराम द्वारा युद्ध के लिए जब श्रीरामचन्द्र को बुलाने पर वहे दशरथ का बार-बार इधर-उधर घूमना तथा भय, शीघ्रता और घबराइट के कारण अनेक चेष्टाएँ करना। अर्थात् घबराइट हुए मनुष्य की शीघ्रता में की जाने वाली चेष्टाएँ ही 'अवपात' कहलाती हैं।

### वस्तृत्थापनम्—

तत्र वस्तृत्थापनं यथा शम्बरकामदेवयोः सङ्गमे किं स्यादन्न शिशोः कामस्येति हरे. क्रोध., सीरिण सम्भ्रम., शोको यादवानां भयं वसुदेवस्य । नानारससुक्तं बन्धूनां चेष्टित वस्तृत्थापनमित्यर्थ ।

**वस्तृत्थापन—** जब किसी एक सम्बन्धित पुरुष के विषय में उसके सम्बन्धी भागने या न भागने की प्रवृत्ति का आश्रय लेकर अनेक भाव प्रकट करते हों तथा संक्षेप में सभी रसों का मिथण हो जाए तो उसे 'वस्तृत्थापन' समझना चाहिए। [ ना० शा० अ० न॒१६१ ] ।

**उदाहरणार्थ—** शम्बरासुर और कामदेव के युद्ध हो जाने पर क्रोटे बालक काम [ प्रशुम्न ] का बया होगा इस विचार में श्रीकृष्ण को क्रोध था गया, बलदेव को शीघ्रतावश बुद्ध न सूझा, यादवों में शोक व्याप्त होने लगा और वसुदेवजी को [ बुझापे के बारण ] भय होने लगा। अर्थात् सभी रसों से मिथित चेष्टाओं का [ प्रशुम्न के ] सम्बन्धी जन द्वारा प्रदर्शित करता 'वस्तृत्थापन' कहलाता है।

### तथाः—

सम्प्राप्ते भृगुलन्दने हरधनुर्भज्ञापराये पुर.  
काकुत्स्ये च पराभवं न सहति प्रारब्धयुद्धोत्सवे ।

उलुद्धो जनक शुच दशरथ प्राप्ते वसिष्ठादय  
सम्मान्ता पतिता मयेन च मुवा सख्या धृता मैथिली ॥ इति ।

### सदाहरणार्थ —

भगवान् परशुराम शिष्यनुप को लोडने के अपराध पर क्रुद्ध हो कर जघ सामने आगए और [ उन्हें ] ललबारने पर अपमान न मह सरने के कारण थोराम भी उन्हें सामने आस्त टड़े होगए तो जनक ब्रोधारश में आगए महाराजा दशरथ घबरा कर चिन्ता करने लगे, वरिष्ठ आदि रुपि उत्तेजित होते लग और तभी भयभीत मीता पृथ्वी पर मृच्छित हो कर गिर पढ़ी चिस उमड़ी सर्पी ने सम्माल लिया ।

### सम्फेटो यथा—

सम्फेटश्च वीररोद्राद्युतपार्ये युक्त ससम्भ्रममय युद्धनियुद्धयहुल  
कपटमय शक्षपपातविषय । यथा समुद्रमधने देवामुराणम् । यथा च-

सम्फट—बलगा या हलचल ही 'सम्फट' होता है निम्न वीर, रोद्र या अहुत रस हो, युद्ध और घाहयुद्ध रहे और द्वल, कपट तथा शक्षा के प्रहार से बड़ी दिप्त एवं भयानक स्थिति बन जाए । जैसे समुद्रमाथन रे समय देव और नानगों का हलचल । अथवा निम्न उत्तरण मे—

वाहुयुदैरेष्युद्धे कपटैर्वहुविस्तरै ।

धोरमत्यन्तममवद् युद्ध वृग्महेन्द्रयो ॥ इति ।

इन्द्र और वृत्रासुर का परस्पर वाहुयुद्ध, राव युद्ध तथा अनेक प्रवार के मायापूर्ण कपटों के साथ धोर युद्ध होता रहा ।

आरभटीवृचिरिय गाढवृच्चरङ्गम् । एता धृतयो सदु मुनिना भरनेन नाश्वस्य मातर कथिता ।

यह आरभटी वृत्ति गीढ़ी रीति का अन होती है । आधार्य भरत मुनि ने इन धृतियों को काव्य की मात्रा पहा है ।

एतास्तेव च निर्यातं नाद्रां हरति मानसम् ।

काव्यमप्याभिराकीर्ण सता नयति रञ्जनम् ॥ १३८ ॥

दूरी धृतियों से निमित नाश्वस्योग मनोरंजक रत्ता है तथा

[ श्रव्य ] काव्य रचना भी इन वृत्तियों से युक्त होने पर सज्जनों का मन आकृष्ट करती है ।

रीतीना विभागः काव्यमीमांसायां द्रष्टव्य । इह तु प्रन्थ-  
विस्तरभयान्त्रोदीरितोऽस्माभि ।

गौडी आदि रीतियों के भेदपर्वक लक्षण आदि काव्यशास्त्रीय प्रन्थों  
से जानना चाहिए । यहाँ हम विस्तार भय से उन्हें नहीं दे रहे हैं ।

आसां भेदचतुष्प्रयेष्वैकमभिगाञ्छितम् ।

प्रयोगे कविभिः कार्यं कृतस्तमेकत्र दुर्लभम् ॥ १३९ ॥ इति

वृत्तियों के इन चारों भेदों में जो भी भेद इष्ट या अनुकूल हों  
उन्हें नाटक में विभिन्न समयों में ( तथा प्रदेशों में ) रखना चाहिए  
क्योंकि एक ही नाट्यप्रदर्शन में एक साथ सभी भेदों का रखना बड़ा  
कठिन होगा ।

गुणः—

एतास्वेव वृत्तिषु नाटकादौ नायकस्यादौ महागुणा प्रदर्श्यन्ते ।  
तद्यथाचार्य.—

नायक के ( सहज ) गुण—नाटक आदि रूपको में स्थित इन्हीं  
वृत्तियों में नायक के आठ गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए । जैसा  
कि आचार्य भरतमुनि ने इन गुणों को बतलाया है ।—

शोभा विलासो माधुर्यं स्थैर्यं गाम्भीर्यमेव च ।

ललितौदार्यतेजांसि सत्त्वभेदास्तु पौरुषाः ॥१४०॥  
( ना० शा० २४३१ )

इत्यष्टौ महागुणा पुरुषाणा ये नायके दर्शयितव्या ।

पुरुषों के सहज शारीर गुण आठ होते हैं । यथा—( १ ) शोभा,  
( २ ) विलास, ( ३ ) माधुर्य, ( ४ ) स्थैर्य, ( ५ ) गाम्भीर्य, ( ६ )  
ललित, ( ७ ) औदार्य तथा ( ८ ) तेज ।

पुरुषों के इन्हीं आठ शारीर गुणों को नायक में दिखलाना इष्ट  
रहता है ।

तथ शोभा—

युधि शूरत्वं, कार्यदक्षता, गुणानुरागः, लोके साधुत्वं, सत्यवादिता  
चेत्येषा समुदय शोभा । यथा—

सर्व प्रथम शोभा वा लक्षण बतलाते हैं :—

जीभा—युद्ध में शूला अनेक कार्यों को पूरा करने का सामर्थ्य या उनको चमुराई से कर ढालने की क्षमता, गुणों में प्रति लगान, सचिरिता और सत्यवादिता का एकत्र रहना 'जीभा' कहलाता है। जैसे —

भूषिति शोभते वैपै छुटीबपक्षोऽप्यमुज्ज्वताम् ।

मतापस्तु जगद्व्यापी शोभा पूर्ण इवातप ॥

राजा अपनी वेपभूषा से शोभित होते हैं इस लचर दलील (कलीब-पक्ष) को अब छोड दीजिए। क्योंकि जैसे सूर्य की अपने प्रकाश से हैं से ही राजा की शोभा अपने संसारव्यापी प्रभाव से ही होती है।

पिलासः—

धीरद्विष्टि , गोवृपभाद्विता गति , मधुरा वाक्, स्मितपूर्व भाषण, शुभाङ्गति , सम्पद्विषिदो समता चेत्येषा समुदयो पिलासः । स यथा—

पिलास—धीर द्विष्टि वृपम के समान सुन्दर चाल, मीठी घाणी, मुसकुराते हुए बातचीत, सुन्दर या सस्वार युक्त स्वरूप तथा सम्पत्ति और विपत्ति में समान भाव से रहना 'पिलास' नामक गुण कहलाता है। जैसे —

सुधासोदरवाचस्ते स्मितपूर्वाभिभाषिण ।

को नामार्थी न तुष्ट स्यादल ताषद्वनागमै ॥

मुसकुराते हुए अमृत के समान मीठे आपके घर्थन से ही ऐसा कीन याचक है जो सन्तुष्ट नहीं हो जाता फिर आगे धनप्राप्ति की बात द्यो, कही जाए ?

माधुर्यम्—

माधुर्यं विप्रियेऽप्यनुद्देग । यथा—

अपराधिन्यपि जने साधु साधेव वर्तते ।

देहारमपि गन्धेन वासयत्येव चन्दन ॥

माधुर्य—किमी के द्वारा भूल या अपराध करने पर भी द्वेष या कोध न रहना 'माधुर्य' कहलाता है। जैसे :—

मञ्जन मनुष्य रिमी अपराधी या मूल करने धाले पुरुष से भी

सज्जनता का ही व्यवहार करेगा क्योंकि चन्द्रन का वृक्ष काटने वाले व्यक्ति को भी अपनी सुगन्ध से सुगासित ही करता है।

### स्थैर्यम्—

धैर्यवत् स्थैर्यम् । धर्मार्थकामव्यवसायादचलनम्, अतिजित-काश्चित्वं, सदा मानशौर्याभ्यामवस्थानमदीनचेष्टितव्य । यथा—

स्थैर्य—धीरज रखना, धर्म, अर्थ तथा काम को बिना किसी व्यवधान के चलाते रहना, अभिमानी स्वभाव रखना, सम्मान और वीरता के साथ रहना तथा व्यवहार में दीनता न दिखलाना 'स्थैर्य' कहलाता है। जैसे :—

सम्पत्स्वापत्सु तुल्यात्मा रामो धैर्यकुलाचल ।

विकारै. कैश्च नाक्षिसो वेदार्थं इव हेतुभि ॥

श्रीराम धैर्य के कुलपर्वत हैं जो सम्पत्ति और आपत्ति में समान रूप से स्थिर रहने हैं। इन पर विकारों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता जैसे वेदों का अर्थ दुष्ट हेतुओं से आक्षिप्र नहीं होता।

### गाम्भीर्यम्—

हर्षशोकभयकोषा लब्धावक्षाशा अपि यत्र न विकारकारिणो  
भवन्ति तद् गाम्भीर्यम् । यथा—

गाम्भीर्य—जब हृष्ट, शोक, भय तथा क्रोध के आने पर भी कोई परिवर्तन न दिखाई दे तो इसे 'गाम्भीर्य' समझना चाहिए। जैसे :—

आकर्ष्योपहृता सीतां रावणेन रघूदृह्ण ।

न रुरोद न चुक्रेश लक्ष्मण ग्रैहतादरात् ॥

श्रीराम ने सीता को रावण के द्वारा हर लेने का समाचार सुनकर न तो रुदन किया न क्रोध ही किया केवल थोड़ा झुक कर लक्ष्मण की ओर देखने लगे।

### ललितम्—

मधुरा वाम्बेष. शृङ्गारी, चेष्टिं साधु, साधूनां सदा सज्जमवान्धा  
ललितम् । यथा—

ललित—जब मधुर संभापण, शृङ्गारी वैपमूपा, सज्जन पुरुप के

समान आचार और सज्जनों की संगति सदा करने की अभिलाषा रखी जाए तो इसे 'ललित' नामक गुण भवना चाहिए। जैसे :—

स तिष्ठति सदा धीमान्छाष्टचिन्तासुधारसै ।

स्वविम्बैरिव भित्तियै पण्डितै परिवारितः ॥

यह बुद्धिमान् पुरुष शास्त्र के चिन्तन खपी अमृत का आस्थादन करते हुए भित्तियों पर स्थित दर्पणों में प्रतिबिम्बित अपने जैसे ही पण्डितों से घिर रहता है।

**औदार्यम्—**

'दानमभ्युपपत्तिश्च सर्वदा प्रियभाषणम् ।

स्वजनेऽन्यजने यत्र न प्रेम कृतकं भवेत् ॥ १४१ ॥

( ना० शा० २४१४० )

**तदौदार्यम् । यथा—**

ओदार्य—सहायता करने तथा दान देने की भावना, सदा प्रिय-भाषण तथा अपने और पराए व्यक्तियों में सहज स्नेह रखना 'ओदार्य' नामक गुण होता है। जैसे :—

पराल्मीयविभागोऽयं मोह॒ क्लिनात्यपण्डितम् ।

प्रीतिः सर्वत्र धीरस्य ज्योत्स्नेवास्ते सुधानिधे ॥

यह मेरा है और यह अपना नहीं है ऐसी भावना नासमझ को कष्ट देती है। धीर मनुष्य चन्द्र की प्रभा के समान अपनी प्रीति सभी पर ( समान ) रखता है।

**तेजः—**

अधि क्षेपापमानप्रत्यवायदर्शनैः परैरुच्यमानस्यारव्यादनिवर्तन  
तेजः । यथा राघवाम्युदये—

तेज—अपने प्रारम्भ किये हुए कार्य को दूसरों के ढारा अपमानित किये जाने, दोष बतलाने, धाधा पूर्णचाने या ढाटने आदि होने पर भी न छोड़ते हुए पूरा कर नेता 'तेज' नामक गुण देता है। जैसे राघवाम्युदय में श्रीराम वी निम्न उच्चि—

राम.—आज्ञास्तु ते त्रिदशनाथ दद्याननस्य

सन्धौ विदेहदुहितुश समागमेऽस्मिन् ।

प्रत्याशयान्तिकगतस्य

विमीषणस्य

लङ्घा प्रदाय न विना धृतिभेति राम ॥ इति ।

हे देवाविराज इन्द्र, आपकी चाहे यह आज्ञा ही क्यों न हो और मुझे जिससे रायण के माथ सनिध और सीता की प्राप्ति ही चाहैं क्यों न हो जाती हो परन्तु राज्यप्राप्ति की आशा से मेरी शरण लेने वाले विभीषण को बिना लका का राज्य प्रशान किये राम को शान्ति नहीं मिलेगी ।

पञ्चाभिनया भवन्ति । यथा—वास्यं, सूचा, अङ्गुर, शाखा, निरूत्यङ्गुरश्चेति ।

(पञ्चाङ्ग) अभिनय—नाटकीय तथ्यों को प्रकट करने के लिए अभिनय को पाच प्रधारों का प्रयोग किया जाता है । ये पञ्चाङ्ग अभिनय कहलाते हैं । इनके नाम हैं—(१) वाक्याभिनय, (२) सूचाभिनय, (३) अङ्गुराभिनय, (४) शाखाभिनय तथा (५) निरूत्यङ्गुराभिनय ।

**वाक्याभिनयः—**

तत्र नायरुस्य यद्युद्ग्रहारादिवर्णना स वाक्याभिनयः ।

**वाक्याभिनय—**जब नायक के युद्ध, ग्रहार आदि का वर्णन किया जाए तो उसे 'वाक्याभिनय' समझना चाहिए । जैसे :—

यथा—

इय श्रीर्यत्कृते सिन्धुं मध्यतोऽभूदुरस्तव ।

मन्दरोपान्तसङ्घर्षुव्यत्वक्षालदन्तुरम् ॥'

१ वाक्य, सूचा आदि अभिनय के पाच प्रधारों को भरतमुनि ने शारीराभिनय माना है । इनमें उपर्युक्त प्रकारों के नतिरिक्त 'नाव्यायित' नामक छठा छौर भेद होता है । सागरनन्दी ने इन प्रकारों को पञ्चाङ्गाभिनय माना है जिनका उल्लेख कालिदास के माटविकाभिनिमित्रम् में भी प्राप्त होता है । सागरनन्दी का यह विवरण प्राचीन भाषाओं से भिन्न है । भरत आदि के नुसार इन शारीराभिनय का स्वरूप इस प्रकार होगा—(१) वाक्य—गीत या उसका मूल स्वरूप । (२) सूचा—गाय जाने वाले गीत की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए तद्दुरूप चेष्टाओं का आचरण । (३) अङ्गुर—अभिव्यक्ति का अस्तुदाकरण । (४) शाखा—शरीर के हस्त, पाद, मुख आदि अवयवों के द्वारा भावों का स्पष्टत प्रकटीकरण तथा (५) निरूत्यङ्गुर—दो अभिवेताभावों के पारस्परिक संवाद में होने वाले धार प्रतिधारों से पारस्परिक प्रतिक्रिया का स्पष्टता मिलना ।

यही वह लक्ष्मी है जिसके लिए मागरमन्यन करने पर मन्दरा-  
चल भी बाजुओं की रगड़ से तुम्हारा वश स्थल काला और ऊँचा-  
नीचा हो गया था ।

### सूचाभिनयः—

**पूर्वमंसूचितानर्थान् प्रतिपादयितुं पुनः ।**

प्रयुज्यते हि यद् गाम्यं सा सूचा कथ्यते तु धैः ॥ १४२ ॥

सूचाभिनय—एक बार सूचित अर्थ या तथ्य को किर से बतलाने  
के लिये जब वाक्य का प्रयोग किया जाए तो उसे 'सूचाभिनय'  
मममना चाहिए ।

यथा—

दृष्टुं सामुत्सुकुं चक्षुं श्रव श्रोतुञ्च तट्टिर ।

चेतधिरोपित नस्यां प्रभुरास्मि न चालन ॥

जैसे—

मेरी आँखें उसे देखने को लालापित हैं, मेरे बाज उसी की वाणी  
मुनने को उत्सुक हैं, मेरा मन चिरकाल से उसी में रम गया है और  
मैं अब अपने बम का नहीं रहा हूँ ।

### अङ्कुराभिनयः—

**यादर्येत्न्यायदिर्ष्यत् कथ्यते हृदयस्थितम् ।**

यथागदर्शनायोग्यं सोऽङ्कुराभिनय स्मृतः ॥ १४३ ॥

अङ्कुराभिनय—यदि दूसरों के कथन को उद्घृत करते हुए क्षिपी हुई  
मन वी बात का दर्शाया जाए तो उसे 'अङ्कुराभिनय' मममना चाहिए ।

यथा—दृष्टापरेव युन्वाना पाणिन्द्रवपद्मम् ।

सभृङ्गालापमीत्कारा चुम्ब्यने मलता लता ॥

अधर के दशन से रक्षित होने जैसी, नरपक्षमहीनी हाथों को  
झटके देने जैसी और शूद्रों की गुनार को मीत्कार करने जैसी प्रकट  
करते हुए यह लता यायु के द्वारा चुम्बन की जा रही है ।

### शारणाभिनयः—

इस्तपादमभृतिभि शारणाभिनयः । यथा—

पादास्तालस्त्वलद्गूमि वेद्वद्वैर्हिरुद्दिक् ।

जटाक्षिस्यु व पायाच्छमोस्ताण्डवद्वरम् ॥

जाग्नाभिनय—द्वाय-पैर आडि की चाल या चैट्टाओं से होने वाला कार्य 'आग्नामिनय' कहलाना है। जैसे :—

भगवान् शिष्टी का यह ताण्डव लून्य आपकी रक्षा करे जिसमें पैरों के दबाव के कारण नम कर पृथ्यी गिरकर रही है, मुजाओं के फैलाव के कारण दिशाएँ अवश्य हो गयी हैं तथा जटाओं के उद्घलने से आढ़ारा बिन्दरा भा दिखाएँ दे रहा है।

यथा का—

अर्वाचि प्रेरितेकपादस्फारीमवचनुम् ।

वन्दे विविक्ताकान्तमूर्सुवस्वब्रवं हरिम् ॥

तथा—

अपनी तीन डगों से भू, नुब और स्वर्गलोक को लांघने के अपमर पर अपने एक एक पैरों का ऊपर नीचे की ओर फैलाने के कारण जिन्हें अपने गर्गि को फैलाना पड़ रहा है इन थीं भगवान् विष्णु को मेरा प्रपातम्।

निवृत्यद्वृरः—

यत्रान्यन्तं प्रयुक्तन्तु करोत्यन्यथा कथन ।

पूर्वानुभूतमन्यादं न निवृत्यद्वृरो मवेत् ॥ १४४ ॥

( ना० शा० २४५० )

निवृत्यद्वृर—अभ्यासवश सक पात्र के द्वारा किये हुए अभिनय या शाय का उमी प्रकार दूसरे पात्र के द्वारा अनुस्तरणात्मक आवर्तन [ या दोहराया जाना ] 'निवृत्यद्वृर' समझना चाहिए। जैसे :—

यथा—

उद्यमन्तजरीक्षीयी तर्जन्या कुपितेव सा ।

लता भा तर्जयत्येपा स्फुरिताघरपङ्कवा ॥ इति ।

यह लता अपने पक्कड़कने हुए पञ्चलवस्त्रपी अधरों तथा मञ्चरीस्त्रपी ने कों को न तर्जनी के रूप में दिखला कर कुपित मानिनी द्वी के समान मुझे धनका रही है।

लक्षणानि—

अथ लक्षणानि व्याख्याम्याम् । तत्र पद्मत्रिशङ्खपोपेनं नाटके

नाव्यसिद्धिमधिरोहति यथा लक्षणैरुपेतो राजा राज्यश्रियमिव । तच्च  
यथा—

लक्षण—अब हम लक्षणों को बतलाएँगे । क्योंकि कहा भी है  
कि राज्य चिह्नों के धारण करने पर राजा के ममान ही लक्षणों से  
युक्त नाटक की पूर्णता या सिद्धि मानी जाती है । जैसा कि निम्न  
कथन से स्पष्ट है—

**लक्षणैर्वद्युमिशेषदेतुभिः नाटकं ब्रजति नाथ्यसम्पदम् ।**

**मद्वैरिप शुभानुवन्धिभिश्चकवत्तिपद्वां महीपतिः ॥१४५॥**

अनेक विशेषताओं के आपादक लक्षणों से नाटक उसी प्रकार  
श्रेष्ठता प्राप्त कर शोभित होता है जैसे कल्याणसूचक चिह्नों और उनमें  
गुणों के धारण करने से राजा चक्रवर्ती पद प्राप्त करे ।

तान्यमूनि लक्षणानि नामत एवाह भरताचार्यः । यथा—

‘भूपणाक्षरसद्वात्तौ शोभोदाहरणे तथा ।

‘हेतुमंशयदृष्टान्तास्तुल्यतर्कः पदोच्चयः ॥ १४६ ॥

ग्रासिरप्यभिप्रायश्च निर्दर्शनं निरुक्तरूप ।

सिद्धिर्मिशेषणञ्चैव गुणातिपातातिग्रायौ ॥ १४७ ॥

दिष्टं तथोपदिष्टञ्च विचारोऽथ विपर्ययः ।

अंशश्चानुनयो माला दाक्षिण्यं गर्हणं तथा ॥ १४८ ॥

अर्थापत्तिः प्रसिद्धिं पृच्छा सारूप्यमेव च ।

मनोरथश्च लेशश्च सङ्केपो गुणकीर्तनम् ॥ १४९ ॥

ज्ञेया ह्यनुकमिदिथ ग्रियं वचनमेव च ।

[ पट्प्रियश्लृष्ट्यणान्येवं काव्यमन्धेषु निर्दिशेत् ॥१५०॥ ]

( ना० शा० १७।१५ )

१ नाव्यशास्त्र तु धन्त्र भिषणाठकम् परिचयत । तत्र दि—‘हनुमदयदृष्टान्ता  
प्राप्तमिश्राय एव च । निर्दर्शनं निरुक्तम् सिद्धिशाय विशेषणम् । गुणानिपातात्ता  
शायी सुश्यतर्कं पदोच्चय । दिष्टं चैकोपदिष्टञ्च विचारस्तद्विपर्यय ।’ इति—‘ग्रास-  
रथश्च लेशश्च सङ्केपो गुणकीर्तनम् ।’ इति च पाठ ममुपलभ्यत । ( सम्पाद । )

आचार्य भरत ने इन लक्षणों के नाम इस प्रकार बतलाए हैं। यथा—( १ ) भूषण, ( २ ) अश्वरसधात, ( ३ ) शोभा, ( ४ ) उदाहरण, ( ५ ) हेतु, ( ६ ) सराय, ( ७ ) हृषास्त्र, ( ८ ) तुल्यतर्क, ( ९ ) पठोचय, ( १० ) प्राप्ति, ( ११ ) अभिप्राय, ( १२ ) निदर्शन, ( १३ ) निकृत, ( १४ ) मिद्दि, ( १५ ) गिरेण, ( १६ ) गुणातिपात, ( १७ ) अतिशय, ( १८ ) दिष्ट, ( १९ ) उपदिष्ट, ( २० ) विचार, ( २१ ) विपर्यय ( २२ ) भरा, ( २३ ) अनुनय, ( २४ ) माला, ( २५ ) दाङ्गिण्य, ( २६ ) गहण, ( २७ ) अर्थापत्ति ( २८ ) प्रमिद्दि, ( २९ ) पुन्ड्रा, ( ३० ) सामृत्य, ( ३१ ) मनोरथ, ( ३२ ) लैशा, ( ३३ ) सज्जेप, ( ३४ ) गुणकीर्तन, ( ३५ ) अनुक्तमिद्दि तथा ( ३६ ) प्रियोक्ति ( प्रियमचन ) ।

**भूषणम्**—तत्र भूषणम् । आह कात्यायनः—‘सौन्दर्य-मलङ्कार ।’ शब्दार्थयो मुन्द्रत्व नाम अलङ्कार शोभाकरो धर्म इत्यर्थ । यथाह—

भूषण—अब भूषण का स्वरूप बतलाते हैं । जैसा कि कात्यायन ने कहा है—अलङ्कार या भूषण सौन्दर्य को कहा जाता है । अर्थान् शब्द और अर्थ का मुन्द्र रहना भूषण ( या अलङ्कार ) समझना चाहिए । यही इनका शोभाप्रायक धर्म कहलाता है । जैसा कि आचार्य दण्डी ने कहा भी है—

‘काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते ।

ते चाद्यापि विस्तृप्तं कस्तान् ऋत्सर्वेन वक्ष्यति ॥’ इति ।

( काव्यादर्श २।१ )

काव्य की शोभा के आधायक धर्मों को अलङ्कार कहा जाता है । इनके स्वरूप तथा भेदभावों के विषय में आज भी विविध रूप में ऊर्जापोह चलता रहता है अतएव इनमा सामग्रेण स्वरूप कौन बतला मस्ता है ?

( ते च ) स्वभावाग्न्यानोपमादयश्चतुन्निशदलङ्कारा । ये च अब्दस्य चार्थस्य च दशु गुणा कीर्तिना । यथा—

१ कात्यायन का उल्लेग बलङ्कारशास्त्र के आचार्य के रूप में प्राप्त नहीं होता परन्तु उपर्युक्त उद्धरण वामन के काव्यालङ्कार सूत्र का है निम्न स्पष्ट है कि कात्यायनगोत्र वामन का रहा होगा । आचार्यों की गोत्र के द्वारा सूचना मानृतमादित्य में अनेक स्थानों पर प्राप्त होती है जैसे पतञ्जलि को गोनर्दीय, लोङ्गट को अपराजिति आदि ।

इनमें स्वभावोक्ति (अथवा स्वभावाख्यान) उपमा आदि चौंतीस अलङ्कार हैं। शाद और अर्थ के त्रिस गुण बतलाए गए हैं। ते इम प्रकार हैं—

‘इलेप प्रमाद समता माधुर्यं सुकुमारता ।

अर्थप्रक्रियात्मकोज वानितसमाधय ॥’ (का० दर्श १।४१)

(१) इलेप, (२) प्रसाद, (३) समता, (४) माधुर्य, (५) सुकुमारता, (६) अर्थव्यक्ति (७) उदारता, (८) ओन, (९) वानित तथा (१०) समाधि।

तत्र इलेपोऽस्पष्टश्वेतिल्यम् । शिथिलमल्पप्राणाक्षरयोग । प्रसादः प्रसिद्धार्थं प्रसादवत् । समता चतुर्पदा सुमानर्णविन्यासजन्मा वन्ध । माधुर्यं वाग् वस्तुनो रसगदग्राम्यत्वं सानुभासत्वम् । सुकुमारता इनिषुराक्षरायम् । अर्थव्यक्तिरेयार्थत्वम् । उदारतं यदुक्तौ गुणोत्कर्षं । ओजश्च—‘ओज समासभूतस्त्वं तद्विगदस्य जीवितम् । यद्यप्याख्यायित्वास्त्वेव दाक्षिणायिता ग्रनुज्ञते ।’ (का० दर्श १।८०) इत्युक्तलक्षणम् । कान्तिर्विकार्थविरोधेन वर्णना । समाधिः अन्यधर्मस्यान्यत्र सम्यग्मारोपणम् ।

इनमें ‘शिलेप’ उम कहते हैं नहाँ रचना में शिथिलता का स्पर्श न होता हो। शिथिलता कहते हैं अल्प प्राण अश्वरों का रहना। सुप्रसिद्ध अर्थ को मरलता में प्रवक्त कर देना ‘प्रसाद’ गुण समझना चाहिए [अथवा अर्थ को मरलता से पूर्ण रखना प्रमाद समझना चाहिए।] परन्तु चारों पाँचों में समान रचना शैली से द्वारा प्रकृतपता रखना ‘समता’ समझना चाहिए। विषयतस्तु आमददोष से रक्षित तथा अनुग्राम से युक्त शास्त्ररचना का भरम ऐसे नियम हुआ स्वरूप ‘माधुर्य’ कहलाता है। कठोर पदारपली को बचाते हुए शास्त्रों का प्रयोग करना ‘सुकुमारता’ समझना चाहिए। नेयार्थत्वदोष से रहित [निमम किमी अर्थ की ऊपर से कल्पना न घरनी पड़े] गुण ‘विर्द्वयति’ कहलाता है। उक्ति या प्रश्नरचना में गुण का व्रमिक उर्ध्वया निम्नार तोना ‘उदारता वृलाता है। रचना में लभ्ये ममामों का प्रयोग करना ‘ओन’ कहलाता है। यह गद्यरचना पा प्राण माना जाता है तथा दाक्षिणात्य तर्फ इसका प्रयोग आत्यायिका में किया करते हैं। यथार्थ या लौकिक वर्णनों पा यथात्व प्रस्तुत

बरना 'सन्ति' समझना चाहिए। एक वस्तु के धर्म ( गुण या स्वरूप ) को दूसरे में आरोपित करना 'समाधि' समझना चाहिए।

तत्र भूषणम्—

अलङ्कारैर्गुणैर्थैव वहुमिः समलङ्कृतम् ।

भूषणस्तद्भूषणमिति स्मृतम् ॥ १५१ ॥

( ना० शा० १७।५ )

**भूषण**—अतएव जिन अलङ्कारों और गुणों को हमने पहिले बतलाया था उन्हीं अलङ्कारों [ उपमा आदि ] तथा गुणों [ श्लेष, प्रसाद आदि ] से युक्त अर्थ को 'भूषण' समझना चाहिए। यह शरीर को गहनों से सजाने पर होने वाली शोभा के समान अर्थ की विशेष शोभा बढ़ाता है।

अन्नोदाहियते—

आक्षिपत्यरविन्दानि मुग्धे तत्र मुखश्चियम् ।

कोशदण्डसमझाणा किमेपामस्ति दुप्त्ररम् ॥ ( काव्या० २।३६। )

**उदाहरण**—हे मुग्धे, यदि कमल तुम्हारे मुख की शोभा का तिरस्कार कर रहा है क्योंकि जिसके पास कोश ( कलियों, निधि ) तथा दण्ड ( नाल, दण्डसामर्थ्य ) हों उनके लिए कौन कार्य अशक्य हो सकता है।

एवंविधं भूषणोदाहरणम् ।

भूषण के इसी प्रकार उदाहरण है।

अधरसद्वातः—

यत्राक्षरैः श्लेषैद्वर्यर्थवाचिमिरथं कश्चिदुपवर्णते सोऽक्षरसद्वातः ।

यथा—

**अधरसद्वात**—जब किसी अर्थ को श्लेष युक्त वर्णों द्वारा बतलाया जाए तो उसे 'अधरसद्वात' समझना चाहिए। जैसा कि कहा भी है :—

यत्रार्थं त्वस्तुरैः श्लेषैश्चित्रार्थंरूपवर्णते ।

तमप्यक्षरसद्वातं विद्याहुक्षणलक्षितम् ॥ १५२ ॥

( ना० शा० १७।६ )

जब कोई विषय विचित्र अर्थों वाले शिलांग अक्षरों के द्वारा बतलाया जाता है तो उसे भी 'अधरसद्वात' समझना चाहिए।

यथा—गौरीकान्ता रवाप्यस्ति रवाप्यस्ति वृषे गति ।

कामं दातासि महत स्थाने हरसि सद्गुणैः ॥

उदाहरण —

तुम्हारी पत्नी भी गौरी ( गौर वर्णवाली, पार्वती जी ) है, तुम्हारी भी वृप ( धर्म, वृपभ ) में निष्ठा या स्नेह है, उत्सव के समय तुम भी काम [ इच्छाओं के, कामदेव के ] के दाता [ देने वाले, लौटाने वाले ] हैं अतएव अपने इन्हीं गुणों के कारण आप हमारे लिए हर [ आकर्षण के स्थान, शिवजी ] हो रहे हैं ।

शोभा—

सिद्धैर्थः समं पत्रं त्वसिद्धोऽर्थः प्रकाशते ।

'शिष्या शुक्ष्मा विचित्रार्था या सा शोभाऽभिधीयते ॥१५३॥

( ना० शा० १७१७ )

शोभा—जब किसी अङ्गात अर्थ को ज्ञाततत्वों या अर्थों के द्वारा घटलाया जाता है, तो इस प्रकार की श्लेष, लोच और विचित्रतापूर्ण रचना को 'शोभा' कहा जाता है ।

यथा—कामं जनयिता कृष्णो मालामरणमाश्रित ।

हरिवद् यायते तद्दि धम्मिलस्तवनैरयम् ॥

उदाहरण—काम को उत्पन्न करने वाला, कालाकूटा यह अँधेरा आज [ बनफूल की ] मालाओं के आमरण से युक्त होने के कारण श्रीहरि [ श्रीकृष्ण जी ] के समान हो रहा है जो काम [ प्रतुग्र ] के पिता तथा बनमाला को धारण कर श्री रुक्मिणी जी [ लक्ष्मी जी ] को प्राप्त करने के लिये युद्ध करने को जा रहे हैं और जो काले केशों के गुच्छों से अलकृत हैं ।

[ संकेत—श्रीकृष्णजी के पक्ष में अर्थ करने समय सन्धि रिच्छेद इस प्रकार होगा—

मा-लाम-रणम्-आश्रितं अर्थात् मा = लक्ष्मी है, लाम = प्राप्ति के लिए; रणम् आश्रित = युद्ध करने के लिए बद्यव होने वाला ]

१ यत्र शुक्ष्मा विचित्रार्था, पत्रं शिष्या विचित्रार्था हृति ध नात्यसाध्ये पाठ ।

उदाहरणम्—

यत्र तुल्यार्थयुक्तेन वाक्येनाभिप्रदर्शनात् ।

माध्यतेऽभिमतश्चार्थस्तदुदाहण यथा ॥ १५४ ॥

( ना० शा० १७१९ )

उदाहरण—जब किसी अभिमत या इष्ट अर्थ का समानता प्रदर्शक वाक्यों के द्वारा समर्थन करते हुए प्रस्तुतीकरण हो तो उसे ‘उदाहरण’ समझना चाहिए । जैसे—

यथा—अनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु ल्या कृतम् ।

का दिनश्रीविनाऽकेण का निशा शशिना विना ॥

अपतं लोकोत्तरगुणशाली स्वामी का अनुमरण कर तुमने उचित ही किया है क्योंकि सूर्य के विना दिन की क्या शोभा और चन्द्र से हीन रात्रि की ही क्या शोभा हो सकती है ।

हेतु—

‘यः प्रयोजन सामर्थ्याद्विशिष्टार्थप्रकाशकः ।

समासोक्तौ मनोध्राही स हेतु कथितो यथा ॥ १५५ ॥

( ना० शा० १७११० )

हेतु—जब किसी अर्थ को किसी उद्देश्य की सिद्धि का ध्यान में रखते हुए संचेप में, आकर्षक रूप में तथा युक्ति पुरस्सर प्रस्तुत किया जाए तो उसे ‘हेतु’ समझना चाहिए ।

यथा—यदि हस गता न ते नतम् ।

सरसो रोघसि दर्शनं प्रिया मे ।

मदसेलपदं कथं नु तस्या-

सकलं चौरगत ल्या गृहीतम् ॥

( विक० ४१३२ )

उदाहरण—अरे तंभ, यदि तूने मेरी बाँकी चितवनधाली प्रिया को नदी के झट पर नहीं देरा तो बता रे चोर, तूने उसकी भट से इठला कर चलने वाली यह मुन्द्र चाल कहों से प्राप्त कर ली ?

१. यद प्रयोजनमिति समासोक्तमिति च नाव्यशास्त्रमन् पाठ ।

संशय.

अविज्ञातस्य तत्त्वार्थव्यवस्थ समिचारतः ।

क्रियते यत् समापनं संशय सम्मतो यथा ॥ १५६ ॥

मैत्री—किसी अज्ञात तत्व या अपूर्ण वात की विचारपूर्वक या निश्चयपूर्वक समाप्ति [ न ] कर दी जाए तो उसे 'संशय' समझना चाहिए ।

यथा गौरीगृहे जीमूतवाहन —‘स्वर्गतो यदि तत् कृतार्थमभवत्’  
( नागा० १।१६ ) इत्यादि ।

जैसे—गौरीगृह नामक अङ्कु गे जीमूतवाहन—‘यदि यह कोई दिव्य अगना है तो’ [ नागा० अङ्कु १।२६ ] इत्यादि ।

दृष्टान्त —

सर्वस्य यन्मनोहारि पक्षसाधनहेतुना ।

निदर्शनं यत् क्रियते दृष्टान्त स उदाहृतः ॥ १५७ ॥

( ना० शा० १।७।१२ )

दृष्टान्त—यदि सभी के मनोनुरूप पक्ष को उदाहरण तथा कारण के साथ प्रस्तुत किया जाए तो इसे 'दृष्टान्त' समझना चाहिए ।

यथा चेणीसंहारे—

भीम—यतो दुर्योधनकल्पं हि सा । ( वै० स० अ० १ ) इति ।

यथा वा—

काष्ठ तन्तु फलं वीणा सा वदेदप्यचेतना ।

त्वं हिमेभिश्चापल्लैर्मे न विश्विद्वदसि मिये ॥

जैसे चणीमहार मे

भीम—अयोंकि वह दुर्योधन की पक्ती जो ठंरी ।

तथा—

प्रिये, यदि लनड़ी, तात, फल या बीन लड़ होने पर भी उस कुछ वह देते हैं तो तुम चेतन और गतिशील होकर भी कुछ क्यों नहीं बोलती ?

प्राप्तिः—

दृष्टैवावयवं किञ्चिद्गावो यत्रानुमीपते ।

प्राप्तिं नाम विजानीयाल्लक्षणं तद्यथोव्यते ॥ १५८ ॥

( ना० शा० १७।३३ )

प्राप्ति—किसी [ पदार्थ के ] एक अश को देखकर शेष भाग को अनुमान से समझ लेना ‘प्राप्ति’ कहलाता है । जैसे—

यथा—आक्षिपन्तीव चपलैर्दुमा पल्लवपराणिमि ।

मधुरैरन्यपुष्टाना व्याहरन्तीव च स्वनै ॥

जैसे वृश्च अपने पल्लवरूपी चश्चल हाथों को उठाकर मातो अग्नेप कर रहे हैं तथा कोकिलाओं की मधुर ध्वनि के द्वारा अपनी बात वह रहे हैं ।

अभिप्राय—

अभूतपूर्वो यो ह्यर्थः सादृश्यात् परिकल्पितः ।

लोकस्य हृदयग्राही सो अभिप्राय इति स्मृतः ॥ १५९ ॥

अभिप्राय—जब समानता बतलाते हुए किसी अपूर्व वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उसे भी समझ लें तो उसे ‘अभिप्राय’ समझना चाहिए । जैसे—

यथा—वापी सूज सुधारर्दिम तल्लक्ष्मोत्पलकाननम् ।

खातस्तत्र विमोक्ष्यामि तापं किं मे जलाद्र्या ॥

यदि चन्द्र की किरणों की वापी और उसके कलरू को वापी में रिलने वाले नील कम्लों में रखा जाए तो ऐसी वापिका में स्नान करने पर ही मेरा सवाप दूर हो सकता है, इन जल से भिगोए परों घो कलने से बुछ न होगा ।

निर्दर्शनम्—

यत्रार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीर्तनम् ।

परापेक्षान्वयुदासार्थं तत्त्वदर्शनमुच्यते ॥ १६० ॥

( ना० शा० १७।३३ )

**निदर्शन**—जब दूसरों के आचेप को हटाने के लिए प्रमिद्ध घटना या अर्थों का उल्लेख किया जाए तो उसे 'निदर्शन' समझना चाहिए।

**यथा**—क्षात्रघमाँचितैर्धर्मरल शुचुवधे बुधा. ।

किं न वालिनि रथेण मुक्तो वाण पराद्भुग्ये ॥

जैसे :—

विद्वज्ञन, शत्रुओं के नाश के लिए क्षत्रियोंचित धर्मों का मिद्वान्तः पालन आगदयक नहीं है। क्या श्रीरामचन्द्रजी ने छिप कर वाण से बाली को नहीं मारा।

**निरुक्तम्**—

निरवद्यस्य वायस्य पूर्वोक्तार्थप्रसिद्धये ।

पदस्य वा तथाभूतं निरुक्तमिति निर्दिशेत् ॥ १६१ ॥

( ना० शा० १७।१४ )

**निरुक्त**—अपने उद्दिष्ट अर्थ को सिद्ध करने के लिये किसी शब्द या वाक्य का व्युत्पत्ति प्रब्रश्नन्पूर्वक प्रयोग करना 'निरुक्त' समझना चाहिए। जैसे :—

**पदे यथा**—

क्षत्रिय सम्मतो राजन् यो वै त्राणकर सताम् ।

क्षतात् त्रायत इत्येष क्षत्रियो हि निरुच्यते ॥

**पद वा उदाहरण**—

हे राजन्, जो सज्जनों का रक्खा हो उसे ही क्षत्रिय कहा जाता है क्योंकि क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति है कि जो क्षत में रक्खा करे वही 'क्षत्रिय'।

**यथा ( या )**

याति लाघवमर्थाति मिथ्या व्याचक्षिरे बुधा. ।

सम्मर्थेन लब्धेन यात्यसौ गौरव त्वपि ॥

**तथा ( यास्य का उदाहरण )**—

जो याचना करे घट् लोटा हो जाता है यह कहना ठीक नहीं क्योंकि माँगने पर जब डाक्टर वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो फिर उसे गौरव भी मिल ही जाता है।

सिद्धि—

वहनां तु प्रधानानां नाम यत्रानुवर्ण्यते ।

अभिप्रेतार्थसिद्धयर्थं सा सिद्धिरिति गीयते ॥ १६२ ॥

( ना० शा० १७।१८ )

सिद्धि—जहाँ अपने इष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए अनेक प्रसिद्ध नामों का आख्यान किया जाए तो उसे ‘सिद्धि’ समझना चाहिए । जैसे—

यथा—यत्स्थैर्यं कूर्मराजस्य यश्च शेषस्य विक्रम ।

पृथिव्या रक्षणे राजन्नेकत्र त्वयि तस्थितम् ॥

हे राजन्, कूर्मराज की स्थिरता और शेषनाग का जो पराक्रम है ये दोनों ही पृथ्वी की रक्षा करने के कारण आप मे एक साथ समाविष्ट हो गए हैं ।

विशेषणम्—

सिद्धान् वहन् प्रधानार्थानुकृत्वा यत्र प्रयुज्यते ।

निशेषपुक्तं वचनं ड्रेयं तद्वि विशेषणम् ॥ १६३ ॥

( ना० शा० १७।१६ )

विशेषण—यदि अनेक प्रसिद्ध एवं साधारण अर्थों को यत्काते हुए चाद मे ( किसी वी ) विशेषताओं को दर्शाया जाए तो उसे ‘विशेषण’ समझना चाहिए । जैसे :—

यथा—तुष्णापहारी विमलो द्विजावासो जनग्रिय ।

हृद पद्माकर किन्तु बुधस्त्व स जडाशय ॥

यह तालाब अपने तुष्णापहारी [ तुष्णा को दूर करने, इच्छा के पूरक ] द्वितीये के आवासस्थल । पक्षियों के या नाश्वरणों के विश्वामस्थल ] तथा पद्माकर [ कमलों के या पद्माया = लद्धी के स्थान ] होने रूपी गुणों मे आपकी समानता चाहे कर लेता हो किन्तु फिर भी दोनों मे यही अन्तर है कि तुग बुध [ देवस्वरूप, ज्ञानी ] हो और यह जडाशय [ जलाशय, मूर्ख ] है ।

गुणातिपात —

गुणाभिधानैर्पिणिधैविपरीतार्थयोजितैः ।

गुणातिपात स बुधैनिष्टुरालापद्म भवेत् ॥ १६४ ॥

( ना० शा० १७।१७ )

यथा जानकीराघवे पष्टाङ्के—राम

जातस्य द्रुहिणान्वयादधिगतज्ञेयस्य लोकत्रयी—

त्रासोत्पादि वपुर्धस्य भवति कोऽयं दशास्त्योचित ।

दूरस्ये मयि लक्ष्मणे प्रचलिते कुत्रापि शून्ये वने

वैदेहीहरणे प्रखडकपट-ग्रौदकमो विक्रम ॥

**गुणातिपात—** जै निर्दुर शब्दों में विपरीत पदावली के द्वारा अनेक गुणों का उल्लेख किया जाए तो उसे 'गुणातिपात' कहा जाता है। जैसे जानकीराघव के पष्टाङ्के—कीराम—हे रामण, तुमने व्रजा के कुल में उत्पन्न होकर, सभी शास्त्रों का विधिपत् ज्ञान प्राप्त कर तथा तीनों लोकों को अपनी शक्ति से कम्पित करने वा सामर्थ्यरप्ते हुए भी मेरी अनुपस्थिति में तथा लक्ष्मण के दूर वन में चले जाने पर अकेली सीता का हरण वर अपने कीन विशिष्ट पराक्रम को बतलाया।

यथा वा—

रामैकामिज्जनोऽधर कच्चमर कृष्णो विलोमालिक

वाचो नार्जिवभूमय कुचयुग स्तव्यं दुराद्वादपि ।

एमिर्दुष्टरैर्वृत्तासि यदि तत् को विस्मय कल्पतां

युक्तस्तेऽनपराधकारिणि मयि कूरोऽग्नेलकम ॥

अथवा—

हे सुन्दरि, तुम्हारे अधर राग के [रेग या रेह के] उत्पादक [स्थापा, उद्भवरूप] हैं, तुम्हारे केश काने घने घुघराले [कुटिल] और चिपरे हुए हैं। तुम्हारी वाणी सदा घकता से युक्त [ठेढ़ी] रहती है और तुम्हारे डरोज किनी कृपण धनाद्वय के समान बड़े कठार हैं। ये सभी दुष्ट तुम्हें धेरे रहते हैं अतएव दुष्टसमाति के प्रभाव के बारण तुम निर्देशता से विना किसी अपराध के भी कष्ट देने के लिए उपेक्षित समझ कर सुझ पर ध्यान न दो तो इसमें क्या आश्रय है।

अतिशय —

वहन् गुणैश्चिन्तयित्वा सामान्यजनसम्भवाम् ।

पिशेषः कीर्त्यते यस्तु व्येयः सोऽतिशयो गुरुः ॥१६५॥

( ना० शा० १७।२० )

**अतिशय—** जब साधारण मनुष्यों में विद्यमान रहनेवाले गुणों से

समानता बतला कर किसी एक पिरोप या असाधारण गुण को बतलाया जाए तो वह ‘अतिशय’ बहलाता है। जैसे—

यथा—हरन्तु हृदय नाम लीला काम मृगीदृशाम् ।

त्रासोत्कम्पकृतस्त्वेक कोऽप्याश्लेषमहोत्सव ॥

मृग वे समान नेत्रो वाली सुन्दरियों की सभी चेष्टाएँ चाहे मन को हरण कर लेती हैं पर उस सुन्दरी का भय से कापने हुए एक आलिंगन मात्र में तो अपूर्व आनन्द की प्राप्ति हो जाती है।

यथा च—

तामुदिश्य मृगीदृश तरुणिमस्कर्जन्मनोज्ञाकृतिम्

जात्यैव तरणे जनेऽय विविधावस्थान्तर यास्यति ।

दत्तेष्वाम्युदयो रते स जनिताधैर्य सहाये मधौ

स्वस्मिन्वेव शर पतिष्यति निज शङ्के मनोजन्मन ॥ इति

अथवा और भी—

नप्रयीवन दे कारण सुन्दरतम आङृति को धारण कर लेनेवाली उम मृगनयनी ( शाला ) को देयमर आन युवकों के मन में अनेक दशाएँ उत्पन्न होंगी। उसे देयकर कामदेव अपना पत्नी रति से द्वाह करने लगेगा और अपने मित्र वसन्त की सहायता को न लेकर अधीरतावश अपने धाणों ना लद्य स्वय को ही बनाते हुए धाण चला देगा ऐसी मुझे मम्प्रति आशका हो रही है।

तुल्यतर्क —

रूपकैरुपमाभिश्च ह्यप्रत्यक्षस्य वस्तुतः ।

तुल्यार्थन्वेन संस्पर्शस्तुल्यतर्कः प्रदर्शितः ॥ १६६ ॥

( ना० शा० १७।१९ )

तुल्यतर्क—किसी अप्रत्यक्ष विषय की तुल्यता प्रदर्शन के लिए जब उपमा या रूपक का नहारा लेन्दर बर्णन किया जाए तो उसे ‘तुल्यतर्क’ समझना चाहिए। जैसे—

यथा—

विट्पमुहुमारमाहु पल्लवपाणिस्तनुत्वमापन्ना ।

कुसुमस्थिन दधाना कान्तेवभाति मे वल्ली ॥

यह लता अपनी टहनीरुपी बाहुओं, पङ्गरुपी हाथों और पुष्पों  
जैसी मुसकान वो धारण करने के कारण मेरी प्रिया के समान लग  
रही है।

पदोच्चय —

वहुनान्तु प्रयुक्तानां पदानां वहुभिः पदैः ।

उच्चयः सद्दशार्थो यः स विवेयः पदोच्चय ॥ १६७ ॥

( ना० शा० १७।२२ )

पदोच्चय—जब अनेक पदों के द्वारा अनेक विषयों या वस्तुओं की  
समानता बतलाते हुए प्रयोग किया जाए तो उसे 'पदोच्चय' ममकना  
चाहिए।

यथा चैत्रावल्यद्वे राजा —

कुमुमसुकुमारमूर्तिर्दधती नियमेन तनुतरं मध्यम् ।

आमाति मस्तकेतो वार्धस्था चापयस्ति विः ॥

जैसे चैत्रावली नामक अङ्क में ।

राजा—इसका शरीर फूलों जैसा कोमल है और इसका कटिप्रदेश  
अत्यन्त पतला है। इसलिए यह सुन्दरी कामदेव वी एक कोख में  
रखी हुई चापयस्ति के समान प्रतीत हो रही है।

यथा वा —

जह्नाकापडोहृष्णङ्गं निजनखरयित्वाकेमरं मान्तमज

नीलाढ्मशेणि भृङ्ग चलिविजयसर प्रोत्थित दैत्यशत्रो ।

पायादू पादपद्म यदुपरि विधिना न्यम्तमर्व्याय गार्ह

तोय मध्वेव चतत्स्खलदलिविशराम्यदुप्याशुविभ्यम् ॥

तथा—

दानयों के शत्रु भगवान् श्रीविष्णु वा श्वलि ने निजयस्त्री मरोवर  
से निकला हुआ वह चरणमस्तलथापनी रक्षा करे निमकी जघा दण्डवन्  
( सीधी ) ऊपर टो रही है, जिसकी नरकिरणों का शिखररुपी चेमर में  
अग्रभाग व्याप हो रहा है और निमका नीलमस्तल जैसा प्रान्तभाग  
भृङ्ग के ममान प्रतीत हो रहा है, जिस पर श्री महाजी द्वारा अर्घ्य के  
लिये चढ़ाया हुआ गगाजल मधु जैसा है और जब वही इधर-उगर  
घूमता है तो उसके मध्यरन्ती द्विदों में घूमने पाने भौंरों सा सूर्य विस्थ  
पिसता हुआ दियाई दे रहा है।

दिष्ट—

यथादेशं यथाकालं यथास्थानं वर्णते ।

प्रत्यक्षस्त्र परोक्षस्त्र तदिष्टमिति कीर्तितम् ॥ १६८ ॥

( ना० शा० १७।२१ )

यथा सुग्रीवाङ्के—‘मध्येतत्प सरलितमुजस्तम्भम्’ इत्यादि ।

दिष्ट—जब किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु का अपने देश, काल और स्वरूप के अनुसार सही वर्णन किया जाए तो उसे ‘दिष्ट’ समझना चाहिए। जैसे सुग्रीवाङ्क में—‘बिल्लीने के बीच अपनी मुजाओं को सीधी या घुमाती हुई’ इत्यादि ।

यथा च—

दिक्षु दिक्षु यसीस्यामा श्रीपञ्चलेदे पयोधरा ।

उत्तम्युर्मिथिलीभर्तुरन्तलोद्भूमपलवा ॥

तथा—श्रीरामस्तुतु के अन्तिम भाग में प्रत्येक दिशा में स्थाही जैसे काले बादल उठने लगे जो सीतापति श्रीराम को आग से डटे हुए थे जैसे लग रहे थे ।

उपदिष्टम्—

परिसंगृह्य शास्त्रार्थं यद्वाक्यमभिधीयते ।

विद्वन्मनोदरं स्वन्तनुषदिष्टं तदुन्यते ॥ १६९ ॥

( ना० शा० १७।२४ )

यथा शाकुन्तले चतुर्थीके—‘शुश्रूपस्व गुरुन्’ ( अभि० शा० ४।१७ ) इत्यादि ।

उपदिष्ट—शास्त्र या व्यवहार के आधार पर कहा जाने वाला पिद्वनुमोदित और परिणाम में सुरादायी कथन ‘उपदिष्ट’ कहलाता है। जैसे शाकुन्तले के चतुर्थीक में—‘तुम अपन पूज्य गुरुनन की सेग करना’ इत्यादि ( रण्ड ना ) कथन ।

यथा वा—

सत्यप्रमादशङ्काभिर्बामिनोऽपि महात्मनः ।

यथेष्टालपितप्रम्ब्यां नाधिरोहति मारती ॥

तथा—

मत्य और प्रमाद की आशका के पारण अन्द्रे यज्ञा और गिरान् पुरुष की वाणी भी यथार्थ कथन से पिरत हो जाती है।

विचार —

युक्तिगम्यरनेस्थं अप्रत्यक्षार्थमाधनः ।

अनेकोपायसंयुक्तो विचार इति कीर्तिः ॥ १७० ॥

( ना० शा० १७।२३ )

यथोत्तर ( राम ) चरिते—

विचार—अनेक युक्तियुक्त वाक्यो तथा अनेक उपायों के कथन द्वारा किसी अहृष्ट या अप्राप्य वस्तु की सिद्धि बतलाना 'विचार' कहलाता है। जैसे उत्तररामचरित में—

यद्यच्छा सवाद किमु गुणगणनामतिशय

पुराणो वा जन्मान्तरनिविडबद्धं परिचय ।

निजो वा सम्बन्धं किमु विधिविशात् कोऽप्यविदितो

ममैतस्मिन् द्वैषे हृदयमवधानं रचयति ॥ ( उच० ५।१६ )

मुझे इस [ हुमार घन्टोहु ] के देखने पर ऐसा अतीव हो रहा है कि क्या यह कोई धारम्भिक मिलन है या इसके इन अतिशय गुणों के कारण मन आँख तो रहा है या इससे कोई पूर्णजन्म का परिचय है या दुर्भाग्यवश न जाना गया कोई धन्य मम्बन्ध है जो मेरे हृदय में अनलाने आनन्द उत्पन्न कर रहा है।

विपर्यय —

विचारस्यान्यथाभावस्तथा दिष्टोपदिष्टयोः ।

सन्देहात् कल्प्यते यत्र ए मिज्जेयो विपर्यय ॥ १७१ ॥

( ना० शा० १७।२६ )

यथा सङ्केताङ्के—

विपर्यय—यदि कलाओं या सीखे हुए तथ्य के पिररीत परिणाम की सन्देहयश कल्पना की जाए को उसे 'विपर्यय' समझना चाहिए। जैसे मंथतांत्र में—

मम कण्ठगताः प्राणाः पाशे कण्ठगते तव ।

अतः स्वार्थं प्रयत्नोऽयं त्यज्यता साहसं भिये ॥ (रक्षा० ३।१६)

राजा—हे प्रिये, जब तुम्हारे गले में पाश पड़ी हो तो मेरे प्राण गले तक आने लगते हैं। इसलिये तुम अपना यह (आत्मधात रूपी) साहस छोड़ दो क्योंकि मेरा उत्तोग अपनी रक्षा करना ही है [जो तुम्हारी रक्षा करने से ही होगा] ।

**अंशः—**

वाच्यमर्थं परित्यज्य दिष्टादिभिरनेकघा ।

अन्यस्मिन्नेव पतनादाशु अंश उदाहृतः ॥ १७२ ॥

अंश—जब किसी कथ्य अर्थ को द्वुर्भाग्य आदि कारणवश किसी दूसरे ही अर्थ में लगा दिया जाए तो वह 'अंश' कहलाता है। जैसे भानुमत्यंक में—

यथा भानुमत्यद्वे—

सहभूत्यगणं सचान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम् ।

स्वचलेन निहन्ति संयुगे नचिरात् पाण्डुषुतः सुयोधनम् ॥

( वे० सं० २।५ )

दुयोधन—पाण्डुनन्दन अपने पराक्रम से भाई, धन्धु, पुत्र, मित्र तथा सेषक आदि के साथ सुयोधन का शीघ्र बध करेगा।

**अनुनयः—**

उभयोः प्रीतिजननोविंरुद्धाभिनिवेशिनोः ।

अर्थप्रसाधकश्चैव विज्ञेयोऽनुनयो चुधैः ॥ १७३ ॥

अनुनय—एक दूसरे के विरुद्ध रहने वाले दोनों पक्षों को प्रसन्न कर अपना कार्य सिद्ध करनेवाला कथन 'अनुनय' कहलाता है।

यथा सङ्केताद्वे—'आताप्रतामपनयामि विलक्ष एप' (रक्षा० ३।१४) इत्यादि । यथा च—

एप बद्धाज्ञालिपुटो मौलिमें त्वत्पदानतः ।

निरृहात्यनुगृह्णाति तुल्यमेवानुग शमु ॥

जैसे संकेतांक में—

राजा—देवि, मैं बिना किसी लज्जा के तुम्हारे चरणों पर लगी हुई महावर की लाली को तो अपने मस्तक से पोंछ रहा हूँ ( १८ मैं तुम्हारे चन्द्र जैसे मुख पर होनेवाली क्रोध की लालिमा भी हटाना चाहता हूँ यदि तुम मुझ पर थोड़ी दया दिखलाओ तो ? )

अथवा—

मैं अपने दोनों हाथ जोड़ कर तुम्हारे पैरों पर अपना सर छुका देता हूँ क्योंकि स्वामी की अपने सेवकों पर कृपा या नाराजी दोनों ही हो सकती है।

माला—

ईप्सितार्थस्य सिद्धयर्थं क्रियन्ते यत्र स्तुरिभिः ।

प्रयोजनान्यनेकानि सा मात्रेत्यभिधीयते ॥ १७४ ॥

( ना० शा० १७१२७ )

माला—अभीष्ट कार्य की पूर्ति के लिये जब अनेक उद्योग किये जायें तो उसे 'माला' समझना चाहिए ।

यथा सीतानिर्वासे—

तुव्यान्वयेत्यनुगुणेति गुणोच्चतेति

दु से सुते च सुचिरं सहवासिनीति ।

जानामि केवलमहं जनवादभीत्या

सीते त्यजामि भवर्ती न तु भावदोषात् ॥ ( कुन्द० ११२ )

जैसे सीतानिर्वासन नामक अङ्क में—

लक्ष्मण—दे पूज्य सीता जी, तुम मेरे ही वंश के समान ( परिवर्त एव प्रसिद्ध ) यश में उत्पन्न हो तथा हमारे ही समान गुणों से युक्त भी हो, हमारे सुख और दुःखों में चिरकाल से साथ रही हो पर किर भी केवल तुम्हारा परिस्त्याग लोकापयाद के भय के कारण हो रहा है इसमें आपके प्रति एहनेवाला दुर्भाग कारण नहीं है ।

दाक्षिण्यम्—

यदृदृष्ट्या चैष्या याचा प्रसव्यदनेन च ।

परानुशृच्चिः क्रियते तद्वक्षिण्यमिति स्मृतम् ॥ १७५ ॥

( ना० शा० १७१२८ )

दक्षिण्य—अपनी हृष्टि, चेष्टा एवं, वाणी और प्रसन्नगुण के द्वारा की गयी चाढ़ुकारिता को ‘दक्षिण्य’ समझना चाहिए।

यथा कदलीगृहे राजा—‘अूमन्ने सहसोद्भृते च वदनं नीतं परां नप्रताम्’ ( श्ला० २१२० ) इत्यादि । यथा वा—

अपयान्त्यापि ते भीत्या दक्षिण्यं नोजिज्ञतं तथा ।

व्यावर्त्य यन्मुखं चक्षुलिभागो मयि पातितः ॥

जैसे कदलीगृह नामक अंक में—

राजा—प्रियतमा के अनुकूल होने के कारण भ्रूकुटी के अकस्मात् चढ़ जाने पर भी उसका मुँह झुका हुआ है, केवल मुझे देख कर क्रोध के कारण मुस्कुराना घन्द कर लिया है, कठोर शब्द नहीं कहे जा रहे हैं तथा क्रोध से आंखों के आंसू रुक जाने के कारण नेत्र खुल नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार ( इसका ) मेरे प्रति कोप तो प्रकट हो रहा है पर ( इसके द्वारा ) सहज विनय का परित्याग नहीं दिखलाई दे रहा है।

तथा—

तुम्हारे भय से दूर चले जाने पर भी उसने अपना विनय बताये रखा और ऐसे बल मुँह धुमाकर नेत्रों को तिरछा करते हुए मुझे देख भर लिया।

गर्हणम्—

यत्र सङ्कीर्तयेदोपं गुणश्च विनिपातयेत् ।

भर्त्सनाद् वहुशो ज्ञेयं गर्हणं नाम सूरिभिः ॥ १७६ ॥

( ना० शा० १७।२९ )

गर्हण—जहा गुणों की भर्त्सना कर उन्हें गिराते हुए केवल दोषों का ही उल्लेप किया जाए तो उसे ‘गर्हण’ समझना चाहिए।

यथाऽधत्यामङ्गे—

कृप.—पिक्सानुजं कुरुपतिं धिगजातशनुं

धिग्मृपतीन् विफलश्चमृतो धिगस्मान् ।

केरुप्रहः स्तु तदा द्रुपदात्मजाया

द्रोणस्य चाय लिखितैरिव वीक्षितो यैः ॥

( वै० सं० ३।१२ )

जैसे अथवामात्र में—

कृपाचार्य—अपने भाइयों के साथ कौरवराज हुयोंधन को पिकार है और पिकार है युधिष्ठिर को तथा निष्प्रयोजन शख धारण करने वाले राजाओं एवं हम सभी को जिनने पूर्व में पाञ्चाली के और आज द्रोणाचार्य का केशमहण देखा ।

अर्थापत्ति:—

अर्थान्तरस्य कथने यत्रान्योऽर्थः प्रतीयते ।

वाक्यमाधुर्यसम्मिश्राऽसावर्थापत्तिरुच्यते ॥ १७७ ॥

( ना० शा० २७।३० )

अर्थापत्ति—जब माधुर्य से सम्मिश्रित वाक्यों के ह्वारा किसी एक धारा के कहने से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाए तो उसे 'अर्थापत्ति' समझना चाहिए ।

यथा राघवाभ्युदये—

रामोऽसौ जगतीह विकमगुणैर्यात् प्रसिद्धं परा-

मस्मद्वाम्यविपर्याद्यदि परं देवो न जनाति तम् ।

बन्दीवैष यशासि गायति मरुवस्यैकवाणाहति—

श्रेणीभूतविद्यालत्तालविवरोद्धीर्ण स्वरैः सप्तभिः ॥

जैसे राघवाभ्युदये में—

यह राम अपने पराक्रम तथा गुणों के कारण सप्तसार में अतिशय प्रसिद्ध हो गया परन्तु यदि आप एक वाण के प्रहार से पत्तिबद्ध सात विशाल तालघृष्णों के छिड़ों से निकलते हुए सात स्वरों से वायु डारा यशोगान किये जाने वाले उस ( वीर श्रीराम ) को नहीं जानते वो यह हमारा ही हुमारा है ।

१. अर्थापत्ति के उदाहरण में दिये गये 'रामोऽसौ' इत्यादि एवं को भोज ने अपने 'शक्तिप्रकाश' में अर्थापत्ति के ही उदाहरण में उद्धृत किया है । भोज ने इसे राघवाभ्युदय का एवं न वरला कर राघवानन्द से उद्दृत हिता है । ( गृ० प्र० ११५३५ ) सहुक्तिकर्णमृत में यही भोज विशालरक्ष्य ही रथना वरलायी गयी है [ द्रष्टव्य—सहुक्तिकर्णमृत, सप्तपा० रामावतारकामी-लाहौर सस्करण ] । यह एवं अति प्रसिद्ध है सथा वाय्यप्रकाश ( ४।१०९ ) तथा साहित्यदर्पण आदि में उद्धृत भी है ।

प्रसिद्धिः—

वाक्यैः सातिशयैर्युक्ताः प्रधानार्थप्रसाधकैः ।

लोकप्रसिद्धैर्द्वयैः प्रसिद्धिरिति कीर्तिता ॥ १७८ ॥

( ना० शा० १७।३१ )

प्रसिद्धि—मुख्य उद्देश्य के प्रतिपादक अनेक लोकप्रसिद्ध तथ्यपूर्ण वाक्यों से युक्त रचना ‘प्रसिद्धि’ कहलाती है।

यथा सम्पात्यङ्गे मात्यवान्—

जातो मुनेर्विश्वसं समस्त-

विद्यास्वधीति परमो विविक्तः ।

निषात्यसे वत्स किमेभिरुचै-

स्तट्टुमः सिन्मुजलैरिवाचैः ॥

जैसे—सम्पाति अहु में—

मात्यवान्—हे वत्स, तुम विश्वस मुनि के पुत्र हो। तुमने सारी विद्याओं का विधिवत् अध्ययन किया है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण तुम सभी से अपनी विभिन्नता भी रखते हो। इतना सब होने पर भी तुम इन उप्र कार्यों को करते हुए अपने आपको उसी प्रकार गिरा रहे हो। जैसे किनारे पर रहनेवाला वृक्ष नदी के प्रवाह के द्वारा स्वयं को गिरा लेता है।

पृच्छा—

यत्रान्वेषणमर्थानां वाक्यैरस्यर्थनापरैः ।

जिज्ञासुः पृच्छति परं सा पृच्छा स्वभिधीयते ॥ १७९ ॥

( ना० शा० १७।३२ )

पृच्छा—जब कोई जिज्ञासु भाव से अपनी अभीष्ट वस्तु की तलाश करते हुए अनुनय विनयपूर्वक कुछ पूछता हो तो उसे ‘पृच्छा’ समझना चाहिए।

यथोन्मत्तमाधवे—

भवद्धिः सर्वाङ्गमकृतिर्भणीया कुलवधू-

रिहस्यैर्द्वया वा विदितमथवाऽस्याः किंगमवत् ।

वयोऽवस्थां तत्या शृणुत सुहृदो यत्र मदन  
प्रगल्मव्यापारश्चरति हृदि सुषदन् वपुषि ॥

( माल० मा० ३।२९ )

जैसे उमस्त-माधव नामक अंक (मा० माघ० अष्ट० ६) में—

भावव—क्या आपने सहज सलोने अहङ्कारी उस कुलीन सुन्दरी बाला को कही देखा है? या आपको यह भालूम है कि उसकी क्या दरा हुई? मैं आपको उसकी अवस्था और क्य बतलाता हूँ, जरा ध्यान से मुनिये—जब काम अपने उत्कट व्यापारों के साथ चित्त में सचार करने लगता है तथा जिसके कारण शरीर के सारे हावभाव मनोहर बन जाते हों—उस सुन्दरी की यही अवस्था है।

अन्यस्त्वाह—

‘यत्र भावतोपेतमात्मानमथवा परम् ।  
पृच्छन्निवाभिघतेऽर्थं सा पृच्छेत्युच्यते यथा ।’  
समाधसिहि मे चेत त्यजताङ्गानि वेपितम् ।  
सङ्गीवनीव सम्प्राप्ता सेय वो दृदयज्ञमा ॥

दूसरे आचार्यों का भत है कि जब कोई व्यक्ति स्वय से या दूसरे से प्रश्न करते हुए किसी भावना एव रस से पूर्ण तथ्य को कहता हो तो उसे ‘पृच्छा’ समझना चाहिए। जैसे—

( स्वय प्रश्न करते हुए तथ्य कथन करना )—

हे मन, अब तुम धीरज धरो और अपने कापनेवाले अहों को रोको। इस समय मेरी प्रियतमा आ गई है जो मेरे मन में ऐसी थी और जो मेरे प्राणों के लिये संजोवनी थीपर्यंत वे समान है।

परे यथा—

बहुधा दार्यमाणापि त्वं तथानुगता सती ।  
कथं गैद्रसावर्तगर्तमग्र जहासि माम् ॥

तथा ( दूसरों से प्रश्न करते हुए तथा कथन का उदाहरण )

हे सती, जब तुम अनेक घार मना करते पर भी मेरा [ उचित रूप में ] अनुसरण करती रही तो फिर आज इस भयवर जलायतं पे गढ़े में मुक्ते अवेला क्यों छोड़ रही हो ?

### सारुप्यम्—

अन्यथिन्तयतश्चान्यद्विरुद्धमुपतिष्ठते ।

मादृश्यात् क्षोभजनं सारुप्यमभिधीयते ॥ १८० ॥

सारुप्य—जब किसी सोची हुई बात के विरुद्ध पदार्थ समानता के कारण गड़ा होकर मानसिक क्षोभ उत्पन्न करने लगे तो उसे 'सारुप्य' समझना चाहिए ।

यथा केकयीमरते—'उत्तर्पति स्थिरतिङ्गलः किमेष' इत्यादि ।

जैसे कैकयीभरत नामक अङ्ग मे—

क्या यही थह बादल है जो स्थिर बिजली को साथ लेकर ऊपर चढ़ रहा है ।

### अन्यस्त्वाह—

'टप्टेनैकेन रूपेण वस्तुनोऽन्यत्र निश्चयः ।

मवेचुश्यगुणालम्बाद्यत् सारुप्यमुच्यते ॥'

दूसरे आचार्यों का मत है कि—

एक बार पूर्व में देखी गयी वस्तु की समानता के अधार पर अन्यत्र भी कैसी ही कल्पना कर लेना 'सारुप्य' समझना चाहिए ।

### यथा—

कृप्यसारस्य यच्छुङ्गं हृदयं तत्त्वं कश्यताम् ।

उप्माकरस्य कालस्य यथाह् शर्वरी तथा ॥ इति ॥

जैसे—

जो मूर्ग का सीधा है उसे उसका हृदय समझो और जैसा श्रीमकाल का दिन [कष्टकारक] होता है उसी प्रकार [यह] रात्रि भी जानो ।

### मनोरथः—

हृदयस्यस्य मावस्य गूढार्थस्य विमावकम् ।

अन्यापदेशैः कथनं मनोरथ इति स्मृतः ॥ १८१ ॥

( ना० शा० १७।३८ )

मनोरथ—जब मन की गुप्त बात को किसी दूसरे व्यक्ति से बतलाया जाए तो उसे 'मनोरथ' समझना चाहिए ।

यथा प्रस्थानाङ्के—‘स्वपिति पुलिने शश्याशुभ्रे’ इत्यादि ।

जैसे प्रस्थानाङ्क में—

वह शुभ्रवर्ण आलु की सेज पर सो रही है इत्यादि ।

**लेशः—**

यद्वाक्यं वाक्यकुशलैः सुशिष्यार्थं प्रयुज्यते ।

निपुणोद्घाटयते यस्तु स लेश इति कीर्तिः ॥ १८२ ॥

( ना० शा० १७।३५ )

लेश—चतुर वर्का के द्वारा प्रयुक्त किसी शिष्ट वाक्य के आशय को जब अपने वुद्धिकौशल से प्रस्तुत किया जाए तो उसे ‘लेश’ समझना चाहिए ।

**यथा शाकुन्तले—**

प्रियवदा—जह अज्ज तदो सप्तिहिदो भवे । ( यदत्र तातः सन्निहितो भवेत् )

शकुन्तला—तदो किं भवे ! ( तत किं भवेत् ? ) इत्यादि ।

जैसे शाकुन्तल के प्रथमाङ्क<sup>1</sup> में—

प्रियवदा—यदि आज यहाँ पिताजी होते ।

शकुन्तला—तो क्या होता ? इत्यादि ।

**सङ्केपः—**

परदोषैर्विचिनार्थे , पत्रात्मा परिकीर्त्यते ।

सदृशानुभवे कैश्चित् स सङ्केप इति स्मृतः ॥ १८३ ॥

( ना० शा० १७।३६ )

सङ्केप—जब दूसरों के कट्टों या दोपों की समानता के कारण स्वयं भी वैसी ही विचिन्ता का अनुभव करे तो ‘सङ्केप’ समझना चाहिए ।

१. लेश का यही उदाहरण शकुन्तलाश में भी मिलता है ।

२. भोज के अनुसार सङ्केप के स्थान पर ‘सोम’ मात्र होता है । पर वस्तुत इसे ‘दोष’ समझना चाहिये । सम्मवत् यह लेखक प्रमाद से सङ्केप हो गया होगा । सायरनन्दी ने नाट्यालङ्कारों में ‘सोम’ को आगे लिखा है अतएव भरतोक्त ‘दोष’ का ही यहाँ प्रहण इष्ट होता उचित होगा । भोज के अनुसार कथित ‘सोम’ भी इसी लेखक प्रमाद को परिणाम प्रसीत होता है ।

यथा मायालक्षणाङ्के—

रावण—

साकुष्ठा कशिमानमेति मदनायासैर्वयं दुर्बलाः  
सा पत्युविरहेण रोदिति वयं तस्या. कृते साथ्रवा ।  
सा दुखेऽस्ति धनैविना वयममी तत्सङ्गमे दुखिता.  
सीतास्माप्तु तथाप्यहो न दयते तुत्यास्ववस्थात्पि ॥

जैसे मायालक्षण नामक अङ्क से :—

रावण—वह रोते हुए [ कुदून के कारण ] दुखली होती जा रही है और हम कामासकि के कारण कमज़ोर हो रहे हैं । वह अपने स्वामी को पाने के लिए रो रही है और हम उसे पाने को आँसू बहा रहे हैं । वह स्वामी के बिना दुखी हो रही है और हम उसका मिलन न पाकर दुखी हैं । इस प्रकार समान दुख रहने पर भी सीता हम पर क्यों नहीं पसीजती ।

गुणकीर्तनम्—

लोकेगुणातिरिक्तानामर्थानां यत्र कीर्तनम् ।  
अभिप्रेतार्थसिद्धयर्थं तदिदिं गुणकीर्तनम् ॥ १८४ ॥

( ना शा० १७।३७ )

गुणकीर्तन—यथा इष्ट पक्षार्थ की प्राप्ति या उद्देश्यसिद्धि के लिए संसार के गुणशाली पदार्थों का उत्तमान किया जाए तो उसे ‘गुणकीर्तन’ समझना चाहिए ।

अयायोध्याभरते—‘मन्नं येन धनु’ रित्यादि ।

जैसे अयोध्या-भरत नामक अङ्कमें :—जिसने धनुप तोड़ा तथा ... इत्यादि ।

अनुकसिद्धिः—

प्रस्तावेनैव शेषोऽर्थः कृत्स्नो यत्र प्रतीयते ।

वचनेन विनाऽनुकसिद्धि. सा परिकीर्दिता ॥ १८५ ॥

( ना० शा० १७।४० )

यथा गृहवृक्षवाटिकायाम्—

दृश्येते तद्वि यावेतौ चारुचन्द्रमसं प्रति ।

प्राहे कल्याणतामानाद्युभौ तिष्यपुनर्वर्त्सु ॥ इति ।

अत्र पुन्नाम्नीर्नक्षत्रयोः ऋषुकालान्तरनिषेकप्रदाने पुमानपत्यं स्यादित्यागमार्थोऽकथितोऽपि सिद्धयसीत्यनुक्तसिद्धिः ।

अनुक्तसिद्धि—बिना कहे जहाँ [ थोड़े से ] आरम्भ करने भाव से शेष बात का ज्ञान हो जाए तो उसे 'अनुक्तसिद्धि' समझना चाहिए ।

जैसे—गृहवृक्ष<sup>१</sup> वाटिका [ नामक अङ्क ] मे—

प्रातःकाल [ उप काल के समय तथा सूर्योदय के पूर्व ] ये जो चन्द्रमा के पास दो नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं इन्हें तिष्य और पुनर्वर्त्सु कहते हैं ।

यहाँ 'पुरुपवाचक नक्षत्रों में ऋषुकाल के पश्चात् गर्भाधान करने पर लड़का उत्पन्न होता है' इस शास्त्रीय तथ्य को बिना कहे सूचित किया गया अतः यह 'अनुक्तसिद्धि' का उदाहरण है ।

प्रियोक्तिः—

यत्प्रसन्नेन मनसा पूज्यं पूजयितुं वचः ।

हर्षप्रकाशनायोग्यं प्रियोक्ति साऽभिधीयते ॥ १८६ ॥

( ना० शा० १७।४१ )

प्रियोक्ति—प्रसन्न चित्त से पूज्यजन का सम्मान करते हुए तथा यिना उपरी प्रसन्नता बतलाते हुए जब कहा जाए तो उसे 'प्रियोक्ति' समझना चाहिए ।

यथा नागानन्दे गौरी—

निजेन जीवितेनापि जगतामुपकारिणः ।

परितुष्टास्मिते वत्स जीव जीमूतवाहन ॥ ( नागा० ५।३४ )

जैसे नागानन्द में—गौरी—तुमने अपना जीवन देकर भी मंसार का उपकार किया अतः हे वत्स जीमूतवाहन, तुम जी छठो । मैं तुम से प्रसन्न हूँ ।

१. गृहवृक्षवाटिका = पुरुपदूषितक के द्वितीय अङ्क का नाम ।

यथा वा—

दधत्यानन्दकं देहं नितम्बज्ज्वलं सुदर्शनम्

कम्बुकण्ठि त्वया नूनमजितोऽपि जितो भवेत् ॥ इति ।

तथा—जिसकी गर्दन शख के समान है, जिसका शरीर आनन्द-प्रद है तथा जिसके नितम्ब गोल एव सुन्दर हैं उससे क्या नहीं जीता जा सकता है ?

अथवा जिसकी गर्दन शख, जिसका शरीर श्रीविष्णु की नन्दक भास्मक तलगार और जिसका नितम्ब सुदर्शन चक्र हो तो फिर निश्चय ही भगवान् विष्णु पर भी उसे विजय प्राप्त करने में कौन कठिनाई रहेगी ?

लक्षणान्यथलङ्घाराः काटस्तेनैकत्र दुर्लभाः ।

एतेषामप्यसाकल्यं शोभां सृजति नाटके ॥ १८७ ॥

सभी लक्षण और ( नाट्य के ) अलकार एक साथ एक रचना में मिलना कठिन है पर इनके यथोचित अश की नाटक में योजना करने से भी ( उसकी ) शोभा बढ़ जाती है ।

अङ्गानि सालङ्घति लक्षणादि

कार्याणि कार्याणि हि नाटकेषु ।

अतोऽन्यथाशृतिषु पण्डितेषु

न दण्डमार्कर्ति शास्त्रकारः ॥ १८८ ॥

नाटक में लक्षणों तथा अलङ्घारों की अङ्गरूप में स्थापना अवश्य करनी चाहिए । यदि हन लक्षणों के विपरीत भी कोई रचना करे तो शास्त्रकार उस पर दहा नहीं उठा सकता है या उसे दण्ड प्रदान करता है । [ क्योंकि केवल नियम बतलाना ही शास्त्र का उद्देश्य है ]

अथालङ्घाराः—

लक्षणान्यभिधायालङ्घारा कथन्ते । यदुक्तं—'सालङ्घारं तु नाटकम्' इति । यदप्युपमादय एव काव्यस्य शोभाऽनुबन्धिनोऽलङ्घाराः कथितास्तथाप्येते नाट्यालङ्घारा नाट्यशोभां जनयन्तोऽलङ्घारां इति व्यपदिश्यन्ते । के पुनस्ते । तथा—आशी., आकृद, अभिमान, कपट, यान्त्रा, प्रवर्तनम्, सृष्टा, क्षोभ, अर्थविशेषणम्, शोत्साहनम्, तीति, आस्त्यानम्, विसर्प, उल्लेख, उचेभनम्,

निवेदनं, परीवाद, उपपत्ति, परिहार, उद्यमः, आश्रय, युक्तिः, अनु-  
पृच्छि, साहाय्यम्, अक्षमा, प्रहर्षः, प्रदचाचापः, आशंसा, अहङ्कारः,  
अध्यवसाय, उत्कीर्तनं, गर्व, गुणानुवादव्य। अलङ्काराप्येतानि नाटकस्य।

तथा—

नाट्यालङ्कार—लक्षणों के निस्तृपण के पश्चात हम नाट्यालंकार  
बतला रहे हैं। जैसा कि कहा भी है कि 'नाटकों में नाट्यालंकारों का  
सन्निवेश रखा जाना चाहिए'। यद्यपि काव्य के शोभाधारायक उपमा  
आदि अलंकारों का अन्यत्र वर्णन मिलता है परन्तु ये नाट्य शोभा के  
सबर्द्धक होने से नाट्यालङ्कार कहलाते हैं। ये कितने तथा कैसे हैं  
इस ज्ञानसा की पूर्ति के लिए हम पढ़िले इनके नाम और वाद में  
स्वरूप बतलाएँगे। इनके नाम हिस प्रकार हैं :—

( १ ) आशी, ( २ ) आकृत्ति, ( ३ ) अभिमान, ( ४ ) कपट, ( ५ )  
याच्चावा, ( ६ ) प्रघर्तन, ( ७ ) स्पृहा, ( ८ ) क्षोभ, ( ९ ) अर्थविशेषण,  
( १० ) प्रोत्साहन, ( ११ ) नीति, ( १२ ) आख्यान, ( १३ ) विसर्प, ( १४ )  
उल्लेख, ( १५ ) उत्तेजन, ( १६ ) निवेदन, ( १७ ) परिवाद, ( १८ )  
उपपत्ति, ( १९ ) परिहार, ( २० ) उद्यम, ( २१ ) आश्रय, ( २२ ) युक्ति,  
( २३ ) अमुक्तिः, ( २४ ) साहाय्य, ( २५ ) अक्षमा, ( २६ ) प्रहर्षः, ( २७ )  
पश्चात्ताप, ( २८ ) आशंसा, ( २९ ) अहङ्कार, ( ३० ) अध्यवसाय, ( ३१ )  
उत्कीर्तन, ( ३२ ) गर्व तथा ( ३३ ) गुणानुवाद। ये ३३ नाट्यालंकार  
कहलाते हैं। इनके क्रमशः लक्षण हिस प्रकार हैं :—

आशीः—इष्टावधारणमाशीः। यथा—सीते, श्रेयसा वर्धस्व।

आशीः—उद्दिष्ट वस्तु का निश्चयपूर्वक कथन 'आशीः' कहलाता  
है। जैसे :—'हे सीते तुम्हारा कल्याण हो'।

आकृत्तिः—शोकसमुत्थमुक्तधैर्यमाद्वितमयमवनीपातपूर्वकमाकृ-  
त्तदनमाकृत्तिः। यथा—वत्स तिष्ठेति शक्तौ रामः।

१. भोज ने अपने ग्रन्थ में लक्षणों की दो सालिकाएँ दी हैं तथा इनकी  
६४ कुल संख्या बतलाई है जिनमें नाट्यालंकार भी विद्यमान हैं। शाकुन्तल की  
राघवमहाप्यायया ( निः० सा० सर्वकरण ४४ ९ ) से विद्यत होता है कि मानवुड  
ने जिन्हें नाट्यविभूषण कहा था वे ही वाद में नाट्यालङ्कार के ह्य में प्रदत्तित  
हो गए होते। सागरमन्त्री ने ३३ नाट्यालङ्कार इतन्य माने हैं जो विद्यमात्र के  
साहित्यपूर्ण में भी हसी क्रम से प्राप्त होते हैं।

**आकन्द**—शोक के कारण रोना और धैय-हीन होकर चार-चार गिर कर पूर्थी पर लोटने लगना 'आकन्द' समझना चाहिए। जैसे शक्ति नामक व्यक्त में—

**श्रीराम**—तत्स लक्ष्मण, जरा ठहरो ।

**अभिमानः**—आरव्धात्यागः अभिमानः । यथा ( वेष्याम् ) दुर्योधन.—‘मात किमप्यसदृशं कृपणं वचस्ते’ ( वि० सं० ५।३ ) इति ।

**अभिमान**—एक घार स्वीकार किये हुए कार्य को न छोड़ना 'अभिमान' कहलाता है। जैसे [ वेणीमन्हार ४।३ ] में ] दुर्योधन—माँ, ये दीनवचन तुम्हारे योग्य नहीं हैं...इत्यादि ।

**कपटः**—रावणस्य कुलपतिविषेण रामवञ्चनाय सीतापहार. कपटः ।

**कपट**—श्रीराम को घोरा देने के लिए रावण का कुलपति-वेश घर सीता को हर ले जाना 'कपट' कहलाता है ।

**याच्चा**—प्रसिद्धैव । यथा—सीता ( रामं प्रति ) अणुमणस्स मं अणुगच्छेत्तर्ण । [ अनुमन्यस्व मामनुगच्छन्तीम् । ]

**याच्चा**—अनुनय करना 'याच्चा' होती है। जैसे—सीता [ राम के प्रति ] सो आप मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए ।

**प्रवर्तनम्**—संशयब्युदासे प्रवृत्ति प्रवर्तनम् । यथा याकुन्तले दुष्प्रन्त—आशङ्कसे यदगिनं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम् । इत्यादि

( शाकु० १।२४ )

**प्रवर्तने**—सन्देह को दूर करने के लिये किया जानेवाला कार्य 'प्रवर्तन' कहलाता है। जैसे—[ अभि० शाकु० में ] दुष्प्रन्त—तुम जिसे देखकर अग्नि की शका करते थे वह तो स्पर्श के योग्य मणि है ।

**स्पृहा**—अभीष्टार्थे प्रवर्तनं स्पृहा । यथा इमराने माधव—‘तत्पर्ये-यमनङ्गमङ्गलगृहं भ्योऽपि तस्या मुखम् ।’ ( माल० माध० ५।९ ) इत्यादि ।

**सृहा**—इष्टवस्तु को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना 'सृहा' समझना चाहिए। जैसे इमशानांक में :—माधव—कामदेव के मंगल-सदन के समान उमके मुँह को क्या मैं फिर देख पाऊँगा ?

**क्षोभः**—अनिष्टदर्शनाचारतन्यं क्षोभः । यथा रत्नावस्याम् वत्सराजः— ( सागरिकां प्रति ) वयस्य उत्क्षिप्तामयं पाशा । ( रत्ना० अ० ३ )

**क्षोभ**—किसी आपत्ति को उपस्थित देख मन में चंचलता या

घबडाहट पैदा हो जाना 'क्षोभ' समझना चाहिए। जैसे रवाबली(३ अहू) में वत्सराज—( सामारिका को देखकर ) मित्र, तुम इसके घन्यनों को तो छोड़ो ।

**अर्थविशेषणम्**—अर्थस्य विलयतया प्रतिपत्तस्य पुनः पुनः शिर-कम्पहृष्टरेविशेषणमर्थविशेषणम् । यथा कैकयीभरते—हनुमान्—'कैकयीजननी न यस्य स कर्थं विज्ञं समाधास्यति ।' इति ।

**अर्थविशेषण**—किसी विचार या भाव को उल्टे रूप में ( विपरीत रूप में ) लेकर उसके अनुरूप कार्य देखते ही मस्तक हिला कर हुंकार करते हुए अनुमोदन करना 'अर्थविशेषण' समझना चाहिए। जैसे कैकयीभरत नामक अंक में :—हनुमान—जिसकी माता कैकयी जैसी न हो वह विघ्नों का निवारण कैसे कर लेगा ?

**प्रोत्साहनम्**—कुर्तश्चित्कारणान्विवर्तमानस्य प्रवर्तनं प्रोत्साहनम् । यथा ( विक्रमोर्बेदीये ) पुलवसम्—

मन्दारपुष्पैरधिवासिताया यस्या. शिखायामयमर्णीये ।

सैव मिथा सम्प्रति दुर्लभा मे किमेनमथ्रूहृतं करोमि ॥

(विक्र० ४।६।३) इति ( उक्तवन्तं ) सङ्गममणि त्यजन्तं (पुरुखवसे) प्रति आकाशवचनम् 'गृद्धाता सङ्गमनीयोऽय मणिः' रिति ।

**प्रोत्साहन**—किसी कारणवश अपने लक्ष्य से हट जानेवाले पुरुष को फिर अपने कार्य में लगा देना 'प्रोत्साहन' कहलाता है। जैसे पुरुखवा के द्वारा सगममणि को यह कह कर छोड़ देना—

जिस मणि को मेरी प्रिया की मन्दार ये पुष्पों से सुवासित देणी ( चोटी ) मेरे गूठना उचित था जब आज वही दियार्ह नहीं दे रही है तो मैं इस मणि को अपने आँसुओं से मैला करते हुए क्यों चढ़ाऊँ ।

और तब आकाशवाणी द्वारा 'इसे ले लो, यह संगमनीय मणि है' वहना प्रोत्साहन कहलाता है।

**नयः**—नीतिर्नेय । यथा ( शाकुन्तले ) दुष्यन्त—विनीतवेषेण प्रवैठनीयानि तपोवनानि नाम । ( शाकु० अ० १ )

**नीति**—यथा योग्य हयग्रहार करना 'नीति' कहलाता है। जैसे :— [ धर्मिहान शाकुन्तल अ० १ में ] दुष्यन्त—तपोवन में नम्रतापूर्वक प्रवेश करना चाहिए।

आख्यानम्—आख्यानमितिहास तस्य कार्यार्थं कीर्तनम् । यथा कीचकभीमे—द्रौपदी—धन्या सा सीढा जा सतुअण गिरिजाएवकेण मतुणा आसासिदा । मम उण पचमत्तुणो भविम वि एसा केतहृदआण अवत्था । [ धन्या सा सीढा या शत्रुजनं निर्जित्य एकेन भर्ता आश्च-सिता । मम पुन पञ्चभर्तुर्मूर्खापि एषा केशहतकानामवस्था । ]

आख्यान—किसी कार्य या उद्देश्य की पुष्टि के लिए प्राचीन इतिहास का कथन 'आख्यान' कहलाता है । जैसे कीचकभीम ( नामक अङ्क ) में :—द्रौपदी—सीढा ही धन्य है जिसे उसके स्वामी ने शत्रुओं पर विनय ग्राप्त कर आशस्त किया । यहाँ तो पाँच पति होने पर भी इन अभागे केशों की यही अवस्था हो रही है ।

**रिसर्पः—**—रभसोक्तमनिष्टफलं स्यात् विसर्पः । यथा दशरथाङ्के—  
कञ्चुकी—

सामान्येन वरं दत्तं किं विशेषे मति स्थिता ।

सर्वथा नृपतेरेष धोर. शापो विजूम्भते ॥

**विसर्प—**शीघ्रतावश अनिष्टकारी यात का 'स्पष्टत' कथन 'विसर्प' कहलाता है । जैसे दशरथाङ्क में :—

कञ्चुकी—जब वरको साधारण रूप में दिया गया था तो उससे आज विशेष कार्य करने की कल्पना क्यों की जा रही है ? निश्चय ही राजा को दिया हुआ धोर शाप आज किसी प्रकार प्रकट हो रहा है ।

**उल्लेषः—**

कर्तव्योपदर्शनमुल्लेसः । यथा उन्मत्तचन्द्रगुप्ते—'लोको लोचननन्दनस्य रतये चन्द्रोदये सोलुक' अत्र कृतस्त्रेन्मादं चन्द्रगुप्त परित्यज्य कर्तव्यमाह—'मवत्वनेन जयशब्देन राजकुलागमन साधयामि ।' इति ।

**उल्लेस—**कर्तव्य को बतलाना 'उल्लेस' कहलाता है । जैसे उन्मत्तचन्द्रगुप्त<sup>१</sup> ( नामक अङ्क ) में—ससार आज अपने नेत्रों<sup>२</sup> के आनन्द के लिए चन्द्रोदय की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है ।

१. उन्मत्तचन्द्रगुप्त—विशासदत्त प्रणीत 'देवीचन्द्रगुप्तम्' के पञ्चमाङ्क का नाम ।

यहाँ चन्द्रगुप्त ने बनावटी पागलपन को छोड़कर कर्तव्य का निर्देश करते हुए कहा—‘मैं इसी विजय के प्रसाग को लेकर राजमहल में जाकर अपना कार्य सिद्ध करूँ ।

**उत्तेजनम्—त्वकार्यतिद्वये परस्मिन्द्वनुवधायानस्तरेण प्रेरणावाक्यं  
यत्तदुचेजनम् ।** यथा कीचकभीमे—

**द्रौपदी—**सो वि कीचओ मं पिबति आल्वदि तुमं पि पिबति आल्वसि । ता ण जाणे मंदभाइणी कस्स पिबा भविस्सं । [ सोऽपि कीचको मा प्रियेत्याल्पति त्वभपि प्रियेत्याल्पसि । तन्न जाने मन्द-भागिनी कस्य प्रिया भविष्यामि । ]

**उत्तेजन—**अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजुनारा की अस्पष्ट राहदों में प्रेरणा देना ‘उत्तेजन’ कहलाता है । जैसे कीचकभीम मे :—

**द्रौपदी—**यह कीचक भी मुझे प्रिया कहकर बुलाता है और आप भी मुझे प्रिया कहते हैं । पर मैं बेचारी दुर्भाग्य के कारण किसकी प्रिया रहूँगी यह खुद नहीं जानती ।

**निवेदनम्—कर्तव्यस्थावधारितस्य कथनं निवेदनम् ।** यथा राघवान्मुद्दये सेत्वाङ्के—

**लक्षण—आर्यं, समुद्राभ्यर्थनया गम्भुमुद्गोऽसि । तत् किमेतत् :**

**निवेदन—निश्चित किये गए कार्य को करने के लिए मह देना ‘निवेदन’ कहलाता है । जैसे राघवान्मुद्दय के सेतु नामक अक मे :—**

**लक्षण—आर्यं, आप इस समुद्र की प्रार्थना कर पार जाने के उत्तमुक हा हे । यह क्या थार है ?**

**परीवादः—भर्तना परीवादः ।** यथा सुन्दराङ्के—**दुर्योधन—**पिकू सूत, किं कृतवानसि ।

‘वस्तत्य मे दुर्लितस्य पाप’ ( वेणी स० ४।५ ) इत्यादि ।

**परीवाद—हांट डपट देना ‘परीवाद’ कहलाता है । जैसे ‘सुन्दरांक’ मे :—****दुर्योधन—**धिकार है ! और सारथी, तुमने यह क्या कर दाला । यह भीच मेरे द्वारा प्रेम से शाले हुए भाई थे वध श्री चेष्टा कर रहा है ; **योग्यादि ।**

**उत्तराङ्किः—**धृतस्थानस्य निष्फलतात् त्याग उपपतिः । **यथाभ्यत्थान्के—**कर्ण — अभ्यत्यामा मया पृष्ठीराज्येऽभिपेक्ष्यत्तम्य

चाभावाद् वृथाशुद्धमहणमिति शुद्धपरित्यागं कृतवानाचार्यः। इत्यादिकम् ।  
(वे० सं० ३)

उपपत्ति—धारण किये हुए शस्त्र-अस्त्र आदि को व्यर्थ मानकर छोड़ देना ‘उपपत्ति’ कहलाता है। जैसे अश्वत्थामाङ्क में :—

कर्ण—आचार्य की भावना यह थी कि मैं अश्वत्थामा को सम्पूर्ण भूमण्डल का स्वामी बना कर उसका राज्याभिषेक करूँगा परन्तु वैसा न बनने के कारण अपना शुद्धमहण वेकार मानकर ही उनने शब्दों का त्याग भर डाला। इत्यादि ।

परिहारः—उक्तस्य परिहरणं परिहारः । यथा तत्रैव—

अश्वत्थामा—दुःखितोऽहं वीर्यामि न पुन वीरजनाधिक्षेपेण । इति ।  
(वे० सं० ३)

परिहार—एकबार अपने द्वारा कहे गए शब्दों को अन्यथा कर देना ‘परिहार’ कहलाता है। जैसे इमी अङ्कु में :—अश्वत्थामा—मैंने दुःख के कारण यह मर्ब कहा। मैं किन्हीं वीरों पर आचेप करने के लिये यह नहीं कह रहा हूँ ।

उद्यमः—दुष्करोऽव्यप्ताव उद्यमः । यथा कुम्भे—रावण—  
‘पश्यामि शोकविवशोऽन्तरमेव तावत्’ इत्यादि ।

उद्यम—किसी कठिन कार्य को बरने के लिए प्रस्ताव करना ‘उद्यम’ कहलाता है। जैसे कुम्भजैक में :—रावण—अब शोक से अभिभूत होने के कारण मृत्यु को ही देख लूँ ।

आश्रयः—गुणवद्भूमहणमाश्रयः । यथा विभीषणनिर्भत्सनाङ्के—  
विभीषण—राममेवाश्रयिष्यामीति ।

आश्रय—किसी शक्ति या गुणशाली पुरुष का सहारा प्राप्त करना ‘आश्रय’ कहलाता है। जैसे विभीषण निर्भत्सन नामक अङ्क में :—विभीषण—अब तो मैं श्रीराम का ही आश्रय पाऊँगा ।

१. उपपत्ति का यहीं लक्षण नहीं दिया गया प्रतीत होता है किन्तु उदाहरण पर उच्चार-ममन्त्रय जैसा उद्देश्य प्रतीत होता है। अन्यत्र उपपत्ति का उच्चण है—‘उपपत्तिर्मता हेतोऽप्यन्यासोऽर्थसिद्धये—नर्थात् अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कारण को प्रस्तुत बरता ‘उपपत्ति’ कहलाती है। [ सा० ३० पट १० ए० ३४२ लाहौर सस्करण ]

२. परिहार का उच्चण तथा उदाहरण दोनों ही अधिक उपष्ट नहीं दिये गये हैं ।

**युक्तिः**—असूया भाव्यस्थार्थस्य घटनावचनं युक्तिः । यथा भानुमत्यहे दुर्योधन—अतयुवास्याः प्रातरेव विविक्ताश्रयणमित्याचुक्तिः । (वै० सं० अ० २)

**युक्ति**—किसी घटना के ललन के कारण घटित रूप में बतला देता 'युक्ति' कहलाता है । जैसे भानुमत्यक मे :—

**दुर्योधन**—इसी लिए यह प्रातःकाल एकान्त मे बैठो है । इत्यादि कथन ।

**अनुवृत्तिः**—आक्षेपेण चलितस्यानुगमनमनुवृत्तिः । यथा— सहेदेवेनानुगम्यमानो भीम इत एवाभिवर्तते इति । (वै० सं० अ० १)

**अनुवृत्ति**—रुठकर या कुपित होकर जानेवाले पुरुप का अनुमरण करना 'अनुवृत्ति' समझना चाहिए । जैसे वेणीसंहार मे—सहेदेव के साथ भीमसेन इधर ही आ रहे हैं इत्यादि ( कथन अनुवृत्ति है ) ।

**साहाय्यम्**—सङ्कटेऽनुगुणभाव माहाय्यम् । यथा कुलपतिवेप-घरस्य रावणस्य चित्रमायस्य राक्षसस्य मित्रवधुतापत्तरूपोपच्चि ।

**साहाय्य**—सङ्कट के समय सहायता करना 'साहाय्य' कहलाता है । जैसे कुलपति का वेप घर रावण के भीताहरण के लिए चलने पर चित्रमाय राक्षस का मित्रवधु नामक तपस्वी का रूप धारण कर लेना ।

**अक्षमा**—परस्य दर्पासहिष्णुताऽध्यमा । यथाश्वत्थामाहे—‘र्क्ष—द्रोणात्मज किमत्र क्रियते’ इत्यादिकलहे अश्वत्थामा कर्णोर्चिमाहे पादमहारारम्भ ।

**अक्षमा**—दूसरे के तेज या घमड को सहन न करना 'अक्षमा' समझना चाहिए । जैसे अश्वत्थामाक मे —

**कर्ण**—द्रोणपुत्र, अब क्या शिया जा सकता है । कह कर नष्ठ अश्वत्थामा से मगड़ा करता है तब अश्वत्थामा हारा कर्ण के मर पर लात मारने को उद्यत हो जाना ।

**प्रहर्पः**—मूढस्योद्वोपलब्धो हर्पः प्रहर्पः । यथा—

**लक्ष्मण**—अये उच्छ्रवसितमार्येण इत्यादि ।

**प्रहर्प**—मूर्च्छी के परचात् चेतनता प्राप्त कर लेनेपर होनेवाला

१. यह कथा मायुराज के उदात्तराश्व नाटक के द्वितीयभू ( कुष्ठश्याम ) की है ।

आनन्द 'प्रहर्ष' कहलाता है। जैसे लक्षण—अरे ! पूज्य आर्य सांस लेने लगे ।

**पश्चात्तापः**—मोहादवधीरितस्यार्थस्य पश्चात्परित्यागः पश्चात्तापः । यथानुतापाङ्के राम—'किं देव्या न विचुम्बितोऽसि बहुशो मिथ्याप्रसुप्तस्य ते ।' इत्यादि

**पश्चात्तापः**—पहले अनजाने में ठुकरा दी जानेवाली वस्तु या व्यक्ति के विषय में बाद में पछताना 'पश्चात्ताप' समझना चाहिए। जैसे बनुतापाङ्क में :—

राम—व्या अब तुम बहाना बना कर सो जाते थे तब कई बार देवी ने मुत्रवत् तुम्हारा चुम्बन नहीं किया था। इत्यादि ।

**आशंसनम्**—आशंसनमाशंसा । यथा मालतीमाधवे स्मरणे—माधव.—'तत्परयेयमनङ्गमङ्गलगृहं भूयोऽपि तस्या मुखम्' (मा० माघ० ५।९) इत्यादि ।

**आशंसा**—किसी की आशा या अपेक्षा करना 'आशंसा' कहलाता है। जैसे समझानाक में :—

माधव—तो कामदेव के मंगलसदन जैसे उस प्रिया के मुँह को मैं फिर कभी देख पाऊँगा !

**अहङ्कारः**—कार्ये क्षमत्वमहङ्कारः । यथा कीचक.—बाढ़ व्याहृता द्वौपदी प्रियेति ।

**अहङ्कार**—किसी कार्य को ठीक से करने की प्राप्ति रखना 'अहङ्कार' कहलाता है। जैसे कीचकाङ्क में—

कीचक—हाँ, हाँ ! मैंने ही द्वौपदी को प्रिया कहा है ।

**अध्यवसायः**—अध्यवसायः स एव । यथा तत्रैव भीम.—'एतन् प्रियेति वचनं न ददामि तावत् ।' इत्यादि ।

**अध्यवसाय**—अध्यवसाय का उदाहरण भी इसी अंक में है—भीम—अच्छा अब इस प्रिया शब्द को मैं न बोलूँ इत्यादि ।

**उत्कीर्तनम्**—कर्तव्यकार्योपक्षेप उत्कीर्तनम् । यथा प्रतिज्ञा-भीमेसहदेव—नेदमायुधागारम् । पाण्डाल्याश्रतु-शालकमिदम् । भीम.—आमन्त्रयितव्यैव मया पाण्डाली । (वे० सं० १)

उत्कीर्तन—अपने उद्दिष्ट कार्य का संकेत या उसे आरम्भ करने का उद्योग करना 'उत्कीर्तन' कहलाता है। जैसे प्रतिज्ञार्थीम् नामक अंक मे—

सहदेव—आर्य, यह शब्दागार नहीं है। यह तो द्रीपदी का आगाम भवन है।

भीम—हाँ हाँ, मुझे द्रीपदी से भी तो बात करना है।

गर्वः—वैशारदवचनं गर्वः। यथाऽध्यत्थामाङ्के अध्यत्थामा—'यो य शब्दं विमर्च्चि' ( वे० स० ३।३२ ) इत्यादि ।

गर्व—अपनी चतुराई बतलाते हुए कथन करना 'गर्व' समझना चाहिए। जैसे अध्यत्थामाङ्क मे—अध्यत्थामा—पाण्डवों के सेता मे जिसे अपनी मुजाओं पर गर्व हो था जो शब्द लिए हों। इत्यादि ।

गुणानुगादः—दोषपरेण दर्पदिवधीरितस्य व्याहासगुणस्य प्रतिपादनं गुणानुगादः। यथा रावणे विभीषणस्य वाक्यम्—

गुणानुगाद—दोष दृष्टि के बारम अहकारवश उपेक्षित रिये गए गुणों की फिर से स्थापना करना 'गुणानुगाद' कहलाता है। जैसे राघण के प्रति विभीषण का निम्न कथन :—

अष्ट. पदात् वृतजटाग्रहणस्तपस्वी रामो वनेऽस्ति भवता ध्रुतमेतदेव । नाकर्णितं हृष्वनुर्दलनं भृगोर्वा भङ्ग. कर्यं तर चरा न युविदेहान् ॥

आपने केवल यही मुना है कि राज्याभिषेक सैह टाया गया जटाधारी वपस्वी राम वन में रहता है पर यह क्यों नहीं मुना कि उसी ने शिवजी के घनुप को तोड़ा था और परशुराम के गर्व को भग कर दिया था। क्या यह मब तुम्हारे गुप्तचर निदेह जास्त नहीं जान पाये थे ?

रामस्य धातितवतो सुधि ताढ़मा तामारीचरेन दिगुता ल्यि युक्तमुक्ता । तल्कोशकाण्डपतनत्रणगर्भमस्य दृष्टं त्वया न बदत कथमक्षि काणम् ॥

क्या मारीच ने आपको यह ठीक नहर से नहीं बतलाया कि युद्ध मे लब राम ने ताढ़का का वध रिया या तब वह खन्चा था। इस भय मी उसके तरफ से निरन्ते हुए थाणों की चोट से अपनी आर गौंगा देने वाले मारीच के नेत्र मे पड़े हुए गढ़े को आप क्यों नहीं देस रहे हैं ?

चापम्य नन्दयसि दन्दुभिपूतिगन्वि कहालचालनविधिं रघुनन्दनस्य ।  
कि स्तौषि नातिविषमस्थितमपतालनिर्भदलाघवमिषोर्महदेकवस्य ॥  
इत्यादिदाहरणम् ।

तुम श्रीराम के घनुष की इसलिए प्रशंसा करते हो कि उसने दन्दुभि राघव के दुर्गन्वियुक्त ककाल को उठा कर दूर फेंक दिया था, परन्तु ममी घनुष के द्वारा छोड़े गए एक ही बाण से हस्तलाघव के द्वारा टेढ़े भेड़े स्थानों पर रखे हुए सात ताल के वृक्षों को बीघने की प्रशंसा क्यों नहीं करते ? इत्यादि उत्तरण है ।

एवमस्य नाटकस्य स्वर्णीयास्त्वयर्थिंशुदलङ्घारा । अन्येषामज्ञा-  
नेवालङ्घारत्वेनैतस्य कविभि कार्याणि । तथा—शिल्पकस्य उत्कृष्टादि-  
संसारिंश्चल्पज्ञानि, भाणकस्य गेयपतादि दश । वीथिकाया उद्घात्यकादि  
त्रयोदश । माणिक्याया विन्मासादि सप्त । एव संसप्तमाशुद्ध्यज्ञानि  
नाटकेऽलङ्घारत्वेन कार्याणि । उक्तान्येतानि च स्वस्थाने ।

इन प्रकार ये तैरीम अलङ्घार नाटक के कहजाते हैं रूपकों के अंगमूर दूसरे अलंधरों को भी कवि गण इन अलकारों के अतिरिक्त या इन अलंधरों के साथ रस सकते हैं । जैसे :—शिल्पक के उत्कंठा आदि तेरह अगों को, भाण के गेयपद आदि दस अगों को, धीथी के उद्घात्यक आदि तेरह अगों को या भाणिका के पिन्यास आदि सात अंगों को [रखा जाना चाहिए] । इस प्रकार कुल मिला कर सतावन अगों को नाटक में अलङ्घार ये रूप में रखा जा सकता है । शिल्पक आदि के अङ्गों के लक्षण यथावत्तर दिये जाएँगे ।

अतएवोच्यने—

पञ्च पञ्च चतुःपष्ठिवतुरैकविश्विः ।

पट्टिविश्वनवतिर्यग्रं तदाहुर्नाटकं वृघाः ॥ १८९ ॥

इसीलिए कहा गया है कि—जिममे पाच, पांच, चौंसठ चार, आठ, इक्कीस, छत्तीस तथा नववे अग ही उसे 'ही 'नाटक' समझना चाहिए ।

1. पांच = अवस्थाएँ । पाच = अर्थ प्रहृति । चौंसठ = सम्पद । चार = चूचियाँ । आठ—नायक गुग (तथा रस) । इक्कीस = सनायन्तर या

अथ रसा. कथ्यन्ते ।

शृङ्गारहास्यकरुणा      रौद्रवीरभयानकाः ।  
वीभत्साद्भुतमित्येवमष्टौ नाथ्ये रसाः स्मृताः ॥ १९० ॥

रसनिरूपण—अब हम रसों को बतलाएँगे । नाटक में आठ रस माने जाते हैं । इनके नाम इस प्रकार हैं :—( १ ) शृङ्गार, ( २ ) हास्य, ( ३ ) करुण, ( ४ ) रौद्र, ( ५ ) वीर, ( ६ ) भयानक, ( ७ ) वीभत्स तथा ( ८ ) अद्भुत ।

चत्वार एव च । यत्—शृङ्गारानुगुणो हास्य करुणो रौद्रकर्मज ।

अद्भुत कर्म वीरस्य वीभत्सस्य भयानक । हति ।

अधिवा ये रस ( मुख्यतः ) चार ही होते हैं । जैसा कि कहा भी है ‘—शृङ्गार का अनुगामी हास्य रस, रौद्ररस का फल या कार्य करुण रस, वीर रस का कार्य अद्भुतरस तथा वीभत्स का परिणाम भयानकरम हो जाता है । [ अतएव मुख्य रस चार तथा उनके अनुगामी गौण रम भी चार होने से कुल आठ रस माने जाते हैं ] ।

विभावस्यानुभावस्य व्यभिचारिण एव च ।

संयोगादुन्मिष्टे भावः स्थायेव तु रसो भवेत् ॥ १९१ ॥

जब विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के पारस्परिक संयोग द्वारा स्थायी भाव विकास प्राप्त करे तो वही रस हो जाता है ।

अथवा रसाश्च भावाश्चेतेऽन्योन्योपकारात् सहंभावेनैव प्रवर्तमाना. सिद्धिमधिरोहन्ति । यथा—

न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसजितः ।

परस्परकृता सिद्धिरनयोः रसभावयोः ॥ १९२ ॥

( ना० शा० ६।३७ )

अथवा रस और भाव परस्पर मिल कर एक दूसरे को पुष्ट करते हुए अपना निर्वाह करते हैं । जैसा कि कहा भी है—

अन्तरसनिधिर्योः । द्वितीयस = द्वितीय । तथा—नन्द्ये = नाथ्याद्वार ( ३३ ), शिशरवाह ( २० ), भाव के अंग ( १० ), वीरी के अंग ( १५ ) तथा भागिका के अंग ( ८ ) का सम्पूर्ण योग ( यथा—३३ + २० + १० + ८ = ९० ) ।

रस भाव से रहित तथा भाव रस से विहीन नहीं होता है तथा इन दोनों का निर्बाह परस्पर सहयोग के द्वारा ही होता है।

अन्नव्यञ्जनवत् । यथा भोक्तुरन्नं व्यञ्जनमुपकुरुते व्यञ्जनमन्नं ततो रसं स्यात्तथैव भावान् रसा रसांश्च भावा उपकुर्यु । परस्परं सर्वदा सम्बद्धा ग्रेशकान् मनसि प्रभोदेनोपश्लिष्यन्तो रसा इति व्यदिश्यन्ते । अन्ये तु कार्यकारणत्वमनयो दत्त्वा ददृशेनाङ्गीकुर्वन्ति । यत्र भावा कार्यं रसा कारणं द्रुयमप्येत्तुल्यकालावस्थित्याऽन्योपकारात् परस्परकृता सिद्धि साधयति ।

उद्घारणार्थं यह पारस्परिक सहयोग पकाये हुए अन्न और व्यञ्जन [ साग, चटनी ] के जैसा समझना चाहिये । जैसे भोजन कर्ता को पकाया हुआ व्यञ्जन साग, चटनी आदि अन्न की और अन्न व्यञ्जन की आस्थादनीयता को परस्पर बढ़ाते हुए रसनीयता या उपभोग ( को ) सम्पन्न करते हैं । इसी प्रकार भाव रस को तथा रस भाव को पुष्ट करते हुए परस्पर सहयोग रखकर या सम्बद्ध होकर ग्रेशकों के चित्त में आनन्द का संचार करवाते हुए रसत्व की स्थिति [ भूमि ] प्राप्त कर लेते हैं । अन्य विद्वान् सत्कार्यवाद<sup>१</sup> के सिद्धान्त के अनुसार रस और भाव का कार्य कारण भाव मानते हैं । इनके मतानुसार भाव कार्य तथा रस कारण है और ये दोनों एक समय में ( तथा ) एक साथ रहते हुए एक दूसरे का सबर्दून या पुष्टि करते हुए रसत्व की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं । अब क्रमशः रसों का लक्षण बतलाते हैं ।

तत्र शृङ्खारः—

उत्तमप्रकृतिप्रायः स स्त्रीपुरुषेतुकः ।

सम्भोगो विप्रलम्भश्च शृङ्खारो द्विनिधो मतः ॥ १९३ ॥

स्थायीभावो रतिशास्य श्रुतं नेपथ्यमुज्ज्वलम् ।

वापीवरगृहोद्यानगमनेष्टाङ्गनादयः ॥ १९४ ॥

१. सत्कार्यवाद=माण्डपदशंन सद् से सद् की उपति मानता है । इसकी भाषारमूल कारिका निम्न है—

असद्वरणात् उपादानगृहणात्सर्वसम्भवाभावात् ।

शक्तस्य शक्तयकरणात् कारणभावात् सद् कार्यम् ॥ ( सौ० का०\*\*\*\*\* )

एतस्य विभावाः रसोपादानहेतव इत्यर्थ । तस्य लोचनचातुर्य-  
अद्योपमभूतयोऽभिनयाः अनुभावाः । अनुपश्चाद् भावयति प्राप्यतीत्यर्थ ।  
अस्मिन् व्यभिचारिणो भावा व्याधिस्तम्भजटताप्रबोधोन्मादनिद्रानिर्वेद-  
ग्वानिचिन्तौत्सुक्यापस्मारथद्वाऽसूयाश्रमवैवर्याश्रुमभूतय । शृचित्सु  
कैश्चिकी । करुणवद् विप्रलम्भ स्यादिति करुणे यावान् भावस्ता-  
चानित्यर्थ ॥ १ ॥

**शृङ्खाररस**—उत्तम प्रकृति के पुरुष और खियों के पारस्परिक अनुराग  
के कारण ‘शृङ्खार रस’ उत्पन्न होता है । इसके दो प्रकार माने जाते  
हैं—संयोग [ सम्भोग ] शृङ्खार तथा विप्रलम्भ शृङ्खार । इस रस का  
स्थायी भाव रति होता है और इसमें उज्ज्वल वैप भूषा रखी जानी है ।  
इसके विभावों में बापी, भवन तथा उपग्रन में इष्ट ललनाओं के माथ  
मिहार करना ( आदि कार्य ) होते हैं । ये रस के विभाव हैं अर्थात्  
रस के उपादान कारण हैं । इसके अनुभाव हैं—अवलोकन, चातुर्य,  
कटाक्षपात आदि का अभिनय करना । अनुभाव का अर्थ है जो अनु=  
अर्थात् चाढ़ में भावयति=लाते या प्रस्तुत करते हों वे अनुभाव [ कार्य ]  
कहलाते हैं । इस रस के मंचारी भावों में व्याधि, स्तम्भ, जटता,  
प्रबोध, सन्माद, निद्रा, निर्वेद, रुलानि, चिन्ता, औत्सुक्य, अपस्मार,  
शक्ता, असूया, श्रम, वैवर्य तथा अशु आते हैं । इसमें कैशिरीयत्ति  
होती है । ‘विप्रलम्भ शृङ्खार करुण रस के ममान होता है’ इस नियम  
के अनुमार करुणरस में रहने वाले सभी भद्रारीभावों को विप्रलम्भ  
शृङ्खार में भी रखा जा सकता है ।

### हास्यः—

सावहित्यैः मविकृतैनेष्यैव्यञ्जदर्थनैः ।

असम्बद्धैस्तथालापैर्हीसः स्यात् कुहकादिभिः ॥१९५॥

स्यमालस्यामहित्याः स्युस्तन्द्राद्या व्यभिचारिणः ।

हासः स्थायी च भावोऽस्य पद्मेदा च प्रकीर्तिः ॥१९६॥

**हास्य**—अपने आकार को द्विपाने, निहत चाणी तथा रेप के  
प्रयोग, अह गिरलना, असम्बद्ध घटगास तथा कोर, गला आदि के  
गुदगुडाने ( कुहक ) से ‘हास्य’ रस उत्पन्न होता है । इस रस के  
संचारी भाव हैं:—स्वर्जन, आलस्य, अवदित्या तथा तन्द्रा आदि ।

इसका हास स्थायीभाव होता है जिसके [ स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अतिहसित तथा अपहसित नामक ] छः प्रकार होते हैं ।

उत्तमस्य स्मितं विहसितम् । यथा—

ईषद्विकसितर्गण्डैः कटाक्षैः सौषुधान्धितैः ।

अलक्षदशनं धीरं स्मितमिच्छन्ति सूरयः ॥ १९७ ॥

( ना० शा० ६।५५ )

उत्तम पुरुषों का गमीरता किये हुए हँसना [ मुसङ्गुरना ] 'स्मित' कहलाता है । जैसा कि कहा भी है ।—

बुद्ध फूले हुए कपोल, सुन्दर कक्षों से युक्त अवलोकन तथा दांत न दिखलाइ दें ऐसी मन्द और गंभीर मुसङ्गान को 'स्मित' समझना चाहिए ।

किञ्चिल्लक्षितदन्ताप्रं हसितम् ।

आकुञ्जितकपोलाक्षं सस्वनं निस्वनं तथा ।

प्रस्तावोत्थं सालुरागमाहुर्विहमितं घुघाः ॥ १९८ ॥

उत्कुल्लनासिकं यतु जिह्वादिनिरीक्षितम् ।

निकुञ्जिताङ्गशिररं तचोपहसितं सृतम् ॥ १९९ ॥

( ना० शा० ६।५७-५८ )

जिसमें दांतों का थोड़ा दिस्सा दिखलाई दे उसे 'हसित' समझना चाहिए ।

जिसमें गाल और आँखें सिकुड़ जाएँ कभी मुँह से धोड़ी आवाज निकलती हो या कभी न निकले तो पारस्परिक संभाषण या स्नेह के अवसर पर होने वाले ऐसे हास को 'विहमित' समझना चाहिए ।

जिसमें नाक के नधुने मर जाए, तिरछी दृष्टि से अवलोकन किया जाए और अंगों को सिकुड़ा कर सर को तिरछा करले तो ऐसे हास को 'उपहमित' समझना चाहिए ।

अस्थानहमितं यद्य माथुनेत्रं तर्यव च ।

उत्कम्पितांमकशिरस्तच्चातिहमितं सृतम् ॥ २०० ॥

( ना० शा० ६।६० )

अनुचित या वेर्षोंके ऐसे हँसना कि आँखों में आँसू आ जाए और

कन्धे और सिर हिलने लगे तो ऐसे हास को 'अतिहतित' समझना चाहिए।

संबधगाथुनेत्रान्तं विक्रुटस्वतमुद्दतम् ।

हस्तोपगृदपार्थं यत्तच्चापहसितं विदुः ॥ २०१ ॥

( ना० शा० ६५९ )

आँखों के बोनों में आँसू आ जाएँ, जोरों को शब्द हों और दोनों हाथों से पसलियों को दबा कर हँसा जाए तो इस प्रकार कह हास 'अपहसित' समझना चाहिए।

करुणः—

इष्टनाशधनापायवधव्यसनताङ्गनैः ।

शापक्लेशोपघाताद्यैर्जायते करुणो रसः ॥ २०२ ॥

अशुनिधासर्ववर्ण्यस्ताङ्गत्वसृतिक्षयैः ।

परिदेवितशोपाद्यैरभिनेयः स सूरिभिः ॥ २०३ ॥

स्वरभेदाशुनिर्वेदविषादावेगमृत्यवः ।

मोहापस्मारजडता चिन्तात्सुक्यञ्च वेपयुः ॥ २०४ ॥

दैन्यं वैवर्ण्यमालस्यं व्याधिर्लानिस्तथा श्रमः ।

स्तम्भाद्याथ चरा भापा स्थायी शोकोऽस्य च सृतः ॥ २०५ ॥

कृत्य—प्रियजन के मरण, वैभव के अवसान, प्रियनन के बध, विपत्ति, ताङ्गन, शाप, क्लेश, अग्नि आदि से जल जाना ( उपपात ) आदि विभावों के द्वारा 'कृत्यरस' उत्पन्न होता है। इसका अभिनय आँसू गिराने, मुँह उत्तर जाने ( वैवर्ण्य ), आगों में शियिलता आ जाने, सूर्ति के नाश हो जाने, रोने और मुँह के सूख जाने आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए। इस रस के सात्त्विक तथा सचारी भाव हैं— स्वरभङ्ग, असु, निर्वेद, विषाद, आवेग, मृत्यु, मोह, अपस्मार, जडता, चिन्ता, औत्सुक्य, वेपयु, दैन्य, वैवर्ण्य, आलस्य, व्याधि, ग्लानि, श्रम तथा स्तम्भ ( आदि )। करुणरस का स्थायी भाव 'शोक' होता है।

रौद्रः—

शङ्खगागङ्गचैषाभिरुद्रक्रियात्मकः ।

समुद्दतनरप्रायो रौद्रः सद्वामदेतुकः ॥ २०६ ॥

सर्वाधिक्षेपमात्सर्वं रधिक्षेपैथधर्पणैः ।  
 उपथातानृतालापवाक्पारुष्यादिभिर्भवेत् ॥ २०७ ॥  
 तस्य दन्तोष्टसन्दशभुजास्फोटनपाठनैः ।  
 शत्रुघातशिरोवाहुक्षेपन्धस्कन्धवर्तनैः ॥ २०८ ॥  
 ताडनैः पीडनैश्छेदैभेदैः शोणितकर्पणैः ।  
 भ्रुकुटीहस्तनिष्पेणैः कार्याभिनयनक्रिया ॥ २०९ ॥  
 उग्रतामर्परोभाश्चवेष्टयुत्स्वेदचापलाः ।  
 मोहावेगादयश्वात्र भावाः स्युच्येभिचारिणः ।  
 क्रोधः स्थायी च भावोऽस्य दृष्टिशालोहिता भवेत् ॥ २१० ॥

**रौद्र—** जिसमें मूलतः युद्ध कारण हो और उद्धत प्रकृति के व्यक्ति के द्वारा किये जाने वाले शब्द त्तेप, कठोर शब्द और अंगों की उद्धत चेष्टाओं से निर्दय या भयंकर कार्य किये जाएँ तो 'रौद्ररस' उत्पन्न हो जाता है। इसकी उत्पत्ति सभी व्यक्तियों को तिरस्कृत करने, द्वेष करने तथा उनसे लड़ने, उन पर चोट करने, झूठ बात कहने, मारने की घमकी देने आदि कार्यों से होती है। इसका अभिनय अपने ही दाँतों से ओढ़ों को काटने, भुजाओं को ठोकने, चौर फाढ़ करने, शब्द प्रहार करने, मस्तक, भुजा, कथन्य और कन्धों को हिलाने, मारने, पीटने, काटने, टुकड़े कर ढालने, सून निकालने, भौंहें चढ़ालेने, हाथ भलने आदि अनुभावों [क्रियाओं] के द्वारा किया जाता है। इसमें होने वाले संचारी भाव हैं—उम्रता, अमर्प, रोमाश्च, वेष्टयु, स्वेद, चपलता, मोह तथा आवेग। क्रोध इसका स्थायीभाव होता है तथा इसके आश्रित की आँखें लाल रहती हैं।

**वीरः—**

उत्तमप्रकृतिर्वारः उत्साहस्थायिभावजः ।  
 विभावास्तस्य विनयप्रतापयलविक्रमाः ॥ २११ ॥  
 गुर्गीराधनसदृश्चिधर्मसम्पदशक्तिभिः ।  
 अभिनेयः स च त्यागवैशारद्यादिभिस्तथा ॥ २१२ ॥  
 आक्षेप शुचितात्यागशौर्यधैर्यादिभिर्भवेत् ।

स्मृतिर्गवोऽपि रोमाश्रामपसंहर्षयुद्यः ।  
धृतिरित्यादयो द्वया भावाथ व्यभिचारिणः ॥ २१३ ॥

बीर—उत्तम प्रकृति के मनुष्यों में स्थित उत्साह नामक स्थायीभाव से उत्पन्न होने वाले रस को 'बीरत्स' समझना चाहिए। इसके विभावों में—विनय, प्रताप, बल तथा शौर्य ( विक्रम ) रहते हैं। इस रस का अभिनय पूर्ण गुहजन की सेवा शुश्रूषा या आज्ञावर्तिता, सशरित्रता-पूर्ण जीवन, धर्म लाभ, शक्ति प्रदर्शन, त्याग, चातुर्य, आचेप करना, पवित्रता, निस्वार्थ भाव, शौर्य तथा धैर्य आदि के प्रदर्शन के द्वारा किया जाता है। बीर रस के सचारी भाव हैं—स्मृति, गर्व, रोमाश्र, हर्ष, मति [ बुद्धि ] तथा धृति आदि।

### भयानकः—

उच्चमैरवसम्बाधरक्षः ग्रेतादिदर्शनेः ।  
शून्याग्नारम्हारण्यवधन्धनवीक्षणेः ॥ २१४ ॥  
त्रासायासकृतोद्देगशिवोलुकरुतादिभिः ।  
विभावैर्जयते स्त्रीणां नीचानाश्च भयानकः ॥ २१५ ॥  
तं सर्वाङ्गाक्षिभेदाद्यस्तालुकण्ठसिशोपणेः ।  
हृत्पाणिचरणोत्कम्पैरुहस्तमैथ दर्शयेत् ॥ २१६ ॥  
वैवर्ण्यं देन्यमालस्यं त्रासापस्मारमृत्यवः ।  
चेपयुस्वेदरोमाश्च स्वरभेदास्तथैत च ॥ २१७ ॥  
तद्रत्येगयङ्गाद्या भागा स्युर्व्यभिचारिणः ।  
भयश्च स्थायिभागोऽस्य स्वरिभिः समुदाहतः ॥ २१८ ॥

भयानक—छियों की भीर भीर प्रकृति के छोटे मनुष्यों में दैत्य, राश्रस या भूतप्रेरों की हरावनी आवाजों के सुनने, दैत्य भूत आदि के दिग्भाई पड़ने, सुनसान मकानों या यनों में जाने, अपने इष्ट पुरुष के धध या अन्धन को देरा लेने, त्रास और श्रम ( आयाम ) में होने वाली घण्टाहट और स्यार या उल्लू की चीतारों को सुनने ऐसा चरण 'भयानकरस' उत्पन्न होता है। इस रस अभिनय हाथ पैर आदि शरीर के सभी भागों को क्षाने, आँखों को ( इधर-उधर ) घुमाने, कंठ और तालु

के मूर्हने, हाथ, पैर तथा दिल के घटकने और पैरों के जकड़ जाने आदि अनुभागों के द्वारा किया जाता है। भयानक रस के संचारी भाव हैं—वैपथु, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभंग, आवेग तथा शंका। भयानकरस का ‘भय’ स्थायी भाव माना जाता है।

### यथा—

पूजा नान्यकृतां विधातुमिना मूर्धनो निजान् कृन्ति  
द्राक्षाद्वृत्स्यपशो मयि त्रिनयनस्याऽग्निजामुर्गणा ।  
ते नन्दिप्रभुवा ग्रकम्पिवपुष स्वेदच्छटाभोधरा  
शुक्लौष्ट्रा मयमिश्रयोदल्दुतद्वर्षा स्तम्भव्यवस्यामुहु ॥

### उदाहरण—

देव काकुस्थ वश मे उत्पन्न नासमक राम, सुन। जब मैं भगवान शिवजी की आज तक न की गयी पूजा को करने की ठान कर तलागर से अपने ही मस्तकों को काटने लगा तो शिवजी के नन्दी आदि गणों के शरीर कायने लगे, उनके शरीर एसीने से लथपथ होकर बालों के समान दियाई पड़ने लगे, ओंठ सूख गए, छर से ढनकी निगाह ऊपर चारों ओर उठने लगी और वे वहीं कड़े होकर जड़बत् स्थित हो गए।

### वीभत्सः—

जुगुप्सा स्थायिभागो यो वीभत्सोऽवीरसंश्रयः ।  
निकृतोत्पूतिमांसाददशैनश्रुतकीर्तनैः ॥ २१९ ॥  
दुर्गन्ध्यप्रयतापिष्ठिंभापैर्जायते हि सः ।  
तस्य सर्वाङ्गसङ्कोचष्टीपनास्यग्निकुञ्जनैः ॥ २२० ॥  
नासाप्रच्छादनाव्यक्तपादपाताक्षिदृष्णनैः ।  
हृष्टेयोद्देवनाद्यैश तज्जरमिनयो मतः ॥ २२१ ॥  
अपस्मारथ मोहश्च मरणं व्याधिरेत च ।  
तथापेगादयथास्य भावास्युर्घमिचारिणः ॥ २२२ ॥

वीभत्स—जुगुप्सा स्थायी भाव धाला ‘वीभत्सरस’ भीरु स्वभाव के

नहुण्डों में रुदा डाढ़ा है । 'अवैत्यसंप्राप्त' है। उमसी उचिति नहै और हुग्निव से भरे जांय के लाने गले किसी दून प्रेम के देशने, इनने हुग्निय या अनविक्रिया से पूर्ण रूप से गले पर्याय या पुलों के दिलाई देने, इनने या ऐसे वर्षन करने जाहि रिमांडो से दौती है। इनका असिनव (असन) कुमी ऊंगों के निष्ठुराने, घृष्णने, दूँ घूरने, नाक इदाने, आम भैं छनदाने शीर्षों के परदाने, छोड़ने हैं और दूर चलने जाहि छनुकारों के द्वारा ज्ञाना खारिए। इनके नंजराने भाव है—अनन्दार, नोह, नाम, अवधि तथा अविग जाहि।

### कहुनः—

उदुतो विन्दपश्यापिमावप्रभव उच्यन् ।  
 प्राप्तादोषानवेंद्रादिगमनैदिव्यदक्षेनः ॥ २२३ ॥  
 सुमाविनमनमायेन्द्रादिनिन्यादिदक्षेनः ।  
 हृदयेभिन्नलार्दिव विमावैन्द्रव्य नन्मवः ॥ २२४ ॥  
 दन्तलोचनविनाप्रपादोपगमादिमिः ।  
 गेनाव्वन्देवर्षाष्टुभाषुवादिव उप्रेतु ॥ २२५ ॥  
 व्यम्भाष्टुन्देवगेनाव्वगदालापन्मन्त्रमाः ।  
 वडनाप्रदवायाथ मावास्त्वुर्विचारिणः ॥ २२६ ॥

अहुत—विन्दपश्यापि भाव के उच्चम होने वाले सम या नाम 'कैद्वत' रूप है। इनके उच्चनि किसी दृढ़ भद्र, विशेषान या पर्वत की नैर कृति, विश्वुपाप, व्यवें जाहि के दिव्यार्थ पड़ने, छहुत गुडमन, अश्वघुपाल, नाम, इन्द्रान, छहुत विश्वावना के छहुतोक्त तथा उरिड वन्नु के पाप होने जाहि रिमांडो से द्वाप होने हैं। इनका असिनव हुए के दूल रखने, शंदो के दिव्यनाने, छोंगो के उच्चुक दैनाने हुर प्रमुखदा व्यक्त करने तथा गेनाव्व मेंह और हृष्णन छहुत बाहे हुर साहुत रैने जाहि [छुमरो] के द्वाप अना चारिए। इनके नकारी भाव है—नन्दम, छहुत व्येद रेनाम्भ, गद्वाट छालाव, मन्त्रान, जहुत तथा प्रमुख राहिए।

१ छर्वरमध्यदार्वाद्यसंहिता इति नहुत । (छर्वरमध्यदार्वाद्यसंहिता व्याख्या T. S. S. Ed. Vol L पा ११३)

यहुतरसमवाये एक एव स्सः स्थायी । अन्ये तदुपकारागता च्यभिचारिणो भवन्ति । तत्र च—

यदि अनेक रसों का समुदाय हो तो उसमें एक रस ही मुख्य या स्थायी होता है तथा रोप रस उसके सहायक हो जाने के कारण सचारी रस कहलाते हैं । इनमें भी—

आक्षिप्य सव्याजमतिप्रसक्तं रसङ्गः पुनराददीत ।

न चातिगाढं च न चातिमन्दं सन्दीपनं द्यष्टमिदं रसानाम् ॥२२७॥

किसी कारण घश रोके या धन्द किये गए रस को कलाकार या विद्वान् फिर से ला मकता है । ये रस न अधिक गहरे और न उथले रहने चाहिये । रसों को फिर उद्धीप्त या प्रस्तुत करने की यही सचित विधि है ।

एषु च रसेषु शृङ्खरकारुप्यहासा मृदवः भारतीकैशिकीवैदर्भ-  
रीतिभाज । रौद्रबीमत्समयानका दीप्ता भारत्याभट्टीविषयाः  
गौडरीतिभाज । मध्यमौ वीराद्युत्तौ भारतीसालतीविषयौ पाञ्चालरीति-  
भज्ञाविति ।

इन रसों में शृङ्खर करण तथा हास्य मृदुरम कहलाते हैं तथा  
इन रसों में भारती तथा कैशिकी वृत्ति को तथा वैदर्भी रीति को रखा  
जाता है । रौद्र, बीमत्स और भयानक दीप्त-रस कह लाते हैं । इन  
रसों में भारती तथा भारभट्टी वृत्तियों और गौडी रीति को रखा जाता  
है । वीर तथा अद्युतरसों को मध्यमरस कहा जाता है । इन रसों में  
भारती तथा सालती वृत्तियाँ और पाञ्चाली रीति को रखा जाता है ।

अथ विभावा अनुभावात्थ भावा कथ्यन्ते ।

भाव आदि का निरूपण—अथ हम भावों, विभावों और अनुभावों  
का वर्णन करते हैं—

वागद्वसत्यभिनयैराद्यार्थ्यमिनयैरपि ।

कवेरन्तर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते ॥ २२८ ॥

( ना० शा० ७।२ )

जो धारणी, अह्न, सत्य और आहार्य अभिनय के द्वारा कवि के  
आन्तरिक आशय को प्रकट करता हो उसे 'भाव' समझता चाहिए ।

योऽधों हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्धहः ।

शरीरं व्याप्त्यते तेन शुष्कं काष्ठमिगामिना ॥ २२९ ॥

( ना० शा० ७१७ )

जो विचार या आशय हृदय को छूने वाले हों और जिससे रस उत्पन्न हो जाए उन्हें भाव समझना चाहिए । ये भाव सूखी लकड़ियों में आग के समान शीघ्र व्याप्तने वाले होते हैं ।

वहूनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्दहु ।

स भावः कथ्यते स्थायी शेषास्तु व्यभिचारिणः ॥ २३० ॥

अनेक सचारी भावों के इकट्ठे होने पर जिस भाव का स्वरूप विस्तृत या एष होता हो उसे स्थायी भाव तथा शेष ( अप्रथान ) भावों को व्यभिचारी भाव समझना चाहिए ।

सत्त्वभेदाः भवन्त्येते शरीरप्रकृतिस्थिताः ।

भावयन्ति रसान् यस्मात्स्माद् भावा प्रकीर्तिंताः ॥ २३१ ॥

ये मानसिक भावों के प्रकार [ सत्त्वभेदा ] हैं जो सहज रूप में शरीर में विद्यमान रहते हैं । जब ये रसों का भावन या आस्थादन करवाने में सहायक होते हैं तो उन्हें 'भाव' कहा जाता है ।

तत्र स्थायिन एते—

हासो रतिश्च शोकश्च क्रोधोत्साहां भयं तथा ।

जुगुप्ता विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिंताः ॥ २३२ ॥

इन भावों में निम्न स्थायीभाव हैं—( १ ) हास, ( २ ) रति, ( ३ ) शोक, ( ४ ) क्रोध, ( ५ ) उत्साह, ( ६ ) भय, ( ७ ) जुगुप्ता तथा ( ८ ) विस्मय ।

विभाव्यन्तेऽधिगम्यन्ते वागङ्गाभिनयाश्रयाः ।

एभिरर्थां यतस्तस्माद् विभावाः समुदाहताः ॥ २३३ ॥

वाचिक या आद्विक अभिनयों के द्वारा बतलाए जाने वाले मर्केतों यह भावों को जो ठीक तरह से अभिव्यक्ति करते हैं अतएव [ ग्रिशेष रूप से अभिव्यक्त करवाने के कारण ] ये 'विभाव' कहलाते हैं ।

वागङ्गाभिनयैरेभिर्यस्मिन्दर्थोऽनुवद्यते ।

सर्वाङ्गोपाङ्गमयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः ॥ २३४ ॥

( ना० शा० ७१५ )

वाचिक या आद्विक अभिनय के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थों को जो घाद में संवेद्य बनाते हैं तथा जो अपने स्वरूप, अंग और उपाह्रों से युक्त रहते हैं उन्हें 'अनुभाव' समझना चाहिए।

**अन्यस्त्वाह—** रसोपादानहेतुविभावः, रसाभिव्यज्ञकोऽनुभावः, रसप्रापयिता भाव, भावोपकारिणि चरा, सात्त्विकाश्च भावा भवेयुरिति । चरा भावास्त्रयालिशत् कथ्यन्ते । यथा—

बुद्ध आचार्यों का मत है कि विभाव रस के उपादान कारण होते हैं। रस को अभिव्यक्त करने का कार्य 'अनुभाव' [ तथा ] रसत्व की भूमि तक ले जाने [ पहुँचाने ] का कार्य भाव करते हैं और भाव की सहायता कर उन्हें गतिशील रखने वाले संचारी भाव और सात्त्विक [ भाव ] होते हैं।

निर्वेदग्लानिशङ्काश तथाद्यामदश्माः ।

आलस्यश्चैव दैन्यश्च चिन्ता मोहस्स्मृतिर्मतिः ॥ २३५ ॥

ब्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता धृतिः ।

गर्वो विपाद औत्सुक्यं निद्राऽपस्मार एव च ॥ २३६ ॥

त्रासोऽर्पणः प्रबोधश्च अवहित्यं तथोग्रता ।

वितकों व्याधिरुन्मादो मरणं शौचमेव च ॥

श्रयस्त्रिशदिमे भावा विज्ञेया व्यभिचारिणः ॥ २३७ ॥

संचारी या व्यभिचारी भावों की सख्ता तैतीस मानी गयी है।

इनके नाम इस श्रकार हैं :—( १ ) निर्वेद, ( २ ) ग्लानि, ( ३ ) शंका, ( ४ ) असूया, ( ५ ) मद, ( ६ ) अम, ( ७ ) आलस्य, ( ८ ) दैन्य, ( ९ ) चिन्ता, ( १० ) मोह, ( ११ ) स्मृति, ( १२ ) मति, ( १३ ) ब्रीडा, ( १४ ) चपलता, ( १५ ) हर्ष, ( १६ ) आवेग, ( १७ ) जडता, ( १८ ) धृति, ( १९ ) गर्व, ( २० ) विपाद, ( २१ ) औत्सुक्य, ( २२ ) निद्रा, ( २३ ) अपस्मार, ( २४ ) त्रास, ( २५ ) अर्पण, ( २६ ) प्रबोध, ( २७ ) अवहित्य, ( २८ ) उग्रता, ( २९ ) वितक, ( ३० ) व्याधि, ( ३१ ) उन्माद, ( ३२ ) मरण तथा ( ३३ ) शौच ये तैतीस संचारी भाव हैं। अब हम इनके लक्षण बताते हैं।

तत्र निर्वेदः—व्याधिदारिद्वयनिन्दाक्रोशादिभिर्विभावैजयिते ।

स चाभिनेयः सम्प्रधारणनि शास्त्रानादिभिरुभावैः । तद्यथा—

**निर्वेद**—लम्बी थीमारी, निर्धनता, निन्दा तथा आक्रोश [ अभियोग लगाना, दोपारोपण करना ] आदि विभावों से 'निर्वेद' उत्पन्न होता है। इसका अभिनय साझधानी से विचार करना, लंबी उमासें लेना तथा ध्यानकरना आदि अनुभावों से करना चाहिए। जैसे निम्न उदाहरण में—

दद्मा सीतेति जाव्यन्तं हनुमन्तं रघूद्वह् ।

नाचश्चिरचै सनिधासमधिचिक्षेप केक्यीम् ॥

'मैं सीता को देख आया' वहने वाले श्री हनुमान् की बातों को सुनकर भी हृदय से अनुमोदन न करते हुए श्रीराम विचारों से दूब कर सिर्फ कैरेयों का ध्यान कर लबी सांस लेने लगे।

इति निर्वेद शोकमुपकुरुते । एवमन्येऽपि ।

( प्रस्तुत उदाहरण में ) निर्वेद ( भाव ) शोक [ करुण के स्थायी भाव ] का सहायक भाव हो रहा है। दूसरे अन्य सचारी भाव भी इसी प्रकार स्थायी भावों की सहायता करते हुए उन्हें पुष्ट करते हैं।

**ग्लानि**—सन्तापव्याधिकुन्नियमादिभि ग्लानिर्जायते । तस्यां तानवैदर्प्यमन्दत्तादिसनुभावा । तथ्या—

**ग्लानि**—सताप, व्याधि, क्षुवा और परिमित आद्वार के नियम आदि विभावों से 'ग्लानि' उत्पन्न होती है। इसमें दुबलापन हो जाना, मुँह बतर जाना, जड़ हो जाना या ढीलापन आ जाना अनुभाव रहते हैं। जैसे :—

उद्घाति नगाम्भोधे सीतादुखाभिगापित ।

जग्माह ग्लानिमिश्वाकु कृष्णपक्षेन्दुविम्बवत् ॥

सीता वी विरहापि से सन्वत् श्रीराम ने जब आकाश में फाने वालों को उठने देसा तो ये कृष्णपक्ष के चन्द्रविम्ब के समान परदम ग्लानि मुख हो गए।

**शङ्का**—शङ्का स्त्रीनीचविषया पापापराधाचरणैः जायते । तामभिन्नेदिशावलोकन्यादिभि । शङ्कारे एतामुच्चमोऽप्यपलभ्यते इति केचिन् ।

तथ्या—सजा विद्युपवस्त्रदत्—

जङ्गा—क्षी और नीच नाति या नीच प्रकृति के मनुष्यों में 'जङ्गा' देसी जाती है तथा इसकी उत्पत्ति पाप या अनुचित आचरण करने आदि विभागों से होती है। इसका अभिनय चारों ओर देखने, कांपने आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए। कुछ आचारों का मत है कि शृङ्खाररस में उत्तम पात्र में भी शक्ति को रखा जा सकता है। जैसे राजा की विद्युरक के प्रति निम्न उक्ति में [उत्तम पात्र तथा शृङ्खाररस होने से 'जङ्गा' की योजना उचित रूप में रखी गयी है]—

शङ्के मानुमती कुद्धा मामनामन्त्र्य यदता ।

इन्दुमत्या गुणालाप कृतो मौख्यान्मया हि स ॥

जब मैंने अज्ञानवश इन्दुमती के गुणों का वर्णन किया था तभी विना पूछे ही भानुमती रुठफुर चली गयी ऐसी मुझे आशंका हो रही है।

असूया—पैरैश्वर्यापराधाद्यैरसूया । ता गुणपद्मुतिविद्रेप-निन्दा-दिभिर्निर्दिशेत् ।

असूया—दूसरों के वैभव या सम्पत्ति को देख कर या किसी अपराध के करने आदि विभागों से 'असूया' उत्पन्न होती है। इसका अभिनय दूसरों के गुणों को दबाने, द्वेष या निन्दा करने आदि अनुभावों से दरना चाहिए।

मदः—मद्. मद्यपाने । तमुत्तम स्वापेन, मध्यमो गीतहासै-रथमश्याप्रियालापरोदनै ।

मद—मद्यपान से 'मद' उत्पन्न होता है। इसको उत्तमपात्र निश्च लेते हुए, मध्यमपात्र गीत और हास्य के द्वारा और अवमपात्र गाली, बकवान और रुठन के द्वारा अभिनीत करे।

श्रमः—

श्रमोऽभ्वमेवाया । त स्वयगाम्भर्त्नादिभिः । तदथा—

श्रम—लेम्बी चापा या मेनत वरने से 'श्रम' उत्पन्न होता है। इसका अभिनय अपने शरीर को सर्व दशाने आदि अनुभवों के द्वारा किया जाता है। जैसे—

कठोरगर्भीडार्ता रथं सन्त्यज्य मैथिली ।

सौमित्रम्यस्तद्द्वनाठजा यसौ गद्वावगाहने ॥

पूर्ण गम्भे के कारण दिश्म सीता जी रथ को छोड़ थी लहमण वे हाथ का सहारा लेकर गगा को पार करने के लिए आगे बढ़ी।

### आलस्यम्—

आलस्यं स्त्रीनीचविषयं खेदव्याधिथमशोकादिभिर्जीवते ।  
तदाहारत्यागारवधत्यागै ।

आलस्य—खो और नीच प्रकृति के मनुष्य में 'आलस्य' देखा जाता है। इसकी उत्पत्ति थकावट, बीमारी, परिश्रम करने और शोक करने आदि विभावों से होती है। इसका अभिनय भोनन न करने और आरम्भ किये हुए कार्य को छोड़ देने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए।

### दैन्यम्—

दैन्यं विरहदीर्गत्यपराभवमनस्तापै । तमचेष्टगात्रसस्तारवर्जनै ।

दैन्य—विरह, दुर्गति, अपमान तथा मानसिक मताप से 'दैन्य' उत्पन्न होता है। इसका अभिनय निश्चेष्ट पड़ कर, शरीर की मफाई न रखने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाता है। जैसे—

### तदथा—

दुशासतकराकृष्टेकेशोन्मुक्तविमूणा ।

दुरोति भीममात्मानेषपि दृष्णा दिने दिने ॥

दुशासन वे हाथों से गीचे गये अपने घेशों को न सगारसी हुई द्रौषपदी। दिन रात भीम को और स्वयं को कोसते हुए दुर्दीर्घी रहने लगी।

### चिन्ता—

चिन्ता ऐश्वर्यप्रियजनापाँ । तांध्यानाधोमुखतानि ध्याससन्तापै ।

### तदथा—

चिन्ता—अपनी सम्पत्ति की या किमी प्रिय जन वीहानि जैसे विभिन्नों से 'चिन्ता' उत्पन्न होती है। इसका अभिनय ध्यान घरों, मुँह झुका लेने, ऊँचे सात्से लेने और कुदन [ सन्त्वाप ] आदि अनुभावों के द्वारा फरना चाहिए। जैसे—

अकर्णद्वौषणगाहृय सिन्धुराज रणझणम् ।

दृष्टा दुर्योधितश्चिन्ता निश्चमन् दीर्घमाविश्व ॥

दुर्योधन ने धर्ण, द्रोण, भीष्म और जयद्रथ से हीन युद्धभूमि देखकर ऊची सास ली और ( किर ) किसी गहरी चिन्ता में हूब गया ।

**मोहः—**

**मोहः व्यसतावेगवैरानुस्मरणादिभि । तमध पातनिश्चैतन्यधूर्ण-  
नादिभि । तद्यथा—**

**मोह—**आनेवाली विपत्ति, आवेग और शत्रु के स्मरण आदि विभावों से ‘मोह’ की उत्पत्ति होती है । इसका अभिनय नीचे गिर जाने, बैहोश हो जाने, चक्कर खा कर गिरने आदि अनुभावों से करना चाहिए ।

जैसे —

शक्त्या हत दशास्येन लक्ष्मण वीक्ष्य राघव ।

पपातावेगवान् भूमौ शासीवाशनिना हत ॥

राघव के द्वारा फेंकी गयी शक्ति की चोट सा कर गिरे हुए लक्ष्मण को देस कर श्रीराम ब्रह्माहत वृक्ष के समान वेग से पृथ्वी पर गिर पड़े ।

**स्मृतिः—**

**स्मृतिः स्वास्थ्येन । ता ऋक्षेष्विर कम्पादिभि ।**

**स्मृति—**ठीक से या स्वस्थचित्त हो बैठने से ‘स्मृति’ उत्पन्न होती है । इसका अभिनय आदरों को इधर-उधर घुमाने और सर को हिलाने आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए ।

**मतिः—**

**मतिः शास्त्रवेदेन । ता तत्त्वोपदेशेन ।**

**मति—**शास्त्र-परिशीलन या तत्त्वज्ञान से ‘मति’ उत्पन्न होती है । इसका अभिनय तत्त्वज्ञान या सत्य के उपदेश देने आदि अनुभावों से दिया जाए ।

**ग्रीढा—**ग्रीढा प्रतिज्ञाभज्ञपापाचरणगुर्वतिक्षमै । ता वैलक्ष्य-  
नवनिस्तोद-भूरेष्वनादिभि । तद्यथा—

**ग्रीढा—**अपनी प्रतिज्ञा के भग हो जाने, पापाचरण तथा पूज्यज्ञन की आक्षाओं को न मानने से ‘ग्रीढा’ उत्पन्न होती है । इसका अभिनय सर झुका घर लनाने, नदों के कुरेदने या अङ्गुलियाँ टबाने तथा भूमि को कुरेदने आदि अनुभावों से द्वारा करना चाहिए ।

जैसे :—

वत्स दग्धा न सीतामौ लङ्घा । । । लवम् ।

रज्जेहास्तिहि मदश्रातु क्षमस्वायै सुदुर्नीयम् ॥

हे वत्स, सीता आग मे नहीं लली और लङ्घा... यह कथन मेरे भाई के लिए लज्जा की बात है। इस दुर्व्यवहारमय अपराध को हे देवि हुम क्षमा कर दो।

चपलता—

चपलताऽमर्पश्चेष्वादिभि । ता ताढनसम्भान्यतोगमनादिभि ।

चपलता—क्रोध, द्वेष और डाढ़ के कारण 'चपलता' उत्पन्न होती है। इसका अभिनय किसी को पीटने, घबराने दूसरी ओर चलने आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए।

हर्षः—

हर्षः मनोरथावासिन्तोपादिभि । तं नेत्रवस्त्रप्रसादपुलकगृहदालपै ।

हर्ष—अपनी कामनाओं के पूर्ण हो जाने तथा सन्वोप प्राप्त हो जाने के कारण 'हर्ष' उत्पन्न होता है। इसका अभिनय आँख और मुँह को दिलाते हुए, रोमाञ्च या रुक रुक थर अस्पष्ट संभाषण के द्वारा किया जाए।

आवेगः—

आवेगः वहिस्तद्विक्षेभगजादिसम्भानिष्ठदर्शनश्वरणै । तं  
सहसोत्थानशङ्कादानदिशावलोक्नै । तथथा—

आवेग—शाग लग जाने, तूसान उठने, चरसात दे लगातार होने, पिंग उत्पन्न हो जाने, हाथी द्वे छूट फर भागने और किसी अनिष्टरारी वस्तु को देखने या उससे अपने की रवार लग जाने आउडि से 'आउग' उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिनय पन्द्रह उठ थर भागने, शब्द उठाने, चारों ओर देखने आदि अनुभावों से करना चाहिए। जैसे—

पितृविषे पतित्वामे रक्षेत्युद्गचि सारथी ।

अथथामासिमादाय दिक्षु दिक्षु दृश्य ददो ॥

पिता द्वोपाचार्य के धर्ष हो जाने पर जब उनका सारथी चचाओं के द्वारा हुए अथथामा के सामने गिर गया तो उसने जन्मी से अपनी तलजार खींच ली और चारों ओर ( पश्चा फर ) देखने लगा।

### जडता—

जडता इष्टनिष्ठाम्याम् , तं तूष्णीम्भावेन ।

जडता—इष्ट या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति के होने से 'जडता' उत्पन्न हो जाती है। इसका अभिनय बिना किसी चेष्टा को करते हुए चुपचाप ही जाने आदि अनुभाव के द्वारा किया जाता है।

### धृतिः—

धृतिः सुखदुखेषु समत्वेन, तामचापलत्वादिभिः ।

धृति—सुख और दुख की दशा में समभाव रखना 'धृति' कहलाता है। इसका अभिनय स्थिर रहने, चपलता न करने आदि के द्वारा किया जाए।

### गर्वः—

गर्वः यौवनैश्वर्यविद्यादिभिर्घमानां, तमाधर्षणावज्ञानादिभिः ।

गर्व—यौवन, सम्पत्ति तथा विद्या आदि रहने के कारण भृत्यमपात्रों में 'गर्व' उत्पन्न होता है। इसका अभिनय दूसरे का अपमान करने, घुणा करने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाता है।

### विपादः—

विपादः विष्वोगकर्त्त्वानिस्तरादिभिः, तं सहायान्वेषणशून्यता-भावनोद्गेगात्मनिन्दादिभिः । तद्यथा—

विपाद—किसी आपत्ति के आ जाने तथा अपना वर्तव्य ढीक से न करने आदि विभावों से 'विपाद' उत्पन्न होता है। इसका अभिनय सहायक दृढ़ने, शून्यता का अनुभय करने, घबड़ने तथा स्वयं की निन्दा करने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाता है। जेसे :—

गच्छन्त्यां निशि नायाति मारुतौ द्रोणभूमृतः ।

सौमित्रिजीवनानास्यो विपसाद रघूद्वहः ॥

द्रोणाघल पर्वत से ओपथ लेकर रात्रि में हनुमान के न लीटने पर श्रीराम लत्मण के जीवन की आशा छोड़ कर दिल्लि हो बैठ गए।

### आ॒त्सुक्यम्—

आ॒त्सुक्यमिष्टविष्योगस्मरणादिभिः, तं दीर्घनि श्वासनिद्राच्छ्वेद-चिन्तादिभिः । तद्यथा—

**औत्सुक्य**—प्रियजन से दूर हो जाने या उमकी स्मृति आ जाने पर 'औत्सुक्य' भाव उत्पन्न होता है। इसका अभिनय जोरों से सांस लेने, जाग उठने तथा चिन्ता करते हुए किया जाए। जैसे :—

**सीताया विरहे रामो निद्रा भेजे न शत्रिपु ।**

**लक्षणास्यो रुद्धपुटस्वलद्याप्यविलोचन् ॥**

सीता के विरह में श्रीराम को रात्रियों में नीद नहीं आती थी वे वेवल लहमण की ओर निहारते हुए उसांसे लेते और आँखों से आँसू बहाते रहते थे।

**निद्रा**—

**निद्रा दौर्बल्यादस्यविपचिन्ताभिः, तं मुखगौरवजमास्वमायितैः ।**

**निद्रा**—दुर्बलता, आकस्य, आपत्ति की चिन्ता से 'निद्रा' उत्पन्न होती है। इसका अभिनय सर भारी हो जाने, जंभाई लेने और नीद में बकने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाता है। जैसे :—

**तथा**—

**भीमो निद्रा गतो हन्ति कीचक त्वां क्षणादिति ।**

**स्वमायितेन कृष्णाया पाणिरेवाग्रमक्षिपत् ॥**

'अभी भीमसेन सो रहे हैं। थरे कीचक, मैं तुझे मार डालूँगी' इस प्रकार नीद में बड़बड़ाने वाली द्रीपदी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर पृथ्वी पर पटक दिया।

**अपस्मारः**—

**अपस्मारः परक्षेमसत्त्वदोपादिभिः, तं स्वेदस्तम्प्रधासकम्पैः ।**

**अपस्मार**—धृतिशय विघ्नों के या किसी स्वय के दोष के हो जाने के कारण 'अपस्मार' उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिनय पसीना आ जाने, जहवत् हो जाने, जमीन पर गिर जाने, जोरों से सांसें लेने तथा पांपने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए।

**प्रशोधः**—

**प्रशोधः दुस्वमनिद्राच्छेदवधादिभिः, तं चमत्कारशथ्यापरित्यागेन ।**

**प्रशोध**—किसी अनिष्टकारी स्वप्न (दुस्वप्न) के दियाई देने, नीद दूट जाने या धूप हो जाने आदि के कारण 'प्रशोध' उत्पन्न होता

है। इसका अभिनय आश्रय प्रकट करने, अपना विस्तर छोड़ने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए।

**अमर्पः—**

अमर्पः विदैश्वर्यवतामाक्षेपेण, तं शिर कम्पोत्साहस्वेदध्यानादिभिः ।

अमर्प—विद्याशाली तथा भनवान् पुरुषों को चुनौती देने से 'अमर्प' उत्पन्न होता है। इसका अभिनय मस्तक को हिलाने, उत्साह बढ़ाने, पसीने से (शरीर के) दर हो जाने, चार बार याद करने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए।

**अवहित्थम्—**

अवहित्थं—लज्जाभयादिभिः, तदात्मगुण्या । तथथा—

अवहित्थ—लज्जा और भय आदि के कारण 'अवहित्थ' उत्पन्न हो जाता है। इसे अपने आन्तरिकभाव को छिपाने आदि अनुभावों के द्वारा अभिनीत करना चाहिए। जैसे :—

धृतराष्ट्रे समायाति दुश्शासनवधाकुले ।

जुगोपात्मानमुत्सङ्गे रथस्यैव सुयोधनः ॥

दुश्शासन का वध सुन कर घबराये हुवे धृतराष्ट्र को आते देख कर दुर्योधन ने लज्जा के कारण स्वयं को अपने रथ के बीच ही छिपा लिया।

उग्रता—उग्रता वाक्पाठप्यापराधादै., तां ताडनवधवन्धनमर्त्सनैः ।

उम्रता—तीखे वचनों के बोलने तथा अपराध करने आदि के कारण 'उम्रता' उत्पन्न होती है। उसका अभिनय पीटने, हत्या करने, कैद करने तथा हाँटने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए।

**व्याधिः—**

व्याधिर्धातुक्षोभेन शोकेन वा, तमङ्गविक्षेपादिभिः ।

व्याधि—शरीर में विद्यमान धातुओं में विकार आ जाने या शोक आदि के कारण 'व्याधि' उत्पन्न होती है। इसका अभिनय हाथ-पैर आदि को पटकने आदि के द्वारा किया जाए।

**उन्मादः—**

उन्मादः इष्टवियोगादिभिः, तमचेतनमुधाप्रमणैः । तथथा—

उन्माद—अपने इष्ट जन के वियोग आदि के कारण 'उन्माद' उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिनय वेहोश्च होने, व्यर्थ के घकर लगाने आदि अनुभावों से किया जाता है। जैसे—

इय सा सेयमित्येव जश्चंस्तुल्येषु वस्तुषु ।

उन्मत्त इव काकुत्स्यं सीता मृगति फानने ॥

बन में सीता की याद में श्रीराम उसी के समान किसी भी वस्तु को देख कर पागल के समान 'यही सीता है, वही यह है' चिन्हा बढ़ते और पागल होकर उसे ढूँढ़ने लगते थे।

मरणम्—मरणं व्याध्यभिघाताभ्यां तद्विकाशासप्तमीलास्कन्धं भज्जदाहफेनवान्तिभि ।

मरण—बीमारी या किसी सांघातिक घोट के लगाने से 'मरण' हो जाता है। इसका अभिनय हिचकी लेने, सांस लेने, शक्तिदीन हो जाने, कधों के ढीला करने या ढूढ़ जाने, जर से अधिक संताप अनुभव करने, मुँह में फेन आ जाने तथा उन्टी करने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए।

त्रासः—

त्रासः भयात् पृथग् उद्वेगस्त्रूपः सत्त्वाशुनिखादिभि , तं कम्प-  
स्तम्भसर्वाङ्गपिण्ठनगदूदोक्तिभि ।

भ्राम—वैयल घबराहट के कारण 'भ्राम' उत्पन्न होता है अतएव इसे 'भ्रम' नामक स्थायी-भाव से भिन्न समझना चाहिए। यह किसी खुलगार जगली जानशर को देखने, चित्ती के फड़कने आदि के कारण उत्पन्न होता है। इसका अभिनय झांपने, जड़गत रहे हो जाने, सारे अंगों को (कपाने या) सिकुड़ा लेने, मुँह से ढूटे हुए शब्दों को निशालने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए।

वितर्कः—वितर्क सम्वेदने, तं प्रश्नविचारप्रृक्षेपश्चिरकम्ये ।

वितर्क—मन्देह के कारण 'वितर्क' उत्पन्न होता है। इसमा अभिनय प्रश्न करने, विचार करने, भीड़ों को घुमाने, सिर को घपाने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए।

श्राप—

नीद दूट जानचमानां श्रुतिशास्त्रविवेकैः तद्मशममत्यादिभि ।

जीौच—वेद तथा शास्त्रों के ब्रान के कारण उत्तमपात्रों में ‘जीौच’ की उत्पत्ति होती है। इसका अभिनव शम, दम, सत्य आदि को प्रदर्शित करते हुए किया जाता है। जैसे—

जनकः—

दान्तोऽहं गुरुणा हरेण विहिता राज्येऽपि लोके दया  
नैवान्तं पुरयोपितामनुतशालोपेऽपि सत्यं धरम् ।  
सम्भासोऽस्मि वने स्थितं पियमुहूद्वाश्मीकिपूर्वाश्मिते  
सीताया न भवन्त्युदन्त इति मे हा धिद् मनस्ताम्यति ॥

जनक—भगवान शंकर के समान गुरु से मैंने मध्यम की शिक्षा प्राप्त की, अपनी प्रजा और सम्पूर्ण भूमितल पर सदा दया-भाव रखा और रथयास की छियों के साथ परिहास में भी असत्य बात नहीं कही। आज मैं उस बन में आया हूँ जहाँ मेरे प्रिय मित्र वाल्मीकि रहे हैं। (इतना होने पर भी) अपनी पुत्री सीता के किसी समाचार के न मिलने से मेरा मन सन्तुष्ट हो रहा है अतएव मुझे धिक्कार है।

इत्युक्ता व्यभिचारिणो भावा । सात्त्विका अष्टो कथ्यन्ते ।

सात्त्विक भाव—इम प्रकार सचारीभावों के लक्षण बतलाए गए। अब आठ सात्त्विकभावों के लक्षण बतलाए जा रहे हैं।

सत्त्वं नाम प्रकाशमो गुणं हेन निर्वृत्ता. सात्त्विकाः । ते च—

सत्त्वः<sup>१</sup> का अर्थ है वह गुण जिसमें प्रकाश हो। इस गुण से युक्त रहने वाले भावों को ‘सात्त्विक’ भाव कहा जाता है।

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चः स्वरभेदथ वेपयुः ।

वैवर्ण्यमशु प्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः ॥ २३८ ॥

इनके नाम इम प्रकार हैं—(१) स्तम्भ, (२) स्वेद, (३) रोमाश्च, (४) स्वरभेद, (५) वेपयु, (६) वैवर्ण्य, (७) अशु तथा (८) प्रलय।

१. सत्त्व—यही सांख्यदर्शन के सत्त्व गुण के द्वय का सामरनन्दी ने अनुसरण किया है। अभिनवगुहपाद न सत्त्व की व्याख्या की है—‘सत्त्वन्य मनसमाधानज्ञम् ( नां शा० G. O S Ed Vol III. पृ० १५० ) अर्थात् भानविक रिधरता या किसी भावावेदा में देर तक लीन रहना ‘सत्त्व’ है।

तत्र स्तम्भः—

स्तम्भः हर्षच्चाधिमदत्रासरोपशोकादिभि । स्तवधनिश्चेष्टगात्रत्व-  
शून्यादिभिस्त निर्दिशेत् । तथथा—

स्तम्भ—हर्ष, रोग, मद, त्रास, रोप सथा शोक आदि के कारण  
'स्तम्भ' उत्पन्न होता है। इसका अभिनव स्तवध रहना, शरीर की  
निश्चेष्टता या शून्य हो जाने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाता है।  
जैसे :—

विकासि कमलं दृष्टा पम्पासरसि राघव ।

स्मरम् सीतामुखश्चासीदामृष्टमकलक्रिय ॥

पम्पा सरोवर में दिने हुए कमलों को देख कर भीवा के मुख का  
स्मरण करते हुए श्रीराम अपने सारे काम भूल कर वहाँ राढ़े हो गए।

यथा च हर्षे—

जयति विहितभूदृन्यायतैकातपत्र—

प्रतिधृतधनजालोत्तालवृष्टिरुरारि ।

प्रतिभयस्तमलमनदूधष्टगोपीसहस्र—

स्तनतटपरिम्भानन्दजस्तम्भमासः ॥

हर्ष के द्वारा स्तम्भ का उदाहरण :—

उन भगवान् श्रीकृष्ण की जय हो जो गोरक्षन पर्वत का छत्र  
ऊपर फैला कर मेघों की धनधोर वृष्टि से गोकुल की रक्षा कर रहे  
हैं और वर्षा के भय से ब्रह्म सोलह हजार गोपियों के भरोज  
तटों के आलिंगन से प्रात आहाद के फारण जिनका शरीर निश्चेष्ट  
हो रहा है।

स्वेदः—

स्वेदो धर्मः, स च द्वजाश्रमकोर्धसम्बाहै । तं व्यजनालिङ्गम्भा-  
र्णनातेच्छामि ।

स्वेद—शरीर से पासीना निकलना 'स्वेद' कहलाता है। यह लज्जा,  
(अधिक) परिश्रम, क्रोध या भीड़ भाड़ के कारण उत्पन्न होता है। इसका  
अभिनव परामर्श फलने, सर पोळ्यने, शीतवात सेवन की अपेक्षा प्रकट  
मरने आदि अनुभावों द्वारा किया जाए।

**रोमाञ्चः—**

'इष्टस्पर्शसहपद्मिः क्रोधशीतभयैरपि ।  
तं गत्राणा कण्टकै'

रोमाञ्च—श्रियजन के स्पर्श हो जाने, प्रसवता आदि होने तथा क्रोध, शीत या भय के कारण ( शरीर में ) 'रोमाञ्च' उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिनय शरीर पर रोगटे खड़े होने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए।

**स्वरभेदः—**

स्वरभेदः भयक्रोधमदहर्षशोकै , त गदूदालापेन ।

स्वरभेद—भय, क्रोध, मद, आनन्द तथा दुख के कारण 'स्वरभेद' ( स्वरभङ्ग ) उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिनय गदूदशाणी से सम्भापण करने आदि के द्वारा किया जाए।

**वैपथुः—**

वैपथुः रोपत्रासजराप्रियाभिनवसहमै , तं हरणैग्नानाम् ।

**तथाया—**

वैपथु—क्रोध, ग्रास, बुदापा तथा प्रिय के प्रथम स्पर्श या मिलन के कारण 'वैपथु' उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिनय शरीर के भागों को छिलाने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाता है। जैसे :—

कण्टकैः पद्मनालैश्च किं वाले पुलकैर्वृता ।

कम्पसे कदलीवालमभोदानिलरेत्तिता ॥

हे वाले, तुम कमल नाल के कंटकों जैसे इन रोमाञ्चों से पूर्ण अपना शरीर रखते हुए मेघ के परन से कपित कदली लता वे समान क्यों कांपने लगी हो।

**वैवर्ण्यम्—**

वैवर्ण्यं शीततापभयक्रोधशोकैः, तन्मुखच्छायाविपर्ययेण । तथाया—

वैवर्ण्य—शीत, सताप भय, क्रोध तथा शोक के कारण 'वैवर्ण्य' उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिनय मुँह का रंग उड़ जाना आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए। जैसे :—

अनसूयाकृतोऽप्यासीन द्वारी तिलकाङ्कुर् ।

सीताया विरहे मर्तुर्वेवर्ष्यक्लुषे मुखे ॥

सीता के विरह के कारण शोभाहीन हो जाने वाले श्रीराम के लक्षाट पर अनसूया जी के द्वारा किया हुआ चन्दन-विलक्षण सुन्दर नदी दिखाई देता था ।

अथु—

अशु धूमाञ्जनामर्पहर्पानिमेपदर्शनशोकै, तं लोचनयोर्मार्जनादिभि ।

तथाथा—

अशु—धुआँ लग जाने, काजल लगाने, क्रोध फरने, पलक न गिरने, एक टक देराने तथा शोक के कारण आँखों में 'अशु' उत्पन्न हो जाने हैं । इसका अभिनय आँखों को पोछने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए । जैसे :—

पाण्डुराक्षिपुटप्रान्ता पक्षमाण्यशूद्विनुभि ।

जटिलान्यहरत् छुप्णा दुश्शासनपरामवे ॥

दुश्शासन के द्वारा अपमान किये जाने पर द्रौपदी के नेंद्रों के पट आँसुओं से सफेद और बरीनियाँ मोटी घूटों से जटिल दिखाई पड़ने लगीं ।

हेतु यथा—

आनन्दजन्य अशु का (निम्न) उदाहरण :—

विशुल्योल्सितप्राणमालिङ्गयोरसि लक्षणम् ।

रामो बाप्पतरत्तारक्षुः मैशत मारतिम् ॥

लगी हुई शर्कि को हृदय से खीच कर लिकालने दे पश्चात् श्रीराम से सास लेने हुए श्रीलक्ष्मण को आलिङ्गन करते हुए श्रीराम ने द्वुमान् श्री अपनी गीली आँखों से निहारा ।

प्रलयः—

प्रलयोऽभिपातर्द्य, तं महीपातैन ।

प्रलय—चोट आदि लग जाने के कारण 'प्रलय' (उत्पन्न) होता है । इसका अभिनय पूर्खी पर गिरने आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए

एकोनपञ्चाशदमी हि भावाः  
स्थिरस्थराः सन्वसमुद्धाथ ।  
योज्यास्तथा वस्तुपु लक्षणं-  
र्यथा स्वरूपामुपयान्ति शोभाम् ॥ २६३ ॥

इन उमचास स्थायों, संचारी और सात्त्विकभावों की नाटकीय कथा वस्तु में औचित्यपूर्ण संयोजना की जाने पर ये अपने स्वरूप के अनुरूप शोभा को प्राप्त करते हैं।

स्थायिनामेव भावानामुपकाराय सर्वदा ।

प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते सात्त्विका व्यभिचारिणः ॥ २४० ॥

एवमेव स्थायिनां रसानामुपकाराय ये रसा प्रवर्तन्ते उपकृत्य च निवर्तन्ते ते व्यभिचारिणो मन्तव्या ।

सात्त्विक और संचारी भावों को निरिशील रहना सदा स्थायीभाव की पुष्टि के लिये ही रसा जाता है अर्थात् जो भाव रस या स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए ही उपकृत होते हों तथा पुष्ट करने के पश्चात् समाप्त हो जाते या चले जाने हों उन्हें संचारीभाव समझना चाहिए।

अथ रूपञ्चाणामारम्भकालः कथयते—

रूपकों के प्रयोग के समय—अब रूपकों [ के आरम्भ करने जांदि अनेक कार्यों ] के लिए उपयुक्त समय का वर्णन करते हैं।

रूपकेष्वेऽप्य सर्वेषु कालो वाच्यः प्रवृत्तये ।

शरद् सद्ग्रामविषये विवाहे ग्रीष्ममाघवौ ॥ २४१ ॥

रूपकों भे रहने वाली घटना तथा कार्यों को समय के अनुरूप समय में रसा जाता है [ ऐसा करने पर ये अधिक प्रभावशालिता और उपयुक्ता धारण कर लेते हैं । ऐसे समय इन प्रकार समझना चाहिए । ]

संमाम के लिये शरद् ऋतु तथा विवाह के लिये ग्रीष्म और चूसन्त ऋतु उपयुक्त होती है।

प्रभातमपि कालस्य मामान्यात् कथिदिच्छति ।

एप्त धृणः सहस्रांशोस्त्रयेन प्रशस्यते ॥ २४२ ॥

सामान्यतः सभी कार्यों के लिये प्रातःकाल को कुछ विद्वान् उपयुक्त मानते हैं क्योंकि यह समय सूर्योदय के कारण प्रशस्त माना जाता है।

**देवार्चनोत्सवः स्वप्नो विहारः केलिकानने ।**

**परावस्कन्दनत्राणं ध्यानः कन्यान्वयेक्षणे ॥ २४३ ॥**

कन्या को देखने के उपयुक्त अवसर हैं—( उसका ) किसी देवता का पूजन के लिये निकलना, उत्सव के बीच, स्वप्न में या उपवन में घूमना या किसी के द्वारा बलात् हरण या आकरण के समय उसकी रक्षा करने के अवसर पर।

**अनुरागपथोराशिकछोलोद्धासदेतवः ।**

**अमी ध्यानः ग्रन्थस्यन्ते यूनः कन्यान्वयेक्षणे ॥ २४४ ॥**

किसी युवक को प्रथम बार कन्या के देखने और प्रणय-समुद्र के कछोलों को उक्षसित करने में कारणीभूत होने के लिये उपयुक्त अवसर ही उपयुक्त तथा उत्तम माने गये हैं।

**उत्तमाः संस्कृतं नित्यं दिव्या वेश्याः कुमारिकाः ।**

**पठेयुः कहिंचित् सर्वाः शौरसेनीं निरन्तरम् ॥ २४५ ॥**

भाषा-विधान—उत्तम तथा दिव्य पात्रों के सदा संस्कृत भाषा में संवाद रखे जाते हैं। वेश्या तथा कुमारिकाओं के भी कभी कभी सस्कृत भाषा में संवाद रखे जाएं तथा वेश्या, कुमारिका-आदि लोगों के संवाद सामान्यतः शौरसेनी में सदा रहने चाहिए।

**नृपोऽपि कार्यतः कोऽपि सेवकस्य वरायितः ।**

**शौरसेनीमध्य ग्राच्यामावन्तीं कहिंचित् पठेत् ॥ २४६ ॥**

यदि किसी परिस्थिति या कार्यवश राजा जैसे उत्तमपात्र को सेवक आदि की दशा में रहना पड़े तो उसके संवाद सौरसेनी, ग्राच्या या अबन्ती प्राकृत में रखे जाएं।

**एतमेव विषिक्षेपिगालकाश विद्यपकाः ।**

**यकारभहला पाठ्या यकारस्य प्रयोगस्त्रिभिः ॥ २४७ ॥**

**चेटवामनरक्षांसि मागर्धीं तत्परेऽधमाः ।**

**पाठ्या वनौकसर्वा भाषाऽभीरटक्कैः स्वदेशजा ॥ २४८ ॥**

ये ही भाषाएँ वणिक्, ब्रेष्टी, बालक तथा विद्रूपक की रहनी चाहिए। गङ्गार की भाषा में शकार वर्ण को बहुलता रखी जाए। चेट, वामन, रास्स स आदि अधम पात्रों के समाद मागधी भाषा में रहने चाहिए। बन में रहने वाली जातियों की, आभीर तथा टक जाति के पात्रों के अपनी सहज देशी भाषा में समाद रखें जाए।

**सट्टके स्त्रीप्रधानत्याद् रूपकस्यानुरोधतः ।**

**नृपः स्त्रीधरु पठेदेयः पाठस्य नियतो निधिः ॥ २४९ ॥**

सट्टक में नाटिका के समान स्त्री पात्रों की बहुलता रहने तथा नाट्य शास्त्रीय लक्षण क अनुसार व्यञ्जहार करने के कारण राजा (जैसे नायक तथा उच्चम पात्र) की भी स्त्री पात्र के समान प्राकृतभाषा ही रखी जाए। क्योंकि भाषा का यही विधान आचार्यों द्वारा मान्य है।

**नाटकादिपु कीर्त्यन्ते संज्ञा नियमपूर्वकम् ॥**

**पूर्वरङ्गो भवेत्तेषामादौ देवार्चनानिधिः ।**

**तदूपिधाता स विज्ञेयः सूत्रधारश्च सूत्रभृत् ॥ २५० ॥**

**अनुष्टुपानं प्रयोगस्य सूत्रमाहुः सर्वीजकम् ।**

**तत्सहायस्तु विज्ञेयः पारिपार्थकसंज्ञकः ॥ २५१ ॥**

नाटकीय पात्रों के नाम तथा कार्य—अब हम नाटकादि (में रहने वाले उपकारण, पात्र आदि) की पारिभाषिक संज्ञाओं का स्वरूप बतलाते हैं—

अङ्गों के आरभ में सर्वप्रथम पूर्वरग किया जाता है तथा पूर्वरग के आरभ में देवताओं का पूजन-अर्चन किया जाए। इस धार्मिक पूजन आदि का अनुष्टुपाता पुरुष ‘सूत्रधार’ कहलाता है; क्योंकि यह सारे नाटकीय ‘सूत्र’ को अपने हाथ में रखता है। बीज से युक्त नाट्य-प्रयोग को ‘सूत्र’ कहा जाता है। सूत्रधार का सहायक ‘पारिपार्थिक’ कहलाता है।

**तस्मिन् रङ्गाद् वहिर्भूते संविधायार्चनानिधिम् ।**

**तत्स्तद्वेषमापनः काच्यप्रस्थापको विशेत् ॥ २५२ ॥**

**स नटो भाष आख्यातस्तस्यार्थेति कुद्धमिनी ।**

**नाटकादिकमेतत्तु रूपकं समुदाहतम् ॥ २५३ ॥**

**हरतालादिसामग्री ममी सैन तु वणिका ।**

**भूमिका स्थानमाख्यातं पात्राणां रङ्गचारिणाम् ॥ २५४ ॥**

ये विश्वन्ति च कार्यार्थं निष्क्रामन्ति च रङ्गतः ।  
ते सर्वे पात्रसंज्ञाभिर्व्यष्टदेहयाः प्रयोक्तुभिः ॥ २५५ ॥

जब यह सूत्रधार देवताओं की रंगमञ्च पर पूजन-विधि सम्पन्न करने के पश्चात् चला जाता है तब उमी के समान वेश धारी (स्थापक नामक) अन्य पात्र रंगमञ्च पर प्रवेश कर प्रस्तुत काव्य की स्थापना करता है। नट को भाव शब्द से तथा उमकी भार्या को आर्या या कुटुम्बिनी शब्द से परस्पर सम्बोधित किया जाता है। नाटक आदि दृश्य काव्य के भेद 'रूपर' कहलाते हैं। हरताल, स्याही आदि [नेष्ठय रचना या रग-सज्जा के उपकरण] रग वणिका कहलाते हैं। रंगमञ्च पर अभिनयार्थ अवतरित होने वाले पात्रों का अपने स्थानों के अनुमार वेष धारण करना 'भूमिका' कहलाता है। जो अभिनय करने के लिये रंगमञ्च पर अवतरित होते हैं तथा अपना कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् रंगमञ्च से प्रस्थान कर जाते हैं वे भी व्यक्ति 'पात्र' कहलाते हैं।

**नाटकादि(दौ)विनिष्पत्ति(ब्र)फलयोगस्य भाजनम् ।**

नायकः कथितः सद्ग्रिस्तस्य भार्या च नायिका ॥ २५६ ॥

नाटक के फल का एक मात्र उपयोग करने वाला पात्र 'नायक' कहलाता है तथा इसकी भार्या 'नायिका' होती।

आख्यानमितिवृत्तं स्यादितिहासः स एव च ।

**नाटकादिकथासूत्रप्रयोगाणां प्रपञ्चकः ॥ २५७ ॥**

नाटक की कथाप्रस्तु को 'इतिवृत्त' कहा जाता है यही इतिहास भी कहलाता है तथा नाटक के कथासूत्र सथा प्रयोग का यही विम्नार करता है।

आभिमुख्ये प्रविष्टाभिर्नटीभिर्यत् प्रगीयते ।

पुण्यार्थं नाटकार्थं वा तत् मङ्गीतकमिष्यते ॥ २५८ ॥

नाटक के आरम्भ में रंगमञ्च पर आकर किसी धार्मिक विधि की पूर्ति या नाटक के अग के स्वयं में नटियों वे द्वारा जो गायन किया जाता है उसे 'मंगीतक' मममना चाहिए।

वीणायेणुर्मृदङ्गश्च कांस्यं भाण्डमुदाहृतम् ।

**भाण्डवार्यः कृतं त्वेभिरातोर्यं वाद्यमुच्यते ॥ २५९ ॥**

लासकः नर्तकः प्रांको नटः शैलूप एव च ।  
स्त्रीजीरी भरतसुतो रङ्गाचार्यो महानटः ॥ २६० ॥

अस्यैव कीर्त्यते भार्या लासिका नर्तकी नटी ।  
सैन रङ्गमुपारुदा वक्तव्या रङ्गनायिका ॥ २६१ ॥

रङ्गस्तु नृत्य संस्थानं गोष्ठी परिपदुच्यते ।  
सामाजिकाः पारिपदाः मम्याश्च प्रेक्षका मताः ॥ २६२ ॥

रङ्गेषु पुण्यप्रकरः कृतः स्पस्त्ययनं भवेत् ।  
चन्द्रोदयो वितानन्तु पटी जगनिका स्मृता ॥ २६३ ॥

अन्तर्यामिकामाहुर्नेपथ्यस्थानवर्तिनीम् ।  
नृत्ये पादस्य निवासशारी सैवाभिधीयते ॥ २६४ ॥

बीणा, बासुरी ( वेणु ) मुद्रंग, मास्क ( कास्य ) आदि को 'भाण्ड'  
( वायवृन्द ) कहा जाता है । इन वायों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला  
संयुक्त वादन 'आतोद्य' ( विधान ) कहलाता है । नृत्य करने वाला पात्र  
'नर्तक' तथा अभिनय करने वाला पात्र 'शैलूप' कहलाता है । जो वियों  
की भूमिका लेता हो उसे 'भरतसुत' [ अथवा जो अपनी लीरिका  
अपनी भार्या के नृत्य से होने वाली आय से चलाता हो उसे 'भरतसुत'  
कहते हैं ] । रुग्यातिप्राप्त और उत्तम अभिनेता को महानट या  
रगाचार्य कहा जाता है । इस महानट या रगाचार्य की भार्या को  
लासिका, नर्तकी या नटी कहते हैं । यह जब रगमञ्च पर अवतरित  
होती है तो इसे 'रगनायिका' [ रगमञ्च पर मर्याद्रथम अवतीर्ण होने  
वाली नर्तकी ] कहते हैं । निस स्थान पर नाट्य प्रयोग खेला जाता है  
उस परिष्कृत वेदिका को 'रगमंच' कहते हैं । जहाँ सभी दर्शक बेठते  
हैं उस स्थान को 'परिपद' तथा परिपद में आसीन मनुष्यों को  
सामाजिक, पारिपद, सभ्य या प्रेक्षक कहा जाता है । रगमच की  
छत को 'चन्द्रोदय' तथा पर्दों को [ कनात को ] 'जगनिका' कहा जाता  
है । नेपथ्य-गृह ( के द्वार ) पर लगाया जाने वाला पर्दा 'अन्तर्जगनिका'  
कहलाता है । नृत्य आदि में पैरों को नियमित प्रकार से पृथ्वी पर रखने  
हुए चलना 'चारी' कहलाता है ।

सोमसूर्यान्वयभुवो नरेन्द्रा नायकाः स्मृताः ।  
 महाराजाश्च देवाश्च वाच्या भट्टारकाश्च ते ॥ २५५ ॥  
 तेषां भार्या महादेवी देवी च महिपी च सा । सम्पन्न करने  
 युवराजो भवेत् पुत्रः कुमारो भर्तृदारकः ॥ एक नामक)  
 सुता सङ्कीर्त्यते तेषां कविभिर्भर्तृदारिका । ना करता  
 अपत्यकृतिका या च कृत्रिमातनया भवेत् ॥ १६७ ॥  
 आबुकथ पिता तात आबुचो भगिनीपतिः ।  
 अम्बा माताऽज्ञुका श्वश्रूचिका भगिनी स्मृता ॥ २६८ ॥

**सम्बोधन**—सूर्य या चन्द्र वश मे उत्पन्न होने वाले राजा को एक  
 का नायक रखा जाता है। इन्हें महाराज, देव या भट्टारक शब्द से  
 सम्बोधित किया जाता है। राजा की भार्या को महादेवी, देवी, महिपी  
 शब्द से सम्बोधित किया जाता है। महाराजा के पुत्र को युग्मराज या  
 भर्तृदारक शब्द से तथा राजकुमारी को भर्तृदारिका शब्द से सम्बोधित  
 किया जाता है। यदि राजकुमारी औरस पुत्री न होकर बेटी बनायी गयी  
 हो तो 'अपत्यकृतिका' बहलाती है। पिता को तात या आबुक शब्द से  
 सम्बोधन दिया जाता है तथा बहिन के स्वामी (जीजा) को 'आबुते'  
 शब्द से सम्बोधित किया जाता है। माता को 'अम्बा' शब्द से, सास  
 को 'अज्ञुका' शब्द से तथा बड़ी बहिन को 'अचिका' शब्द से सम्बोधित  
 किया जाता है।

ज्येष्ठो भ्राता भवेदार्यः आर्या तस्यैव वल्लभा ।

जातापत्यो च वत्सः स्यात् सचिवोऽमात्यएव च ॥ २६९ ॥

ययस्यकः चाढुषटः स एव च विदूपः ।

अन्तःपुरचरो राजां नर्मात्यः प्रकीर्तिः ॥ २७० ॥

वेदयां प्रति सरा रा(प्र)क्षी मिट इत्यभिधीयते ।

तद्वत्ताचार्यकं प्राप्तः पीठमर्दः प्रकीर्तिः ॥ २७१ ॥

बड़े भाई को 'आर्य' शब्द से तथा भाभी को 'आर्या' और (इनके तथा  
 अपने ) बड़ी को 'वल्ल' शब्द से सम्बोधित किया जाता है। (राजा के  
 द्वारा) मन्त्री को 'अमात्य' शब्द से, मित्र को 'ययस्य' शब्द से गम्योधित  
 किया जाता है। विदूपक राजा को और राजा विदूपक को 'ययस्य' शब्द से

लामः पत करते हैं, क्योंकि यह राजा का चाटुकार और रनियास में  
सीधे नेचेब होता है। वेश्या के साथ किये जाने वाले व्यवहारों का जाता  
मान राजा का मिन 'विट' शब्द से सम्बोधित किया जाता है।  
अर्थात् वो कला या शिल्प का शिक्षण देने वाला 'पीटमर्द' कहलाता है (?)।

<sup>संग</sup> कर्तव्या दत्तनामानः ध्मावतीनां प्रयोक्तुभिः ।

सेनापतिः प्रतीहार दण्डपाशिक रक्षिणः ॥ २७२ ॥  
तद्विग्रापत्यनिहितैः ग्रत्यर्थाद्वाणादयः ।

राजो विदूपकामात्यमूलकञ्चुकिनस्तथा ॥ २७३ ॥

लतापुष्पक्रियादेशपात्याख्यात्यो दासिकाजनः ।

दासा अपि तथा कार्या भृगपक्ष्यादिकाह्याः ।

यथा कुरञ्जुम्भीरकलहंसोत्पलादयः ॥ २७४ ॥

पात्रों का नाम 'रिधान'—राजाधिकूल सेनापति, द्वारपाल, वधिक ( दण्डपाशिक ) तथा अग रक्षकों के नामों के अन्त में 'दत्त' शब्द रखा जाए। राना, विदूपरु, अमात्य, बन्दीजन तथा ब्राह्मण आदि के नाम अपत्यार्थक प्रत्ययों के अनुमार रखे जाते हैं। दासियों के नाम किसी लता, पुष्प या उन्हीं के देश, व्यवसाय या कार्य के अनुरूप रखा जाए। दासों के नाम सृग या पक्षियों के नाम पर रखे जाए। जैसे :—कुरमक, कुम्भीर, कलहसक, उत्पलक आदि।

उत्पादित-रूथायोगे रूपके पृथिवीपतिः ।

आर्यकः पालकृथेति नाम्रोचार्यः सुदर्शनः ॥ २७५ ॥

अस्य भार्या शशिकला चन्द्रलैसेन्दुमत्यपि ।

सुकुमारोचिताह्वाना मिधातव्ययवः प्रयोक्तुभिः ॥ २७६ ॥

सखीजनस्तथैवास्याः प्रियम्बदादिनामभिः ।

प्रियानन्दनादीनां नामभिः केलिकाननम् ॥ २७७ ॥

निस रूपक में उत्पाद्य कथामन्तु हो उसमें राजा का नाम आर्यक, पालक या सुदर्शन जैसा रखा जाता है। इस राना की भार्या के नाम शशिकला, इन्दुमती जैसे सुकुमारता से पूर्ण अर्थ वाले रखे जाते हैं। रानी की परिचारिकाओं [ तथा महियों ] के प्रियम्बदा आदि नाम रहते हैं। इनके विचार के लिए निर्मित उपर्यन्तों के वैभाज या नन्दन नाम रखे जाएँ।

फलजातिगुणाचारैः कपिचण्डालराक्षसाः ।  
 चौरा घृतकरा शिल्प-नामिकारोहकादयः ॥ २७८ ॥  
 उग्रनाम्ना गृहीतव्या मुण्डव्रतनिपेत्रिणः ।  
 अघोर-भैरवाचार्य-कपाल-शिखरादयः ॥ २७९ ॥  
 धार्मिकाः श्रीगुरुस्कन्ददासादिकसमाह्याः ।  
 नन्दुत्तरपदा वाच्या क्षपणा भिक्षुकादयः ॥ २८० ॥  
 वसूत्तरपदा पित्रा आचार्या नाथदेशकाः ।  
 दत्तदासभवैः सर्वेरुचरस्थैर्विष्णजनः ॥ २८१ ॥  
 सेना लेखा पताका च दत्तेत्युत्तरवर्तिनी ।  
 सर्वेण सन्नियोक्तव्यं वेश्यानां नाम पेशलम् ॥ २८२ ॥  
 रामिलकामिलाहाना नागराः परिकीर्तिः ।

धानर, चाण्डोल या राक्षस पात्र के नामों में अन्त में फल, जाति, गुण या आचार का उल्लेख रहना चाहिए। चोर, बढ्हू, नामिक या सूत (रथचालक) पात्रों के नाम उप्रसापूर्ण रहने चाहिए। शेर मत के मन्यासी पात्रों के नाम अघोर, भैरवाचार्य, कपाल या शिखर आदि रखे जाते हैं। धार्मिक पात्रों के नाम श्रीगुरु, स्कन्ददास आदि रहने चाहिए। क्षपणक तथा भिक्षुओं के नामों में 'नन्दी' शब्द को अन्त में रखा जाए। ग्राहण या नाथ्यकला के शिश्क पात्रों के नामों में 'वसु' शब्द को अन्त में रखा जाना चाहिए। वैश्य पात्रों के नामों में 'दत्त' या 'दास' शब्द को अन्त में जोड़ा जाए। वेश्याओं के नामों में अन्त में सेना, पताका, लेखा आदि कोमलतापूर्ण रथा सुन्दर शब्दों को रखा जाए। तथा व्यवहार किया जाए। नगर ये शिष्टजन के रामिल या कामिल जैसे नाम रहने चाहिए।

वारयोपिज्जनस्यास्त्या मृत्यैरुक्ता तथाजुका ।  
 सर्वदयाभिधातव्या संग (वासिति) नागरैः ॥ २८३ ॥  
 रह्मे सम्बोधनाकारे राजा सृते वदेत्यदा ।  
 आयेति च स चार्ष्यस्मन्नायुष्मन्निति मन्त्रतः ॥ २८४ ॥  
 महादेवी परीगरसमाहाने समुत्सुका ।  
 हस्ते चेतीं प्रति प्राह हलाह्वाश सर्वों प्रति ॥ २८५ ॥

हण्डे नीचस्तु नीचेषु सौम्येति प्रियकारिणी ।

भद्रमारिप् हंहो हे भो भद्रमुखकादयः ॥ २८६ ॥

अयि अङ्ग ननु प्रायो जालममूढेति भर्त्सने ।

अपेहीत्यपमानेषु पिकपापे प्रयाहि च ॥ २८७ ॥

विस्पर्धायामरेजे च क्रोधोक्तौ स्मृतमाः पदम् ।

अथ कि स्त्रीक्रियालापे अये स्यादवधारणे ॥ २८८ ॥

शान्तं स्मृतमसम्भाव्यं साम्न्यं युक्तमिष्यते ।

यत्सत्यमात्मसम्भाव्यं वीजमेवानुभूयते ॥ २८९ ॥

ही चित्रे स्मृतमां ज्ञाने हुँ क्रोधेष्वहहार्तिषु ।

हन्त हर्षेऽनुम्पायामत्यर्थेऽर्जति हि भोः पदम् ॥ २९० ॥

हापदं खेदवाची स्याद् हाधिक् हा कटमेव च ।

दिष्टयेत्यानन्दने दिष्टया वर्धतिरुत्सवे तथा ॥ २९१ ॥

पात्रों की सम्बोधनविधि-वेश्या मालकिन को सेवक ‘अजुका’ शब्द से सम्बोधित करें। नागरकजन वेश्या को ‘धासु’ शब्द से सम्बोधित करें। राजा अपने सारथि को ‘आर्य’ शब्द से तथा सारथि राजा को ‘आयुष्मन्’ शब्द से सम्बोधित करते हैं। महारानी अपनी दासियों को ‘हङ्जे’ और सरियों को ‘हला’ शब्द से सम्बोधित करें। नीचलाति की दासी को ‘हण्डे’ शब्द से सम्बोधित करना चाहिए। किन्हीं प्रिय या कृपापात्र मनुष्यों को ‘सौम्य’ शब्द से सम्बोधित करना चाहिए तथा भद्र, मारिप, हंहो, हे, भो या भद्रमुख शब्दों द्वारा भी सम्बोधित किया जाए। सामान्यतः पात्रों को अयि, अङ्ग ननु आदि शब्दों से सम्बोधित किया जाता है। (किसी को) ढाटने के अवसर पर जालम या मूढ़ शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अपमान करने के अवसर पर अपार्पेधिक् या प्रयाहि शब्द का (अनुचित कार्य करने वाले पुरुष की प्रति) सम्बोधन रत्ना जराए है। स्पर्धा के समय अरे या रे रे शब्दों से सम्बोधन किया जाए तथा क्रोधावेश में कथन के अवसर पर ‘आ.’ शब्द का प्रयोग किया जाए। किसी वध्य या व्यथन को स्त्रीकार करने के अवसर पर ‘वध किम्’ तथा बहुतों में से एक का निश्चय करने के अवसर पर

‘अये’ शब्द का प्रयोग किया जाए। किसी अशोभन या अमगलकारी घटना ये अवसर पर ‘शान्त’ शब्द का तथा उपयुक्त कार्य के अवसर पर ‘साम्प्रतम्’ शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी के द्वारा स्वयं किसी मूल घात का अनुभव निया जाता हो तो ऐसे अवसर पर ‘यन् सत्यम्’ शब्द का प्रयोग निया जाता है। किसी आश्रयकारी कार्य या घटना के घटित होने पर ‘ही’ या ‘चित्र’ शब्द का प्रयोग किया जाए। किसी घात को समझने के अवसर पर ‘आँ’ शब्द का, कोध के अवसर पर ‘हुँ’ शब्द का और पीड़ा के समय ‘अहहा’ शब्द का प्रयोग किया जाए। आनन्द के अवसर पर ‘हन्त’ शब्द का, अनुकूल्या के समय ‘असि, ही तथा भोः शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कष्ट या खेद में हा, हा धिक् या हा कष्टप् शब्द का, आनन्द के समय दिष्ट्या शब्द का और शुभ या मगल अवसर से ‘दिष्ट्या वर्धते’ शब्द का प्रयोग किया जाए।

साधयामीति गत्यर्थे मृतौ न भवसीति च ।

निःर्वै पततिर्थं वर्द्धयामि महीमिति ॥ २९२ ॥

प्राकृते हा धिगित्यर्थे हद्वि वीभापदान्विता ।

अम्मोम्मेहे द्वयमिदं विस्मययोतनानिधौ ॥ २९३ ॥

अदृश्याशुतसम्ब्रासौ अविदागिद भोः पदम् ।

शकारस्यैव भाषायां वायू वालाजने पदम् ॥ २९४ ॥

अस्यैव सलु वाक्येषु पर्मायैर्वस्तुकीर्तनम् ।

यथाम्बुभिर्जलस्तीयैः स्नातोऽहं प्राह राण्डियः ॥ २९५ ॥

ईः सृतः क्रोधिष्ये हुःसानुभवर्पर्णि ।

प्रस्थान करने के अवसर पर ‘साधयामि’ शब्द का तथा मरण की सभारना या अपस्था होने पर ‘न भवसि’ शब्द का प्रयोग किया जाए। मरण के अर्थ में निपन्नति या ‘वर्द्धयामि महीयूः’ जैसे शब्दों पा प्रयोग निया जाता है। प्राहृत भाषा में ताधिक शब्द को ‘हद्वि’ शब्द में दुष्कराते हुए रखा जाए। आश्रय प्रयट करने के अवसर पर अम्मो या अम्मेहे शब्दों का प्रयोग निया जाए। किमी न देयो या सुनी गयी घात को सुनने पर या ऐसे किमी व्यक्ति ये देसने पर अविदा, अरिद भोः जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। किसी तरुणों या घाला को

शकार ( पात्र ) 'वासु' शब्द से सम्बोधित करता है। राष्ट्रिय शकार के वास्त्रों में अनेक पर्यायवाची शब्दों का एक साथ प्रयोग रखा जाता है। जैसे मैंने अबु से, तोय से और जल से स्नान किया है। क्रोध या किसी वष्टपूर्ण अवस्था या किसी वेदना के अनुभव की दशा में 'ई' शब्द का प्रयोग रखा जाता है।

उद्घार्यां देवि दयिते पुमानाह प्रियां प्रति ॥ २९६ ॥

आर्यपुत्र च जीवेश नाथ साप्याह वल्लभम् ।

अपूर्णां प्रत्याह तरुणो महाभागे वरोह च ॥ २९७ ॥

सा चाह तं महाभाग-सुभगेत्यादिभिः पदैः ।

आर्येति नृपतिर्विंश्टं तमायुष्मन्निति द्विजः ॥ २९८ ॥

भगवन्नाह राजा तं राजनिति तपोधनः ।

भदन्त क्षपणे भिक्षौ धर्मोपासक तौ नृपम् ॥ २९९ ॥

पति विग्रहिता भार्या को देवि या दयिते शब्द से सम्बोधित करे और वह भी अपने स्वामी को आर्यपुत्र, जीवेश या नाथ शब्द से सम्बोधित करती है। इसी तरह को अपूर्ण या अपरिचित कन्या को प्रथम बार देखने पर उसे महाभागे या वरोह शब्दों से सम्बोधित करना चाहिए तथा ऐसी कन्या भी उस युवक को महाभाग या सुभग शब्दों से संबोधित करे। ब्राह्मण को राजा आर्य शब्द से तथा ब्राह्मण राजा को आयुष्मन् शब्द से सम्बोधित करे। राजा ( किसी भी ) तपस्वी को भगवन् शब्द से और तपस्वी को राजा राजन् शब्द से सम्बोधित करें। क्षपणक या भिक्षु को राजा 'भदन्त' शब्द से और वे भी राजा को धर्मोपासक शब्द से सम्बोधित करें।

परिक्रम्यादयः शदा ल्यन्ता नाद्य सूत्र(च)काः ।

दिशन्ति नाद्यपात्राणां ततः कार्यं यथागतम् ॥ ३०० ॥

मकोध-माथु-मनाम-सोत्कम्प-सदयादिसः ।

मंपिधेयक्रियाजातं भिग्निष्टि गणो द्वयम् ॥ ३०१ ॥

स्वगतमात्मगतञ्चैव स्वयं प्रिपतारुपाणिना ।

यः पठेत्तर संयोज्यं द्वयमेतत् प्रयोक्तुभिः ॥ ३०२ ॥

नश्चित्तैकमन्योन्यं द्वाभ्यां यत् उलु पठ्यते ।

जनान्तिकं तत् कर्तव्यं त्रिपताकैपाणिना ॥ ३०३ ॥

अपगारितिकं तत् परिवर्तमुच्यते ।

स्वरूपादन्यरूपत्वमन्यरूपात् स्वरूपता ॥ ३०४ ॥

अभिनय तथा अन्य नाट्यक्रिया के सूचक शब्द तथा उनसी प्रयोगविधि—नाटक में त्यप्त प्रत्ययान्त परिक्रम्य आदि शब्दों के प्रयोग अभिनेताओं के उन कार्यों का संबेत करते हैं जो नाटक में प्रस्तुत किये जाने वाले हों। इसी प्रकार मञ्ज पर बतलायी जाने वाली विविध अभिनय क्रियाओं को सक्रोध, साक्षु, सत्रास सोत्कर्म तथा मट्य शब्दों में प्रयुक्त किये जाने पर ये अपने अर्थों दे अनुमार निर्दिष्ट या संबेतित कार्य करते हैं। यदि नाटक में स्वगत या आत्मगत शब्द का प्रयोग करते हुए सबान रहे गए हों तो उन्हें ‘त्रिपताव’ मुद्रा में हाथ को रखते हुए प्रस्तुत किया जाए तथा यदि दो पात्र एक दूसरे को न सुनाते हुए मध्यापण करे तब भी ‘त्रिपताक’ मुद्रा में हाथ रहना चाहिए तथा ऐसी लिथिति में ‘जनान्तिक’ शब्द या प्रयोग रखा जाना चाहिए। ‘जनान्तिक’ का दूसरा नाम अपगारितिक भी है। किसी दूसरे पात्र के अनुमार स्वयं ये या स्वयं को देखकर दूसरे पात्र के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को भी ‘परिवर्तक’ कहा जाता है।

स्तोकस्तोऽपदारव्धं समाममसमागि वा ।

चूर्णकं न्यायपिन्यस्तं वदनकं तदुच्यते ॥ ३०५ ॥

सम्प्रधार्य स्वयं पूर्णं यत् विश्विद्भिर्यते ।

प्रकाशं तत्र कर्तव्यं यथा प्रस्तावर्तिना ॥ ३०६ ॥

अल्पसमासराने पनों से निमित गद्यरचना को जिसमें या तो समास न हों या छोटे समास हों—एक निश्चित व्रत में रखा जाए तो ‘चूर्णक’ नामक गद्य रचना का एक प्रकार बन जाता है। चूर्णक वा दूसरा नाम वदनक मी प्रसिद्ध है। निषी मन्दर्भ विशेष में जब सोप विचार ये बाहु किसी वात को पात्र प्रकार हृषि में करता हो तो ऐसे अपमर पर ‘प्रकाशम्’ शब्द का प्रयोग किया जाता है।

गद्येनोत्मलिङ्गाभाज्ञा युद्धाद्यभर्कीर्तने ।

या वलीनां पाठोऽयं ग्रायः सद्गिर्जित्यते ॥ ३०७ ॥

युद्ध रथा जनसमर्द्दया मनुष्यों की भीड़ भाड़ का अपनी स्थिति के अनुमार उर्णन करते भै 'इत्कलिराप्राय' गद्यरचना का प्रयोग किया जाए। प्राय अनुभवी लेखक इसे वली के नाम से अपनी रचना भै रखा करते हैं।

अपकाशागतं चास्यमावकाशिरुमुच्यते ।

न पिशेत् पात्रमपरं कार्यं स्यात्तेन तद्यथा ॥ ३०८ ॥

स्त्रियं कार्यमभिप्रेतं वक्तुं पात्रेण किं फलम् ।

आकाशमाङ्ग्नेपथ्योक्तिलेखान् तत्रापकाशयेत् ॥ ३०९ ॥

आकस्मिक रूप में या अतिर्क्षित अवस्था में जिन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग किया जाए उन्हें 'आवकाशिक' कहा जाता है। इस समय किसी ( नगीन ) पात्र का प्रवेश नहीं होता। इसका कारण यह है कि थोड़े से उद्दिष्ट कार्य को बतलाने के लिए एक पात्र को मङ्ग पर भेजना चेकार रहता है। इस प्रकार के कार्यों को आकाशवाणी, नेपथ्यकथन या पत्र के द्वारा सरलता से ( नाटकादि में ) रख दिया जाए।

अभिनयो व्यञ्जकः सत्यवाङ्नेपथ्याङ्गकैः सह ।

आभिमुख्यं नयत्यर्थं दृष्टुः कविरचः स्थितम् ॥ ३१० ॥

कवि के आशय को दर्शकों के सम्मुख अपनी सात्त्विक, वाचिक, आहार्य तथा आद्विक चेष्टाओं के द्वारा ले जाने के कारण [ या प्रस्तुत करने के कारण ] इसे 'अभिनय' समझा जाता है।

रामरापणभूयिष्ठसत्त्वाना स्फपचेष्टिते ।

अनुकारैः स्मृतं नाव्यं तद्विधैर व्यगस्थितम् ॥ ३११ ॥

ताण्डवं नाम पुरुषैः रङ्गे यदभिनृत्यते ।

यच्चेष्टाभिस्तथा स्त्रीभिस्तद्वास्यमभिधीयते ॥ ३१२ ॥

पुस्तन्तु रथपर्मादि वक्त्रचर्मादिनिमितम् ।

रङ्गेषु यत् प्रयोगार्थं क्रियते भरतात्मजैः ॥ ३१३ ॥

पारितोपिकमित्यहुर्यद् मम्यन्त्यदर्शनाद् ।

दीयते परितोपेण गहुपाठकनामन्त् ॥ ३१४ ॥

राम और राघव के स्पष्ट और चेष्टाओं की पात्रों के द्वारा की गयी

अनुरुति का नाम 'नात्र' है। नृत्य दो प्रकार का होता है—[ ताण्डव तथा लास्य ] पुरुषों के द्वारा रंगमञ्च पर प्रस्तुत किया गया नृत्य 'ताण्डव' तथा आठ लियों के द्वारा सामूहिक रूप में प्रस्तुत किया गया नृत्य 'लास्य' कहलाता है। नटों के उपयोग के लिए वस्त्र या चमड़े ( आदि ) से बनाए गए रथ, कवच आदि उपकरणों को 'पुस्त' कहते हैं। अभिनेताओं के रंगमञ्च पर प्रस्तुत किये गए नृत्य वा अभिनय आदि से सन्तुष्ट होने पर दर्शक आदि के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार 'पारितोषिक' कहलाता है। इसका यह नाम बहुपाठक के समान है।

अथ नायिकाना स्वमावजा सप्त गुणा बोद्धव्याः । ते च  
नामतः कथ्यन्ते—

शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्यं धैर्यमेव च ।

प्रागलभ्यमथ चौदार्यं गुणाः स्युः सप्त योपिताम् ॥ ३१५ ॥

( ना० शा० २३१२४ )

नायिकाओं के सहज गुण—अब हम नायिकाओं में रहने वाले सात सहज गुण चतलाते हैं। इनके नाम हैं—( १ ) शोभा, ( २ ) कान्ति, ( ३ ) दीप्ति, ( ४ ) माधुर्य, ( ५ ) धैर्य, ( ६ ) प्रागलभ्य तथा ( ७ ) चौदार्य। ये मात्र लियों के स्वाभाविक धर्म होते हैं।

तत्र शोभा—रूपयौवनलावप्यैः केवलैरेव तनोरलङ्घरणं शोभाः ।  
तथा—

तन्या सद्ग्रावसौन्दर्यस्वादुसङ्गद्वयौवनम् ।

एतद्वावप्यपद्वाद्र्दं चुम्पल्डनमण्डनम् ॥

लक्षणानि समर्थानि रूपसिद्धौ मृगीदशः ।

सुद्वा धात्राप्यहो लब्धमगाधं पाणिनेर्यशः ॥

सूजन्येनत् क्रिमधिक्यं तन्या द्वपुषि यौवनम् ।

अन्यथाऽनुभिषन्त्येते लवप्यामृतचिन्दव ॥

शोभा—स्वप्न, योशन या लापण्य के कारण शरीर का सहज शोभित होना 'शोभा' कहलाता है। जैसे—योशन और सहज सीन्दर्य से इस

सुन्दरी का शरीर व्याप्त है और सलोनेपन से सना होकर तो मानो यह शोभा को भी सुशोभित कर रहा है।

इस मृग-नयनी के सौन्दर्य को संवारने के लिए विधाता ने भक्षम लक्षणों का निर्माण करते हुए महर्षि पाणिनि के अगाध यश को जीतने में सफलता प्राप्त कर ली ।<sup>1</sup>

इस कृशाङ्की के शरीर में यीधन की सर्जना करने पर भी क्या अधिक बन पड़ा ? क्योंकि विना वैसा किये ही सलोनेपन के असृतकण तो चारों ओर प्रसृत हो ही चुके थे ।

**कान्ति—शोभानद्विकारापना कान्तिः । तथा—**

सत्यश्वित्रकरः कामो यश्वित्रमिव निर्मलम् ।

उन्मीलयति कन्याना सौन्दर्यतिलकं वपु ॥

अपाङ्गपथिकं चक्षुः स्मितज्योत्साद्र्माननम् ।

वाचोऽविधवीचिकुटिला हरन्त्यद्य मृगीदशः ॥

**कान्ति—जब यही शोभा प्रणय से या काम से आविद्ध हो जाए तो 'कान्ति' हो जाती है । जैसे :—**

सचमुच कामदेव ऐसा चित्रकार है जो कन्याओं में सौन्दर्यराशि का अन्तिम स्पर्श करते हुए अपने चित्र में और अधिक उभार ला देता है ।

इस मृगनयनी ने जब अपने नयनों की नोकों को घुमाया, अपने मुँह से मुसाबान की चौंदनी को धिखेरा और सागर की लहरों के समान कुटिल वाणी का प्रयोग किया था ये सभी जातें अब मन को हर रही हैं ।

**दीप्तिः—कान्तिरेव विशेषमङ्गानां सम्पादयन्ती दीप्तिः । तथा—**

वर्धते न परौ तन्या पयोधरकिशोरकौ ।

पुष्यतो रवलीपाकापिण्डमाडम्बराणि च ॥

अहो दुष्कृतमेतस्य मध्यमागस्य सुञ्जवः ।

बलिसङ्गेऽपि दारिद्र्यं धते कृषिमलक्षणम् ॥

1. यहाँ आशय यह है कि पाणिनि ने अपने दृच्छणों (सूत्रों) से रूपसिद्धि (शब्द से स्पष्ट का निर्माण) की पर विधाता ने उच्चणसम्पन्न उस सुन्दरी को निर्माण कर (रूपसिद्धि के ही द्वारा , पाणिनि के यश को फौका कर दाला ।

मत्यह वृद्धिमायान्ती श्रोणि क्षिक्षाति शिल्पिनम् ॥  
 अभीक्षण रघनादामदैर्घ्यकृत्यै मृगीदृश् ॥  
 कृष्णात्मानोऽरकास्तन्या अद्भेद्युलितेऽलिके ।  
 कियन्ते कुटिला सख्य लक्ष्म्येवारुपकुलोद्धवा ॥

दीसि—कान्ति के द्वारा ही लब शरीर के अवयवों में और अधिक विशेषताएँ पैदा हो जाए तो 'दीसि' समझना चाहिए। जैसे—

इस कृशाङ्गी युवती के दोनों उरोज-किशोर के बज बड़ ही नहीं रहे हैं, वे वो (इसके आर्तरिक) लबलीलता के परिपक फल के अपनी समान गौरवण कान्ति भी बढ़ाते जा रहे हैं।

सुन्दर बरीनियों वालों सुन्दरी की कमर की दशा किरनी विपत्ति में आगयी कि यह अब त्रिवली का स्पर्श भी अपने दुबलेपन के कारण नहीं भह पाती है।

इस सुन्दरी सृगनयनी के प्रतिदिन विस्तीर्ण होने वाले श्रोणिभाग ने करथनी के निर्माता वो प्रति दिन ढोरी घड़वाने के प्रयास द्वारा बड़ा कष्ट पहुँचाया है।

इस कृशाङ्गी सुन्दरी के निसर्गत काले केश अर्ध-चन्द्र के समान ललाट पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें सियों ने घुणाले बनाते हुए उस लदमी वे समान कर दिया है—जो नीच कुन वे मनुष्य के समीप जाकर (उसे) कुटिल कर देती हो।

**माधुर्यम्—सोपहर्षाद्यनस्थाम् सर्वास्वपि न विमारस्पर्शो  
 माधुर्यम् । तथा—**

त दोषे निषुरा वाचो नामन्दे तरल भन ।

क्षीणा कापि स्थितिरिय जगदावर्तनौपधि ॥

माधुर्य—कोध, हृष तथा प्रमग्रता की दशा में किसी भी पिपरीत भार या विकार वा न दिखाई देना 'माधुर्य' समझना चाहिए। जैसे—

कोध की दशा में हृषे शब्द न बोलना और आनन्द के अवसरों पर भन को स्थिर रपना वे दोनों गुण क्षियों के लिये सारे सासार के वश में रपने के लिये घम-जारी औंपधि वे समान अपूर्वशक्ति रपने हैं।

### धैर्यम्—

कालोचित्यवहरणम्—धैर्यम् । तथा—

प्रागल्भ्यं रजनो प्रातर्गुसिस्यान्मुरस्थिता ।

न मुष्टन्त्यवला लज्जा प्रियोत्पदाविचन्द्रिकान् ॥

प्रात प्रत्युद्धर्मगच्छज्ञाद्वार चानुयोव्रया ।

आराधित् प्रियस्तन्या न स्यात्यत्यन्यतश्चिरम् ॥

**धैर्य—**समय के अनुरूप व्यवहार करना 'धैर्य' कहलाता है । जैसे—

रात्रि मे अपनी प्रगल्भता, प्रात काल योपनीयता और सायकाल सेवार्थ आगे बढ़ नाने की तत्परता बतलाने हुए प्रियतम के उत्कठा हृषी सागर की चन्द्रिका सहश रहने वाली लज्जा को कभी खो नहीं त्यागती ।

जब वह कृशाङ्की स्वामी के आने पर अगवानी, जाने पर दराजे तक चलकर छोड़ना आदि करने हुए सदा शुश्रूषा बुद्धि रखती हो तो फिर उसका स्वामी दूसरे स्थानों पर अधिक कैसे ढार सकता है ।

**प्रागल्भ्यम्—**प्रयोगव्यवृद्धता प्रागल्भ्यं । तथा—

चुन्विते चुन्विते लिष्टे समालिष्टे क्षते क्षते ।

अनुकूल्यैव तन्वहयो दासीकुर्वन्ति वलभम् ॥

विमन्ते रतौ काले मौर्यमन्यत्र चिन्तति ।

कामत्य विनयस्याज्ञां नातिकामन्ति योषित् ॥

**प्रागल्भ्य—**आनन्द के उपभोग में दक्षता रखना 'प्रागल्भ्य' समझा चाहिए । जैसे—

चुबन को चुबन से आर्लिंगन को आर्लिंगन से और नखशून आदि का इन्हीं के द्वारा प्रत्युत्तर देने हुए रमणियाँ ( अपने ) प्रियतम को अपना दाम बना लेती हैं ।

चे प्रणयानन्द दे क्षणों मे अपना बहुत हौसला दिखलाती है और दूसरे समय भोली बनी रहते हैं । इस प्रकार अपने आचरण द्वारा चे न तो काम का और न पिनय का ही अतिक्रमण करती हैं ।

**आदार्यम्—**सर्वास्ववस्थानु प्रियस्य न प्रशदन्वण्डनमौदार्यम् । तथा—

द्वितीयावस्था में—कुशोदरी युवती को अपनी सौत के पता लगने या वैसे चिन्ह छात होने पर सारे शरीर में इर्प्पी के कारण आग लग जाती है। तब यह बिना किसी कारण ही कोध के आवेग में आकर चचल लता के समान अपनी भाँहों को चढ़ाते हुए देखने लगती है। अपने स्वामी को इस दशा में यह राजा के समान आदेश देने लगती है और गुह के समान अनुशासन करती है। प्रेम से दिनचे प्रिय की डाँटने या उपालभ्म देने के समय यह नायिका कोई परवाह नहीं करती।

राजा की चित्तवृत्ति के समान इसके प्रेम के किसी एक उत्ताप से अनुकूल रहने की आशा नहीं रहती, क्योंकि यह बड़ी कठिनाई से रीझ पाती है, पर इसका सदा प्रसन्न रमना बड़ा कठिन होता है।

यह अपनी इष्ट वस्तुओं को पाने पर भी प्रसन्न नहीं होती और दुष्ट स्वामी के लिए की गई सेवा के समान बड़े कष्टों के उपरान्त थोड़ा अनुकूल फल दे पाती है।

यह श्रीकृष्ण की लीला के समान सदा गृह कार्य में विना रोकथाम के लीन रहती है [ लीलापश्च मे-अनिरुद्ध ( श्रीकृष्ण के पीत्र ) को प्रहण करने में लगी रहती है ] यथेष्टाचार के उत्साह को बढ़ाती है [ लीलापश्च मे-प्रद्युम्न जी ( जो कामदेव के अवतार थे ) के उत्साह या कार्य की सवर्दिनिका रहती है ] और उत्सवों में सम्मालित होने की सदा आकाशा लिये होती है [ लीलापश्च मे—उद्धव जी के प्रति सदा स्नेहपूर्ण रहती है ] ।

तृतीये—

कण्ठग्रहं न यात्येव भर्तुः कुद्रापि यज्ञतः ।

कद्मण्ड्रेणिकैरासो दोषमेवावलम्बते ॥ ३२४ ॥

उन्मत्तेव ग्रमत्तेव प्रहृष्टैवातुरैव च ।

न शस्योपासितुं समा प्रीढं यीवनमान्विता ॥ ३२५ ॥

सुखदुःखप्रदायिन्यस्तृतीये यौवने स्थिताः ।

जायन्ते गहना रामाः संसारस्येव रीतयः ॥ ३२६ ॥

तृतीय अवस्था में—कुद्रा हो जाने पर अपने प्रिय से यत्र करने पर भी गले नहीं लगने देती और कंरणमाला के समान सदा दोषों को लेकर बैठी रहती है [ जैसे कंकणमाला की भुजाओं की ओर घटने की वृत्ति होती है यैसे ही यह केवल अपने स्वामी के अपराधों पर ही

निगाह जमाये रहती है ] यौवन में प्रौढ़ता आने पर युवती स्त्री नशे में चूर होने वाले पागल के समान कभी प्रसन्न और कभी अप्रसन्न होकर रहती है और प्रिय के द्वारा किये गए अनुकूलता के सारे उपायों को बर्यर्थ कर डालती है । इस प्रकार युवती स्त्री संसार के सुख और दुःखों को अनुभव करवाते हुए ससार की रीतियों के समान बड़ी गहनता धारण कर लेती है ।

चतुर्थ—

आश्लेषे सर्वदा पत्युः सतृष्णेवान्तरात्मना ।

अर्धनारीथरतनौ गौरीबृत्तं समीहते ॥ ३२७ ॥

सम्भोगायोग्यकालेषु साद्वं कान्तेन कामिनी ।

चापीसौधे युहोदाने यात्रासङ्घेन तिष्ठति ॥ ३२८ ॥

अन्यच्छायावलोकेऽपि परालापे मनागपि ।

पत्यौ कुद्धत्यनर्थादौ स्पयञ्चापि निमञ्जति ॥ ३२९ ॥

अपरोपगमारम्भमुन्नाटयति वल्लभम् ।

दस्तिजरतीवार्ता शिशिरे सायमातपम् ॥ ३३० ॥

पत्युः शव्यापरावृत्तिं वियोगमिव मन्यते ।

देगागारप्रयाणञ्च प्रवासमिव पश्यति ॥ ३३१ ॥

अतिस्नेहस्य निस्स्वन्दादतिप्रेमणः प्रशृतिभिः ।

छायेवानुचरेत् कान्तं यान्तं तिष्ठन्तमङ्गना ॥ ३३२ ॥

मौग्ध्यविद्धासकार्कश्यरतिलौल्येऽर्थितोत्तरः ।

चतुर्याविनज्ञनानो धर्माः स्फूर्जन्ति योपिताम् ॥ ३३३ ॥

चतुर्थ अवस्था मे—अपने प्रिय के साथ सदा रहने की चाह रखते हुए अर्धनारीश्वर शिव के माथ पार्वती के समान अर्धभाग की स्वामिनी बनकर रहना पसन्द करती है । मिलन के लिये अनुपयुक्त या अतिरिक्त समय में भी यह अपने प्रिय के साथ किसी ज्ञानागार या वापिका के पास या उद्यानों में सैर करती है तथा उत्सर आदि में भाग लेते हुए धूमती है । किमी दूसरी युवती की छाया देरकर या उससे किसी प्रकार के वार्तालाप हो जाने पर अपने पति पर भझा डूँढ़ती है । इस

कारण कभी कभी बड़ा संकट आ जाता है या किर यह स्वयं भी कभी इसी वृत्ति के कारण संकट में फँस जाती है।

किसी रमणी के पास जाने या किसी कार्य के सम्पन्न होने के बिना ही यह अपने स्वामी पर अधिकार जमाती है और उसे कम कर दैसे ही धार्म रखती है जैसे वृद्धी शिशिरशृष्टु रात्रि के आरभ में सूर्य को रोकती हो।

तब अपने स्वामी के करवट बदलने सो जाने को यह प्रियोग मानने लगती है और किसी मन्दिर में दर्शनार्थ अपने स्वामी के जाने को परदेश जाना मममने लगती है।

स्वामी के प्रति प्रेम के आधिक्य और अतिशय आकृष्ट रहने के कारण यह सदा आने-जाने और बैठने पर भी छाया के समान अपने प्रिय का अनुसरण करती रहती है।

यीवन की चतुर्थ दशा में भोलापन, विश्वाम, कृशता, रति के लिये अकुलाहट (रति लौल्य) और प्रिय की चाह में सहज रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है।

इस प्रकार यीवन की चारों अस्थाओं में ये लक्षण प्रकट होकर उनके स्वरूपों बो स्वयं प्रकट भर देते हैं।

इति स्वभावगुणविकल्पा लास्यद्योतिनो बोद्धाया ।

छियों की इन अवस्थाओं में रहने वाले गुण या प्रकारों को लास्य द्ये द्वारा प्रस्तुत बरना चाहिए।

मानः—अथ स्त्रीणा मानो भवति । ईर्ष्याभिजनं क्रोधो मानः ।  
स चतुर्विध । मुग्धः, मनाद्मुग्धः, समृद्धः अतिसमृद्धश्चेति ।

मान—इन अवस्थाओं से युक्तियाँ मान धारण करती हैं। ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले क्रोध को 'मान' कहते हैं। मान दे चार प्रकार माने गए हैं। यथा—(१) मुग्ध, (२) मनाद्मुग्ध, (३) समृद्ध और (४) अनिसमृद्ध।

तत्र मुग्धः—माननावक्रवचनमभुत्ववश्चित् गुद अप्रगत्वमाया स्यात् । सद्यथ—

मुग्ध—अय 'मुग्ध' मान का लक्षण बतलाते हैं। यह भेद शुद्ध मान फ़लाता है क्योंकि इसमें न हो क्रोध ही किया जाता है और न ही जले शटे शारीर का प्रयोग ही होता है और न दृष्टियों को

द्वंद्वने की प्रवृत्ति होती है। प्रायः मुग्धमान अप्रगल्भा युवतों में पाया जाता है। जैसे :—

ग्रिये नवे सागसि मानिनी नवा  
न जानती कोपविभावनाक्रमम् ।

तदाननं वीक्ष्य तटस्थनिष्पत्तद्—

विलोचनाम्भः प्रसराऽवतिष्ठते ॥ ३३४ ॥

अपने नवविवाहित पति के द्वारा अपराध होने के कारण ईर्ष्यावश थोड़ी जलफ़र भी वह चाला अपने स्वामी का मुँह जोहने लगती है। वह क्रोध को प्रकट करने के रास्तों को न जानने और नया अनुभव रहने के कारण उड़त् रहड़ी होकर केवल अपनी आँसों से बड़े-बड़े आँख गिराती है।

**मनाढ़मुग्धः**—यत्र विभावना केवलमस्ति न वक्रवचनं प्रभुत्वद्व  
स मनाढ़मुग्धः । यथा—

**मनाढ़मुग्ध ( मान )**—जब अपराधी स्वामी पर क्रोध तो उमड़े पर उसे प्रकट करने के लिए न तीखे शब्द कहे जाएँ और न ही अभियान या उदण्डता बतलायी जाए तो ‘मनाढ़मुग्ध’ मान कहलाता है। जैसे :—

प्राप्ते सागसि वल्लभेऽन्यवलितं प्रभोद्दुरे श्रोहसद्—  
क्रोधाऽन्यरसवराम्बरहतावुचाण्डवमूलतम् ।

पादान्जप्रणतिप्रकाशिनि मुहुस्तन्याः सखीजलिपते  
साध्वितर्मनि नेत्रमुज्ज्ञति रूपा सार्थं घनाश्रुच्छटाः ॥

जब अपराधी पति आया तो उसे देखकर वह मुड़कर रहड़ी हो गयी, जब उसने हठपूर्षक पूछना शुरू किया तो क्रोध के प्रकट होने पर ( उसने ) दबा लिया, जब वह आँचल सोचने लगा तो उसकी भौंहें क्रोध से चढ़ गयी और लता के समान लहराने लगी और अन्त में प्रियतम के चरणों पर गिर जाने पर उसने सरियों के द्वारा उपदिष्ट पातिन्त्र धर्म का अनुसरण करते हुए अपने आँसों से आँसुओं की धनी घारा बहाने हुए क्रोध को छोड़ दिया।

**समृद्धः**—समृद्धः विभावनावक्रवचनयुतः न परं प्रभुत्वेन ।  
यथा—‘कान्ते नाथे’त्यादि ( पृ० १०३ ) । यथा च—

**समृद्ध ( मान )**—जब चिना किसी प्रकार का अभिमान बतलाए ही क्रोध किया जाए और तीव्र शब्दों का भी प्रयोग किया जाए तो उसे 'समृद्ध' मान समझना चाहिए । जैसे :—

प्रिये, स्वामिन् इत्यादि पद्य [ शृङ् १०३ ] । तथा—

विविक् सुदूरमप्सर्प न हृश्यसे त्वं  
कि किं नतौ कृपसि मे चरण करेण ।  
इत्युद्देसत्पुलकजालकसुदृहन्त्या  
मान. कृतोऽपि न धृतोऽपि चिरापनेय ॥

हाय ! हाय ! दूर हट जाइये आप, आँसुओं के भर जाने से मेरी आँसें आपको देत नहीं पा रही हैं और आप मेरे पैरों पर सुकर छहें सदलाते हुए वयों स्थीर रहे हैं ? ऐसा कहते हुए उस नायिका ने कोधावेश में रोमाञ्च के साथ मान तो घर लिया पर थोड़े ही क्षणों के बाद वह चला गया ।

**अतिसमृद्धः**—यत्र विभावना वक्तव्यचने प्रभुत्वमिति त्रयमस्ति सोऽतिसमृद्धः । यथा—

**अतिसमृद्ध ( मान )**—जब क्रोधावेश, आँखेप भरी बचनावली और अभिमान को बतलाना ये तीनों कार्य या स्थिरियाँ दियार्द हैं तो उसे 'अतिसमृद्ध' मान समझना चाहिए । जैसे :—

संवृच्छस्खणितो विलक्षितमुन्म. पादपणाम गतो  
नृत्यदृभूतत्या प्रिय प्रतिहृतः पद्मस्था सुजा सयत ।  
सख्या मोचित एव निर्गमपर. कायं शबो गच्छती—  
त्यालिङ्गयातिभरं रुपेव विधृतस्तन्या पतद्वाप्यथा ॥

जब अपराधी द्वियतम लज्जा से भूँह झुसारर चरणों में गिर पड़ा तो नायिका ने क्रोधावेश में अपनी भौंडों की लता के समान घपाने हुए उसे एक लात टिका दी और माला से बॉध दिया । जब इस नायिका की एक सरीने आमर नायक का बन्धन छोड़ डाला और नायक जाने वो उश्त छोने लगा तो शृशांगी नायिका ने क्रोध में भरकर आँसू गिराते हुए उसे जोरा से पकड़ लिया और थोली—'यह सुँआ अब कहाँ जाएगा ?

अत्रार्थं मुनेर्मरतस्य वचनं यथा—

विभावनावकवचं प्रभुत्वेष्यते मनाङ्गुष्ठमथ द्वयोश्च ।

समृद्धमेषु त्रिपु मानमासा स्तीणा मुनिश्चातिसमृद्धमाह ॥

मान के लक्षणों के विषय में भरतमुनि का भी<sup>१</sup> ऐसा ही मत है। वे कहते हैं कि मनाङ्गुष्ठमथ मान ने केवल विभावना, समृद्ध मान में विभावना और वक्तव्यन तथा अतिसमृद्धमान में विभावना, वक्तव्यन और प्रभुत्व इन तीनों को प्रस्तुत करना चाहिए।

विभावनायामग्राया सत्यां मनाङ्गुष्ठम्, विभावना-वक्तव्यसोः समृद्धं, विभावनावकवच प्रभुत्वेषु एषु त्रिपु सत्स्वतिसमृद्धमानमुक्त्वा-नित्यर्थं । विभावना कोषभिन्नतम्, वक्तव्यनमाक्षेपकारि, प्रभुत्वं मालाहारलतादिवन्धनप्रदानं प्रियस्येत्येष मानकम् ।

अर्थात् केवल विभावना को प्रस्तुत किया जाए तो ‘मनाङ्गुष्ठ’ विभावना और वक्तव्यन के होने पर समृद्ध तथा विभावना, वक्तव्यन और प्रभुत्व तीनों के रहने पर ‘अतिसमृद्धमान’ होता है। विभावना का अर्थ है—कोष का प्रदर्शन करना। वक्तव्यन का अर्थ है—आक्षेपपूर्ण या सीखे वचनों का प्रयोग। प्रभुत्व का अर्थ है—प्रेमाभिमान के कारण प्रिय को माला, हार, लता आदि से बाँध देना। इस प्रकार हमने क्रमशः मान के स्वरूप बतलाए।

अथ नायिकानायकयोः प्रथमदर्शनासादितपत्न्योन्माधयो-दीशावस्थाः भवन्ति । तद् परिज्ञानमपि नाटके लास्याधिकारिकत्वात् सार्थकम् । यथा—अभिलापचिन्तानुस्मरणगुणकथोद्वेगबिलापात्मो-न्मादजडतामरणादीनि इति । तद्यथा—

स्मरदशार्थ—नायक और नायिका के एक बार परस्पर दर्शन हो जाने पर प्रेम का सपार होने के अवसर पर (काम की) दस अवस्थाएँ होती हैं। ये अवस्थाएँ भी लास्य से सम्बन्धित होने के कारण (नाटक आदि में) उपयोगी होती हैं। इन दशाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—(१) अभिलाप, (२) चिन्ता, (३)

१. उक्त विवरण धर्तमान नायिका में प्राप्त नहीं है। सम्भवतः यह द्वादशसाहस्री सहिता से लिया गया हो।

अनुस्मरण, (४) गुणकथा, (५) उद्वेग, (६) विलाप, (७) आतंक,  
(८) उत्तमाद, (९) उड़तातथा (१०) नरण। जैसे कहा भी है कि—

द्वृष्टे यवीयसि हृदि ममदाजनस्य  
प्रत्यग्रयौवनसुधा जलघौतेशुभ्रे ।  
रागं निवेश्यन्ति वसु द्व ल्पेन  
निर्णेऽजक् कुसुमचापधराभिधान् ॥

नवयोवन के अमृत से प्रक्षालित हाने के कारण युवतों के निर्मता-हृदय में नवयुवक को प्रथम बार देस लेने पर ही पुण्यों के बाण जने वाले काम रूपी रगेज ने राघवस का इस प्रकार संचार कर डाला जैसे किसी धुले हुए बछ को लाल रग में छुयो दिया गया हो।

**आभिलापः**—यूतश्शुपा पीतं ल्पं युवतेः सङ्गमायाभिलापं  
जनयति । तेन सल्वसौ खियति, पुलकमावहति, शून्यदृष्टिः, पार्वीमागतां  
सखीमपि न पश्यति, पृच्छमाना नोचर प्रयच्छति, चरणकमलकोट्या  
भुवमालिखति, लज्जया मन्दमन्दं चित्तगतमावेदयति । तदथा—

**अभिलाप**—किसी सुन्दर युवक का सीनदर्यं प्रथम थार थाला द्वारा  
देखे जाने पर उसके हृदय में ‘अभिलाप’ उत्पन्न कर देता है। इस  
दशा में नायिका का शरीर स्वेदपूर्ण हो जाता है, यह रोमाञ्चित हो  
जाती है, तब वह इतनी सन्मय हो जाती है कि समीप आने वाली  
सखी को भी नहीं देय पाती, पूछने पर ठीक से उत्तर नहीं देती  
लज्जावरा भूमि को कुरेदते हुए अपने मन की बात धीरेधीरे खोलती  
है। जैसे निम्न उदाहरण में—

यालाभिलापमधिगम्य तत श्रियस्य  
नैवेक्षतेऽभिमुखमागतमात्मवर्गम् ।  
श्रीदाधिरूढवदनेन्दुरुदीर्णमन्द-  
मन्दाक्षरं वदति चित्तगतं सखीयु ॥

यह थाला अपने प्रिय की चाह लिए हुए होने से कारण सामने  
आ जाने वाली नवियों को भी नहीं देय पा रही है। यह केवल  
लजाते हुए मुखचन्द्र से मन्द स्वर में थोड़े से शब्दों के हारा अपनी  
मनोगत दरा ससियों को बतला रही है।

चिन्ता—अथ चिन्तामापयते । किं तेन तस्मिन् क्षणे यथैव मया हृष्टोऽमौ तथा हृष्टाऽहमपि न वा मन्दभागिनी हृष्टात्मीति सखीमि पुनरुक्तमिन्मेव वृत्तान्तमावर्तयति । अनुरागप्रस्थाकलनकलानिमित्तमवस्था-सूचकमनेकार्थगर्भितत्त्वं मन्यथेवं प्रस्थापयति । तदथा—

चिन्ता—इसके पश्चात् उसे ‘चिन्ता’ होती है । वब वह सोचती है कि जब मैंने उसे देखा या तब उसको भी मुझे देखकर मन मे ऐसी ही बातें लड़ी थीं या नहीं ? या उसने मुझ मदभागिनी को देखा भी था ? इस अवस्था मे नायिका अपने प्रति रहने वाले नायक के अनुराग का अन्दाज लगाने [ तथा अपना अनुराग व्यक्त करने ] के लिये विचारों और अपनी अवस्थाओं के सूचक प्रेमपत्र को कलापूर्ण प्रकार से विनयपूर्वक भेजती है । ( जैसा कि निम्न उदाहरणों में स्पष्ट है ) ।

चिन्तां तत् श्रयति किं समये तद्दर्शीं

हृष्टस्मि तेन स यथैव मयापि हृष्ट ।

तस्यापि किं स्मरणिःस्ती परिवद्धितार्ति-

जगातें चेतसि यथैव मम ग्रदीप ॥

नायिका को चिन्ता हो रही है कि जब मैंने उस ( युवक ) को देखा उभी उसने भी मुझे देखा या नहीं ? और उसके अन्तस् मे भी क्या दाहक कामाग्री पीड़ा को बढ़ाते हुए भड़को है जैसे मेरे अन्तस् मे जल रही है !

पत्र केतकमभव मृगमदन्यस्ताक्षरं कन्तुगि—

र्माङ्गस्यै परिवेष्टित मल्यज्वराद्रैष्ट्यमृचिङ्गान् ।

विन्यस्तस्तन्मुद्रमञ्चितवहिर्नीम् प्रियस्योद्विहृत्

तन्मी मन्यथेष्वशिल्पन्मिदं कुर्याद्दशादेशकम् ॥

तथा वह कृशाङ्गी ऐसा प्रेमपत्र भेजे जिसमे उसको सानसिक दशा को कलापूर्ण पद्धति से प्रस्तुत किया गया हो, जो चेतकपत्र पर कस्तूरी से कुरेद कर लिखा गया हो और ऊपर से रेशमी धागे से लपेट दिया गया हो, जिसके ऊपर नायिका द्वारा मलयचन्दन से लेप किये गए अपने ऊरोज की मुद्रा अक्षित करने हुए ऊपरी भाग पर प्रियतम का सुन्दरतापूर्ण नाम लिखा गया हो ।

अनुस्मरणम्—ग्रियस्यानुभूतहृपस्मरणादनुस्मरणमुपजायते । यत्र सकलविषयव्यावृत्ति, करणीयेष्वनादरः इतिकर्तव्यमूढङ्गं हृदयमुत्सव्यते ।

तथथा—

बनुस्मरण—अपने प्रिय के अनुभूत स्वरूप की याद करने से 'अनुस्मरण' दशा उत्पन्न होती है। इस दशा में सभी सांसारिक मुरों से विरति तथा आधरयक या दैनिक कार्यकलापों के प्रति उत्साहहीनता रहती है तथा हृदय कि कर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। जैसे—

शृणुमशन यान स्थानं सखीवचनशुर्तिं  
न खलु दुरुते सेवाकाले गुरोरपि सम्भ्रमम् ।  
सकलविषयव्यावृत्तात्मा घनक्षसितोद्भुमा  
स्मरति सतत तद्वेक स्मरज्वरयामिनी ॥

मांसारिक वस्तुओं से दूर हटकर उस नायिका का मन सदा उसी का विचार करता रहता है। उसे ज्वर आगया है और इस स्मरज्वर के कारण वह जोरों से उसासें भरने लगती है, सोने, चलने, खाने और बैठने का ध्यान नहीं रखती है, मरियों की घाते नहीं मुनरी और यथासमय पृज्यजन की आदरपूर्वक शुश्रृपा भी नहीं कर पाती।

गुणकथा—ग्रियस्यानुभ्यव्यापारतया सखीसमक्ष गुणानां वीर्तंगं गुणकथा । तथथा—

गुणकथा—सभी काम छोड़कर मरियों के आगे अपने प्रिय के गुणों का बदान करते रहना 'गुणकथा' कहलाता है। जैसे—

सत्यं किमन्यदधिकं कथयामि गुणा-  
स्वेतन् समर्थयत तत्परिग्रहेण ।  
निर्वर्यते खलु सुष्वव दुरङ्गलद्यन्या  
लक्ष्मीवतो गुणकथामुक्ते एष तस्य ॥

मरियों, मैं तुम्हें इससे भी अधिक क्या बतलाऊँ! तुम सच मानो कि आज फुछ लोग मृग से लाभिद्वय धन्द की शोभा यी व्यर्थ ही प्रशसा रहते हैं। पर प्रिय की शोभा के आगे यह बेचारा धपनी लांघित शोभा को लेकर क्या तक टिक पाएगा?

**उद्गेगः—** यहुभिरपि यज्ञरनासाद्यमाने तत्सङ्गमसुले उद्गेगः ।  
चन्द्रचन्दनमुधामन्दिरारविन्दप्रभृतिषु सुन्दरेष्वपि वस्तुपु प्रद्वेष् । सर्वतो  
हृदयस्याधृतिरवस्थानन्न । तथा—

उद्गेग—अतिशय प्रयत्न के पश्चात् जब प्रिय का मिलन न हो तो  
‘उद्गेग’ होता है । इस दशा में चन्द्र, चन्दन, उत्तम सदन (मुधामन्दिर)  
तथा कमल आदि की सुन्दरता भी नहीं सुहाती और मन में अतिशय  
अस्थिरता और घबराहट बनी रहती है । जैसे :—

मुधावेशम द्वेष्टि स्फुटिकमला द्वेष्टि नलिनीं  
सखीन्यस्तां भूषा क्षिपति न विनोदेषु रमते ।  
घनारूढोद्वेगा कचिदपि न घर्ते धृतिमसौ  
प्रियलोके यद्यन्न छृतमध तस्मै स्पृहयति ॥

अब वह बाला विशालभूमि और रिक्षित कमल या कमलिनी  
देखकर डाह करने लगती है, सखियों के द्वारा आभूषण पहिनाये जाने  
पर उन्हें दूर पटक देती है और मनोविनोद के लिए किये गये परिहासों  
से प्रसन्न नहीं होती । वह किसी भी पदार्थ को देरा या पाकर धैर्य  
नहीं रख पाती है और सदा यही चाहती रहती है कि मैं जो प्रिय के  
देखने या आने पर न दर पायी उसे दी अब अवश्य कहूँगी !

**विश्रलापः—** प्रियस्य प्रथमदर्शनोपनतलज्जयाऽपरिचित इत्यविश्वा-  
सविप्रत्वात्तक्षाल इदं न छृतमिदं न छृतमित्यनुतापाद् विश्रलापः ।

तथा—

**विश्रलाप—** जब नायिका नायक को प्रथम बार देखकर लज्जावश  
या परिचय न होने से विश्वास न करते हुए जो बातें न की जा सकीं  
हों आदि की धार धार याद आने से हृदय से सन्तप्त होती है उसे  
'विश्रलाप' समझना चाहिए । जैसे :—

धिरु चित्र किं स्तु तदा भवतास्मि रुद्धा ।  
दृष्टो मया स सुभगश्चिरकालमासीत् ।  
हा । चञ्चितास्मि रिपुणा गृहसंस्थितेन  
प्रीढार्चिकाफलमिति थयते विलापम् ॥

अरे मेरे मन, तूने मुझे उस ममय क्यों रोक दिया जब मैं उस सुन्दर प्रिय को निहार रही थी। हाय ! मैं अपने ही अन्दर बेठे शब्द से छली गयी। इस प्रकार व्यवाओं मे भरकर और सभी ओर से निराश होकर वह नायिका रुदन का सहारा लेने लगी है।

**आतङ्कः**—प्रतियामिनि जागरण विप्रमाशुनं निरस्तरचिन्तासन्ता-  
नाभिनिरेशो निख्वग्रहणरितापप्रश्नमोपायतथा च सेव्यमानमृणालनलय-  
जलाद्विसंव्यामप्रभृतिशेतोपचार इत्येभिर्निर्मितै शिरार्चिंग्वरलक्षणमातङ्क-  
मावहर्ति । तथथा—

आतङ्क—ओर जब यह इसी तरह विचारों मे (प्रत्येक) रातें जागते हुए विताने लगती है, असमय मे भोजन करती है, सदा चिंता मे छबी रहती है तब इस अपरिहार्य सन्ताप की शान्ति के लिये उसे कमलनाल के चलय पहिनाये जाते हैं, जल से पर्णों को गीला कर हवा की जाती है और गीले या ठडे कपड़ों को पहिनाया जाता है। ऐसी दशा मे ज्वर या शिरोवेदना आदि कार्यों से जो रूप बनता है उसे 'आतङ्क' नामक अवस्था समझना चाहिए। जैसे :—

आतङ्कान्न घटित सहमास्य चाला  
प्रोढार्चि स्वतनुभिरितस्तत क्षिपन्ती ।  
भूयिष्ठ भजति सखीजनेन हस्तं  
विन्यस्योरसि सुविमुद्यमानमंजा ॥

यह चाला अपने प्रिय से न मिलने के कारण अविशय वेदनावश अपने शरीर को इधर उधर पटक रही है और उसकी मतियाँ चारों ओर बैठकर उसकी फिल की हल्की पड़ने धालो धड़नों को हाथ रख कर उसकी चेतनता का विचार कर रही हैं।

**उन्मादः**—अतिचिरकालमेवंविषविषयकष्टमावनाया प्रश्निविप-  
र्यादुन्मादः । यत् विना हेतो रोदिति, विना निद्रा स्वविति,  
विना प्रहर्षेण हसति, विना क्रोधात् कुद्यति, तद्व सुमगमितस्ततः  
सङ्क्षेपर्याणिकाविलिपितमप्लोकते, तमालिङ्गित्वा नमसि मुजलता  
प्रमारयति, तद्व सद्वत्वाप्यजलधाराऽस्तित्वमीलनयनोत्पलयुग्मा  
विविष्मुखविद्ध्मज्जितमृष्यद्विर्वचनंरपालमते । तथथा—

उन्माद—बहुत दिनों तक इसी तरह के अनेक कष्टों को झेलते रहने के कारण मस्तिष्क के उलट जाने पर 'उन्माद' हो जाता है। इस अपस्था में नायिका बिना कारण रोने लगती है, बिना नीद के उंधती है, बिना किसी प्रसन्नता के ही हँसती है, बिना क्रोध के ही मझाने लगती है और अपनी कल्पनाओं को तूलिका से चिन्तित प्रियतम के उसी रूप को देखती है। उसी से मिलने के लिए ऊपर आकाश में अपनी भुजाएँ फैलाती है और अपनी नीलकमल जैसी सुन्दर ओंगों से आँसू बहाती है। वह अपने प्रियतम को भोलेपन से चारुर्य और अगभिगियों से युक्त स्नेहपूर्ण बचनों द्वारा उलाहना देरी है। जैसे :—

करकिसलयपृष्ठोत्सारिताजस्तवा प्पा

मुहुरपि च धुनाना स्थूलतूली रसौषम् ।

लिखति तनुमनङ्गोन्माथमेगात् प्रियस्य

स्वपिति च हृदि कृत्वा स्विन्नरेमाञ्चिताङ्गी ॥

वह बाला अपने को मल पलब के समान हाथों के पिछले भाग से जब आँसुओं को पोंछती है तो हाथ का रग आँसुओं में लग जाता है और वह ऐसे हाथ को बार-बार फटकती रहती है। फिर जब प्रेम अधिक उमड़ता है तो उसी आवेश में आकर वह अपने प्रिय का स्वरूप अनित बरने लगती है और स्वेद, रोमाञ्च आदि के कारण यिन्होंने पर उसी प्रिय का हृदय में ध्यान रखकर सो जाती है।

परित्यक्तप्राच्यप्रदृतिरमिधरे विसद्वयं

विना हेतोरप्यत्यतिहसति बन्दत्यपि भृणम् ।

धनारूटोन्मादा किमपि परिवृत्तुं मुजलता

प्रसार्य प्रेयास विसितममिधावत्यनिभृतम् ॥

वह अपनी पूर्व प्रकृति के विपरीत उलटी सीधी बातें बकने लगता है यभी बिना कारण रुठती है और कभी हँमने और कभी रोने लगती है। जब उन्माद गभीर हो जाता है तो अपनी गाँहें फैलाकर प्रियतम के चित्र को आलिंगन करने के लिए भागने लगती है।

जड़ता—प्रियाद्वैतमावनापरिपाकज्ञा जड़ता । यस्या न जिप्रति, न पश्यति, न संशृणुते नास्त्वै कथिद्रसः स्वदते इति । तद्यथा—

जडता—प्रियतम के साथ एकात्मभावना के अतिशय चिन्तन से 'जडता' उत्पन्न हो जाती है। इस दशा में उसे किसी सुगन्धित वस्तु की गन्ध नहीं आती, न कोई दिखाई देता है और न ही कानों में रादर सुनाई पड़ते हैं। उब उसे किसी भी पदार्थ का स्पर्श या अनुभव नहीं रहता। जैसे :—

सर्वक्रियाव्युपरति                            जडतामुपेत्य  
 बाला न पश्यति पुर-प्रहितानि किञ्चित् ।  
 गृह्णाति तैव च रसं न च गन्धमद्वा  
 स्पर्शं न वेचि न च चेतयते पुरेव ॥

जडता के कारण उस बाला से कुछ भी करते-धरते नहीं बनता और वह अपने सम्मुख विकासान वस्तु को भी नहीं देख पाती है। उसे किसी वस्तु का स्वाद या गन्ध का अनुभव नहीं हो रहा और न सम्मुख रखे गए पदार्थ के स्पर्श होने का ही भाव है।

**मरणम्**—मरणं प्राणच्छेद । यथोक्तम्—

जीवन की समाप्ति या प्राणों का शरीर से निकल जाना 'मरण' कहलाता है। जैसा कि कहा भी है '—

यत्वैरलभ्यमानेष्टसङ्गमेऽन्तं प्रदीपित ।  
 कामाभिजर्ज्वलयत्यज्ञान्यदोष इव उद्धनम् ॥

जब सारे प्रयत्नों के बाद भी प्रिय का मिलन न हो पाए तो प्रेम की झगलाएँ सारी धाधाओं के साथ उनके शरीर को भी जला डालती हैं जैसे बिना दोष के लघन शरीर को धस्त कर देता है।

तस्यैव विधस्य मरणस्य लक्षणमनङ्गवृत्तिकादाचार्येण नोपवर्णित  
 मलमस्योपन्यासेन । यथाह—

इस मरण दशा का विस्तार से विवरण आचार्यों ने नहीं बतलाया क्योंकि यह दशा घटित न होने के कारण नाटकोय घटना या अंग नहीं बन सकती। जैसा कि कहा जाता है,—

इति मरणमनङ्गवर्तिमुक्त्या  
 नटति नटीव युवत्यरेपभावान् ।  
 नटति खलु युवापि काललब्ध-  
 स्मरलितादिशयः कदाचिदेव ॥ ३३५ ॥

इन दशाओं में केवल मरण को अंग न बनाते हुए युरती नायिका शेष दशाओं को नटी के समान प्राप्त करती हैं और युवा नायक भी इसी प्रकार इन दशाओं को प्रेम के भीठे अरमान हृदय में संजोते हुए अमफलता के बीच सहन करता है।

नवानामप्यामा दशाना लक्षणमूयस्त्वान्नोपवर्णितम् । जेय हु नाटके नानकीराधवे सीतानृत्ये, प्रदरणे मालतीमाधवे मालत्या, नाटिकार्या सागरिकाया, यूनाञ्च माधवादीनामिति दशावस्था लास्यविधि ।

इन नी अवस्थाओं को लक्षण आदि का विस्तार करने हुए यहाँ नहीं बतलाया जा सका है। इनको नानकीराधव नाटक में सीता के मृत्यु, मालतीमाधव प्रकरण में मालती के अभिनय और रत्नाशली नाटिका में सागरिका के अभिनय या मालतीमाधव में माधव के अभिनय में देखकर समझ जा सकता है। इस प्रकार लास्य में होने वाली उस अवस्थाओं को हमने बतलाया।

**अथ नायिका:**— अप्राप्तमङ्गमाया नायिकाया परतश्चान्या अपि अष्टौ नायिका सम्बवन्ति । तासां नामानि—वासुकमज्जा, विरहोत्कण्ठिता, स्वण्डिता, विप्रलङ्घा, कलहान्तरिता, प्रोपितमर्तुका, स्वाधीनदयिना, अभिसारिका चेति । तत्र—

नायिका के भेद—जब नायिका का अपने प्रिय से मिलन नहीं होता तो दशाओं की भिन्नता के कारण नायिकाओं के और भी आठ भेद हो जाते हैं। इनके नाम हैं—( १ ) वासुकमज्जा, ( २ ) विरहोत्कण्ठिता, ( ३ ) स्वण्डिता, ( ४ ) विप्रलङ्घा, ( ५ ) कलहान्तरिता, ( ६ ) प्रोपितमर्तुका, ( ७ ) स्वाधीनदयिना ( पतिका ) तथा ( ८ ) अभिसारिका ।

**वासुकमज्जा—**

वासुकेशमनि सुकलिपत्रतल्पा

या समागमविधि निदधाना ।

तिष्ठति प्रियसमागममज्जा

तामिहागमय वासुकमज्जाम् ॥ ३३६ ॥

**वासुकमज्जा—**जो नायिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए अपने

घर में ही साजसज्जा को ठीक से बनाकर और सेव भजाते हुए तैयार कैठी रहे तो उसे 'वासकमज्जा' नायिका समझना चाहिए। जैसे :—

यथा —

दृष्टि द्वारि मुहुर्मुहुविदधति काऽपि प्रवृत्ते ध्वनी  
दृष्टोऽसाविति कान्तपादपदन् श्रद्धोत्थितावस्थिता ।  
सेद वामविलोचनस्तुरितकैर्नात्यन्तमातन्वती  
धिन् त कार्यजड निशास्वयि चिरादेष्यन्तमन्विष्यति ॥

अयमस्या लास्यविधि ।

वह नायिका कहीं से थोड़ी आहट या शब्द सुनाईं पड़ने पर पार-बार दरवाजे की ओर अपनी टस्टि डालती है और मियतम के पेरों की आगून के भान होते ही खड़ी होकर आदर देने के लिए देखने को उठ दीड़ती है फिर ( वही ) कभी कभी अपनी आँखों के प्रतिकूल भाव में फ़इकने पर दिन सी हो जाती है, और देर तक रात में घर न लौटने वाले प्रिय की प्रतीक्षा करती हुई ( उसे ) दृढ़ती रहती है। ये ही क्रियाएँ ( इन ) नायिका की लास्य दशा बतलाने में भी प्रयुक्त थीं जा सकती हैं।

**पिरहोत्कण्ठिता**—या परित्यज्य मियतमो रत्नोपकल्पितवेषा  
गतश्चिरान्नागच्छति सा पिरहोत्कण्ठिता । यथा —

**पिरहोत्कण्ठिता**—प्रिय मिलने के लिये अपनी सानसज्जा की हुई इसी ( वामकमज्जा ) नायिका का स्वामी जब उसे छोड़कर चला जाए और बहुत देर तक न लौटे तो 'पिरहोत्कण्ठिता' नायिका समझना चाहिए। जैसे :—

उप्पधासविवर्णितापरदला प्रौदाश्रुपातोच्छृस्त-  
पर्यन्तारुणलोचना प्रतिनिशं जागर्थ्या धूसरा ।  
चन्द्रेऽप्युद्घजती रुजं विदधती स्वैरप्रदोषानिले  
प्रस्यादार्गलस्त्रूकण्ठपरिक्षणा वियोगेऽस्ति सा ॥

उम नायिका का निचला ओठ गरम माँसों से यदरग हो रहा है और आँसुओं की घारा घराघर यदते रहने के कारण आँखों के कोने सूजकर लाल हो गए हैं; रात के जामरणों से चेहरा मफेद हो रहा है; घन्दू कों देखने ही चहेग उमड़ता है और साथेकालीन पवन के मन्द-

मन्द संचार से व्याधि उत्पन्न हो जाने पर भी प्रिय से युनर्मिलन की आशास्त्री अंगला के कारण उसके कष्ठगत प्राण शरीर में टिके हुए हैं।

**खण्डता—**यस्या पतिः परया सह रजनीमतिवाह प्रभाते भवन-  
मन्येति सा खण्डता । यथा—

**खण्डता—**जिस (नायिका) का स्थामी दूसरी नायिका के साथ  
रात्रि विता कर प्रातः अपने भवन में लौटे उसे ‘खण्डता’ नायिका  
समझना चाहिए । जैसे :—

हा कटु हत्या क्या विलिखित कायो नखाग्रेण ते  
कि रोद्वासि भैव सप्तमिदं केवाघरे रुधतीम् ।  
किं धूर्तं प्रणमस्ययं प्रतिसुहुः क्षेमं न दत्ते सखी  
सैपा किं करवाणि संस्पृशसि यत्तत्रापि सेदो न मे ॥

हाय, हाय ! किस मुझे ने तुम्हारे शरीर पर नखों की खरोचें ढाल  
दी ? क्या तुम्हें किसी ने रोक लिया था ? आप मेरे द्वारा दिये जाने  
वाले ओष्ठ के क्षतों के समान इन क्षतों को क्यों दबा रहे हैं ? और  
झुककर मुझे प्रणाम कर क्यों छल रहे हैं ? और, क्या तुम्हारी उस प्रिय-  
सहचरी ने आपकी कुछ भी सेवा न की ? परन्तु मैं अब क्या कर  
सकती हूँ, क्योंकि अब तो तुम्हारे छूते पर भी मुझे कष्ट नहीं होगा ?

**विप्रलब्धा—**

अहरहरतुरागाद् दृतिकां प्रेष्य पूर्वे  
सरमसमभिधाय क्षापि सङ्केतकं वा ।  
न मिलति सलु यस्या वल्लभो दैवयोगात्  
कथयति भरतस्तां नायिकां विप्रलब्धाम् ॥३३७॥

**यथा—**

**विप्रलब्धा—**आचार्य भरत का मत है कि नायिका के द्वारा प्रतिदिन  
अपना सन्देश दूत आदि के द्वारा भेजने वाला अपनी आतुरता  
या समेत स्थान की सूचना दे देने पर भी दुर्भाग्य या परिस्थितिवश  
(लब) इसका प्रियतम ससी स्थान पर आकर नहीं मिलता हो सो उसे  
‘विप्रलब्धा’ नायिका समझना चाहिए । जैसे :—

स पुष्पजन्मा स्वयमभ्युपेत्य नायाति न प्रत्ययमेति चेत् ।  
तदालि मिथ्याकथितं त्वयैव किं सुस्थिते तिष्ठसि कान्तमेहि ॥

वह बड़भागी वचन देकर भी जब खुद नहीं आया तो अब मेरे मन से उसका विश्वास उठ गया । सरी, तूने मुझे शूठ ही घतलाया । फिर तू यहाँ अब क्यों खड़ी है ? तू (ही) मेरे स्वामी के पास चली जा ?

**कलहान्तरिता—याऽतिकोपया प्रणतोऽवधीरितः प्रियतमः कोपात् सा कलहान्तरिता । यथा—**

**कलहान्तरिता—जो नायिका अपने क्रोधी स्वभाव के कारण या अतिशय क्रोध के दशा होकर क्षमा माँगने को द्युके हुए प्रिय का भी विरस्कार कर दे उसे 'कलहान्तरिता' नायिका ममकना चाहिए । जैसे :—**

किं चित्ते व्यवस्थितं भवताथ कोप-  
चण्डालपक्षमकृथास्तमपास्य रत्नम् ।  
सख्य समाधसिहि मामधुनामिघस्य  
तर्हि क यूयमगमदयितो यदा मे ॥

ए मेरे मन, तूने इस चांडाल क्रोध का पश्च लेफर उस रत्न को निकाल कर यह क्या कर डाला !! सतियों, अब तुम धीरज धरो और मुझे घतलाओ कि जब मेरा प्रियतम यहाँ से जाने लगा था तब तुम यहाँ ( चली गयी ) थी ?

**प्रोपितमर्तुका—यस्यास्तु कार्यवशात् देशान्तरमुपगत कान्तः सा प्रोपितमर्तुका । सा तु तदागमनतिमित्तप्रतोपयासनाद्वयपरिचर्तनु-तराङ्गयेष्टस्यागमनमेव चिन्तयति । यथा—**

**प्रोपितमर्तुका—जिसका स्वामी किसी कार्यवश दूर देश में चला जाए उसे 'प्रोपितमर्तुका' नायिका ममकना चाहिए । यह भदा अपने स्वामी के आने की प्रतीक्षा में चिन्तित रहा रहती है और स्वामी की निर्दिश यात्रा के लिए घृत, उपजास और घावाणों की सेवा करते हुए स्वयं वो गला ढालती है । जैसे :—**

आलम्बितालक—दत्ता—पिहितेक्षणास्मि  
नेत्रे क शाखिनि खगो मधुरं विरौति ।  
एतच मे स्फुरति वामकमक्षि सख्यः  
चेत प्रसीदति किमधु ममैति कान्तः ॥

सहियों, मेरी आँखें इन झूलनेवाली लटों से ढाँक गयी हैं, इसलिये बुद्ध दिसाई नहीं पड़ता कि यह पक्षी किम ढाल पर बैठकर ऐसा मधुर गान कर रहा है। पर आज मेरी बाँयी आँख फड़क रही है और मन में प्रसन्नता व्याप रही है; तो क्या आज मेरे स्वामी लौटेंगे ?

यथा च—

भर्तु श्रेपितभर्तुका द्रुतरप्रत्यागमनागमौ  
विज्ञातुं प्रवितीर्य पिण्डयुग्मं तावद्याद्र्दी स्थिता ।  
नाज्ञासीदुभयद्वा तत्र बलवत्काकारवाङ्म्बर—  
क्रूरैकक्षणलग्नदग्धकरटश्रेणी विलुप्तात्मनि ॥

तथा—

जब प्रोपितभर्तुका नायिका अपने मियतम के शीघ्र लौटने और न लौटने की परीक्षा करने के लिये चावल के दो गोलों को रखकर आशा की भीठी कल्पना में ढूँढ़ने लगी, तभी वहाँ आकर कौओं ने जोर की आवाज करते हुए उन गोलों को अपनी क्रूर लीला करते हुए बखेर डाला तो उस बैचारी को इस (अप्रत्याशित) घटना के कारण किसी एक घात का ठीक से ज्ञान न हो पाया और वह घबरा उठी।

**स्वाधीनभर्तुका**—यस्याश्चित्रति क्रोडालालस, पार्ष्णे तिषुति पति, सा स्वाधीनभर्तुका । यथा—

**स्वाधीनभर्तुका**—जिस नायिका का स्वामी सदा उसके पास अनेक विद्यु प्रणय कीड़ाओं की लालमा लिए हुए बना रहे तो उसे 'स्वाधीन-भर्तुका' नायिका समझना चाहिए । जैसे :—

क्षणं कराहतेनेव क्षणं चरणपातिना ।  
कन्दुकेनेव कान्तेन स्वाधीनेन विचेष्टते ॥  
यह नायिका अपने अधीन प्रिय के साथ गेंद जैसी कीड़ा करते

हुए कभी तो उसे हाथ से टक्कर लगाती है और कभी पैरों पर गिराती (रहती) है।

**अभिसारिका**—या तु दूतीमनपेक्ष्य गच्छति सा अभिसारिका ।  
तत्र कुलजा पतिग्राधिता याति । यथा—पद्मावती वत्सराजम् । वेश्या  
लप्राथेतेव । यथा—रम्भा नल्कूबरम् । तत्र कुलजाया गमने—

सालीना स्वेषु गात्रेषु त्रास-विश्रेष्टितानना ।

अगुण्ठनसंगीता मृगीभूतविभूषणा ॥ ३३८ ॥

वेपमानोरुयुगला चकिता च पदे पदे ।

थासायासितसर्वाङ्गी कुलजा अभिसारिणी ॥ ३३९ ॥

मदस्तुलितसंलापा विश्रमोत्कृष्टलोचना ।

आपिदगतिसञ्चारा वेश्या स्यादभिसारिका ॥ ३४० ॥

वक्रता दधती मार्गे यथा श्वोके कर्मिनरः ।

निश्चयं न समभ्येति पदोद्वारात्मरोपणे ॥ ३४१ ॥

कुमुदोदरखुटीं शून्यां कुर्वती मधुपायिभिः ।

निजामोदाहृतैरेश्या कान्तं यात्यभिसारिका ॥ ३४२ ॥

**अभिसारिका**—नो नायिका किसी दूती की अपेक्षा निये थिना [अपने प्रिय मे मिलने के लिए] प्रस्थान करती है उसे 'अभिसारिका' नायिका समझना चाहिए। इनमे कुलना नायिका अपने स्वामी के आमन्त्रण या सूक्ष्म श्राप करने पर प्रस्थान करती है। जैसे पद्मावती का वत्सराज वे पास अभिसरण करना। वेश्या नायिका थिका आमन्त्रण के अपने प्रिय मे मिलने को जाती है। जैसे रम्भा का नलदूषर के पास अभिसरण करना।

जब कुलना नायिका अभिसरण करते तो वह अपना शरीर कपड़ों से ढक लेती है, भय से धारा और देसती जाती है, मुँह पर धूघट रग पर चलती है और गहनों की आगाम नने होने देती। अभिसरण के समय उमर्ही दोनों पिण्डियों भय से काँपती रहती हैं और नोरों से माँस खलने वा कारण उसका शरीर थक सा जाता है।

तब रागान्या या वेश्या नायिका अभिसरण करती है तो वह नरों मे रहती है और उमर्हे मुँह से लड़मझाते हुए शब्द निमलत हैं।

आनन्द की कल्पना से उसकी आँखें रिली दिखती हैं और चाल लड़पड़ती हुई उद्धर गति में रहती है। वह रास्ते में अपने पैर उसी प्रकार आड़े-तिरछे जमाती है जैसे कोई 'जीसिलिया'<sup>१</sup> कवि अपनी रचना में अटपटे शब्द रखता हो। यह अपने शरीर पर लगाए गए सुगन्धित द्रव्यों से कमलों की गन्ध लेने वाले भौंरों को लुभा कर अपने स्थानों से टिटा कर अपनी ओर खींच लेती है।

अनयोश्च काला नव बोद्धव्या । श्यामा-प्रदोषः, चन्द्रोदयः,  
दुर्दिनम्, तुपारपातः, हेमन्तनिशा, निदाघमच्याहः; कोलाह्लः, वाताली,  
महश्च । 'मदनविधुस्तिनां नास्ति कालः' इति केचिद् । कुलजायाः  
पुन श्यामाप्रदोष एव । यथा—

प्रियतम से मिलने के लिये इन सभी नायिकाओं ( कुलजा या वैश्या ) के लिये नी समय उपयुक्त माने जाने हैं। जैसे कृष्णपक्ष की रात, चन्द्रोदय की सन्ध्या, वरसात की अंधेरी दिवा-वेला, वरफ मिलने का समय, हेमन्तऋतु की रात, ग्रीष्म ऋतु की दोपहर, कोलाह्ल या मेले का समय, चारों ओर वास्या या छु छलने का समय या किसी विद्याह आदि उत्सव का दिन ।

कुछ आवार्यों का मत है कि कामपीडितों के लिये कोई समय निश्चित नहीं होता ।

कुलजा नायिका के लिये केवल कृष्णपक्ष की रात्रि का आरम्भ ( प्रथम प्रहर ) ही उपयुक्त समय माना जाता है । जैसे—

दूतीमागमयस्व मा त्रव ससि स्वैरा प्रकृत्यैव सा  
वक्रीकृत्य घनुर्न पश्यसि चिरादन्वेति मां मन्मथ ।  
मार्गोऽयं जनमद्वयो विटपिनि न्यस्यामि विश्वितमः  
सान्द्र नन्वमिसारिकामु कृपया आम्यन्ति खदोतकाः ॥

१ विनंव = जीसिलिया कवि जिसे अपनी रचना में उचित पदों का रखना नहीं आता हो। उक्त कव्यन की राजशोलर के निगम उद्धरण से तुलना की जा सकती है।

यथा :—आवापोद्वरणे तावद् यावद्वौष्ठायते मन ।

पदाना स्थापिते स्थैर्ये हन्त, मिदा सरस्वती ॥

सपि, दूती को (मेरे साथ) भेजो, तुम मत चलो, क्योंकि यह दूती  
थो स्वभावत स्वैरिणी है [ और ] तुम धनुष चढ़ा कर मेरा पीछा करने  
को उद्यत इस काम को नहीं देख रही ! और, यह मार्ग बड़ा मुश्ल हो  
रहा है तो मैं इस पैड पर अपना शरीर टिका कर थोड़ा आराम कर  
दूँ। अँधेरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है और हम अभिसारिकाओं  
पर कृपा करने के लिये भी इधर-उधर जुगनू घूमने लगे हैं।

समयां वर्णयन्त्येके या स्त्री मर्तुर्यै सकृत् ।

रतिमात्रकमन्येति मौतिग्रोहीनजीविता ॥ ३४३ ॥

चित्त एव चसन्त्यस्याः भागाः सर्वे मनोभृतः ।

दुर्गतस्येव गर्भिण्याः दोहदाः मिद्दिनजिताः ॥ ३४४ ॥

बुद्ध आचार्यों के मत में इसके अतिरिक्त 'समया' नामक एक अन्य  
प्रकार भी ( नायिकाओं का ) होता है।

जो रति सुख से आस्था हो कर प्रिय के भग्न में नाए और भय  
के कारण निसके प्राण घबराते हों उसे 'समया' ( अभिसारिका )  
नायिका समझा चाहिए ।

( भय के कारण ) इम नायिका के मन में प्रियतम से मिलने वी  
इच्छा और क्रीड़ा, विहारसुख आदि के सारे भाव विना पूर्ण हुए रह  
जाते हैं जैसे किसी दर्दिर पुरुष की गर्भिणी भारी के मनोरथ हों ।

इत्यासा समया वर्जयित्या लास्यविद्वौ चरितानि ।

लास्य में इन नायिकाओं की अवस्था या कार्यों को प्रस्तुत किया  
जाता है पर सभया नायिका का अभिनय लास्य में नहीं रखना  
चाहिए ।

अथ चेष्टालद्वारा कथन्ते—

प्रसाश्रुपकं सत्तं सत्याद् भागाः समुद्गराः ( निताः ) ।

तेभ्यो हापादिनिष्पत्तिरित्याह भरतो मुनिः ॥ ३४५ ॥

लीला विलासो पिच्छित्तिर्प्रियमः पिलमित्रितम् ।

मोदायितं हृदयितं पिव्योको ललितं तथा ॥ ३४६ ॥

पितृतश्चेति पित्रेया स्त्रीणां भागाः स्वभावजाः ।

हान-हेलाक्षिप्य-मौग्ध्य-मद-रपनान्यपि ॥ ३४७ ॥

चेष्टालझार—अब हम (नायिकाओं के) 'चेष्टालझारों' को घरतलाएँगे। भरतगुनि का मत है कि 'सत्त्व' एक मानस गुण है जो प्रकाशात्मक स्वरूपवाला होता है। इस सत्त्व से मात्र की और मात्र से हाव (आदि) की उत्पत्ति होती है।

नायिकाओं के संहजगुण सम्पन्न अलंकारों में निम्न (दस) अलझार आते हैं यथा—(१) लीला, (२) विलास, (३) विच्छिन्नि, (४) विभ्रम, (५) किलकिञ्चित्, (६) मोट्टायित, (७) कुट्टमित, (८) विव्वोक, (९) ललित और (१०) विकृत। इसके अतिरिक्त हाव, हेला, विवेष, मीरव्य, मद और उपम मी सहज मात्र माने जाते हैं।

लीला—

तत्र प्रियत्मस्यानवासुसमागमा सहीनां पुरतः स्वचित्त-विनोदार्थं  
वेषगति-हसितमणितैरुक्तिर्या क्लियते सा लीला । यथा—

लीला—जब प्रिय का मिलन न पाकर सखियों के समश्र अपना मन छहलाने के लिये नायिका वेष, गति, परिहास तथा उक्ति आदि से अपने इष्टतम प्रिय का अनुकरण करे तो उसे 'लीला' समझना चाहिए। ऐसे :—

वेणीवन्धकपर्दिनी सिततनुः श्रीखण्डपांकुलकैः

केतुक्येक्षदलेन्दुभृद्-विसलता-न्यालोपवीतिन्यपि ।

प्राक्याणिप्रहणाद् विनोदविधये सख्या-पुरो लीलया

कुर्वणानुकृतं हरस्य दिग्दु श्रेयासि व. पार्वती ॥

( नाग० सर्व० १३ । १६ )

१. बाचार्य भरतगुनि ने लीला विलास आदि की छियों के स्वभावव अलझारों में गणना की है परन्तु इन्हों की 'चेष्टालझारों' में गणना करना बौद्ध बाचार्य राहुल का मत है। 'चेष्टालझारों' में राहुल ने ही भीरु, मद, भाविकत्व तथा उपम की भी गणना की है। सागरनन्दी ने भाविकत्व को 'चेष्टालझारों' में नहीं लिया तथा हाव, हेला के साथ विवेष मी जोड़ दिया है। विवेष का यहाँ रहना पद्मश्री का अनुकरण है जिनने अपने सुप्रमिद् प्रभ्य 'नागरसर्वेश्वर' में लीला आदि सभी 'चेष्टालझारों' का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बर्गन दिया है। पद्मश्री बौद्ध ऐसक पै तथा यह भी सम्भव है कि पद्मश्री ने यह प्रेरणा बाचार्य राहुल से ही प्रहग की हो !

अपनी बेणी को ऊपर चढ़ा कर लटाजूट जैसी बॉधती हुई, घन्दन की धूलि को शरीर पर लेपन कर शुभ्र था बना लेनेवाली, केत की की पहुंची को अपने मस्तक पर बॉध कर अर्धचन्द्र बना लेनेवाली, कमल-नाल के तन्तुओं से सर्प के यज्ञोपवीत जैसे धारण किये हुए अपने विवाह के पूर्व सखियों के समक्ष मनोविनोदार्थ अपने भावी वर शिवजी के समय स्वरूप का अनुकरण करनेवाली देवी पार्वती जो आपको समृद्धि प्रदान करें।

यथा—

एवं बाहून् विष्ठे चलयति चरणवेवमेवञ्च दृष्टिं  
न्यस्यत्यग्रे सखीनामिति हरनट्टै न्यस्यमाने भवान्या ।  
प्रस्तावारब्धपूर्वं पृथुजघनतयालभ्यमानान्तरान्त—  
श्रीडानारुद्रदूरोऽसनरयविधिर्दण्डपादोऽवताद्वः ॥

तथा—

जब अपनी सखियों के समक्ष पार्वती ने शिर के नृत्य को प्रस्तुत किया तो वे शीघ्र में इस प्रकार कहती चलीं—‘वे अपने शाहुओं को [ नृत्य के अवसर पर ] इस प्रकार रखते थे, फिर इस प्रकार अपने पैरों को उठाते थे और इस तरह अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाते थे’। इस प्रकार नृत्य के शीघ्र कह कर जब पार्वती जी ने अपने उठाये हुए सीधे तने पैर को नीचे रखा तभी अपनी भारी जघा और हिलते हुए घब्बों के कोनों को देख कर उन्हें लज्जा आ गयी और (पुनः) वे दूर तक फैलाए हुए उसी पैर को देख से पृष्ठी पर सीधा न रख सकी। भगवती पार्वती जी का इस प्रकार उठा हुआ सीधा पैर आप सभी की रक्षा करे।

पिलासः—ग्रियोपगमने यत् स्थामासनगमनविलोकितेषु विकारोऽ-  
कस्मात् फोपस्मितचमत्कृतयो मुखस्य विकूणनं स विलासः । तदथा—

विलास—प्रिय के समीप जाने के समय यहे होने, घैठने, चलने और देखने में अकस्मात् विशेष परिवर्तन के साथ क्रोध, मुसकुराहट और आश्रय मिथित भारों में मुँह को रखते हुए इठलाना ‘विलास’ कहलाता है। जैसे—

स्लितपहुङ्लं पादन्यासे विलोकितमन्यत  
स्थितिरविषये वक्त्राभ्योर्जं प्रयाति विकूणनम् ।

स्मितमपि मुघा व्यर्थं क्रोधो वृथैव चमत्कृति—  
दर्दितसविधं यान्त्यास्तन्त्र्याः विलासरसो दद्यम् ॥

( नाग० स० १३ । १८ )

प्रिय के समीप जाने की दशा में कुशाङ्गी युवती द्वारा अपने पैरों को उठा कर आगे रखने में ठमकना या चूक हो जाना, बिना किसी लक्ष्य के ही दृष्टि को घुमाना और उसका किसी एक स्थान पर न दिकना- मुरल कमल को सिकुड़ाना, अकारण ही मुसकान बिखेरना तथा आश्रय करना आदि ऐसे कार्य हैं जो मौज और आकर्षण के करतब बन जाते हैं ।

**विच्छिन्निः—** मालाभरणाच्छादनविशेषणा कुतश्चित् प्रियापराधादीर्घ्याऽनादरेण सखीनां प्रयत्नाद्वाराणं विच्छिन्निः । तथा—

**विच्छिन्निः—** प्रिय के द्वारा ( किसी ) अपराध के हो जाने पर खीझ या ढाह के कारण फैरों गए माला, भूपण, बछ आदि प्रियध पदार्थों को सखियों के द्वारा पुनः नायिका को पहनाया जाना 'विच्छिन्निः' कहलाता है । जैसे :—

सखि प्रेयान् स्वामी स्वदितमकरोत् सन्तुमुचितं  
विघतस्वालङ्कारं नहि नहि बलादर्पयसि किम् ।  
अयि श्रेयश्चिन्त्यं सततमवलाभिः प्रणयिनो  
विमूर्पा मा मुख्यं प्रतनुमपि विच्छिन्निविप्याम् ॥

( नाग० स० १३ । ८ )

मति, तेरे प्रिय स्वामी ने यदि कुछ अपराध ( प्रिय ) भी किया हो तो उसे क्षमा करना ही उचित है ( अतः ) तुम इन अलङ्कारों को ( अब ) पहिन लो । अरे, तुम मुझे जबरन इन अलङ्कारों को क्यों पहिना रही हो ? अरी, स्त्री को अपने भर्ता का सदा मंगल विचारना चाहिए और महनों को कभी इस प्रकार नहीं उतारना चाहिए क्योंकि ये थोड़े होने पर भी ( प्रिय को आकर्षित करने में ) थड़े शोभा बढ़ाने वाले या प्रभाव रखने वाले होते हैं ।

**अन्ये—** प्रियेण दत्तं प्रीतिनिवन्धनं स्वल्पमपि मूर्षणं विच्छिन्निमिच्छति । यथा—

दूसरे आचार्यों के भत में प्रिय के द्वारा दिया हुआ छोटा सा यहना भी प्रीति की निशानी होने से जब नायिक द्वारा धारण किया जाए तो उसे भी 'पिच्छिति' समझना चाहिए। जैसे :—

सपलीनामग्रे	शिरसि	दयितेन	प्रतिधृता
वहत्येका	शुप्तामपि	वकुलमाला	वरतनु ।
न वस्तु	ध्यातव्य	महदहृभेतव्	प्रियजने
प्रवृत्ति	प्रेमोऽस्मिन्ननुहरति	सौभाग्यवसतिम् ॥	

यह युवती अपनी सोतों के बीच सूखी वकुलमाला को भी-जो उसके प्रिय ने भस्तक पर गजे जैसी उसे पहिनाई थी-धारण किये हैं। (क्योंकि) प्रियतम के द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु के छोटे-छड़े होने का विचार अनुचित (होता) है। यह तो प्रेम का वह कार्य (या निशानी) है जो स्वयं सौभाग्य का स्थान होने से एक विशिष्ट आकर्षक स्वरूप लिये होता है।

**विभ्रमः**—अनिमित्तग्रासनादुत्थायान्यत्रगमनं प्रियप्रारब्धकथ-  
माक्षिप्य सख्या आलप्न्मुघैव हस्तिकोषौ पुष्पादीना वाञ्छा, तस्य  
सहस्रैव परित्याग, वस्त्राभरणमाल्यानामकारणत खण्डनं मलनं (वा)  
**विभ्रमः । तदथा—**

विभ्रम—विना कारण अपने स्थान से उठ कर चल पड़ना, अपने स्वामी की बातों को अनसुनी कर सखी से सभायण करने लगना, यिना कारण हँसना और क्रोध करना, पुष्पो आदि की इच्छा करना और फिर एकदम उँहें फँक देना, यद्य अलंकार तथा पुष्पमालाओं को तोड़ या मल ढालना आदि को 'विभ्रम' समझना चाहिए। जैसे :—

आस्ता नाथ मरत्कथा सखि लता सित्ता त्वया माधवी
वान्तैतन्मम सम्प्रयच्छ दुसुमं फँ वाऽमुना मे फलम् ।
माल्य निर्मलयामि मौक्षिकमिदं न्यस्तं त्वया दद्यताम्
इत्थ विभ्रमसम्भ्रमो मदयति प्रेयासमेणीदद्य ॥

( नाग० स० १३ । १४ )

अन्यस्त्वन्यथा लक्षणमाह—'योपिता योवनविभारो विभ्रम इति ।'

तदथा—

स्वामिन्, अब अपनी बात रहने दो। सति, तुमने उस माथवी लता को तो सीच दिया है ? प्रिय, जरा इस पुष्प को तो मुझे दे दो या अब रहने दो, इससे कोई लाभ नहीं है। मैं अब इस पुष्पमाला को मल ढूँगी और तुम्हारे द्वारा लादी गयी यह मोतियों की माला भी जल जाए तो अच्छा। इस प्रकार मृगनयनी ललनाओं के चपलता-पूर्वक किये जानेवाले प्रदर्शन उनके प्रियों को और भी मदहोश कर डालते हैं। दूसरे आचार्यों के अनुसार ‘विभ्रम’ का लक्षण है—‘स्थियों में स्थित उदाम यीवन का जोश या विकार ही ‘विभ्रम’ है।’ जैसे—

यस्मिन्नात्यविद्युक्। स्मितयुधावैर्यकविपक्षभक्तौ  
रागाङ्गो रतिसूत्रधारविकृतिप्राप्नुविभ्रमः ।  
तारुण्यं सुतनोः स्मरप्रकरणं सामग्र्यमप्याश्रितं  
नो विद्मो कतमोऽन्नं नायकपदे धात्राधिरोपिष्यते ॥

जिसमें धात्यकाल (कन्यात्व) ही विद्युक है, सुसकानों की अमृत वृष्टि ही विष्ट्रम्भक है, अनुराग अक है, रति सूत्रधार है, हृष-भेद [धार-धार अनेक स्वरूप बदलना,] ही पूर्वग है तथा यीवन ही विभ्रम है ऐसा इस मुन्दरी का प्रणय ही एक नाटक [स्मर प्रकरण] है जो इन अङ्गों से अपनी पूर्णता तो बनाता है पर अभी तक यह विदित नहीं हो पाया कि इस नाटक के—नायक पद पर विधाता किसे बैठाएगा ?

किलकिञ्चित्तम्—यत्र किल शुक्रदितहसितकोषमयव्यामि-  
थरूपमिष्टजनदर्शनाविमूर्तिर्पवशात् कियने तत् किलकिञ्चित्तम् ।  
तथा—

किलकिञ्चित्—जहाँ बिना आँसुओं के रोना तथा अकारण हास्य, कोध और भय से मिथित स्वरूप को प्रिय के दर्शन से होनेवाले हर्ष के अवसर पर उतावली में प्रकट किया जाए तो उसे ‘किलकिञ्चित्’ समझना चाहिए। जैसे :—

कन्दत्यवाप्तमभये भयमातनोति  
कोपच्च नाटयति तत्क्षणमेव हास्यम् ।

आलम्ब्य हर्षवला किलकिञ्चित्तार्थं  
भावान् विभावयति पुण्यवतो उन्तिकस्या ॥

( नाग० स० १३ । १२ )

यह युवती बिना आँसुओं को निकाले ही रोने लगती है, बिना किसी भय के ही ढरती है और कभी क्रोध और कभी मुमकान बतलाती है। इस प्रकार हर्षविभोर हो कर यह 'किलकिञ्चित्' के सभी लक्षणों को प्रियतम के सभीप बतलाने हुए उसके सौभाग्य [ भाग्यशालिता ] की सूचना है रही है।

**मोद्वायितम्—**प्रियतमकथाश्रवणावर्जितकर्णया यद् भट्टक्ल्वा-  
ङ्गानि विजृम्भितं तम् मोद्वायितम् । तदथा—

**मोद्वायित—**प्रियतम के दिप्य में कोई यात चले तो वसे सुनने के लिये अपने कान लगाना और बीच बीच में अपने अवयवों को आलस्यवश जमाई लेते हुए मरोड़ना आदि को 'मोद्वायित' मममना चाहिए। जैसे —

तस्याद्ग्रिद्वितयं नमन्ति विवृधा. सैवैकरुं सर्ववित्  
त मृत्युञ्जयमामनन्ति मुनय. सोऽयाप्यपाणिग्रहः ।  
इत्याकर्ष्ण कथा हरस्य विजयापार्श्वे विवाहात् पुरा  
भट्टक्ल्वाङ्गानि विजृम्भितं गिरिभुवो मोद्वायितं पातु वः ॥

( नाग० स० १३ । २८ )

भगवती पार्वती का वही मोद्वायित भाव आपकी रक्षा करे जिसमें विवाह के पूर्व विजया ममी के नमीप बैठी हुई पार्वती ने—'देवगण उनके चरणों की वन्दना करते हैं, प्राप्तिजन उन्हें मृत्युञ्जय मानते हैं और अभी उनका विग्रह नहीं हुआ है' आदि शिवजी के किये गए धर्णों को बड़े ध्यान से मुना और किर अपने अङ्गों को मरोड़ा और जमाई ली।

**कुट्टमितम्—**प्रियस्य रतिसम्मोगे गाढपरिपीढनेषु उदामहपरिशेन हि कि पीड़यसि न सहास्योति मुखे दुखाविप्करणं कुट्टमितम् । तदथा—

**कुट्टमित—**सम्मोग काल में प्रिय के द्वारा किये गए गाढ आलिङ्गन-जन्य आनन्द प्राप्त करते हुए भो दुख का प्रदर्शन करते हुए—'आप

क्यों दुःख दे रहे हैं ? हाथ, अब नहीं सहा जाता' आदि कहना 'कुट्टमित' समझना चाहिए। जैसे :—

कि बान्त निर्दयमयं भुजक्त्नदलीभ्या  
द्वास्यां निपीडयसि मां न सहिष्युरत्स्नि ।  
वामप्रुवामिति मुत्तेष्यपि दुस्तमाजां  
घन्य. शृणोति यदि कुट्टमिताक्षराणि ॥

( नाग० स० १३ । ३० )

'प्रिय, तुम अपनी दोनों कोमल भूजलताओं से मुझे डरना निर्दयतापूर्वक क्यों दबा रहे हो ? मैं इसे सहन नहीं कर सकूँगी !' सुख में भी दुःखों को बरलाने वाले सुन्दरी युवतियों के ऐसे 'कुट्टमित' दशा के शब्दों को जो सुनता है वह निश्चित ही भाव-शाली है।

यथा च—

आष्टेषे निविदे ददत्यपि वपुर्नुते न नेचशरं  
वाञ्छल्येव नसहृतं वितनुते जातां चमत्कारिताम् ।  
दरे चाघरमस्य सप्तनविधौ धूनोति हस्ताम्बुनं  
तन्वी कुट्टमितश्नेण कमितुश्चेन. समाकर्पति ॥

अपने शरीर को आळिङ्गन की गाढ़ता से बांध कर भी जो नहीं-नहीं शब्दों का चचारण करने लगती है। नशशृत की चाहरें रख कर भी उसके अनुभव में जो आश्र्य जवाती है और अपने अधरों को चुम्बन के लिये अपित करने के साथ ही अघरसन के समय अपने करकमल को कंपाती है। इस प्रकार 'कुट्टमित' की चेष्टाओं से वह कुशाङ्गी युग्मो अपने प्रियतम का मन मोहित कर लेती है।

**विव्योकः**—इष्टाना भावानां प्रयोऽप्यनास्थागर्वमभव. पाद-  
प्रहारः प्रियत्य हृतागम. चरणयोः काञ्च्या संयमनं पुण्यमाल्या ताढन-  
मनादरपरिग्रहो वा **प्रिव्योकः** । तद्यथा—

**विव्योकः**—अपने इष्ट पदार्थों को भी अनिच्छा या अहंकारवश उक्ता देना, अपराधी प्रिय को पैरों से पीटना, उसके पैरों में करथनी

बाँध देना, पुष्पमाला से पीटना या अनादरपूर्वक भर्त्सना करना 'गिर्जोक'  
समझना चाहिए। जैसे :—

अनास्था                            वस्तुनामभिमतवरणामुपहतौ  
घनो                                  गर्वस्तन्त्र्या    रुपविहसिताइम्बरविधिः ।  
महार पादाम्या    यमनमपि काव्या चरणयो  
कृतगा विव्वोकं तदिदमिति घन्योऽनुभवति ॥

( नाग० स० १३ । १० )

वह सुन्दरी अपनी इष्टतम वस्तुओं को सामने रखने पर भी उन्हें  
देखते के लिये अपना मुँह ऊँचा नहीं करती है। जिसका बड़ा हुआ  
गर्व क्रोध थीर हँसी के घडे घडे आढ़म्बर खडे करता है। जो  
अपराधी प्रियतम को अपने पैरों से ठोकर लगाती है और उसके पैरों  
को करपनी से बाँध देती है! इस प्रकार के 'गिर्जोक' का अनुभव  
लेनेवाला उसका अपराधी पुरुष सचमुच भाग्यशाली ( होता ) है।

**ललितम्—चरणनिपात-रणरणित-नूपुरं मसुण्डरणरेखावशेष-**  
**स्थितप्रिवस्तिरक्षसंस्थानसमुद्भवित-भुजमुर स्थलप्रसारणाद्विगुणपृथक्कृ-**  
**तत्तनस्तवकं स्कन्धावसक्तैककुण्डलमुद्भवितम् साच्चीकृतविलो-**  
**कितं ललितमिति । तथा—**

ललित—जहाँ पैरों को प्रध्यी पर रखने पर नूपुरों की झज्जनाहट  
होने लगती हो, कोमल चरणों को प्रध्यी पर टिकाते हुए रडे हो जाने पर  
रेखाओं की लट्टर अकित हो जाती हो, मुजाओं के ऊपर उठाने पर नामि-  
प्रदेश में तीन रेखाएँ लहर जैसी उभर आती हों, छातियों वे फैलाने पर  
दोनों उरोज गुच्छों जैसे दिमाजित हो पर उभर आते हों, वन्धों से  
कुण्डल टकराने लगते हों या टिक जाते हों और भौंहों को नचा कर  
तिरछी निगाढ़ों से देखा जाता हो तो उसे 'ललित' नामक अलद्वार  
समझना चाहिए। जैसे —

स्कन्धाश्रितकमणिकुण्डलमुद्भविते-

अवृद्धिसाचिवितिरेहितद्विषयातम् ।

चेतो न कस्य रलितं हरति प्रियाया-

हासो यतोऽशुश्निलद्वदेन्द्रुक्तनित ॥

( नाग० स० १३ । ३६ )

'अपनी भौहरूपी लता को शुका कर वह तिरछेपन से जब देखती है तो उस सुन्दरी के एक बन्धे से मणिजडित कुंडल टकराने लगता है और मुमकानों के बीच मुँह से बाहर आनेवाली दाँतों की चन्द्रिका कपड़ों से टकरा कर रुक जाती है' इस प्रकार प्रिया के लक्षित अलङ्कार किम प्रिय के चित्त को नहीं भाने या मुग्ध कर लेते ?

**विकृतम्**—वाच्यानामर्थाना ज्ञानेऽपि यदभाषणं तद् विकृतम् ।

तथया—

विकृत ( विहृत ? )—किसी पदार्थ का ठोक से ज्ञान रखने पर भी उसका सही वर्णन न करना 'विकृत' समझना चाहिए । जैसे :—

कण्ठे क एष तेव धूमं नूपुरोऽयं  
तत्पादभूषणमयं वलयस्तदानीम् ।  
इत्यादिवाच्यमविभाव्य ददो मृगाद्या  
ज्ञानेऽपि तद् विकृतमुत्पुक्तां तनोति ॥

( नाग० स० १३ । २४ )

'प्रिय, तुम्हारे गने में क्या है ?

यही देंजन, और क्या ।

तब तो यह पैरों का गहना है ।

अच्छा, तो इसे कड़ा समझ लो, इस प्रकार ज्ञान रहते हुए भी उम मृगन्यनी द्वारा—बिना पदार्थ का ध्यान रख कर किये हुए संभाषण प्रिय की अभिलाषा और कौनूहल को और भी बढ़ा देते हैं ।

**हावः**—हरविलोचनानलग्नलित मदन—ताप-निर्वापण-मुषा—सार-सोदरस्मितं प्रतिपदभाङ्गिविदगथवचनमपाङ्गमागमिकविलोक्तिं स्नेहनि-स्यन्दि ग्रेमानुगन्धि कुलपालिकाचरणसूचिदाक्षिण्यानुदर्शिं वाष्पमररुद्ध-कण्ठुटि दुखनिर्वापि वाष्पगद्वादशादपितं यत् तरुण्या । स हावः ।

तथया—

हार—प्रिपुरारि शिवजी के रुतीय नेत्र की अग्नि से दग्ध होनेवाले काम के नन्ताप को दूर करने में समर्थ तथा अमृत के वार्तिक-सार के नमान मुसादान से युक्त, उच्चारित किये गए प्रत्येक पद में कलापूर्ण अभिव्यक्त के साथ उक्ति कौशल लिये हुए चिरबनों को भेजने और

सीचने के वायें से स्नेहभिव्यक्ति करनेवाले हृषिपात के साथ प्रणय के परिणामों के निर्दर्शक, छुलीनता और विनयपूर्ण वृत्ति के सूचक, उदासता और सारल्य से अनुमृत, आँसुओं से ढूँघे कण्ठ से उचारित तथा स्नेहाशु से संरलित युवती के गद्यगद प्रेमोद्गार जिनके वयन मान्न से दुराय शान्त हो जाए तो ऐसे उड़ातों से आपूर्ति उक्तियों को 'हाव' मममना चाहिए ।

जैसा कि कहा भी है :—

प्राप्तेषु शृङ्खारसाश्रयेषु भावेषु कामाङ्गुरचिह्नभृतम् ।

उत्पद्यते परु स्मितवीक्षितोक्तम् उन्मीलितं यामतया स दावः । ३४८ ।

( ना० स० १३ । २० )

जो शृङ्खार रस का आश्रय लिए हों, जिनमें काम या अमिलाप के अंगुर मूर्चित होते हैं, जो मुमरान और दृष्टिक्षेप के माय वहे लाँए सत्या ऐसे प्रतिरूप वचनों से जो प्रस्तु होता है उसे 'हार' समझना चाहिये ।

हेला—शृङ्खारसपूर्वदौ या रत्यभिनिपेशनिष्ठा सा हेला ।

तथाया —

हेला—शृङ्खार के विस्तार प्राप्त करने या प्रेम के अतिराय घट जाने पर रनि के लिए वो जानेगली हठ का नाम 'हेला' है । जैसे :—

आसउ रत्यमेव तुम्भनविधिर्याम्ब्या दिनालिङ्गनं

तत्पान्ते लघनेन वेष्युमता पर्यायण जानुनि ।

क्रोधोक्ती भम रथ्येत्यनुगयस्तन्म्याः स्मरक्षीष्टित-

प्रैदेव्याभिरति प्रियस्य हृदयं हेला बलात् फूर्पति ॥

( ना० स० १३।६ )

जब उस दृशाङ्की ने ( अपने ) प्रिय का तुम्भन लेखर दिना किमी अनुनय के कम्पित होने वाली अपनी जंधाओं को नायक के घुटनों तक फैला कर आलिङ्गन करते हुए प्रिय के बिङ्गोने के पक्के फोने पर करने हुए यह कहा कि—'इ प्रिये, तुम ब्रोध में कहे हूए मेरे वचनों को भूत जाओ' और इस प्रकार भक्तों से अपनी संमोग की शब्दल आधांशा को प्रस्तु किया तो इस 'हेला' के द्वारा वेण से प्रिय का मन उसने अपनी और यलान् आकर्षित कर डाला ।

**पिक्षेपः—** अर्धविसक्तधन्मिळु विसस्युल-निवेशिततिलक लोच  
नैकलमकज्जलबोऽवहेलधृतपतितजग्धनसिचयाङ्गल ताम्बूलरागलेखला-  
ब्धितैकाघरप्रदेशो विविधविकारनाथ्यनर्तको पिक्षेपः । तथथा—

**विक्षेप—** 'पिक्षेप' मे केशरचना या चोटी का आधा भाग बैंधा  
और आधा सुला रहता है, ललाट पर तिलक ठीक तरह से नहीं  
लगाया गया होता है, एक आँख मे ही काजल का धोडा स्पर्श मात्र  
किया जाता है, जघाओ से रिसकने वाले कपडे को लापरवाही से  
यामा जाता है, एक या ऊपरी ओठ पर ही पान की ललाई छायी  
रहती है और अनेक मानसिर विकारों या परिवर्तनों का (जिसमे)  
अतवरत नर्तन चलता रहता है [तो इस सभी क्रियाओं के द्वारा  
'पिक्षेप' समझना चाहिए] । जैसे—

धन्मिळु बद्धमुक्त तिलकमसकलन्यस्तवृचित्त धरे  
दृष्टवेक्ष वालाङ्गनमुरसि रणतकिङ्गिणी रत्नकाञ्जी ।  
अंसोत्किसार्धहारा क्रमुकरसकणालब्धितैकाघरान्ता  
कान्ता विक्षेपशिक्षास्वपि हरति मनाकूस्तरुद्धोरवासा ॥

यद्यपि उम सुन्दरी के केश का जूड़ा आधा ही बौंध कर छोड़ दिया  
गया है, ललाट का तिलक ठीक स्थान पर नहीं लगा है, एक आँख मे  
काजल का स्पर्श मात्र हुआ है, मनमनाने वाली मणिनटित करथनी  
छाती तक रिसक आयी है, गले का हार ऊपर उठा कर कधों पर रख  
लिया गया है, ओप्रे के पक भाग में ही पान सुपारी का रग चढ़ पाया  
है और जघाओं से धीरे-धीरे रिसकने वाले वस्त्र का कोना यामा  
गया है पर फिर भी यह 'पिक्षेप' प्रियतम के मन को अपनी ओर  
सीचने मे समर्थ हो रहा है ।

**मौग्ध्यम्—**

**मौग्ध्यं—** वाल्यव्यपगमाद् यद्विसद्य बचनम् । लोके यस्य  
आरिमेति व्यवहार । तथथा—

यदादि मे चन्दनविन्दुरेप सर्वा ललाटे लिखितस्तदादि ।

चिरोव्यथा मेऽस्ति कथ नु मात पर्याहरं पौरजना वहन्ति ॥

यथा च—

के द्रुमास्ते क वा ग्रामे सन्ति केन प्रोपिताः ।

नाथ मल्कङ्गणे न्यस्तं येषा मुक्ताफलं फलम् ॥

**मौर्य**—यचपन धीत जाने पर भी भौलीभाली या अप्रारूपितिक धार्ते करना 'मौर्य' समझना चाहिए। इसको लौकिक भाषा में 'आरिम' कहा जाता है। जैसे :—अरी मैया, मेरी सरियाँ ने उव से मेरे भाल पर चन्दन तिलक लगाया तभी से मेरे सर मे चसके भार के कारण दर्द होने लग गया। फिर नगर के ये मजदूर इद्दने भारी सामान को किस प्रकार ढो लेते होंगे, जरा बतलाओ तो ?

और भी—हे स्यामिन्, बतलाइये ये वृक्ष कौन हैं, किस गाँव में होते हैं और उन्हें किन ने लगाया है ? जिनके फल मेरे कंकनों में जड़े हुए ये मोसी हैं !

**मदः**—तारुण्यातिशयजन्मा रमसः सुरापानप्रणयी मद् इव नैक-  
विकारभूमि. **मदः** । तथा—

**मद**—उदाम यीवन में उत्पन्न होने वाला एक जोश जो मदिरापान से होने वाले नशे के समान अनेक परिवर्तन या विकारों को उत्पन्न कर दे तो उसे 'मद' समझना चाहिए। जैसे :—

आलापः स्तितकौमुदीसहचरो दृष्टिः प्रहर्षेण्डसा

मूर्त्याघरदीक्षिता चरणयोन्यसिः समे भद्रुर् ।

वैपेषु क्षणिरस्पृष्ठा रतिविधायद्वैतवादाश्रयं

तन्व्याः नैकविकारमूर्धधुमदग्रायो मदः स्फूर्जति ॥

उमड़ी धार्ते मुसकान वी चाँदनी के साथ निकलती हैं, उमड़ी आँखें हर्ष के उल्लास से चमकीली बनी रहती हैं, उसकी भौंहों ने नृत्यक्षण की दीशा ले ली है और उसकी धाल हर ढगों पर लड़पड़ती रहती है। अपनी सजावट में उसे कम लगान रह गया है और रतिकीदा के व्यवहार में अद्वैतवाद का मिद्दान्त अपनाया जाता है। इस प्रकार अनेक परिवर्तनों के प्रदर्शन में धारणीभूत उम सुन्दरी का मद भाव मदिरा एवं नशे के समान प्रकट होकर मदमस्त बना रहा है।

**तपनम्—** प्रियजने कापि गरे प्रहरार्घमपि नागच्छति स्वयमेव  
परिकल्पित-दौर्भाग्य-ज्वरणहीता क्षणस्तदितधसित-स्वप्न-द्वारावेक्षण शिरो-  
व्यादिविपर्यं तपनम् । तथा—

**तपन—** कार्यवशा बाहर जाने वाले प्रिय के आधे पहर तक न  
लौटने पर नायिका द्वारा उसके प्रिय में स्वय ही किसी अनिष्ट या  
दुर्भाग्य की कल्पना करते हुए बराकान्त हो डठना, क्षण क्षण में  
सिसकना, चोरों से सास लेना, सपने देखना, दरबाजे की ओर दृष्टि  
दीड़ाना तथा ( इसी कारण ) सर दर्द होने लगना आदि को ‘तपन’  
समझना चाहिए । जैसे :—

आसे न प्रहरार्घमेव दयिते भद्रकत्वा नितम्बे मिथ  
संसक्ताङ्गुलिजालमध्यमधुना सख्य कृतार्थ इति ।  
व्याहार स्वपनं मुहुः प्रशंदित गौर्यर्थनाभ्यर्चनं  
तन्वक्षया तपनं करोति कृतिन् प्रेमाणमुच्चैरिदम् ॥

( ना० स० १३ । ३४ )

प्रिय के चले जाने के बाद यद्यपि अभी आधा प्रहर ही बीता है  
परं फिर भी एकान्त मे अपनी कमर झुका कर उस पर अपनी सारी  
छगलियों को एक साथ मिला कर रखते हुए वह कहने लगी—‘अब  
मेरी मसियों ( सौतों ? ) को सन्तोष मिलेगा’ फिर कई बार नीद लेते  
हुए, कमी रो कर उस कृताङ्गी युवती ने पार्वती जी से मन्वत होते हुए  
पूजन करते हुए प्रार्थना की और इन सभी बातों ने उसके भाग्यशाली  
नायक के अनुराग को और बढ़ा डाला ।

सङ्कीर्णा एवैते प्रायेण भन्नत्यलङ्घाराः ।  
एकस्योत्पादः पृथक् पृथक् नेष्यते शुद्धः ॥ ३४९ ॥

तथा हि—

लोकेषु दुर्लक्षमनोनिरिदम्  
आत्मानमारेदयितुं त्वरान् ।  
स्त्रीणां पिलासादि-विचेष्टितानां  
क्रामत्प्रवृत्तिं न सहत्यनङ्गः ॥ ३५० ॥ इति ।

( एक ही उदाहरण में ) ये अलझ्वार प्रायः मिले हुए या साथ साथ ( भी ) प्राप्त होते हैं। इनमें प्रत्येक का पृथक्-पृथक् शुद्ध या असिद्धित स्वरूप में प्रयोग आवश्यक नहीं होता है।

यद्यपि काम अदृश्यस्वरूप याला होता है परन्तु फिर भी वह जात् के सभी जन मानसों में व्याप्त रहता है और वही शीघ्रता से जब प्रकट होता है तो खियों के आन्तरिक विलास आदि चेष्टाओं के द्वारा अलझ्वारों की चिस्तारक गति को किसी प्रकार ( की ) क्षति नहीं पहुँचावा।

अथ नाटिका—

यथोच्यते—

सभेदा कौशिकी यत्र शृङ्खारद्वयमुज्ज्वलम् ।

चतुरङ्कं सहासश नाटकं नाटिका चिदुः ॥ ३५१ ॥

नाटिका—अब हम नाटिका का स्वरूप बतलाते हैं। जैसा कि कहा भी गया है :—

जिसमें कौशिकी वृत्ति के ( सभी ) अङ्ग हों, शृङ्खार रस के दोनों [सर्वोग, विप्रलभ्य] प्रकारों का निरेश रहे, चार अङ्क हो तथा नाटक के समान हास परिहास युक्त घटनाएँ हो तो उसे 'नाटिका' समझना चाहिए।

तथा—

प्रकरणनाटकभेदादुत्पाद्यवस्तुविपया नायको यत्र नृपतिः ।

अन्तःपुरसङ्गीतककन्यामधिगृह्य कर्त्तव्या ॥ ३५२ ॥

स्त्रीप्राया चतुरङ्का ललिताभिनयात्मिका सुविहिताङ्गी ।

राजोपचारयुक्ता प्रसादनक्रोध[दम्भ]संयुता चापि ।

नायक-दूती-देवी-परिजनरती नाटिकेति विज्ञेया ॥ ३५३ ॥

( ना० शा० २० । १०७-१०८ )

तथा [ भरत मुनि ने भी ] कहा है कि—

नाटक तथा प्रकरण के मिश्र लभणों से उत्पाद्य कथागस्तु और श्रिय राजा जैसे नायक को तथा अन्तःपुर में विश्वासन किसी सगीत वलायिदू कन्या दे। चरित्र योगेष्वर जिमषीरचना यीजाए उसे 'नाटिका' कहते हैं। इसमें स्त्री पात्रों यी बदुलता रहती है, चार अङ्क होते हैं, लक्षित अंग विन्यासों से पूर्ण अभिनय प्रस्तुत किया जाना है, राजकीय

आचार व्यवहार तथा कीड़ा यिहारों का शालीन प्रस्तुतीकरण रहने के साथ नायक, दूती, महारानी तथा उनसी दासियों आदि से युक्त रहने वाली घटनाओं से पूर्ण नाट्यरचना को 'नाटिका' समझना चाहिए।

तत्र समेदा कैशिकी वृत्ति । नर्म-नर्मगर्भ-नर्मस्फोट-नर्मस्फङ्गा अस्वारोऽस्या भेदाः । शृङ्गारद्वय सम्भोगो विप्रलम्बश्च । हासो विदूपक-विषयः । अङ्गचतुष्टयं मुखप्रतिमुखगर्भनिर्वहण-सन्धियुक्तम् । अन्तः-पुरे कथमपि निवेशिता कन्या परिणयविधियुक्ता । धीरलिता देवी, तस्या एव क्रोधः, तत्रैव राज्ञः प्रसादनविधिः । सम्भोगश्च देव्याः स्वाधीनभर्तृकाविषयः । कन्यायाः सम्भोगः विप्रलम्बश्च कर्तव्यः, येनास्या उत्कण्ठिता-विरहिणी-लास्याभिलापादयश्च (दशाः) दर्शन्ते । राजा चात्र भार्याजितं सविधेयः । न तु पूर्व-नायिकाप्रणयविरोधी । नायिका-यैव भर्तुरभ्युदयितः 'अतः परं किं ते करोमी' त्यभिधाय संहारः कर्तव्यः । अत्र निरर्थनं ग्रामेयी, रत्नावली चेति ।

लक्षण में कैशिकी के अगों के रखने का आशय है कि नाटिका में कैशिकी वृत्ति के सभी प्रभेद रखे जाएँ। कैशिकी के चार प्रकारों के नाम हैं—( १ ) नर्म, ( २ ) नर्मगर्भ, ( ३ ) नर्मस्फोट तथा ( ४ ) नर्मस्फङ्गा । शृङ्गार के ( दो ) प्रकारों से आशय है कि इसमें संयोग तथा विप्रलंभ शृंगार की योजना रहनी चाहिए । हास-परिहास विदूपक के द्वारा होता है । इसमें चार अंक होते हैं; मुख, प्रतिमुख, गर्भ तथा निर्वहण सन्धियाँ होती हैं । अन्तःपुर में निसी परिस्थिति या दुर्भाग्यवश रखी गयी [राज] कन्या के साथ [प्रणय के बाद] विवाह होने की घटना रहती है । इसमें महारानी धीरलिता (नायिका) होती है । इसी को क्रोध आता है और महाराज (नायक) द्वारा इसी को प्रसन्न किया या अनुगृह अन्ताया जाता है । इसमें संयोगशृंगार का स्वरूप महारानी के साथ दिवलाया जाता है क्योंकि स्वाधीनभर्तुका नायिका के ही दश में नायक रहता है । इसमें कन्या के साथ सम्भोग तथा विप्रलंभशृंगार के स्वरूपों की सयोजना रहनी चाहिए जिससे उमकी उत्कण्ठा, विरह-दशा लास्य तथा अभिलापा आदि दशाओं का प्रदर्शन किया जा सके । इसका नायक मुख्य रानी से ढरनेवाला (या दबनेवाला) होता है । नायक अपनी प्रथम प्रिया के साथ प्रणय का यिरोधी नहीं होता । इसकी

समाप्ति भी मुख्य (नाटिका) महाराजी के द्वारा—‘अय मैं तुम्हारे  
लिये और कौन प्रिय या इष्टतम कार्य करूँ’ आदि को-स्वामी के अभ्यु-  
दयार्थ—कहते हुए की जाती है। नाटिका के उदाहरणों में ‘प्रामेयी’  
तथा रक्षानली नाटिकाओं को लिया जा सकता है।

### तोटकम्—

तोटकं—नाटकस्यैव प्रमेद् । आदावमबुद्धः—

‘दिव्यमानुपस्योगोऽप्यहोऽप्यहो विदूषकः ।’

### नसकुटस्त्वाह—

‘दिव्यमानुपस्योगस्तोटक नाटकार्थकम् ।’ इति

### वादरायणोऽप्येवमाह—

‘तोटकं तद्वि विज्ञेय दिव्यमानवसम्भवम् ।’ इति च ।

तोटक या त्रोटक—(नाटिका के समान ही) नाटक का एक विशिष्ट  
प्रकार ‘तोटक’ कहलाता है। जैसा कि अदमकुट आचार्य ने घटलाया  
है—‘तोटक में दिव्य और मानव पात्रों का मिश्रण हो जाता है तथा  
हर अद्वृत में विदूषक पात्र दिव्यमान रहता है।’ नसकुट<sup>३</sup> आचार्य का  
मत है कि—‘दिव्य और मानव पात्रों का मिश्रण या संयोग रहना  
ही त्रोटक है क्योंकि इसके अतिरिक्त इसका सारा स्वरूप नाटक के  
समान ही होता है। वादरायण<sup>३</sup> आचार्य का भी मत है कि दिव्य तथा  
मानव पात्रों का संयोग होना ही ‘त्रोटक’ कहलाता है।

तदेव दिव्याया मानुपेण सह सङ्गमो यस्तदेव महस्तक्षणम् ।  
प्रत्यहविदूपकप्रवेहकस्तूपलक्षणम् । यथा विश्वमोर्वशीतोटक न तथाभृत-  
विदूपकम् । मेनकानहुप तु प्रत्यह-विदूपकत्वात् अदमकुटमतानुगमात्  
सिद्धमिति ।

१. प्रामेयी—रक्षावही के समान एक नाटिका भी जो आज नहीं मिलती।

२. नसकुट या उष्मेय विश्वमाय कविराज ने साहित्यदर्शण भी किया है।

(दृष्ट-सा० द० ६ । ११ )

३. वादरायण का उप्पेय दशरूपक की यद्युपर्यामिध की व्याख्या में भी  
मिलता है। (दृष्ट-स्थ यथा वादरायणोऽपि इत्यादि J. O. R. Vol VIII  
पृष्ठ ६१० )

इन लक्षणों से स्पष्ट है कि दिव्य नायिका के साथ मानव नायक का भिजन ही 'ओटक' की विशेषता या मुख्य लक्षण है। यही इसकी प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक अद्वा में विदूषक का रहा जाना ओटक की मुख्य विशेषता नहीं है।<sup>१</sup> जैसे विक्रमोर्वशीय नामक ओटक के प्रत्येक अद्वा में विदूषक की प्राप्ति नहीं होती। यदि अस्मकुट्ट के अनुमार प्रत्येक अद्वा में विदूषक अनिवार्य ही माना जाए तो किर 'मैनकानहुप'<sup>२</sup> को ओटक का उदाहरण मानना चाहिए।

### प्रकरणम्—

ये नाटके कथिता, सन्ध्यो यान्यज्ञानि लक्षणान्यलङ्घाराश्च ते सर्वे गुणा अस्मिन्नपि कर्तव्याः। केवलमयं भेदः। अत्र कविना वस्तुशरीरं नायकश्चोत्पादयते। तत् प्रकरणम्। यदाहाचार्यः—

प्रकरण—अब प्रकरण का लक्षण बतलाते हैं। नाटक के लक्षण में जिन मन्त्रियों, सन्ध्याकों, लक्षणों तथा अलङ्घारों को बतलाया जा सका है उन सभी की प्रकरण में भी योगजना करनी चाहिए। इन दोनों में यही अन्तर है कि प्रकरण में नायक का चरित्र कल्पित कथावस्तु के द्वारा नायकार प्रथित करता है। जैसा कि आचार्य भरत मुनि ने भी बतलाया है :—

यत्र कविरात्मयुद्ध्या वस्तुशरीरं च नायकश्चैव।

आ॒त्पत्तिकं प्रकृतुते तज्ज्येयं प्रकरणं नाम ॥ ३५४ ॥

( ना० शा० २० । ९३ )

अब नायकार कल्पनाप्रसूत कथावस्तु और नायक को लेकर अपनी नायकारना का निर्माण करे तो उसे 'प्रकरण' समझना चाहिए।

राज्यिदिव्यचरितहीनम् अमात्यविमवणिकृचरितरीरम्। यथा—

मृच्छकटिकम्, पद्मावतीपरिणयः, पुण्ड्रपितकम्। नोदाचनायकमिति

१. भावप्रकाशन के अनुमार ओटक के प्रत्येक अद्वा में विदूषक का होना हैं यिरुम या दृप्यगतिस्कार का मत विदित होता है ( ग्रन्थ—भावप्रकाशन G. O. S. पृष्ठ २३८ )

२. ऐनकानहुप ओटक का उत्तेज अस्मानन्द्योगिन् ने भी अपने प्रन्थ में किया है जिससे विदित होता है कि यह नी अर्डों का ओटक था। इसके उचितता का उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं है।

थ्रेष्ठितापसविटादिजनमूषितव्य । मृच्छकटिके सर्वमिदं शेयम् । पुरोधोऽ-  
मात्यविप्रवणिभृतवार्तायुक्तम् । यथा—मालतीपरिणयः । मन्दकुलखी-  
कृतं काव्यं ( कर्तव्यम् ) यदि कार्यवशाद्वेश्याकुलाङ्गनयोः सहमो  
भवेत् । 'अविकृतभाषाचारं तत्र पाठ्य प्रयोजयेत्' वेश्यामपि शौर-  
सेनीं पाठयेत् । यथा—पद्मावती परिणयः । पूर्वोक्तविप्कम्भकश्चात्रा-  
वश्यं कर्तव्य । अपरश्चाह—

प्रकरण के नायक या नायिका राजकुल या दिव्यकुल में प्रसूत  
नहीं होते । इसकी कथावस्तु किमी अमात्य, धणिक्, विप्र या इसी  
प्रकार के अन्य नायक के चरित्र को लेकर निमित्त की जाती है ।  
जैसे—मृच्छकटिक, पद्मावती परिणय का पुरपूर्णितक । ( नाटक के  
समान ) उदात्त नायक प्रकरण में नहीं रहता अतएव इसमें श्रेष्ठि,  
तापस, विट आदि पात्र रखे जा सकते हैं । ये सभी लक्षण मृच्छकटिक  
में विद्यमान हैं । पुरोहित, अमात्य, विप्र सथा धणिक् पात्रों के चरित्र  
और कार्य प्रकरण में रहना चाहिए । जैसे—मालती परिणय प्रकरण ।  
प्रकरण में कुलखी या कुलजा नायिका वा चरित्र इस प्रकार कम रहा  
जाता है जिसमें कुल परम्परा का पालन मात्र रहे या उसका  
परिष्कार होता हो । यदि आवश्यकतानुसार वेश्या और कुलजा नायिका  
का विशेष रूप जाता हो तो फिर कुलजा नायिका चरित्र गीण या  
अल्पकालीक रूप जाना चवित होता है ।

इसमें पात्रों के सवाद भाषागत रिकारों के बिना पात्रों की प्रकृति  
या कार्यों के अनुसार निर्दीरित नियमानुसार रखने चाहिए । इसमें

१. मालतीमाधव का ही धरना के आधार पर दूसरा नाम 'मालती-  
परिणय' रक्त गया होगा ऐसा समझना चाहिए ।

२. मन्दकुलस्त्रीचरितम् = अपार्ति इसमें किमी कुलजा का चरित्र ऐसा  
यतलाया जाए जो दाद में अपनी परम्परा को निर्वाह रखते या कुलपरम्परा  
या सर्वांगी का टीक से सरचन कर सकें या जिसका दाद में और परिष्कार हो  
जाए । दूसरा अर्थ इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि प्रकरण में कुलजा  
और सामान्या नायिकाओं के रूपे पर कुलजा का चरित्र कम स्थान में रहना  
चाहिए । या फिर इसका तीसरा अर्थ होगा कि प्रकरण में मन्दकुल = नीचकुल  
की मिथ्यों के चरित्र या कार्यों को भी कम रखना चाहिए या प्रकरण में द्वोटे  
परिवार की भी नायिका रही जा सकती है ।

वेश्यापत्र के संवाद भी ( कुलजा के समान ) शौरसेनी भाषा में रहने चाहिए। जैसे—पञ्चावतीपरिणय ने। पिक्कम्भर और प्रबेशक को भी प्रकरण में रखा जाए जिनके लक्षण बतलाए जा चुके हैं। अन्य आचार्य का मत है कि—

‘द्विवा रूपरूपेततु शुद्धं सद्वीर्णमेव च ।  
कुलबीसहितं शुद्धं सद्वीर्णं वेश्या सह ॥’ इति  
( ना० शा० २०-१०४ )

तत्र शुद्धं पुष्पदूषितकं सद्वीर्णं मृच्छकटिकम् इति ।

प्रकरण दो प्रकार का होता है एक शुद्ध और दूसरा सद्वीर्ण। कुलजा भाषिका के होने पर शुद्ध और वेश्या भाषिका होने पर उसे सद्वीर्ण प्रकार समझना चाहिए।

शुद्ध प्रकरण का उदाहरण है पुष्पदूषितक तथा सद्वीर्ण का मृच्छकटिक।

### व्यायोगः—

अथ व्यायोगः । ( स च ) प्रस्त्वातनायकविषय निष्पिक्न्याप-  
रिणययुतं सम्भोगमुक्तो वा एकाङ्कं । निषुद्धयुद्धवहुलं दीस-  
वीरौद्रसो विदितकथः सम्फेटवान्मुतनिर्वहणसन्धियुक्तो नाति-  
करुणशृङ्गारो व्यायोगं कर्यते सद्भिः ।

व्यायोग—अब व्यायोग का लक्षण बतलाते हैं। व्यायोग में एक अङ्क होता है, शसिद्ध नायक होता है तथा प्रणयकथा के अन्तर्गत किसी तापस का श्रृंगिकन्या से विशाह रखा जाता है। इसमें युद्ध या मल्लयुद्ध की प्रचुरता रहती है। बीर और रीद्रसों की तीक्रतापूर्ण अभिव्यक्ति, प्रस्त्वात कथावस्तु और सम्फेट आदि की योजना की जाती है। केवल मुख और निर्वहण सन्धि रहती है तथा करुण और शृङ्गारस का अधिक्षय नहीं रहता। इन्हीं लक्षणों से विद्वान् इसे ‘व्यायोग’ मानते हैं।

१. सामरनन्दी ने व्यायोग का बोई उदाहरण नहीं दिया। व्यायोग के उदाहरण घनञ्चयविजय या जामदग्न्यजय है जिःैं क्रमशः इसार्गवसुधाकर तथा नाव्यदर्पणसूत्र में दिया गया है।

**अङ्कः—**

**अथाङ्कः ।**

प्रख्यातवस्तुपिपयः अप्रख्यातः कदाचिदेव स्थात् ।

दिव्यपुरुषैर्पिंपुक्तः शेषैरन्यैर्भवेत् पुंभिः ॥ ३५५ ॥

करुणरसमाय निवृत्युद्गोद्धतप्रहारश्च शीषरिदेवनावहुल नाना-  
व्याकुलचेष्ट ( सात्यती- ) आरमटीकैशिकीविहीन कार्यस्त्वद्भू इति ।

**अक—अब हम 'अक' का लक्षण बतलाते हैं ।**

इसकी कथावस्तु प्रख्यात होती है, तथा कभी कभी अप्रसिद्ध या उत्पाद्य कथावस्तु भी होती है। इसमें दिव्यपात्र नहीं होता पर दूसरे सभी प्रकार के पात्र रहते हैं।

अङ्क में कठण रस की वहुलता रहती है, युद्ध और उद्धत चेष्टाएँ प्रदर्शित नहीं की जाती, अनेक प्रकार की व्याकुलताओं के साथ ख्रियों का विलाप भी लवा चलता है और ( सात्यती ) आरमटी और कैशिकी धृति से हीन 'अक' का निर्माण किया जाता है।

**डिमः—**

अथ डिमः । स च पोडगनायकयुक्त । यथा नरकोद्धरणम् । विल्यातवस्तुविपयः । यथा—शृंगोद्धरणम् । दीपरसकाव्ययोनि । प्रख्यातनायक । यथाह—'माया कुहक सम्पूर्ण इन्द्रजाल-समाकुल ।' यथा—तदेव । पिशाचसुरासुरयक्षरक्षोनागसद्गुल । उक्षा पातावकीर्ण । कैशिकीवृचिरत्र नोच्यते । अस्य चत्वारोऽङ्का सन्धयश्च मुखप्रतिमुखगर्भनिर्वहणात्याः चत्वार इति ।

**डिम—अब हम 'डिम' का लक्षण बतलाते हैं । इसमें सोलह नायक होते हैं । जैसे—नरकोद्धरण<sup>१</sup> ( डिम ) में हैं । कथावस्तु प्रख्यात**

१. अङ्क का उदाहरण सागरनन्दी में नहीं दिया । इसका उदाहरण विष-नाय के अनुसार रामिष्ठाययाति या रसार्णवसुधाकर के अनुसार एवगुणदला समझना चाहिए ।

२ यद्गुरुपमिध ने डिम के उदाहरण में तारकोद्धरण उदाहरण दिया है तथा एक दूसरे डिम शृंगोद्धरण का भी उद्घेष दिया है । ऐसा प्रतीत होता है कि रसकोश में लिपिप्रमाद के कारण तारकोद्धरण के स्थान पर नरकोद्धरण कर दिया गया होगा । [ द्रष्टव्य-J. O. R. Vol-VIII पृ० १२८ ]

रहती है। जैसे—वृत्रोदरण में है। उदीत या तीव्रता लिए हुए रसों का निवेश रखा जाता है तथा प्रख्यात नायक होते हैं। यह इन्द्रजाल, माया, ध्रम आदि से युक्त रहता है। जैसे उपर्युक्त डिम में हैं। इसमें पिशाच, देव, राक्षस, असुर, यक्ष तथा नाग आदि पात्र होते हैं। इसमें कैशिकी वृत्ति नहीं होती तथा मुख, प्रतिमुख, गर्भ तथा निर्वहण नाभक चार सन्धियाँ रखी जाती हैं।

**समवकारः—**अथ समवकारः । स च देवासुरवीर्यकृत । यथा-शक्तानन्दः । द्वादशनायकान्वित । तस्मिन् त्रयो विद्रवाः अग्निसमीर-कृत् युद्धवृत् पुरोपरोषश्च । तत्राद्यः—पलित्यङ्गे अन्त पुरामिसम्भ्रम । द्वितीयः—बलवाभ्यां कंसयुद्धार्थं कृपणस्य कीडापर्वतारोहणम् । शेषो मृच्छकटिकायामार्यकानुसरणे पुरोपरोषश्चेति । त्रयश्च कपटा । ( तत्र ) एको वस्तुकमज., अन्यो देवकृतः, अपरोऽन्यकृतः सुखदुखसम्भवः । तत्राद्यक्षित्रशालिकायां विदूषकस्य प्रवेशे दण्डकाष्टासादनकम्भूर्जर्व-कमटः । द्वितीयो वध्यशिलायां दैवागतरक्तपटासादनाज्ञीमूतदाहनस्य शिलावरोहणम् । शेषोऽपि पुंसवनाङ्के सूमायचितामुखयोः कैकेयी-मन्त्ररा-माया-चरणमिति ।

**मृद्घाराय त्रयः—**धर्मशृङ्खारः, कामशृङ्खारोऽर्थशृङ्खारश्चेति । तत्र प्रतादिविहित आत्महितहेतुर्धर्मग्रापको तत्र यथा—लामकायनाङ्के नन्दयस्या वाहणभोजनादि । क्षीसम्भोगयुत् सोन्मादः धर्मशृङ्खारः । यथा उदयनस्य वासवदचापरिणयः । स्वेच्छया यहुविधोपायसंयुतोऽर्थशृङ्खारः । यथा स्वदेशमात्मसात्कर्तुमुदयनस्य पद्मावतीपरिणय ।

**समवकार—**अब हम ‘समवकार’ का लक्षण बतलाते हैं। इसमें देव सेथा अमुरों का शौर्य प्रस्तुत किया जाता है। जैसे—‘शक्तानन्द’—में। इसमें चारह नायक होते हैं। तीन विद्रव (भगदड, सततचली) होते हैं। यथा—( १ ) अग्नि या वायु के द्वारा होनेवाला विद्रव ( २ ) युद्ध के

१. यह सूचना ने शक्तानन्द का भी उल्लेख किया है। [ J. O. R. VIII पृ० ३२८ ]

कारण होने वाला विद्रव तथा ( ३ ) नगर के घेरे के कारण होने वाला । इनमें पहिले विद्रव का उदाहरण है 'पलित्यङ्क' जहाँ अन्त पुर में आग लग जाने के कारण भगड़ मच जाती है । दूसरे प्रकार का उदाहरण है श्री कृष्ण का युद्धार्थकंस के पहलवानों के साथ क्रीड़ापर्वत (अखाड़ा) पर चढ़ता । तीसरे प्रकार का उदाहरण है मृच्छकटिक में आर्यक का पीछा करते हुए ( उसे पकड़ने के लिये ) नगरी पर घेरा ढाला जाना । इसमें तीन प्रकार के कपटों का संयोजन किया जाता है—( १ ) विषय या कथावस्तु में अपेक्षित क्रमिकता या अन्य परिस्थितिवश किया जाने वाला कपट ( २ ) दैवी घटना या अन्य अदृश्य शक्ति से घनने वाला कपट तथा ( ३ ) किसी दूसरे पुरुष के द्वारा सुर या दुःख देने के लिए किया जाने वाला कपट । इनमें प्रथम प्रकार के कपट का उदाहरण है 'चित्र शालिका' में विदूषक का दण्डकाष्ठ का सहारा लेकर अर का बहाना करते हुए प्रवेश करना । दूसरे प्रकार का उदाहरण है—वध्यशिला ( नामक अङ्क ) में जीमूतबाहन का अकस्मात् लाल बछों को प्राप्त कर वध्यशिला पर बैठ जाना । तीसरे प्रकार का उदाहरण है 'पुसवनाङ्क' में सूमाय और चितामुख के द्वारा मन्थरा और कैकेयी को अपने कपट जाल में फसाना । समवकार में शृङ्खार के तीन प्रकार भी रखे जाते हैं—ये हैं—( १ ) धर्मशृङ्खार, ( २ ) कामशृङ्खार तथा ( ३ ) अर्थशृङ्खार । इनमें धार्मिक भाव से आत्मकल्याण या समृद्धि की प्राप्ति के लिये किया जाने वाला व्रत आदि धार्मिक कार्यों का आचरण धर्मशृङ्खार कहलाता है । अपनी स्वार्थपूर्ति या आधशयपता के लिए कार्यों या उपायों का किया जाना 'अर्थशृङ्खार' है । खी के मिलन या इसी कार्य की पूर्ति के लिये उन्माद आदि के साथ होने वाला व्यवहार 'कामशृङ्खार' समझा जाहिए । इनमें प्रथम प्रकार का उदाहरण लामकायनाङ्क<sup>१</sup> में नन्दयन्ती के द्वारा किया जाने वाला ग्रादण भोजन आदि है । उदयन वा अपने राज्य को फिर से प्राप्त करने के लक्ष्य से पद्मावती के साथ विवाह करना 'अर्थशृङ्खार' का उदाहरण है तथा

१. चित्रशालिका का उत्तरेण सागरनन्दी ने दो रथाओं पर किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह दिसी अद्वात रूपक वर बोहू अङ्क है । चित्रशालिका का उत्तरेण शारदानन्द ने भी किया है ( ८० मा० प्र० ७० ३५० )

२. लामकायनाङ्क = पुष्पदूषितक के पदमाङ्क का नाम । इसमें लामकायन पूक पात्र सथा नन्दयन्ती भाषिका है ।

इसी का ( प्रणयमश ) वासवदत्ता से विद्याह होना 'कामशृङ्खार' का उदाहरण समझना चाहिए।

कैशिकीवृत्तिरत्र न कर्तव्या । तत्कर्यं शृङ्खार ।<sup>१</sup> शुद्धा कैशिकी ( चात्र ) कर्तव्या । अस्याश्वलारि यान्यज्ञानि नर्मनर्मस्फङ्गनर्मस्फोट-  
नर्मगर्भाणि तान्यत्र न कर्तव्यानि । केवलं सयोगविहितं नर्ममात्रं  
कर्तव्यम् ।

समयकार में कैशिकी वृत्ति का प्रयोग नहीं रहता है ।

प्रश्न—चिना कैशिकी वृत्ति के शृङ्खाररस कैसे होगा ?

उत्तर—कैशिकी वृत्ति का भोटे तीर पर या सामान्यतः प्रयोग किया जा सकता है केवल विस्तारपूर्वक कैशिकी वृत्ति के सारे अङ्गो नर्म, नर्मस्फङ्ग, नर्मस्फोट तथा नर्मगर्भ—के साथ यहाँ प्रयोग नहीं रखना चाहिए । यहाँ सयोगमात्र के प्रदर्शन में उपयुक्त माने गए नर्म का ही प्रयोग पर्याप्त होता है ।

शृङ्खारोदीपनो यस्तु परिहासः सविश्रमः ।

भयेच्छाहासभेदेन नर्मात्र त्रिविधं भवेत् ॥ ३५६ ॥

इति ।

जो शृङ्खार का उदीपक हो तथा जिसमें विलास और परिहासों का संयोजन रहता हो ऐसे नर्म को भय, इच्छा या हास्य के तीन प्रकारों में रखा जाता है ।

प्रयोऽप्यङ्काः । तत्र प्रयमोऽङ्कः सर्वीथङ्कः सविद्रव. सकपटः सशृङ्खार. सप्रहसनश्च द्वादशनाडिक. । द्वितीयोऽङ्क. चतुर्नालिकाः । तृतीयस्तु समानकृतः । नाडिका कालस्य मानम् ।

इसमें तीन अङ्क होते हैं । प्रथम अङ्क में वीथी के सभी अङ्गों, विद्रव, कपट और शृङ्खार के ( अपने भेदों के ) तथा हास-परिहास के साथ रखा जाता है । प्रथम अङ्क का बारह नाडि का कालमान होता है । दूसरे अङ्क का चार नाडिका का कालमान रहता है तथा तीसरे अङ्क का कालमान आवश्यकता के अनुसार ( कार्यों को सम्पन्न करने के लिए जितना अपेक्षित हो ) रखा जाता है । नालिका का अर्थ है समय का एक माप ।

त्रयोऽप्यङ्कस्तु कर्तव्याः न परस्परस्वचनम् ।  
अत्र हि समवकारे प्राहुर्न प्रतिवद्वरम् ॥ ३५७ ॥

[ ना० शा० २०।६० ] हति ।

समवकार में सीन अङ्क होते हैं, तीनों में कार्य या कथावस्तु के सकेतिक सूक्ष्म की एकता नहीं होती [ वे स्वतन्त्र होते हैं ] तथा इसमें विषय या कथा का पारस्परिक गठन या परस्परागत क्रम नहीं रखा जाता [ अथवा समकार के बहेश्य में ये पास्पर स्वतन्त्र रहकर धारक भी नहीं होते ] ।

### ईहामृगः—

अधेहामृगः । स च कैश्चिकीष्टिहीनोऽचङ्कतुष्ट्यान्वितो यथोर्वर्णी-  
मर्दनम् । दिव्यावलाकारणप्रृच्छियुद्ध, प्रसिद्धपुरुष, विभृत्यकारक,  
पणायक, पड़सो वस्तुशृङ्खारसुक्तो नायकसहामयुक्तश्च । अस्योदाहरण  
दुन्द ( सुम ) शेखरविजय ।

ईहामृग—अब 'ईहामृग' का लक्षण बतलाते हैं । इसमें कैशिकी वृत्ति नहीं होती और चार अङ्क रहते हैं । जैसे—उर्वर्तीमर्दन । इसमें किसी दिव्य स्त्री के कारण युद्ध होता है; प्रख्यात नायक रहता है, वेसमझी लिए हुए अन्य द्वे पात्र होते हैं तथा द्वे रस रहते हैं । वथा वस्तु शृङ्खाररस से युक्त होती है तथा नायक द्वारा किये जाने वाले युद्ध का प्रदर्शन रखा जाता है । ईहामृग का उदाहरण है कुन्दशेशर-<sup>१</sup> विजय ।

भाणः—अथ भाणः । स चात्मानुभूतशसी परस्प्रयवर्णनाविशेषो  
विविधाश्रय एकहार्य । एकया नायिकया हार्य, इत्यर्थ । भाण इहेका-  
विन्या नार्या हार्याऽङ्कहारिष्येति । यत्र परवचनमात्मवचनै सान्तरैर्ग्रभित  
वाच्यश्च भनेत् । आकाशपुरुषा यत्र व्याहरन्ति । धूर्तविदा ( दी ) ना  
सम्प्रयोगो नानावस्थाभि द्वुखदुखात्मिकाभिश्च समुपेत एकाङ्कश्च  
भाण । यथा परलेखा-नामधेय ललितनागरादयोऽस्योदाहरणानि ।

१. कुन्दशेशरविजय नाम भावप्रकाशन में मिलता है परन्तु बहुरप्तमिध  
की टीका में इसका नाम 'कुमुमशेशरविजय' प्राप्त होता है । ( द्रष्ट० भा०  
प्र० शृ० २५३ तथा J. O. R. Vol-VIII पृ० ३२८ )

माण—अब ‘माण’ का लक्षण बतलाते हैं। इसमें या तो स्वयं के अनुभवों का या फिर दूसरों के कार्यों का—जो अनेक व्यक्तियों से सम्बद्ध हो—वर्णन रहता है। यह कार्य एक पात्र के द्वारा किया जाता है जो खी या पुरुष पात्र होता है। जैसा कि कहा भी गया है—‘माण का एक ही पात्र के द्वारा—जो नृत्य के अङ्गहारों को सुन्दरता में प्रस्तुत कर सके—अभिनय किया जाता है। इसमें दूसरे व्यक्तियों के शब्दों को आत्मकथन के रूप में बीच में जोड़ते हुए रखा जाता है। इमें आकाशभाषित का प्रयोग होता है। धूर्त या विट पात्रों की सुख-दुःख आदि अनेक थारस्थाओं को प्रस्तुत किया जाता है तथा एक अद्भुत होता है। माण के उदाहरणों में ‘पर्वतनामर’ आदि रखे जा सकते हैं।

बस्य लास्याधिकरणिकान्यज्ञानि—गेयपदं, स्थितपाठ्यमासीन-पाठ्यं, वैमूढकं, पुष्पगण्डिका, पञ्चेदकमुत्तरोत्तरकमुक्तप्रसुक्तकं द्विमुक्तकं सैन्धवश्चेति ।

माण के दस लास्याङ्ग अद्भुत होते हैं। इनके नाम हैं—(१) गेयपद, (२) स्थितपाठ्य, (३) आमीनपाठ्य, (४) विमूढक, (५) पुष्पगण्डिका, (६) पञ्चेदक, (७) उत्तरोत्तरक, (८) उक्तप्रसुक्तक, (९) द्विमुक्तक तथा (१०) सैन्धव ।

गेयपदम्—तत्र यत् तन्त्रीमाण्डोपन्तुद्दितमासने सन्निविष्ट्या नायिका गीयते तद् गेयपदम् । यथा गौरीगृहे मलयवती पठति—

उकुलुकुलमेमपरागगौरद्युते मम हि गौरि ।

अभिवान्धितं प्रसिद्धघनु भगवति युप्तप्रसादेन ॥

( नागा० १ । १३ ) इति ।

गेयपद—नब नायिका आसीन हो कर धीणा धादन के साथ गीत गाती है तो उसे ‘गेयपद’ समझना चाहिए। जैसे गौरीगृह नामक अद्भुत में मलयवती का—‘प्रियसित कमल के पराग सदृश गौरवर्ण चाली हे पार्वती देवी, आपकी कृपा से मेरी अभिलापा सिद्ध हो ।’ आदि का कहना ।

१. ‘हलितमामर’ माण का उल्लेख यहुक्षपमिथ ने भी किया है।  
( १० J. O. R. Vol-VIII पृ० ३२७-३२८ ),

**स्थितपाठ्यम्**—यच्च पञ्चपाणिना युक्तं भौमचारीपुरस्कृतं चर्ची-  
पाठभूषितं लासिकया प्रयुज्यते स्थितपाठ्यं तत् । यथा दुर्दिनाङ्के—

**स्थितपाठ्य**—जब पञ्चपाणि के साथ भौमचारी प्रस्तुत फरते हुए  
चर्चीपाठ के साथ नर्तकी गीत प्रस्तुत करे तो उसे 'स्थितपाठ्य'  
समझना चाहिए । जैसे दुर्दिन नामक अङ्क में—

वसन्तसेना—भाव, किमनया श्रीस्वभावदुर्विदरथयोपालवया ।  
पश्यतु हि भाव.—

मेधा वर्षन्तु गर्जन्तु मुखन्त्वणनिमेव वा ।

गणयन्ति न शीतोर्णा रमणाभिमुखा. स्त्रिय ॥

( मृच्छ० ५ । १६ )

वसन्तसेना—छी प्रकृति होने के कारण दुष्ट हो जाने वालीं स  
चिजली को उलाहना देना व्यर्थ है । तुम इतना ही समझो विं-

धाहे मेघ घरसें, गरजें या ये वस्त्र को छोड़ दें पर अपने प्रियतम  
से मिलने के लिए निकली नारियाँ ऐसी ठड और गरमी की परवाह  
नहीं करती ।

**आसीनपाठ्यम्**—यदासीनया करचरणभूताभिनयभावितं प्रयुज्यते  
तदासीनपाठ्यम् । यदा कदलीगृहे—

सागरिका—हिखज, समस्तस । ( हृदय, समाधसिहि । )  
इत्यादि ।

**आसीनपाठ्य**—यदि घैठ कर नायिका अपने हाथ, पैर और  
भीहों की व्यञ्जक भुट्ठाओं के साथ किमी गीत ( रण्ड ) को प्रस्तुत  
करे तो उसे 'आसीनपाठ्य' समझना चाहिए । जैसे कदलीगृह नामक  
अङ्क में—

सागरिका—‘ओ मेरे मन, तुम जरा धैर्य रखो’ इत्यादि ।

**चैमृदकम्**—यत्पुरपेण ऊवेपमादा ( स्था )य समगृहिमृषितम-  
निष्ठुरपदं लास्यमारभ्यते तद् चैमृदकम् । यथा चौर्यविवाहे

( मा० माध० अ० ६ )—

**वैमूढक**—जब किसी पुरुष पात्र के द्वारा छी बैप धारण कर कोमल गति आदि के द्वारा खियो जैसा लास्य प्रस्तुत किया जाए तो उसे ‘वैमूढक’<sup>1</sup> समझना चाहिए। जैसे चौर्यविवाह नामक अङ्क ( मा० मा० अङ्क ६ ) में—

मकरन्दः—एषोऽस्मि मालती सवृत्तः । इति ।

भकरन्द—तो अब मैं मालती बन जाता हूँ इत्यादि ।

**पुष्पगण्डका**—यत्र पुंसामाशयग्रहणाय गीतवाधताललयकला-कलितं लास्यं प्रसार्यते सा पुष्पगण्डका । यथोशाहरणनाटक-चतुर्थाङ्के—

**पुश्पगण्डका**—जब किसी पुरुष के आन्तरिक भावों का पता लगाने के लिए गीत, वाद्य, ताल, लय को कलापूर्ण पद्धति से लास्य (नृत्य) के साथ प्रस्तुत किया जाए तो उसे ‘पुष्पगण्डका’ समझना चाहिए। जैसे उपाहरण नाटक के चतुर्थाङ्क में :—

उपा—अज्ञउत्त, इमं दुदीञ्चं द्वाणं अर्लकरोदुत्ति । ( आर्यपुत्र, इमं द्वितीयं स्थानमलङ्कृतिः । )

उपा—आर्यपुत्र, आप इस दूसरे आसन को अलंकृत करें इत्यादि ।

**प्रच्छेदकः**—यन योविच्छन्द्रात्पाकुला कृतापराधमपि कान्तमार्त्ति प्रियमासज्जति सः प्रच्छेदक उच्यते । राहुलस्त्वाह—यत्र दैवात् प्रिय-पुरुषेण प्रार्थ्यमानामन्या नायिकामवलोक्य प्रेमपरिच्छेदसमर्पितो मानिन्या मन्युर्मनस्तापयति सः प्रच्छेदकः । यथा पद्मावतीपरिणये—

**विलासवती**—ता कि दाणि एत्य करइस्सं । [ तद् किमिदार्मी करिष्यामि । ] ( विचिन्त्य ) भोदु । इंदुमदी विसज्जित पदुमावदौ ज्ञेव चारइस्सं । [ भवतु । इन्दुमतीं विसृज्य पद्मावतीमेव चारयिष्यामि । ]

**प्रच्छेदक**—जब कोई वियोगिनी नायिका चन्द्रिका के प्रकाश से आकुल होकर सन्तानावस्था में अपराधी प्रिय से स्वयं जाकर मिलने लगे तो उसे ‘प्रच्छेदक’ समझना चाहिए ।

1. वैमूढक या विमूढक—इसका धन्यव्रत जाग्यशास्त्र आदि में विमूढक नाम प्राप्त होता है। सामरनन्दी ने इसका लक्षण मरत के अनुसार नहीं इया है किन्तु यहाँ वह दशरूपक के अनुसार है। ( द३० दश रूप० ) ।

राहुल आचार्य का मत है कि जब दूसरी नायिका की उसके प्रियतम द्वारा की जाने वाली चाढ़कारिता को देख कर मानिनी नायिका का अपने प्रिय के प्रति किया गया क्रोध सन्ताप देते हुए मन को धिन्न बर दे तो उसे 'प्रच्छेदक' समझना चाहिए। जैसे पद्मावतीपरिणय में—विलासवती—तो अब मैं क्या करूँ? (सोच कर) इस इन्दुमती को बिदा कर मैं पद्मावती को ही रोक दूँगी।

### सैन्धवम्—

यच्छहुवल्यधारणादि सिन्धुदेशमापाविशेषगीतवाद्यविषय संन्ध-  
वारुयं तदुच्यते ।

सैन्धव—जय सिन्धुदेश में घने हुए शाखों के कंकण आदि पहिनते हुए उसी देश के वाले यन्त्रों के व्यवहार के साथ देशी (सैन्धवी) भाषा में गीत वो प्रस्तुत किया जाए तो उसे 'सैन्धव' समझना चाहिए।

### उक्तप्रत्युक्तम्—

उक्तप्रत्युक्तमिव उक्तप्रत्युक्तकम् । यथा मदनमञ्जुला-रुतीयेऽङ्के—

उक्तप्रत्युक्तम्—जब प्रश्न तथा उत्तर के रूप में संयाद रखे जायें तो उसे 'उक्तप्रत्युक्तम्' समझना चाहिए। जैसे मदनमञ्जुला के रुतीयाङ्क में :—

मदनमञ्जुला—मुंचदु मं महाराजो । [ मुञ्चतु मा महाराज ]

मदनमञ्जुला—महाराज मुञ्चे छोड़ दें ।

राजा—किमिति?

राजा—क्यों?

मदनमञ्जुला—भाजामि अहं । [ विभेष्यहम् ]

मदनमञ्जुला—मैं छर रही हूँ ।

राजा—क्युतः?

राजा—किमसे?

मदनमञ्जुला—महादेवै । [ महादेव्याः ]

मदनमञ्जुला—महादेवी से ।

१. मदनमञ्जुला या मदनमञ्जुला समझता एक ही रचना प्रतीत होती है। ना० ४० २० ३० औ० में इसके द्वीन उद्दरण भी प्राप्य हैं।

## उत्तरोत्तरकम्—

लीलाहेलादिभूषितमप्रतीक्षिताभिसारिकाकाल आमयितुं कामिना-  
मल्लकृतया नायिक्या यदारभ्यते तदुत्तरोत्तरकम् । यथा मदयन्ती-  
संहारे—

मदयन्ती—हिअअ, कि दाणि तस्स ओसरे सविधेभत्यमूहो  
मविअ सपर्दं उत्तरेसि । अण्ण अज एदस्स मुहचन्दचन्दमाए अचणो  
सदाबो ण णिव्वाविदो ता अणुहव दाव अरणो अविणअस्स फल ।  
( पार्थोऽपलोक्य । सप्तम्रमम् ) कहं महाराओ । ( उच्छित्य शिरो-  
ऽधोमुखी ) त्यादिनृत्यम् । [ हृदय, किमिदानो तस्मिन्नवसरे सविधेयार्थ-  
मूढ भूत्वा साम्प्रतमुचाम्यसि । अन्यच्च यदेतस्य मुखचन्दचन्द्रिक्याऽ  
स्मनस्सन्तापो न निर्वापितस्तदनुभव तावदामनोऽविनयस्य फलम् ।  
( पार्थोऽपलोक्य । सप्तम्रमम् ) कथ महाराज ( उच्छित्य शिरो-  
ऽधोमुखी ) त्यादिनृत्यम् ।

उत्तरोत्तरक—जब बिना किसी प्रतीक्षा के स्वय को सजा कर  
उत्तरकण्ठावश प्रिय का अभिसरण करने के अवसर पर नायिका लीला,  
हेला आदि भागों को सुन्दरता से प्रकट करती हुए आगे बढ़ती है तो  
उसे ‘उत्तरोत्तरक’ समझना चाहिए । जैसे मदयन्ती-सहार नामक  
अकु मे—

मदयन्ती—मेरे मन, जब तूने उस समय अपने कर्तव्यज्ञान के प्रति  
उदासीनता बरती तो अब क्यों सन्तप्त हो रहे हो । और तब तुमने  
उनकी मुखचन्द्र की चन्द्रिका के द्वारा स्वय का ताप नहीं मिटाया तो  
अब अपने इसी हठ का फल भोगो ( बाजू में देखकर घबराते हुए )  
अरे । महाान, (सिर उठाने मुँह नीचा करते हुए) इत्यादि अग्नियपूर्ण  
नृत्य को करना आदि ।

अथवा यत्र प्रियोऽनागमनमीत्येव प्रियाया भवनं याति तत्  
सुखातिशयोत्तरकालत्वात् उत्तरोत्तरकम् ।

१ उत्तरोत्तरक का ही अन्यत्र ‘उत्तमोत्तम’ नाम ग्रास होता है । परन्तु  
छद्मग में अभिसारिका नायिका की रियति का समावेश अन्यथ कहीं भी ग्रास  
नहीं होता ।

अथवा जब नायक स्वयं ही नायिका के न आने की आशाका के वारण उसका अभिसरण करे तो उत्तरोत्तर मुख की सर्वद्वन्द्वा करने के वारण इसे 'उत्तरोत्तर' समझना चाहिए।

### द्विमुक्तरम्—

मुखप्रतिमुखस्थिष्टं नानाभावसमुज्ज्वरं लहितचारीश्योजितं  
द्विमुक्तरम् । यथा कलावत्यास्त्रुतीयेऽङ्गे—

( पुरतोऽवलोक्य ) पसा पियसही इदो ज्जेव आअच्छदि ( एषा प्रियसमी इत एव आगच्छति ) इत्यादि ।

**द्विमुक्तर**—अनेक भारों से शोभित पादचारी के ललित अभिनयों का मुख या प्रतिमुख सन्धि में सयोजित करना 'द्विमुक्तर' समझना चाहिए। जैसे कलावती के त्रुतीयाङ्क में :—

( सामने देखते हुए ) अरे ! मेरी प्रियसदी इधर ही था रही है इत्यादि ।

### प्रहसनम्—

अथ प्रहसनम् । तद् द्विविष शुद्ध सद्वीर्णव्व । आदं परिप्रात्ताप-  
सद्विनेरन्येरपि हास्यकुशलैरारव्यम् । सद्वीर्ण वेश्याविटनपुंसकदासादि-  
भूषित भवति । प्रथम शशिविलासादि द्वितीयं भगवदज्जुकादि । अस्य  
च द्वावद्वौ भवते मुखनिर्वहणसन्धिद्वयव्व । नरहुदृस्त्वाह—ृत्वारमद्वा  
रूप्य प्रहसनमिति ।

**प्रहसन**—अब 'प्रहसन' का लक्षण बतलाते हैं ।

प्रहसन के दो भेद होते हैं—एक शुद्ध और दूसरा मिश्र। शुद्ध प्रहसन में परिप्रात्तक, शाहरण, तपस्वी आदि जैसे { उत्तम } पात्रों का हास्यपूर्ण अभिनय रखा जाता है। सद्वीर्ण-प्रहसन में—वेश्या, विट, नपुंसक, दास आदि अधम पात्रों का हास्यपूर्ण अभिनय रहता है। शुद्धप्रहसन का उदाहरण है शशिविलास<sup>१</sup> तथा सद्वीर्ण-प्रहसन का उदाहरण है भगवदज्जुक ।

१. द्विमुक्तक वा द्विमुक्त नाम सर्वदा प्राप्त होता है ।

२. शशिविलास शुद्ध प्रहसन का जो पृथक प्रदाता है इसका नाम यहूरुप मिश्र ने 'शशिविलास' लिखा है । यहूरुप मिश्र ने भी भगवदज्जुक को सद्वीर्ण प्रहसन माना है । ( दृष्ट्य J. O. R. पृ० ३२७ )

प्रह्लाद में दो अङ्क तथा मुख और निर्बहण नामक हो सन्धियैं होती हैं। नसकुह आचार्य का मत है कि प्रह्लाद में आरभटी वृत्ति की योजना नहीं होती।

**वीथी—**

अथ वीथी । सा च त्रिभिः पात्रैः प्रयोक्तव्या । यथा—बकुल-वीथिका । उत्तमाघमप्रव्यमनायिकाभूपिता त्रिप्रकृतियुता वीजविन्दु-कार्यरथप्रकृतिमिर्युक्ता एकाङ्गा सन्धिद्वययुक्ता मुखनिर्बहणयुता नानारस-भावसन्धिता च । अस्या अङ्गानि त्रयोदश—उद्धात्यकावलगितक-नालिका—अवस्थन्दितासत्प्रलाप-वार्णेणी-मृदवाधिवल-छल त्रिगत व्याहार-गण्डाद्वितानीति ।

वीथी—अब हम 'वीथी' का लक्षण बतलाते हैं। इसमें तीन पात्र रहते हैं। जैसे—बकुलवीथिका । इसमें उसम, मध्यम तथा अधम प्रकृति की नायिका होती है, तीन पात्र होते हैं, वीज, विन्दु तथा कार्य नामक तीन अर्थ प्रकृतियाँ रहती हैं, एक अङ्क होता है, मुख तथा निर्बहण नामक दोसन्धियाँ होती हैं तथा यह अनेक रस और भाव (आदि) से युक्त होती है। वीथी के सेरह अङ्ग होते हैं। यथा—[ १ ] उद्धात्यक, [ २ ] अवलगित(क), [ ३ ] नालिका, [ ४ ] अवस्थन्दित, [ ५ ] असत्प्रलाप, [ ६ ] वार्णेणी, [ ७ ] मृद, [ ८ ] अधिवल, [ ९ ] छल, [ १० ] त्रिगत, [ ११ ] व्याहार, [ १२ ] गण्ड तथा [ १३ ] अङ्गिचत ।

**तत्र उद्धात्यकम्—**

पदानि त्वगतार्थानि यन्नराः पुनरादरात् ।

योजयन्ति पदैः स्पष्टैस्तद् स्यादुद्वातकं यथा ॥ ३५८ ॥

कैरुणैर्नटिकं शाव्यं ये हरन्ति सता मन् ।

क तेषां दृष्टमुथानं देवदचक्षताविति ॥

यथात्र सूत्रधारोऽपतीतमथैः प्रतिपादयितुकामः प्रदनेन प्रतिपादित-वान् । एवमन्येऽप्याहु—न प्रतीतं विस्मृतं वा यत् प्रतिपादते तदुद्वा-त्यक्षमिति ।

**उद्धात्यक—**जब किसी अस्पष्ट वस्तु या अर्थ के सूचिव करने के

लिये अप्रस्तुत अर्थ वाले शब्दों के साथ प्रस्तुत पदों की विचारपूर्णक योजना की जाती है तो उसे 'उद्घात्यक' समझा चाहिए। उदाहरणार्थ—

श्रव्यन—नाटक किन विशेषताओं के कारण प्रशंसनीय हो जाता है ?  
उत्तर—जिनसे सहृदयों का मनोरब्जन या चित्तार्पण होता हो।  
प्रश्न—इनका चरमउत्कर्ष किस रचना में मिलता है ? उत्तर—  
देवदत्त की रचना में। जैसे उक्त 'उदाहरण' में सूत्रधार किसी अद्वात या अस्पष्ट अर्थ को प्रकट करने की इच्छा से प्रश्न-उत्तर के द्वारा व्याख्या करते हुए अपनी धारा कह देता है।

कुछ आचार्यों का मत है कि अद्वात या विस्मृत अर्थ को किसी व्याख्यात्मक पद्धति से प्रतिपादित किया जाना (भी) 'उद्घात्यक' कहलाता है।

### अवलगितकम्—

यत्रान्यस्मिन् समावेश्य कार्यमन्यत् ग्रकावयते ।

तत्त्वाधलगितं नाम विद्वेयं कविभिर्यथा ॥ ३५९ ॥

जाने त्वमिव सा बाला पाणिना स्वेन मा स्पृण ।

तद्वियोगाग्निसन्तापो येत मे शान्तिमेव्यतीति ॥

अवलगितक—जय किसी दूसरे ही कार्य या धारा की योजना के द्वारा अभीष्ट या दूसरे ही प्रकार की कार्यसिद्धि को साधा या प्रकट किया जाए तो उसे 'अवलगितक' समझना चाहिए। जैसे :—

मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे जैसी ही युवती थी और जिसका वियोगजन्म सन्ताप अथ शान्त हो जाएगा। (अतः) तुम अब अपने हाथ से मेरा स्पर्श करो।

अन्यस्त्वाह—रूपकेषु यस्य पात्रस्य सूचना नास्ति तत्रा-  
वलगितकेन कर्तव्या । यथा—

दूसरे आचार्य का मत है कि जब रूपकों में किसी असूचित पात्र की सूचना देना हो तो 'अवलगितक' का प्रयोग करना चाहिए। जैसे :—

सूत्रधारः—विमुखेनोपदेशेषु वयं निर्वेदितास्त्वया ।

शैवाचार्य इवानेन कुशिष्येणैव मैरव ॥

1 यहाँ 'रत्नकोशाङ्कनी' के स्थान पर 'देवदत्तकृती' कर दिया गया है। देवदत्त की किसी रचना का भभी तक पता नहीं ढाग पाया है।

अत्र भैरवस्य प्रवेशं पारिपार्श्वकस्याधिक्षेपेण तच्छप्याविधेयता-  
ख्यापनेन कृतवान् स ।

सूत्रधार—शिक्षा को ठीक से प्रहण न करते हुए तुमने हमें उसी  
तरह अप्रसन्न कर डाला है जैसे दुष्ट या मूढ़ शिष्य से शैवाचार्य भैरव  
अप्रसन्न हैं ।

उक्त उदाहरण में पारिपार्श्विक को ढांटते हुए सूत्रधार ने अपने शिष्य  
की दशा के निर्दर्शन के साथ भेरवाचार्य का प्रवेश सूचित किया ।

**नालिका—**

यत्तु याच्यं प्रपञ्चेन वदेद्वा हास्यहेतुना ।

प्रहेलिकैव गूढार्था सा ज्ञेया नालिका बुधैः ॥ ३६० ॥

( ना० शा० २० । १६१ )

गूढार्थं प्रश्नमिच्छन्ति नालिकामपरे यथा ।

हस्ते कर्णस्य का शक्तिः क्ष-स-मध्यगतोऽस्ति कः ॥ ३६१ ॥

इत्यादि ।

**नालिका—**यदि किसी प्रपञ्च या परिहास के लिए कही गयी वचना-  
बली में प्रहेलिका के समान गूढ़ अर्थ घाले पदों को रखा जाए तो उसे  
'नालिका' समझना चाहिए ।

बुद्ध आचार्यों का मत है कि गूढ़ या अन्तर्निहित अर्थ यो अपने  
में रखने हुए प्रश्न का किया जाना 'नालिका' कहलाता है । जैसे—

वर्ण के हाथ में किसने शक्ति ही ? क्ष और स के बीच कौन रहता  
है ? शत्रुओं से मारे जाने पर भी योद्धाओं की जिन्दा न होने का स्थान  
कौन है ?

**अपस्यन्दितम्—**

रभसेनोदितं वास्यं शुभं वा त्वशुभं तथा ।

अन्यद्वा क्रियते बुद्धया तदवस्यन्दितं भवेत् ॥ ३६२ ॥

यथा निभृतस्थायी भीमो दुर्योधनेन पृष्ठ—कस्त्वम् । स सत्वाह—  
भीमोऽहम् । पश्चात् सावहित्योऽवदत् । भीमोऽहं भयानकोऽहमिति ।

**अवस्यन्दित—**यदि शीघ्रता में कहे गए शुभ या अशुभ वाक्य का

अपनी दुद्धि से दूसरा ही अर्थ निकाला जाए तो उसे 'अवस्यन्दित' समझना चाहिए।

जैसे ( कोध से ) चुपचाप सड़े हुए भीम को दुर्योधन ने ( न जानते हुए ) पूछा छिपे हुए तुम कौन हो ? उसने उत्तर दिया—भीम। फिर छलपूर्वक कहा—मैं डरावना हूँ, मैं भयानक हूँ ( आदि ) ।

### असत्प्रलापः—

असत्प्रलापो यथा मूर्खस्य पुरतो हितमप्युच्यते वच न ( च ) तद् प्रतिगृह्णतेऽसावसत्प्रलापः कथ्यते । यथा—

सुलभा सततं राजन् पुरुषा प्रियवादित् ।

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

इति सारणवाक्यं रावणेन न गृहीतमित्यसत्प्रलाप ।

'किं त्वं वधिर कुबजो ना मत्तो वा यज्ञ पश्यसि ।' इति

रथकारकुले जातः कथं वा श्रोत्रियात्मजम् ।

रथेयाहृय संयोदुमश्वत्यमानमुद्गतप्रिति ॥

अयश्चासत्प्रलाप एव ।

असत्प्रलाप—जब किसी हठी या नासमझको ऐसा हित का उपदेश या सलाह दी जाए जिसे वह न माने तो उसे 'असत्प्रलाप' समझना चाहिए। जैसे :—<sup>१</sup>

स्वामिन्, ससार में प्रिय बोलने वाले मनुष्य तो सभी स्थानों पर मिल जाते हैं पर अप्रिय और हितावह वचनों को कहने और सुनने वाले फटिनाई से प्रगत होते हैं। उक्त उदाहरण में—सारण के द्वारा रावण के प्रति कहे गए इन हितकारी शब्दों को सुनकर भी रावण का उन्हें न मानना 'असत्प्रलाप' है। या—

क्या तुम बहिरे, कुषड़े या पागल हो जो मुझे नहीं देख पाते ! अथवा—राधापुत्र कर्ण, ( क्योंकि ) तुम रथकार ( सारथी ) के नीचे

<sup>१</sup> सागरनन्दी ने उक्त पद यशोवर्म के रामाभ्युदय नाटक से यहाँ उद्धृत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यशोवर्म ने यद्वचित् याहमीकि के हस्ती शोक को अपने मार्यक में उदृत किया होगा। याहमीकिरामाधरण में यह शोक शास होता है तथा प्रसिद्ध भी है।

यंश में उत्पन्न हुए हो ( अतः ) सुक्ष्म श्रोत्रिय ब्राह्मण के उच्च कुल में उत्पन्न होनेवाले अश्वत्थामा को भी अपने औद्धत्य से युद्ध के लिए ललकारने लगे ?

उक्त कथन में भी 'असत्प्रलाप' समझना चाहिए ।

**वाग्वेणी—**

द्वित्रिप्रतिवचन। वाग्वेणी । यथा—

कस्त्वं कृष्णोऽस्मि वर्णं ते नाहं पृच्छामि नाम किम् ।

केशवोऽहं चिरालब्धं कुर्यां त्वां खलु केशवमिति ॥

**वाग्वेणी—**दो या तीन शब्दों में ( अनेक बार ) दिया गया प्रत्युत्तर 'वाग्वेणी' कहलाता है । जैसे :—

तुम कौन हो ? मैं कृष्ण [ काला ] हूँ ।

मुझे तुम्हारा रंग नहीं जानता है, अपना नाम बतलाओ ! मैं केशव हूँ ।

ओ हो, बड़ी देर बाद मिले, अब मैं शिरच्छेद द्वारा तुम्हें शब्द ही बनाती हूँ ।

**मृदवम्—**

मृदवं यथा—

यन्निमित्तं गुणा दोपाः स्युर्दोपाश्च तथा गुणाः ।

चित्रोक्ति मृदवं नाम तन्मतं कविमिर्यथा ॥ ३६३ ॥

( ना० शा० २० । १६४ )

**मृदव—**जब वैद्यन्य या कलापूर्ण उक्तियों से किमी के गुणों को दोप या दोषों को गुण सिद्ध किया जाए तो उसे 'मृदव' समझना चाहिए ।

तत्र गुणदोषीरुणं यथा—

तस्यास्तद्रूपसौन्दर्यं भूषितं यौवनश्रिया ।

सुखैकायतनं जातं दुखायैव ममाधुना ॥

**दोषगुणीकरणम् यथा—**

उद्देतु गगकव्यापी महाभागमिदं तमः ।

येन साऽन्येति निशशङ्का सद्वेतं मे मृगेक्षणा ॥

गुणों को दोष बतलाने का उदाहरण—

यद्यपि उसका योग्यन से जगमग सौन्दर्य संसार में सुर वा आगार

बनने जा रहा है पर वही सब आज मेरे लिए अधिक कष्टदायी बन रहा है।

दोप को गुण चतलाने का उदाहरण :—

यह उपकारक महाभाग अन्धकार जोरों से उठ कर आकाश में फैल जाए जिससे वह मृगनयनी निश्चक होकर बिना घबराए मेरे सबैत स्थान पर आ जाए।

अधिवलम्—

उत्तरोत्तरसम्भूतमात्मनश्च परस्य च ।

विद्यादधिवलं वाक्यमेकवस्तुविशेषणम् ॥ ३६४ ॥

( ना० शा० २० । १६५ )

यथा—

तिमिराम्बरघारिण्यो वच्चिताखिलदृष्टयः ।

सायमेता मिलन्त्यद्य दिशश्वन्द्रभिसारिका ॥

इति एकेनोक्तेऽपर आह—एवमाक्षिसविहङ्गनुपुराश्वन्द्रभिसारार्थवसागा एता दिश इति ।

अधिवल—जब किमी एक ही पदार्थ के विषय में स्वयं के और दूसरे व्यक्तियों के ऋथन धीरे धीरे आगे बढ़ते चलें तो उसे 'अधिवल' समझना चाहिए। जैसे :—

ये दिशाएँ अभिसारिका बन कर अन्धकार का बछल पेटे हुए सभी की दृष्टि बचा कर आन सन्ध्या को अपने मिय चन्द्र से मिलने आ रही हैं।

इस प्रकार एक व्यक्ति के कहने पर दूसरा कहने लगा :—( और ) इन दिशाओं ने पश्चियों के कलरवरूपी पैंडन दूर हटा कर चन्द्र पा अभिमरण करने के लिये अपना राग भी चारों ओर फैलाना शुरू कर डाला।

छलम्—

'छलं स्याद्वाच्यमन्यार्थं हास्यरोपातिसन्धिष्ठृत् ।'

यथायोध्याभरते—

छल—परिहास, घोष या घोसा प्रकट करनेवाले वचनों का प्रयोग करना जो धाच्यार्य के बिन्दु हो—‘छल’ कहलाता है। जैसे अयोध्याभरत (नामक अङ्क) मे—

लक्ष्मण—सकलराक्षसबुद्धयक्षरिणि युधमद्वजद्वये सति किमसौ करिष्यति ।

लक्ष्मण—समस्त राक्षस कुल के विद्वास में समर्थ आपकी इन भुजाओं के होने पर उससे क्या बन पड़ेगा ?

त्रिजटा—( प्रविश्य ) सीदाविषोअं । [ सीतावियोगम् ] अतिसं निकृच्छलभेतत् ।

त्रिजटा—( प्रेष करते हुए ) सीता का वियोग ।

उक्त कथन से घोसा प्रकट होता है। अतएव यह ‘छल’ का उदाहरण है।

त्रिगतम्—

स्फुटभाव्यर्थकथं त्रिगतम् । यथा कदलीश्वरे सुसङ्गता—एसा उण पूर्य सारिआ सकिद्वा । कदा वि गहिदत्था कस्स वि पुरदो पआसेदि । [ एसा पुनरन्न सारिका शङ्कितया । कदापि गृहीतार्था कस्यापि पुरत प्रकाशयति । ]

त्रिगत—भाषी घटना को स्पष्ट कह डालना ‘त्रिगत’ कहलाता है। जैसे कदलीश्वर नामक अङ्क मे—

सुसङ्गता—इस सारिका पर ज्ञान रखना पड़ेगा क्योंकि इसे जो भी सुनाइ देगा उसे यह किसी के भी आगे प्रकट वर सकती है।

व्याहारः—

प्रत्यक्षानुभवारुद्दो व्याहारो हास्यलेशकृत् ।

कृतसम्भोगराजानं सोपहासमिग्रावरीत् ॥ ३६५ ॥

( ना० शा० २० । १६७ )

यथा—

विद्वृपक—मूप, तव कार्येषु मे जिहा पहवत्येव गुडदन्ना जडायितुम् । इति ।

व्याहार—आशिक परिहास के साथ अपने अनुभूत वचन को सीधे कह डालना ‘व्याहार’ समझना चाहिए ।

जैसे संभोग किये हुए राजा को परिदास के साथ शिदूपक का इस प्रवार कहना—‘राजन्, आपके कार्यों को बतलाने में गुड़ से सती मेरी जीभ ऐठ रही है।

**गण्डः—**

उक्तमन्यार्थमन्येन पचोऽन्यार्थं प्रकल्पयेत् ।

अन्यथेति हि गण्डोऽयं वहुधा परिकीर्तिः ॥ ३६६ ॥

**यथा—**

बातोऽन्यत्र च योऽन्यत्र बद्रितो मधुसम्भव ।

परपुष्ट स वृष्णोऽय मारयत्यनिवारित ॥

इत्युक्तपिठितया प्रोक्त कसिनाहितमन्यथा ।

**गण्ड—**किमी एक पुरुष के द्वारा कहे गए शब्दों का यदि दूसरा पुरुष अपने पश्च में अर्थ लगाते हों उसे ‘गण्ड’ समझना चाहिये। जैसे :—

जो एक स्थान में उत्पन्न होकर दूसरे स्थान में पाला गया, जिसका मधु से उद्धव है (माघ) जिसका वर्ण काला [कृष्ण] है; वही आज न रोकने के कारण मार [काम के समान कार्य कर] रहा है।

उक्त वर्थन उक्तपिठिता नायिका ने कोकिल को लद्य करते हुए कहा किन्तु कंस ने इसका अर्थ अपने पश्च में लगा लिया। अतएव यह ‘गण्ड’ का उत्पादन है।

यद्यामिलपितं काङ्क्षन् गुस्या द्वयर्थपरः पदैः ।

निर्दिशेद् गाक्यवुशलो द्वयर्थगण्ड स कथ्यते ॥ ३६७ ॥

**यथा—**

जब अपने इष्ट अर्थ को शुशल पुरुष दो अर्थों वाले शब्दों से पहकर द्वयते हुए सनेतित या प्रकट करे तो उसे ‘द्वयर्थगण्ड’ समझना चाहिये। जैसे —

जातस्ते दारक कस स्वसुरानन्दवर्द्धन ।

त वर्तुमहमायातो नारदो भवत क्षयम् ॥

**कस, सुनो—**सुम्मारी वहिन वो आनन्द देनेवाला [अपने ही पश्च में रहने वाले देखण के कार्यों को दूर करने वाला] पुर उत्पन्न हुआ है, और मैं नारद इसी सन्देश को कहने वे लिए तुम्हार घर [आपने अय का समाचार देने के लिए यहाँ] आया हूँ।

अन्यदन्पत्ति च दत्तोर्द्धयोर्गच्यसमागमे ।

जायतेऽनिष्टमिष्टं वा स गण्ड इति कीर्तिः ॥ ३६८ ॥

यथा राघवाभ्युदये—

यदि दो व्यक्तियों के पारस्परिक सदावदों के बीच अनेक चर्चाओं के होने पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग हो जाए जिससे किसी इष्ट या अनिष्ट की उपलब्धि या उपत्ति हो जाए तो उसे भी ‘गण्ड’ समझना चाहिए। जैसे—राघवाभ्युदय मे—

राम—‘किन्ते स्यादिति चिन्तया मम मन पर्याकुल आम्यति ।’

राम—(आज) इस चिन्ता के कारण कि तुम्हारा क्या होगा मेरा मन व्याकुल होकर चक्कर रहा रहा है।

सीता—विरहो दे । [ विरहस्तव । ]

सीता—कि तुम्हारा विरह होगा ।

राम—शान्तम् । इत्यादिक्माह ।

राम—अरे, बन्द करो । ‘हत्यादि ।

द्वचर्थता यत्र वाक्यानां लेश्येनापि प्रतीयते ।

शब्दभङ्गानुयातथ लेशगण्ड सः कथ्यते ॥ ३६९ ॥

यथा प्रतिज्ञाभीमे—

भीम.—‘रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविमहाथ’ इत्यादि ।

जब वाम्यो के किसी अशा मे दो अर्थों का भाज हो तो उसे ‘लेशगण्ड’ कहते हैं। ऐसे कथन मे शब्दों की सभङ्ग (या अभङ्ग) रचना की योजना रहती है। जैसे—‘प्रतिज्ञाभीम नामक अद्वृ में—

सहदेव—प्रेम से (रक्त से) सारे भूमण्डल को अपने अधिकार मे बरनेवाले तथा विमहविहीन (युद्ध न करने वाले, मृत) ‘कौरव’ इत्यादि ।

अन्वितम्—

नानार्थानामुपक्षेषोऽश्चितम् । छिष्टानि यत्र पदानि तद्वा अन्वितम् ।

यथा—

‘लीलावधूतपथा’ (रत्ना० २। ८) इत्यादि ।

यथा वा—

विचित्ररूपसम्पन्ना सा मां कान्तवयोऽन्विता ।

श्यामा रैवतभूमीष धिनीति तिलकोज्ज्वला ॥

अन्वित—जिसमें अनेक अधों को अभिभृत किया जाए तो उसे 'अन्वित' भमझना चाहिए। अथवा जहाँ इलट शब्दों का प्रयोग हो उसे भी 'अन्वित' कहा जाता है।

जैसे—लीला से कमल को घुमाते हुए “इत्यादि ( रत्ना० २१८ ) ।

अथवा—जिसका विचित्र रूप और सुन्दर अवस्था [ सुन्दर पक्षियों से युक्त ] है, और जो ललाट पर तिलक लगाए है [ तिलक पृक्षों से युक्त है ] ऐसी युवती [ श्यामा, कृष्णर्ण वाली ] रैवतकार्यत की भूमि के समान मुझे प्रसन्न कर रही है ।

प्रपञ्चम्—

अन्येऽन्वितस्य स्थाने प्रपञ्चं नाम वीर्यम् वर्णयन्ति । यथा—  
“यदसद्गृहत्वचनमस्तवयुक्तो द्वयोः परस्परतः । एकस्यार्थस्य कृते आलापो  
हासजननश्च ।” स प्रपञ्चः । यथा कलावत्यां राजो विदूपकस्य चचनम्—

किञ्चिद्देहि ददामि चित्रफलकं तस्या मयाऽऽसादितं  
सर्वं माधव शब्दमेव भवति किंते मया दीर्थते ।  
कि मां स्तौषि मृपानुगस्तव बटुः सोऽहं भवान्मूपतिः  
मुदा स्वीक्रियतां ददाम्यलमिदं चित्रं सर्वे गृहताम् ॥  
इति । इदं राधारख्यायां वीर्या ज्ञेयम् ।

कुछ आचार्य अन्वित ये स्थान पर 'प्रपञ्च' नामक वीर्यकू मानते हैं। उनके भत मे—“दो पात्रों का किसी एक वस्तु का ( परस्पर ) परिहास करते हुए असगत या विनष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रशसा आदि के साथ वर्णन करना 'प्रपञ्च' होता है। 'जैसे कलारती' मे राजा और विदूपक वा यह पारस्परिक संभाषण—

मुझे पुष्ट दीजिये ?

१. विदूपक तथा राजा के वातीलाय से युक्त प्रस्तुत उदाहरण में दिना किसी वस्तु दो भागे पास रहे ही ये क्षुलने या परिहास करने के लिए ये सारी अन्तियों रखी गयी हैं जो 'प्रपञ्च' का उदाहरण बन जाती हैं ।

मैं आपको ( उस सुन्दरी का ) वही चिन्नफलक दे रहा हूँ जो मुझे प्राप्त हुआ था । और माधव, आपके लिये वो सभी प्राप्य है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ । आप मेरी व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हैं । आप राजा हैं और मैं ठहरा ब्राह्मण और आपका सेवक भी ।

अच्छा तो आप ये सुर्ण मुद्राएँ ले लीजिये ।

बस बस, रहने दीजिये इन्हें, आप इस चित्र को यूँ ही ले लीजिये ।

राधानामक बीथी में इसका विस्तार से निरूपण प्राप्त हो सकता है ।

**गोष्ठी—**

अथ गोष्ठी । एकाङ्का कैशिकीवृच्छियुक्ता गर्भविमर्शननिधशूल्या च । यथा—सत्यभासा ।

गोष्ठी—अथ हम 'गोष्ठी' का लक्षण बतलाते हैं । इसमें एक अङ्ग होता है तथा कैशिकी वृत्ति होती है । गर्भ तथा अवमर्श सन्धियां नहीं होतीं । जैसे :—सत्यभासा ।

**संलापः—**

अथ संलापः । सात्त्वत्यारभट्टीयुत् । यथा-मायाकापालिकः ।

संलाप—अब 'संलाप' का लक्षण बतलाते हैं । इसमें केवल सात्त्वती तथा आरभटी वृत्ति होती है । जैसे—मायाकापालिकः ।

**शिल्पकम्—**

अथ शिल्पकम् । भाषणनाथरोपेतः । यथा-कसकावतीमाधवः । इमशानसङ्कुलं, अनुदात्तोपनायकभूषितं, कैशिङ्गी-भारती-सात्त्वत्यारभट्टीति चतुर्वृच्छिविराजितं, चतुरद्वृभूषितं, सर्वरसपूजितः । तस्य च सप्तविंशतिरक्षानि । यथा—उल्कण्डा, अवहित्यम्, प्रयलः, ग्रथनम्, आशंसा, तर्कः, संशयः, तापः, उष्णेगः, मौर्यम्, आलस्यम्, अप्रतिपत्तिः, विलापः, वाभ्यम्, अनुगमनम्, विस्मयः, साधनम्, उच्छ्वासः, चमत्कारः, शून्यत्वम्, प्रलोभः, वैशारद्यम्, सम्पेटः, आधासनम्, वोधनम्, प्रहर्पः, प्रदृस्तिरिति ।

१. सादित्यदर्पण में भी मायाकापालिक वा उष्णेप्राप्त होता है । इसका वर्चयिता भक्षात् है ।

शिल्पक—अब 'शिल्पक' का लक्षण बतलाते हैं। इसका नायक ब्राह्मण होता है। जैसे :—कनकावतीमाधव<sup>१</sup>। इसमें शमशान के हृथ रहते हैं, ऐसा उपनायक होता है जो धीरोदात्त प्रकृति का न हो। कैशिफा, भारती, सात्वती सथा आरभटी वृत्तियाँ होती हैं। चार अङ्क और सभी रस होते हैं। शिल्पक के सचाईस अङ्क होते हैं जिनके नाम इस प्रवार है—१. उत्कठा २. अवहित्थ ३. प्रयत्न ४. ग्रथन ५. आशासा ६. सर्क ७. सशय ८. ताप ९. उद्वेग १०. मीरध्य ११. आलस्य १२. अप्रतिपत्ति १३. प्रिलाप १४. वाम्य १५. अनुगमन १६. विस्मय १७. साधन १८. उच्छ्वास १९. चमत्कार २०. शून्यत्व २१. प्रलोभ २२. वैशारद २३. सम्फेट २४. आव्यासन २५. बोधन २६. ग्रहण तथा २७. प्रशस्ति ।

### उत्कण्ठा—

तत्र समणीयवस्तुविषयेऽग्निलाप. उत्कण्ठा । यथा शाकुन्तले-  
युद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य ।  
दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः ॥

( शाकु० ११५ )

उत्कण्ठा—किमी रमणीय वस्तु को पाने की इच्छा करना 'उत्कण्ठा' कहलाता है। जैसे शाकुन्तल ने ।

'यदि रनियास की रानियों में दुर्लभ सुन्दरता इन आश्रमग्रसिनी वन्याओं को मिली है तो यही समझना चाहिये कि जगल की लताओं ने अपने गुणों से उद्यान की लताओं को लजा दिया ।

### अवहित्थम्—

प्रबुद्धस्य सवरणमप्यहित्थम् । यथा-वृक्षपाटिकायाम्—रजनिका ( प्रविश्य ) भट्टिणी किं षेदं [ भट्टिनि, किन्त्वेतत् ! ] नन्दयन्ती— ( अपवार्य ) हजे, ए रुक्षु किञ्चिदिति [ हञ्जे, न खलु किञ्चित् ] इति ।

१. अलङ्कारसद्व्यप्रद तथा साहित्यदर्पण ने भी 'शिल्पक' का उदाहरण 'कनकावतीमाधव' ही दिया है। अलङ्कार सद्व्यप्रद में हमें शिल्पक के रथान पर 'सङ्घाप' का उदाहरण माना है तथा शिल्पक के सारे अङ्कों को भी सङ्घाप के अंग जो रथानकोश तथा भावप्रशान्ति में शिल्पक के अंग माने गए हैं।

अवहित्थ—किसी ज्ञात धस्तु को छिपाना 'अवहित्थ' कहलाता है। जैसे वृक्षबाटिका<sup>१</sup> मे—

रजनिका—(आकर) मालकिन्, यह क्या है ?

नन्दयन्ती—(छिपा कर) हंजे, कुछ भी तो नहीं।

प्रयत्नः—

अनिदृत्ये यत्नं प्रयत्नः । यथा प्राघृडङ्के—

अये, अन्विष्टेयं मया वनराजी । यावदेनां विचिनोमि । (परिक्रम्यावलोक्य च) कथमत्रापि नास्ति । कष्टं भोः कष्टम् !

सर्वत्राम्बुमुचो ध्वनन्ति कुटजामोदोऽपि सर्वत्रगः

सर्वत्रैव च ताण्डवव्यसनिता केका कला वर्हिणाम् ।

आर्याप्राप्तिनिराशमेव कलितं पापस्य मे मानसं

येनास्मिस्तदवस्थिते समुचितो नोदेश एव क्षत इति ॥

प्रयत्न—किसी धस्तु को प्राप्त करने का उद्योग या आग्रह करना 'प्रयत्न' कहलाता है। जैसे—प्राघृडङ्क मे—

[लद्मण ?]—ओ हो, मुझे इस वन प्रदेश में हूँड़ना चाहिए। अच्छा, तो मैं अब उन्हे तलाश करूँ। (धूम कर देखते हुए) अरे ! (वह तो) यहाँ भी नहीं। हाय ! हाय !

यहाँ नभी ओर मेघों का गर्जन हो रहा है, कुटज की गन्ध फैल रही है और चारों ओर नाचने वाले मोरों वी आवाजें हो रही हैं। आज मुझ अभाग का मन आर्यों को न पा सकने के कारण अतिशय निराश हो रहा है और फिर भी यहाँ पर ऐसा कोई स्थान शेष नहीं जहाँ जाकर मैंने उनकी तलाश न की हो।

ग्रथनम्—

अन्योन्यनिर्णयोत्पन्नपरिचयप्रकृतिविभ्रमाभिरामोऽर्थविशेषो ग्रथनम् ।

यथा चृहृद्भुलयीयिकायाम्—

यथ तैश्च—

अलसवलितमुखद्विग्यनिस्पन्दमन्दै-

रधिकविक्षुदन्तविस्मयस्मेरतारै ।

१. वृक्षबाटिका—पुष्पदूषितक के द्विनीयाकु वा नाम ।

दृदयमशरणं मे पक्षपालाक्ष्या कटाशे ।

रपहृतमपविद्वं पीतमुन्मीलितश्च ॥ ( माल० मा० १ । ३१ )

प्रथन—एक दूसरे के साथ संभाषणों एव निश्चयों से हो जानेयाले परिचय के कारण मार्दव और सीन्द्र्य से पूर्ण अर्थविशेषों का परस्पर प्रयोग करते हुए वार्तालाप करना 'अथन' समझना चाहिए । जैसे—  
दृष्टद्वकुलचीथिका<sup>१</sup> नामक अङ्गु मे—

हे मित्र, उस कमलनयनी के घचल कटाशों ने जो कभी लड़ना के कारण पीछे लौट जाते थे फिर उल्कठा के कारण तिरछे होकर ऊपर उठ जाया बरते थे, कभी पुतलियाँ आश्र्य ये भाव से खिलने पर चमकीली बन जाती थी । इन कटाशों ने मेरे असहाय मन को हार लिया, पटक दिया, पी लिया और वहीं गाढ़ दिया ।

आशंसा—

ईप्सितस्य दुर्लभस्याशंसनमाशंसा । यथा इमशानाङ्के—इदमेव  
तावत् प्रार्थये—

सम्भूयेव सुखानि चेतसि परं भूमानमातन्वते

यत्रालोकपथारतारिणि रति प्रस्तौति नेत्रोत्सव ।

यद्वालेन्दुकलोच्यादुष्पचितै सारैरिवोत्पादित

तत्पश्येयमनङ्गमङ्गलगृहं भूयोऽपि तस्या मुखम् ॥ इति ।

( मा० माध० ५ । ९ )

आशंसा—किसी दुष्प्राप्य वस्तु को पाने की इच्छा या 'आशा' करना 'आशंसा' कहलाता है । जैसे इमशानाङ्क मे—मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि—

निमरे सुन्दर मुख को देखने पर भूमार के सभी सुप्रभाल थर मानो चित्त मे थान-न वा चचार मा कर देते हो, निमरे अबलाकन मात्र से नेत्रों मे प्रीति का प्रस्ताव आने लगता है, निमरा धालचन्द्र की कला ये सारतर्गों से निर्माण किया गया सा लगता है उस प्रियतमा के मुख को—नो कामदेव ये मगल सदन ये ममान है—क्या मैं मिर से देख पाऊँगा ।

१ दृष्टद्वकुलचीथी—माणसीमात्रके 'पथमाङ्क' का नाम । 'दृष्टद्वकुलचीथी' एक पीथी का भी नाम है । अत ये दोनों परस्पर भिन्न हैं तथा इसी कारण अङ्गु क अभिधान मे यृदृष्ट विवेदण जोका गया है ।

तर्कः—

आत्मविचाराधीनोऽर्थविग्रहस्तर्कः । यथा नन्दयन्तीसंहारे—

भर्ता तवाहनिति कषट्शाविलक्षं

पुत्रस्त्वैष कुत इत्यनुदारतैषा ।

शर्सं पुर. पतति कि करवाणि कष्टं

व्यक्तं विरौमि यदि साभ्युपपद्यते मास् ॥ इति ।

तर्क—किसी तथ्य को निश्चित करने के लिए किया गया आत्म-परीक्षण 'तर्क' कहलाता है । जैसे नन्दयन्तीसंहार<sup>१</sup> नामक अद्वा में—

इन कष्टग्राम अगस्थाओं के बीच 'मैं तुम्हारा स्वामी हूँ' कहना अनुचित है और 'तुम्हें यह पुत्र किससे प्राप्त हुआ' पूछना भी अर्थहीन है । मेरी आंखों के सामने अब [ आत्महत्या के लिये ] शास्त्र ढढ रहा है । हाय ! अब मैं क्या करूँ ? यदि खुल कर रोता हूँ तो वह अभी मेरे पास आ जाएगी ।

संशयः—

कोटिद्वयावलम्बनोऽर्थः संशयः । यथा ( विद्व ) शालभजिता-याम्—

उपमाकारामं महिषु नयने तर्क्य मनाग्

अनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरण ।

सुधा-बद्धप्रासैरूपवत् चकोरैरुमृतां

किरञ्ज्योत्स्नामच्छा नव-लवलिपाकप्रणयिनीम् ॥

( विद्व० भ० ११३१ )

संशय—जिस विषय पर दोनों पश्चों का 'सन्देह होता हो' [ या वह अर्थ जिसे दोनों पश्चों में लगाया जा सकता हो ] 'संशय' कहलाता है । जैसे विद्वशालभजिता में—

जरा उम किले की दीवार के एक कोने पर अपनी चतुर उठा कर देखिये और थोड़ा पिचार कीजिये कि बिना आकाश के यह निष्कलम्बु चन्द्र यहाँ कैसे उढ़ित हो रहा है । यह अपनी स्वच्छ कान्ति को चारों ओर फैला रहा है जो ताजी लवली लता के समान झुग्र है । इस

१. नन्दयन्तीसंहार—पुष्पदूषितक के अन्तिम अद्वा का नाम ।

चन्द्रिका का पान करने के लिये सुधा रस से सने मुँह थाले उपवत के चकोर पक्षी भी मानों इस चन्द्र का अनुसरण कर रहे हैं।

**तापः—**

अनुशयविशेपस्तापः । यथा कुलपत्यङ्के—

सुश्रूषास्यति गोचरं नयनयोरुचिदपदेक्षणा

सुधा सेयमिति स्फुटं यदि परिज्ञातं भवेत् प्राप्य मे ।

तद्वौरीदयितादपास्य सकलानन्यान् वरान् केवलं

किं न प्रार्थितवानतीतगणनानन्तां विजातस्फुटानिति ॥

**ताप—विशेप रूप में पश्चात्ताप करना 'ताप' कहलाता है। जैसे कुलपत्यङ्क में—**

क्या मुझे इसके पाने के घडिले स्पष्टतः यह ज्ञात था कि विकसित कमळ के समान नेत्रों और सुन्दर बरीनियों वाली जो सुन्दरी मुझे दिलाई दी थी वह यही भोली युवती होगी। यदि ऐसा विदित होता तो मैं गौरीबल्लभ शिवजी के द्वारा दिये हुए सभी घरों को छोड़ कर—जो अपने विपरीत परिणाम को स्पष्टतः प्रकट कर सकते थे—इसी की प्रार्थना कर्यों नहीं कर लेता जिससे कि अतीत से अनन्तकाल तक की गणना तक अपरिमित प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती थी।

**उद्गेगः—**

चन्द्रुजनवियोगजनित उद्गेगः । यथा धृतराष्ट्राङ्के—

सुक्ष्मियासि भवती क्ष च दीनतैपा

निर्वल्लखे सुतशतस्य विपचिमेनाम् ।

त्वं नानुचिन्तयसि रक्षसि मामयोग्यं

मात किमप्यसद्ये कृपणे वचस्ते ॥ (वे० स० ५०३ )

**उद्गेग—अपने सम्बन्धियों से चिठ्ठाने पर होने वाला झलेश 'उद्गेग'** समझना चाहिये। जैसे धृतराष्ट्राङ्क में—

आरे माँ, तुम ऊँचे कुल में उत्पन्न होनेवाली अत्रियाणी हो और तुम्हारे मुँह से ये दीनवचन निवल रहे हैं। यह क्या है? अरी पुत्र स्नेह में गिर्हल होनेवाली माँ, तुम अपने सभी पुत्रों की आपत्ति का स्मरण नहीं कर रही हो और अकेले मुक्त अयोग्य की रक्षा करना चाहती हो। (आज) ये कायरतापूर्ण शब्द तुम्हारे मुँह से निवलने योग्य नहीं हैं।

## मौग्धम्—

स्त्रीस्वभावविशेषो मौग्धम् । यथा चैत्रावल्यङ्के—

( सागरिका ) अम्मो अम्हाणं तादस्स अन्तेऽरे चित्तगदो भजवं अच्छिमदि । एत्थ उण तथं चेत्र पूज्म पदिस्सदि । [ अहोऽस्माकं तातस्यान्तं पुरे चित्तगतो भगवानर्च्यते । अन्न पुन स्वयमेव पूजां प्रतीच्छति । ] ( रला० अ० १ )

मौग्ध—खियों की अति सहज भोली प्रकृति को ‘मौग्ध’ समझना चाहिये । जैसे चैत्रावल्यङ्क मे :-

( सागरिका ) ओर, आश्रय है । मेरे पिताजी के घर पर तो केवल कामदेव के चित्रों की पूजा की जाती थी पर यहाँ तो साक्षात् काम का अर्चन किया जा रहा है ।

## आलस्यम्—

मार्गादिलेदजन्य अम आलस्यम् । यथा कुन्दमालानिर्वासि-

[ सीता— ] वच्छ लक्षण, अदिसबं गरुज गव्मभारं वहणच्छमा ण वहन्दि मे चलणा । ता अगदो भविभ णिरुवेदि दाव कीसदूरे भय-वदी भाईरधीति । [ वल्स लक्षण, अतिशयं गुरुगर्भभारं वहनाक्षमौ न वहतो मे चरणौ । तदगतो भूत्वा निरूपय तावत् कियद् दूरे भगवती मागीरथीति । ] ( कुन्द० अ० १ )

आलस्य—बड़ी दूर तक चलने के कारण होने वाली थकानट को ‘आलस्य’ समझना चाहिये । जैसे कुन्दमाला मे :-

सीता—गर्भ भार से कमजोर हो जाने के कारण अब मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं । तुम जरा आगे बढ़ कर पता लगाओ कि अब भागीरथी कितनी दूर है ?

## अप्रतिपत्तिः—

प्रतिपचिमूढताऽप्रतिपत्तिः । यथा कोशलाङ्के—

पियसहि, ण कलु कि पि । किन्तु गदं पुत्रकं सुणिअ किं महाराजो पदिवतिस्सदि चि एव्दं मे सोअकारणं ति । [ प्रियसहि, न खलु किमपि । किन्तु गतं पुत्रकं श्रुत्वा किं महाराजः प्रतिवक्ष्यतीति एतन्मे शोककारणम् इति । ]

**अप्रतिपत्ति**—किये जाने वाले कार्य का अद्भुत रहना या उसे करते समय घबड़ाहट होना 'अप्रतिपत्ति' कहलाता है। जैसे कोशलाङ्क मेंः—

सखि, और कुछ नहीं। पर जब महाराज यह सुनेंगे कि अब उनका पुत्र नहीं रहा तब वे क्या कहेंगे ? मेरे शोक का यही कारण है।

**विलापः**—

शोकसमुत्थमापदि परिदेवनं विलापः । यथा कृत्यारावणेऽ-  
टव्यङ्के—‘वैदेहि देहि कुपिते दयितस्य वाचम् ।

इत्यङ्कतस्य सहसागतसङ्गमस्य ॥’ इत्यादि ।

**विलाप (परिदेवन)**—आपत्तिकाल में शोक के कारण होनेवाला रुदन 'परिदेवन' कहलाता है। जैसे कृत्यारावण के अटवी नामक अद्भुत मेंः—

‘अरी कुपित होने वाली वैदेहि, इस समय सहसा मिल जाने वाले अपने स्वामी को बुलाओ तो’ इत्यादि ।

**वाम्यम्**—

प्रसादने व्युत्थान वाम्यम् । यथा कुम्भाङ्के—

देवी—देव, एतद्वक्तुकामास्मि । सीता मोचय । अवलीयसीं दद्या-  
मुपगतस्त्वम् । तत् कि विस्मृतोऽसीत्यादि ।

**वाम्य**—प्रसन्नता के विपरीत आचरण करना 'वाम्य' कहलाता है।  
जैसे कुम्भाङ्क मेंः—

देवी देव, तुम्हें मैं यही कहना चाहती थी कि 'सीता को छोड़ दो,  
अब तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है किर क्यों भूल फर रहे हो' आदि ।

**अनुगमनम्**—

प्रस्थितस्य हर्षदनुयानमनुगमनम् । यथा मायाशुकुन्ते नलः-

इय दर्मग्रेणी मृदुचरणपातं घज शनै

निर्वर्त स्वाध्यायं निविडनडमालावलयित ।

मजेया, पश्चान्मा वरतनु पुरस्तान्मृगखुर-

क्षुरभ्रत्यालैसस्थपुटितदिभागा वनमुव ॥

**अनुगमन**—प्रस्थान फरनेवाले स्थामी का प्रसन्नतापूर्वक अनुसरण  
फरना 'अनुगमन' कहलाता है। जैसे मायाशुकुन्त में—

नल—इस मार्ग में कुशाओं की पाँतें हैं इसलिए धीरे-धीरे पेरो घो

चढ़ा कर चलो । चक्करदार बैठों की पाँत से युक्त इस रास्ते में धीरे से घूमो । तुम मेरे पीछे-पीछे ही धीरे चलो क्योंकि मूर्गों के तीखे सुरों से खुदने पर उबड़नगावड़ भू मारा तीखे हो जाने के कारण चुभने वाले बन गवे हैं ।

### विस्मयः—

अकृतार्थदर्शनोद्भवोऽर्थविशेषो विस्मयः । यथा—‘दोर्दण्डाः कृताङ्गदा’ इति ।

विस्मय—किसी प्रयोजन के पूर्ण न होने पर उसे देखकर होनेवाला मात्रिक भाव ‘विस्मय’ कहलाता है । जैसे—

अघे बाजूबन्द से शोभित मुजडण्ड कहाँ है ? इत्यादि ।

### साधनम्—

व्याहारविशेष साधनम् । यथा क्षपणककापालिके—‘मवतु । मन्त्रेण वशीकरोमि ।’ इति

साधन—किसी विशेष उपाय का कथन करना ‘साधन’ समझा जाता है । जैसे क्षपणककापालिक में—

रेर, जाने दो । अब मैं अपने मन्त्रों से इसे बश में करता हूँ ।

### उच्छ्वासः—

मुखस्योत्थानमुच्छ्वासः । यथा विक्रमोर्बशीये—‘अये, समुच्छ्व-सितमार्येण ।’ इति । ( वि० व० अ० ४ )

उच्छ्वास—मूर्च्छित या भोहित पुरुष का फ्रिर अपनी दशा में उठ राढ़े होना ‘उच्छ्वास’ कहलाता है । जैसे विक्रमोर्बशीय में—

‘अरे, अब आर्य की साँस चलने लगी ।’

### चमत्कारः—

चमत्कारो लोकप्रसिद्ध एव । यथा क्षपणककापालिके—

होमालिके, लामलक्षणेहिं लक्षितदे दंडकालणे आकोरेदि मं लंकाए ति । [आश्र्यम्, रामलक्षणाभ्यां रक्षिते दण्डकारण्ये आकारयति मा लङ्घाया ] इति ।

चमत्कार—लोकप्रसिद्ध होने से ‘चमत्कार’ का लक्षण सभी जानते हैं । जैसे क्षपणककापालिक में—

१. ‘दोर्दण्डा’ इत्यादि यथा उक्तराशन के द्वितीय अङ्क का है ।

२. क्षपणककापालिक-रामायन नाटक के एक अङ्क का नाम ।

ओ हो, रामलद्दमण से सरक्षित दण्डकग्रण्य में सुझे लहड़ा से वह दुला रहा है इत्यादि ।

### शून्यत्वम्—

विस्मरणशून्यत्वं शून्यत्वम् । यथा प्रावृद्धके—वत्स, इयती वेला के गते मध्यानासीत् । इति ।

शून्यत्व—किसी की याद न आना 'शून्यत्व' कहलाता है । जैसे प्रावृद्ध नामक अहङ्क में :—

वेटे, तुम इतनी देर कहाँ गये हुए थे ।

### प्रलोभः—

प्रयोजनार्थमर्थादिभि. प्रलोभनं प्रलोभः । यथा मोटकाङ्के—

शकार—शुवर्णआणं शुद्धं देमि । कंठकं जटुकं दे देमि । मालेहि ले एदं गणिआदालिवं । [ सुवर्णकानां शुतं ददामि । कण्ठकं जतुकं तुभ्यं दास्यामि । मारय रे पता गणिकादारिकाम् । ]

( मुच्छ० अ० ८ )

प्रलोभ—अपने कार्य के लिए धन आदि वा लालच दियलाना 'प्रलोभ' कहलाता है । जैसे मोटकाङ्क में :—

शकार—मैं तुझे एक सौ सोने की भुत्ते दूँगा और एक सोने के दानों का कण्ठा दूँगा जिसमें लाप भरी हुई है । घम, तू इन वेश्या की चोरी को मार डाल ।

### वैशारद्यम्—

आमत षीरुपश्चिपादनं वैशारद्यम् । यथा रामाभ्युदये

चाली—क्षयानलश्चिखाजालविकरालसटावलि ।

दृश्यते वा द्विष्पे. सिह. कुद्दो चाली न वैरिभि ॥

वैशारद्य—अपने पुरुषार्थ या श्रीर्य वा घसान बरना 'वैशारद्य' कहलाता है । जैसे रामाभ्युदय में :—

चाली—प्रलयकाल में उठनेचाली आग की लपटों वे समान भयकर जटाओं वी पाँतों से व्याप शोध में भरे हुए चाली ( के मुख ) को शयु उभो प्रकार नहीं देख पाते जैसे सिंह को हाथी ।

## सम्फेटः—

क्रोधेनातिकम् सम्फेटः । यथा मोटकाङ्क्षे—

शकार—ओदल गर्भदारी ओदल । मम केलकाईं गोणाईं वाहेशि । [ अवतर गर्भदासी अवतर । मदीयौ गावौ वाहयसि । ]

( मृच्छ० अ० ८ )

सम्फेट—क्रोध में मर्यादा को लॉघ जाना 'सम्फेट' कहलाता है । जैसे मोटकाङ्क्षे में—

शकार—अरे गर्भदासी, नीचे उतर । मेरे बैलों पर चढ़ी जा रही है ।

## आशासनम्—

शोकापनोदमाश्वासनम् । यथा कोशलाङ्के—

सुमित्रा—अज्जे समस्तस । कीस दाणि तुमं रामभद्रस्त जग्णी भविअ अहारिसीहि आसासीअसि । [ आर्ये समाधसिहि । कस्मा-दिदानी त्वं रामभद्रस्य जननो भूत्वास्माहशीभिराध्यास्यसे । ]

आशासन—शोक को दूर करना 'आशासन' कहलाता है । जैसे कोशलाङ्के में—

सुमित्रा—देवी, तुम धैर्य रखो । क्योंकि तुम श्रीराम की माता होकर भी आज हम जेसी से धीरज बैधाने को कही जा रही हो ।

## बोधनम्—

कार्यप्रतिवचनेन प्रतिबोधनं बोधनम् । यथा राघवाभ्युदये लक्ष्मणः—तदेतद्विजापयामि ।

अभ्यर्थ्यता मार्गमसौ पयोषि.

स बध्यतां कूटमतिर्दशास्यः ।

विमुच्च तावत् परिदेवितव्यं

कार्याणि सर्वत्र गुरुभवन्ति ॥

बोधन—भावी कार्यों के क्रम को बतलाना 'बोधन' कहलाता है । जैसे राघवाभ्युदय में—

लक्ष्मण—मैं तो आपको यही निवेदन करता हूँ कि—आप चाहे इस समुद्र से मार्ग की याचना करे या छलकपट में दक्ष वह रावण

बाँध लिया जाए। पर इन सभी कार्यों के पहिले आप विलाप करना छोड़ दीजिये क्योंकि प्रथेक किया जानेवाला कार्य सरलता से पूर्ण नहीं हो जाता।

**प्रहर्षः—**

प्रहर्षस्थ लोकप्रसिद्ध एव। यथा ( विक्रमोर्वशीये )—

पुरुरवा—( चक्रुपी उन्मील्य ) कर्थं सत्यमेव मिथतमोर्वशी।  
( विक० अ० ४ )

प्रहर्ष—लोकप्रसिद्ध होने से 'प्रहर्ष' को सभी जानते हैं। जैसे विक्रमोर्वशीय मे :—

पुरुरवा—( आँखें खोलने हुए ) अरे! क्या सचमुच मेरी प्रिया दर्शशी है।

**प्रशस्तिः—**

देवद्विजादिकस्याणावधारण प्रशस्तिः। यथा राघवाभ्युदये—  
'श्रीत् पृथ्वीम्' इत्यादि।

प्रशस्ति—देवता या ग्राहणों की मङ्गलकामना करना 'प्रशस्ति' कहलाती है। जैसे राघवाभ्युदय मे :—

राजा प्रसन्न होकर पृथ्वी की रक्षा करें 'इत्यादि।

**प्रस्थानम्—**

अथ प्रस्थानम्। घटचेष्यादिनायिक, कैशिकीषुत्तिवहुलं, वहुताललयात्मक, सुरापानराजितं, विटोपनायकं दासादिनायकम्। यथा—  
शृङ्गारतिलकम्।

प्रस्थान—अब 'प्रस्थान' का लक्षण घतलाते हैं। इसकी नायिका दासी या नीचछुल मे उत्पन्न होनेवाली खी होती है, कैशिकी धृत्ति भी प्रचुरता रहती है, थानेक ताल और लय से युक्त सज्जीत वी योजना रखी जाती है, सुरापान आदि भी घटनायें रहती हैं और दास नायक तथा विट उपनायक होता है। जैसे शृङ्गारतिलक।

१. 'श्रीत् पृथ्वीम्' हायादि सम्पूर्ण श्लोक पहले दिया जातुका है। ( अ० ना० ८० १० ३० वो० ५० १० )

२. शृङ्गारतिलक प्रस्थान का उल्लेख ना० ८० ( ११४२ ), भावप्रबाधान ( १० २११ ) तथा अष्टद्वारसद्ग्रह ( ११४१ ) में भी प्राप्त होता है।

### काव्यम्—

अथ काव्यम् । खण्डमान-मात्राद्विपदीभगतालकादिविभूषितं, चतुर्वृत्तियुक्तं, शङ्कारहास्यप्रधानं, गर्भावमर्शसन्धिशूल्यमेकाङ्क्षम् । यथा—उत्कण्ठितमाधवम् ।

काव्य—अब ‘काव्य’ का लक्षण बतलाते हैं । इसमें रहनेवाले सहीन में खण्डमान, मात्रा, द्विपदी और भगताल की योजना की जाती है, चारों वृत्तियों रहती है, शङ्कार और हास्य रस मुख्य होते हैं, गर्भ तथा अवमर्श सन्धियाँ नहीं होतीं तथा एक अङ्क होता है । जैसे उत्कण्ठितमाधव ।

### हल्दीसकम्—

अथ हल्दीसकम् । सराए-नव-योगिहृषितं, कैशिकीवृत्तिप्रायं, वहुताललयात्मकम्, एकाङ्कम्, एकपुरुषप्रधानमनुदातवचनकृतम् । यथा—केलिरैवतकम् ।

हल्दीसक—अब ‘हल्दीसक’ का लक्षण बतलाते हैं । इसमें सात, आठ या नौ स्त्री पात्र रहते हैं, कैशिकी वृत्ति मुख्य होती है, लय और ताल से आशद्व सङ्गीत का प्राचुर्य रहता है, एक अङ्क होता है तथा एक मुख्य पुरुष-पात्र रहा जाता है । इसकी भाषा संस्कृत या परिष्कृत नहीं होती । उदाहरण ‘केलिरैवतक’ ।

### श्रीगदितम्—

अथ श्रीगदितम् । यत्र स्त्रीरासीना कल्पं पठति । एकाङ्कसुदात-वचनकृतं, भारतीवृत्तिप्रधानं प्रत्यातवस्तुनायकम् । यथा—क्रीडा-रसातलम् ।

श्रीगदित—अब ‘श्रीगदित’ का लक्षण बतलाते हैं । इसमें एक स्त्री का वेठ कर बहुरूप गीत गान रखा जाता है । इसमें एक अङ्क, सुसंस्कृत भाषा तथा भारतीवृत्ति होती है । इसके नायक और कथावस्तु प्रत्यात होते हैं । जैसे क्रीडारसातल<sup>१</sup> ।

१. केलिरैवतक का उल्लेख सा० ८० ( ६३०७ ) भावग० ( ४० २६० ) तथा भद्रद्वारसंग्रह ( ११४९ ) में भी प्राप्य है ।

२. हुडगा—सा० ८० ( ६२९४, ५५ ) अल० ८० ( ११५१ ) ।

## भाणिका—

अथ भाणिका । उदाचनायिका, सूक्ष्मनेपथ्यभूषिता, एकाङ्गा, कैशिकी—भारतीयृच्छिशधाना मन्दपुरुषा च । यथा—कामदत्ता ।

अस्या सप्ताङ्गानि । विन्यास, उपन्यास, विरोध, अनुवृत्ति, साध्यसं, समर्पणं संहारश्चेति ।

भाणिका—अब 'भाणिका' का लक्षण बतलाते हैं । इसमें नायिका कुलजा या उत्तमा होती है । वेराभूपा में उत्कृष्ट वेष एवं वस्त्रों का उपयोग रखा जाता है । एक अहु होता है । कैशिकी तथा भारती घृत्ति की प्रमुखता होती है तथा छियों की अपेक्षा पुरुषपात्र कम रहते हैं । जैसे 'कामदत्ता' ।

भाणिका के सात अङ्ग होते हैं । यथा :—( १ ) विन्यास, ( २ ) उपन्यास, ( ३ ) विरोध, ( ४ ) अनुवृत्ति, ( ५ ) साध्यसं, ( ६ ) समर्पण तथा ( ७ ) संहार ।

## तत्र विन्यासः—

निर्वेदवाक्यं विन्यासः । यथा गृहवाटिकायाम्—

नन्दयन्ती—ता किं मे दोहमकलंकमलिनिदेण हदसरीरेण ।  
[ तत् किं मे दीर्घ्यकलङ्कमलिनितेन हत्यारीरेण ]

विन्यास—निर्वेदपूर्ण घचनों वा कथन 'विन्यास' कहलाता है । जैसे गृहवाटिका में :—

नन्दयन्ती—इस अभागे और मलिन शरीर का अथ और उपयोग ही क्या रह गया है ।

## उपन्यासः—

प्रसङ्गतः कार्यनिवेदनमुपन्यासः । यथा तत्रैव—

नन्दयन्ती—एसो अदरो अजडचहिअअस्त्रिसो कण्ठिआर-पादवेत्यि । [एप. अषर. आर्यपुत्रहृदयसदृशः कर्णिकारपादपः अस्ति । ]

उपन्यास—[ अबसर पाने पर ] भाष्यी आर्य को सहसा कह छालना 'उपन्यास' समझना चाहिए । जैसे वही—

नन्दयन्ती—यह कनेट का युश्म आर्यपुत्र के दूसरे हृदय के समान है ।

**विरोधः—**

प्रान्तिनिवृत्तिर्विरोधः । यथा अनुतापाङ्के—

राजा—दर्शनमुखमनुभवतः साक्षादिव तद्रतेन हृदयेन ।

स्मृतिकारणात्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ॥ इति

( अभि० शाकु० ६।२१ )

विरोध—किसी भ्रम का हट जाना 'विरोध' समझना चाहिये ।  
जैसे शाकुन्तल के अनुताप नामक अङ्क में :—

राजा—ध्यान में भग्न होकर मैं अपने सामने साक्षात् उपस्थित हुई प्रिया के दर्शन का आनन्द से रहा था पर तुमने उसी की याद दिलाकर फिर से उसे चित्र बना डाला ।

**अनुवृत्तिः—**

निदर्शनोपन्यासोऽनुवृत्तिः । यथा तत्रैव—

साक्षात्प्रियामुपगतामपहाय पूर्वं

चित्रापितां पुनरिमां बहु मन्यमान ।

स्त्रोतोवहां पथि निकामजलामरीत्य

जातः सखे प्रणयवान् मृगतृष्णिकायाम् ॥ ( अभि० शा० ६।१६ )

अनुवृत्ति—किसी उदाहरण को बतलाते हुए चात करना 'अनुवृत्ति'  
कहलाता है । जैसे यहीं :—

राजा—हे मित्र, जरा मेरी दशा तो देखो । जब (मेरी) वह (प्रिया)  
पहिले स्वय मेरे पास आयी थी तब मैंने उसे लौटा दिया और अब चित्र  
में लिखित उसी प्रिया पर अपना ग्रेम दिया रहा हूँ । यह तो ऐसा ही है  
कि जैसे किसी भरी हुई नदी को छोड़कर पानी के लिए मृगतृष्णा की  
ओर कोई महाटने लगे ।

**साध्यसम्—**

अद्वृतस्य साध्यसेन भूतोदाहरणं साध्यसम् । यथा तत्रैव 'चृतानां  
चिरनिर्गतापि कलिका बजाति न स्वं रज' इत्यादि ।

( अभि० शाकु० ६।४ )

**साधस—** किसी अद्भुत या असम्भव घटना को भयबहा घटित घटला देना 'साधस' कहलाता है। जैसे वही—

देखो, बहुत पहिले फूटनेवाले आम के बौरों में अभी भी पराग नहीं जम रहा है इत्यादि।

**समर्पणम्—**

पीढ़योपालम्भ समर्पणम् । यथा चन्दनलताघृहे—

**मलयवती—** भगवन् कुसुमाउह, जेण तुम्ह रुबसोहाए विणिज्जिदो तस्स तए ण किं पि किढ । सम उण अणवरद्धाए कध पहरन्तो ण लज्जसि । [ भगवन् कुसुमायुध, येन त्वं रूपयोभया विनिजित तस्य त्वया न किमपि कृनम् । सम पुनरनपराद्वाया कर्थं प्रहरन् न लज्जसे । ] इति । ( नागा० अ० २ )

**समर्पण—** वृष्टि में आकर उलाहना देने लगना 'समर्पण' कहलाता है, जैसे चन्दनलता घृह में—

**मलयवती—** भगवन् स्मर, जिसने तुम्हें अपने सीन्दर्य से पराजित विया उसका तो तुम कुछ भी बिगाड़ते नहीं हो और मुझ निरपराधिकी श्री पर प्रहार करते हुए लज्जाते भी नहीं ।

**संहारः—**

संहारः प्रसिद्ध एव ।

**संहार—** 'संहार' का लक्षण प्रसिद्ध (होने से सभी जान सकते) है।  
**भाणी—**

अथ भाणी । एकाङ्का विटविदूपरूपीठमर्दशेभिता शृङ्गार-रसा, स्वल्पचित्रग्राह्या दशलास्याङ्गशोभिता । यथा—घीणावती ।

**भाणी—** अथ 'भाणी' का लक्षण घटलाते हैं। इसमें एक अङ्ग होता है, चिट, विदूपक और पोठमर्द पान होते हैं, शृङ्गारस होता है, शन्दरहङ्कारों की थोड़ी गाँवा में सयोनना रहती है और लास्य ये दसों अङ्ग रगे जाते हैं। जैसे चीणारती<sup>१</sup> भणी ।

**दुर्महिना—**

अथ दुर्महिना । चतुरङ्गा गर्भसन्धिशून्या । यथा—गिन्दुमर्ती ।

१. दृष्ट्य—भावप्रका० ( ४० ३११ ) ।

अस्यामेकाङ्क्षो विटविलासमयः । द्वितीयो विदूपकविलासमयः । तृतीयः पीठमर्दविलासमयः । चतुर्थं नागरविलासमयः । प्रथमस्तु त्रिनाडिकः, द्वितीयः पञ्चनाडिकः, तेषौ दशनाडिकौ ।

**दुर्मलिका**—अब 'दुर्मलिका' का लक्षण बतलाने हैं। इसमें चार अङ्क होते हैं तथा गर्भसन्धि नहीं होती। जैसे बिन्दुमती। इसके प्रथम अङ्क में विट का कार्य प्रदर्शित किया जाता है, दूसरे में विदूपक का तथा तीसरे में पीठमर्द का। चौथे अङ्क में नायक का नागरक रूप में किया जाने वाला विहारविलास (आदि) प्रदर्शित किया जाता है। प्रथम अङ्क का समय तीन<sup>१</sup> नाडिका, दूसरे अङ्क का समय दो नाडिका और शेष तीसरे और चौथे अङ्कों का समय दस नाडिका रखा जाता है।

**प्रेक्षणकम्—**

अथ प्रेक्षणकम् । अशेषभाषोपशोभितं, शौरसेनीप्रधानं, गर्भविमर्शशून्यं तल्लशणमुक्तव्वं सर्ववृच्छिनिष्पत्तम् । प्रतिमुखसन्धिप्रवेशकविष्फळमका अत्र न कर्तव्याः । परिवर्तकयुक्तं प्रयत्नत कार्यम् नियुद्दसम्फेटयुतं, विषदनुचिन्तावहुसन्ध । अत्र तु सूत्रधारो न विधेय । नान्दी उपक्षेपश्च विधेय । यथा—गालिवधः ।

**प्रेक्षणक**—अब 'प्रेक्षणक' का लक्षण बतलाते हैं। इसमें सभी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तथा शौरसेनी की प्रगुणता होती है। गर्भ और विमर्श सन्धियों नहीं होतीं पर उनके कार्यों के अंश रहते हैं। सभी धृतियों रहती हैं। इसमें प्रतिमुख सन्धि, प्रवेशक तथा विष्फळमक नहीं होते पर पूर्वद्वंड के एक अङ्क 'परिवर्तक' को सावधानीपूर्वक रखा जाता है। इसमें धारुयुद्ध, कोषपूर्णसम्भाषण तथा भावी विपत्ति की धाराहृद्दाओं का प्रदर्शन रखा जाता है। इसमें सूत्रधार को नहीं रखा जाता परन्तु नान्दी और उपक्षेप की योजना की जाती है। जैसे गालिवध<sup>२</sup> ।

१. तुर्ना—मा० द० (६१३०४), भावप्र० (४० २६७) तथा भवद्वारस० (११३५)। भावप्रकाशन में तीसरे चौथे अङ्क की सात नाडिकाएं तथा साहित्यदर्शण और भवद्वारसप्रह में तीसरे और चौथे अङ्क की छ, नाडिकाएं मानी गई हैं।

२. गालिवध मेष्टगक का वहेष भा० प्र० (४० २६३) तथा अल० स० (११२५) में भी मिलता है।

## सट्टकम्—

अथ सट्टकम् । तच्च नाटिकाप्रतिरूपक, कैशिकीभारतीप्रधानं, रौद्रवीरभयानकबीभत्समवमर्शसन्धिशून्यम् । यथा—कर्पूरमञ्जरी । अन्तर्यवनिकान्तम् । यथाङ्के यवनिमयाऽवच्छेदा मवन्ति तथात्रापि । शीरसेनीप्राच्यामहाराष्ट्रीयुक्तम् । खीदू राजोऽपि प्राकृतपाठः कार्यात् संस्कृतपाठ । तत्र रूपकमेवेदं कार्यमिति राजापि प्राकृतपाठ कर्त्तव्यः ।

सट्टक—अब हम 'सट्टक' का लक्षण बतलाते हैं। इसका स्वरूप नाटिका के अनुकरण पर निर्भित किया जाता है। इसमें कैशिकी तथा भारती वृत्ति की प्रधानता रहती है। इसमें रौद्र, वीर तथा भयानक रस होते हैं तथा अवमर्श सन्धि नहीं होती। जैसे—कर्पूरमञ्जरी। यवनिका के द्वारा मध्यन्तर होते हैं। ये मध्यन्तर अङ्क के समान होते हैं अर्थात् अङ्क के द्वारा किये जानेवाले कार्यों को यवनिका के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इसकी भाषा शीरसेनी, प्राच्या या महाराष्ट्री प्राकृत होती है। इसका नायक राजा होता है और उसी पात्र के समान प्राकृत भाषा का (ही) व्यवहार करता है तथा (यद्यपि बादरायण आचार्य के अनुसार) कार्यवश मस्कृत भाषा का भी व्यवहार किया जा सकता है किर भी रूपक के स्वरूप की प्रमुख भाषागत इसी विशेषता के कारण राजा को प्राकृतभाषी ही रखना अधिक अच्छा<sup>१</sup> है।

## रासकम्—

अथ रासकम् । मुख्यनायिकम्, सरुलभाषाविभाषाशोभितम्, उदाचनायकं, पश्चपात्रप्रयोज्यमनेककलोपदेहवार्तामण्डितं, मनुष्णोदाचभावमूपितमुद्दोचत्रधानमेकाङ्क्ष सूत्रधारपरिहीणं वीव्यद्ययुक्तम् । यथा—मदनिकाकामुक्तम् ।

रासक—अब हम 'रासक' का लक्षण बतलाते हैं। इसमें नायिका प्रमुख एवं प्रभिद्वय होती है, सभी भाषाओं का व्यवहार रखा जाता है, धीरोदात्त

1. सट्टक की नाटिका में अतिरिक्त विशेषता यही है कि यह प्राकृत भाषा में होता है। 'सट्टक प्राकृतादेषभाषम्'। हमी मिथेदक स्वरूप के कारण इसमें सारे पात्रों की भाषा प्राकृत ही रही जाती है, अतः नायक के राजा होते पर भी उसकी भाषा मरहन्त नहीं रहती तथा इसके सारे सम्भाषण प्राकृत भाषा में ही होते हैं।

'नायक होता है, पॉच पात्र होते हैं, अनेक कलाओं की शिक्षा तथा सूचनाओं के देने वाले सम्भापण रखे जाते हैं, कोमल और उदात्त भावों की योजना रहती है, संवादों में उत्तरोत्तर चढ़ाव या जोड़-तोड़ का मयोजन रहता है, एक अङ्क होता है तथा सूतधार नहीं होता। इसमें धीरी के सभी अङ्गों की योजना भी की जाती है। जैसे—मदमिका कामुक।

### नाट्यरासकम्—

अथ नाट्यरासकम् । बहुताललयात्मकं, हासशृङ्खारमण्डितम्, एकाङ्कं, दशलास्याहृषितम्, उदाचनायकपीठमदोपनायक वासकसज्जानायिकम् । यथा—विलासवती ।

नाट्यरासक—अब हम 'नाट्यरासक' का लक्षण बतलाते हैं। इसमें लय ताल से निष्ठद्व सङ्गीत की प्रचुरता होती है, हास्य और शृङ्खारस दोनों अङ्गों की योजना की जाती है। इसका नायक (धीर) उदात्त, उपनायक पीठमर्द तथा वासकसज्जा नायिका होती है। जैसे—विलासवती ।

### उल्लाप्यकम्—

अथोल्लाप्यकम् । गीतमयं व्यङ्गम् । अस्य लक्षणम्—उदारनायक-मुज्ज्वलरेपात्मकं, बहुपुस्तप्रधानं, दिव्यचरितं, शिल्पकाङ्क्षभृष्टि हास्य-कारुण्यशृङ्खारपूरितम् ।

यथा—देवीमहादेवम् । इति ।

उल्लाप्यक (या उल्लाप्यक)—अब हम 'उल्लाप्यक' का लक्षण बतलाते हैं। इसकी रचना गीति पदामयी होती है, सङ्गीत की प्रचुरता रटी जाती

१. रासक का नायक मुख्य या उदात्त रहना चाहिये। भा० ग्र॑ तथा अलङ्कारमंगद ने भी यही माना है। सम्बवत् लिपि प्रमाद के कारण 'मुर्यनायकम्' शब्द 'मूर्यनायकम्' होकर साहित्यदर्पण की प्रतियोगी में पहुँच गया अनीत होता है। यारतव में रासक का नायक उदात्त ही होता है। क्षत् इस उपरूपक का दर्शनानुसोदित मूर्त्य नायक कपमपि उपयुक्त नहीं।

२. मुञ्चना—या० ३० (६२०९, २८०) तथा अलङ्कार सं० (११६१) ।

२० ना० ल०

है तथा तीन अङ्ग<sup>१</sup> होते हैं। इसका नायक उदार ( उदात्त ? ) प्रकृति-  
का होता है और उसकी चेशभूपा भट्ठ ( चम ? ) कीली रखी जाती है।  
इसमें अनेक पुस्तकर्म ( मुखोटे तथा और पलस्तर से तैयार वस्तुओं )  
का उपयोग किया जाता है, दिव्य पात्रों का कार्य प्रदर्शित किया जाता  
है तथा शिल्पक के अङ्गों की संयोजना की जाती है। इसमें हास्य,  
शृङ्खाला तथा कहण रस होते हैं। जैसे—देवीमहादेव<sup>२</sup> ।

इह हि भरतमुख्याचार्यशास्त्राम्बुद्धशेः

अमृतमिव रसात्म्यं लक्षणं नाटकस्य ।

ग्रतिधृतमपहाय व्यासमुक्त्या च लक्ष्या-

ण्डिगमयितुमल्पज्ञानमङ्गल्पथ्रमेण ॥ ३७० ॥

यह भरत आदि प्रमुख नाट्यचार्यों के मिद्दाम्बुद्धपी समुद्र से  
निकला हुआ नाटक आदि के लक्षण घटलाने वाला अमृततुच्य रस-  
शास्त्रीय प्रन्थ है। इसमें लद्य का ज्ञान करवाने के लिए विना विस्तार  
के उदाहरणपूर्वक विषय का विवरण दिया गया है, जिससे अल्पज्ञान  
रप्तनेवाले भी धोड़े से परिश्रम से इसका ज्ञान कर लें।

श्रीसागरेण मुकुटेश्वरनन्दिवंश-

व्योमाङ्गनैकशशिनाल्पधियां दिताय ।

सृष्टो मुनिप्रवचनैरिह नाटकस्य

वीजादिनैरुचिध-लक्षणरत्नकोशः ॥ ३७१ ॥

श्रीमुकुटेश्वर नन्दी के घर में आकाश में विद्यमान चन्द्र के समान  
स्थित श्रीसागर ने इस रत्नकोश का निर्माण किया जिसमें नाटकीय  
लक्षण, वीज आदि का आचार्यों के प्रवचन के अनुसार विवरण दिया  
गया है जो अल्प धुक्खियालों के लिए ही निर्मित किया गया है।

श्रीहर्ष-विक्रमनराधिप-मातृगुप्त-

गग्नीश्मकुट्ट-नरकुट्टक-नादराणाम् ।

१. तीन अङ्ग—भर्त्ता, नृत्य, गीत और वाप्ति। इसका नाम ही सङ्कीर्तमर्द्दा  
रचना को सङ्कीर्तित करता है। उप्पोच्यक को मार्ग के मान भेदों में (ही) भात  
मुनि ने माना है। यह एकाङ्ग होता है। साहित्य दर्पण ने इसे अन्य मन से  
तीन अङ्गों का भी माना है जिसकी पुष्टि किन्हीं आचार्यों से नहीं होती।

२. तुलना—सा० द० ( १२८३ ), भावप्रका० ( ४० २१६ ) ।

एषां मतेन भरतस्य मतं विगाह  
घुणं मया समनुगच्छत रत्नकोशम् ॥ ३७२ ॥  
समाप्तश्चायं नाटकलक्षणरत्नकोशः कवेः श्रीसागरनन्दिनः ।

—८५—

इस प्रन्थ मे मैंने भरतमुनि के मत को ठीक से रखने के साथ साथ श्रीहर्ष,<sup>१</sup> विक्रमराज,<sup>२</sup> मातृगुप्त, गर्ग, अश्मकुट्ट, नरकुट्ट तथा बादर (बादरायण) नामक आचार्यों के मतों को भी बतलाया है। अतएव सभी सज्जनजन इस रत्नकोश का (नाटकीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए) अनुसरण करते रहें।

श्रीसागरनन्दी के द्वारा निर्मित नाटकलक्षणरत्नकोश  
नामक यह प्रन्थ पूर्ण हुआ।

१. श्रीहर्ष नाट्यशास्त्र के वार्तिककार थे। अभिनवगुप्तपाद ने ‘हर्ष-वार्तिकम्’ को अपनी अभिनवभारती व्याख्या में उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रन्थ अपना विशेष महत्व रखता था। सम्प्रति यह प्रन्थ अप्राप्य है।

२. विक्रमराज या विक्रम—हम्मीर के सहीतसह उद्घाटक तथा सहीत-मकरन्द में विक्रम को नाट्यशास्त्र का लेखक माना है। ( १० Journal of the Music Acedemy Madras IV पृ० २० )। रहनाथ की विक्रमोवंशीय टीका से विद्रित होता है कि विक्रमराज या साहसाङ्क ने नाट्यशास्त्र पर एक टीका भी लिखी थी ( १० रहनाथटीका निं० सा० संहक० पृ० ३१ )। विक्रम के किसी नाट्यशास्त्रीय प्रन्थ या टीका की कोई प्रति या उनसे उद्धरण भी सम्प्रति प्राप्य नहीं है।

३. गर्ग का उल्लेख रत्नकोश में ही प्राप्य है। यद्यपि यादरायण समझना चाहिये। यादरायण के अनेक उद्धरण नाट्यसंगीत प्रभ्यों में प्राप्त होते हैं। रत्नकोशकार ने भी इनके मत को तीन बार उद्धृत किया है। अश्मकुट्ट और नरकुट्ट भी नाट्यशास्त्र के ज्ञात आधार्य हैं तथा इनके भी उद्धरण ही प्राप्त होते हैं और इनकी कोई अज्ञतक कृति प्राप्त नहीं हुई।

# परिशिष्ट

( १ )

## नाटकलक्षणरत्नकोश में उद्भृत ग्रन्थकारों की सूची

अन्य—५, १६, १९, २१, २३, ३१, ३३, ७८, ९२, १०८, १३०, १३३, १२६,  
१६६, १६७, १९३, २१८

अश्महुट—१०, ४५, २६३, ३०७

कार्यायन—१४७

काव्यसीमोसा ( राजसेवर )—१३१,

कामयादर्श ( दण्डी )—१३२, १४३, १४८, १४९

कोहृष्ट—१०३

गर्भ—३०७

चारायण—३७

नायकुट—२६८

नागरसर्वस्व ( पद्मधी )—२४३, २४८, २४९, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५,  
२५६, २५७

पितामह—३,

चाद्र—३०७

चाद्रायण—१०९, २६२, ३०७

भरत—५, १३, १४, १५, २०, २१, २२, २२, २४, ४३, ५३, ६१, ७८, ९३, १११,  
११६, १२८, १३८, १३९, १४६, १४९, २६०, २६३, २६५

मातृगुप्त—७, १२, ३२, ४५, ४७, १७२

राहुल—२४९,

विद्वास ( साहस्रक )—३०७

शातकर्णि—११०

श्रीहर्ष ( नाट्यवार्तिककार )—३०७

( २ )

## नाटकलक्षणरत्नकोश में उद्भृत नाट्यरचनाओं की अनुक्रमणिका

अभिज्ञानशास्त्राद्वाल—३८, ९३, १२१, १६८, १५३, १५४, २८८, ३०१

उत्कृष्टमाघव—( काष्ठ ) २१९

उत्तर ( राम ) चरित—११०

उदात्तराघव—( मायुराज )—९, २१, ३०, ३३, ९३, ९५, १२७, १३३, १५८, २१५

- उर्वशीमर्दन ( ईहामृग )—२७०  
 उषाहरण—( नाटक ) २७३  
 कनकावतीमाघव—( शिल्पक ) २८७  
 कर्त्तरमञ्जरी—( सहृक ) ३०४  
 कलावती—२७५, २८६  
 कामदक्षा—( भागिका ) ३००  
 कामदक्षापूर्ति—८७  
 कीचकभीम—१९, १७५, १७६  
 कुम्भमाला—१७, ४०, १६२, २१३  
 कुम्भदेवतरविजय—( हृषीमृग )—२७०  
 कृत्यारावण—( नाटक ) २९४  
 केलिरैतवतक—( हृषीसक ) ३११  
 क्रीडारसातक—( धीगदित ) २९९  
 प्रामेयी—( नाटिका )—२६१  
 छुलिसराम—( नाटक ) ७०, ९०, १०९  
 जानकीराघव—( नाटक ) ११, १२, १६, ४०, ४५, ५३, ६४, ६६, ६९, ७०,  
 ७१, ७३, ७४, ८०, ८३, ८५, ८६, ९०४, ९५६,  
 तापसवरसराज—( नाटकभाष्यताज ) ७३, ७९, १३०, १३६  
 दृताक्षद—११  
 देवदत्तहृति—( ? ) २७०  
 देवीचन्द्रगुप्त—( विशाखदेव ) ( नाटक )—१७४,  
 देवी महादेव—( उत्तराच्यक ) १०५, १०६  
 नरकवध—१०९, १३६  
 नरकोद्धरण—( दिम )—२६६  
 नलविजय—३०,  
 नामानन्द—( नाटक-हर्ष ) १९, २८, ४०, ४२, ५१, ८२, ९४, ९५, १००,  
 १०३, १२४, १४३, १४४,  
 पश्चेत्य—( भाण )—२७०  
 पश्चावती—परिणय—( प्रकरण ) २६३, २६४, २०३  
 पुष्पदूषितक—( प्रकरण ) १५०, २६३, २६५, २८९  
 शालचरित—५५, ६३, ७६,  
 विन्दुमती—( दुर्महिना ) ३०२, ३०३  
 भगवद्गुरु—( प्रहसन ) ११८, २७१  
 भीमविजय—५३  
 मदुनमञ्जला—१३४, २३४  
 मदनिर्दोषमुक—( रासक ) ३०४  
 मापाहापालिक—( सहाय )—२८०  
 माया-मदालसा—( नाटक ) २८, ३३, ४३, ५०, ५१, ५२, ५३,

मारीचबङ्गितक—८६

मालती—माघव—( प्रकरण ) २१, ३१, ४०, ४२, ९६, १६५, १७३, १७९, २९०

मुद्राराजस—( नाटक ) ४४, ९६,

मृत्युकटिक—( प्रकरण ) ३०, ४०, ९३, २६३, २६५, २६७

मेनकानहूप—( तोटक )—२६३

रसकोशहृति—१२१

राजावधी—( नाटिका ) ६७, ६८, ७४, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, १२१, १४६,  
१६०, १६१, १७३, २६१, २८३, २९७, ३५८

रमभानड्कूवर—१५

राघवाम्युदय—( नाटक ) १२, १५, ७९, १०४, १२६, १२९, १३०, १४२, १६४,  
१७३, २८५, २९६, २९७, २९८

राधा—( वीथी )—२८६

रामविनाम—( नाटक ) ६८

रामानन्द—( नाटक ) ११, ४०

रामाम्युदय—२९६, २९७

रामायण—१३५

रैवतीपरिणय—३३

लहितनागर—( भाग ) २७०

बहुलवीथी—( वीथी ) २७७

बालिवध—( प्रेहणक ) ३०३

विज्ञमोर्खशीय—( त्रोटक ) १५१, १७४, २६२

विद्वशालभजिका—( नाटिका )—२११

विलासवती—( नाट्यरासक )—३०५

वीणावती—( माणिका )—३०२

वृग्नोदरण—( डिम )—२६६

वेणीसहार—( नाटक ) १०, १६, १८, १९, २०, २४, २९, ४०, ४४, ५६, ५८,  
५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६७, ७३, ७४, ७५, ७९, ८१, ८२, ८३,  
८४, ८५, ८७, ८९, ९०, ९२, ९३, ९७, ९८, ९९, १०२, १०४, १२२, १२६,  
१२९, १३५, १५२, १६७, १६८, १७३, १७६, १८७, १९८, १७९, १८०  
२८५, २९२

शामानन्द—( समवकार )—२६७

शमिष्टापरिणय—१२३

शादि-कामदत्ता—३३

शादि-विलास—( महसन )—२७६

भृष्णादतिलक—( प्रस्थान ) २१८

सत्यभामा—( गोही )—२८७

समुद्रमयम—१३८

स्वर्णवासपदत्त—( नाटक ) ( भास )—१२२।

( ३ )

## नाटकलक्षणरत्नसौश में उद्दृत नायिरचनाओं के अङ्कों की अकाराद्यनुक्रमणिका

- अद्वयक—( हृत्यारथव ) २१४  
 अनुतापाङ्क—( अभिज्ञानशाकुन्तल ख अङ्क ) ३०१  
 अनुतापाङ्क ( छुलितराम ) ७७, १७९  
 अयोध्याभरत—११९, ३८३  
 अर्थात्माङ्क ( वेणीसहार ख अङ्क ) ३९, ४३, ७३, ५१, ९८, १६३ १६५, १८०  
 उन्मत्तचंद्रगुप्त—( देवीचंद्रगुप्त ख अङ्क ) १७१  
 उम्रत्तमाघव—( मालतीमाघव-अङ्क १ )  
 उदलीगृह—( रत्नावली अङ्क २ ) ७१, १६३ २७२, २८३  
 की दक्षभीम—११९, १७०, १७६  
 कीचमाङ्क—१७१  
 कुमाङ्क—( उदाचराघव-अङ्क ५ ) ३०, ३३, ९३, १२७, १०७, २१४  
 कुलराघु—( उदाचराघव-अङ्क २ ) १, २१, १४, १०८, २९२  
 कैरवी भरत—१६७, १७४  
 कौशलाङ्क—८, २१३, २९७  
 शपणकापाठिक—( रामानन्द-विष्णुभक्त ) २१५  
 गृहवाटिका—गृहवृच्चवाटिका ( या वृच्चवाटिका ) ( पुराणपीक अङ्क १ ) १००,  
 २८८, २८९, ३१०  
 गौरीगृह—( नागानन्द-अङ्क १ ) ४८, १५२, १७०, २१  
 चन्द्रतल्तागृह—( नागानन्द-अङ्क २ ) १९, ३०२  
 चित्रशालिका—१४, २१७  
 चूहामणि—( नागानन्द-अङ्क ५ ) ८३, ८५, ८७  
 चेनावरपट्ट—( रत्नावली-अङ्क १ ) २१३  
 चौर्यविवाहाङ्क—( मालतीमाघव-अङ्क ६ ) २७२, २८३  
 लालकीसहाराङ्क—१९,  
 तमालघीष्यक—( नागानन्द-अङ्क ३ ) १००,  
 दशरथाङ्क—१०१, १७५  
 दुर्दिनाङ्क—( शृङ्खलिक-अङ्क ५ ) २७२  
 एगराङ्क—( वेणीसंहार-अङ्क ५ ) ११२  
 नगदयतीसहार—( पुराणपीतक-प्रकरण-अङ्क १ ), २१  
 नामवरमाङ्क—३८,  
 पलिस्पट—( रत्नावली अङ्क ४ ) ११०,  
 पुसवनाङ्क—( छुलितराम ) ८०, १६७,  
 प्रतिज्ञार्थीम—( वेणीसंहार-अङ्क १ ) २४, १३, १०, ११३, १६९, २८१  
 प्रथानाङ्क—१८,

- प्रावृद्धङ्क—( ३० ), २८९, २९६  
 चृहृदकुलवीभिन्ना—( मालतीमाधव-अङ्क १ ) २८९  
 भानुमत्यङ्क—( वेणीसंहार-अङ्क २ ) २५, ६४, ६७, १६१, १७८  
 मदयन्ती(नन्दयन्ती?) सहार—२७५, २११  
 मायालचमणाङ्क—८०, १६९,  
 मायाशङ्कुन्ताङ्क—२९४  
 मालतीपरिणय—२६४  
 मोटकाङ्क—( चृच्छकटिक-अङ्क ४ ) २९६, २९७  
 लामकाथनाङ्क—१७, २६७,  
 लावण्यवदाहाङ्क—१३०, १३५,  
 यध्यशिळा ( नागानन्द-अङ्क ४ )—१४, २६७  
 विभीषणनिर्भरसन्ताङ्क—१५७,  
 दावत्यङ्क—३५, ४०, ९७, १७२,  
 समशानाङ्क—( मालतीमाधव-अङ्क ५ )  
 सङ्केताङ्क—( रक्षावली-अङ्क ३ ) १६०  
 सरपात्यङ्क—७५, ७६, ७७, १६५,  
 सहाराङ्क—( जानकीराघव ) १९  
     ( नागानन्द ) ८२  
     ( पुष्पदूषितक ) २६१  
     ( वेणीसहार अङ्क ६ ) ८७, ८९, ९०  
 सीतानिर्वास—( हुन्दमाला अङ्क १ ) १६२, २१३  
 सुग्रीवाङ्क—३, ४०, ९६, १५९,  
 सुन्दराङ्क—२८, १७६  
 मेतवाङ्क ( राघवाम्युदय )—१७६

( ४ )

## नाटकलक्षणरत्नकोशस्थकारिकाणामनुक्रमणिका ।

कारिका	पृष्ठे	कारिका	पृष्ठे
अ		अ	
अङ्गाब रोङ्गुमुख	४१	अयौवद्वेषण यथा	१०३
भङ्गनि साल्डूति	१०१	अलङ्गारैगुणीश्चैव	१४९
अगणितगुणीष्विन्दु	१	अवकाशागतं याकर्यं	२१९
अघोरमैद्वाचार्यं	२१९	अवश्या या तु लोकरथ	२८
अतिस्तेहस्यनिर्देयन्दात्	२२७	अविकृतभाषाचारै	२६४
अदीयं काममापय	२२५	अविज्ञातस्य तरकार्यं	१५२
अद्यात्मुतसम्प्राप्तौ	२१६	अशुनि शासवैवर्यं	१०६
अज्ञतो विस्मयस्थाप्ति	१५०	असूघितस्य पात्ररथ	३४
अनुरागपदोराति	२०८	अस्थागहसितं यथा	१०५
अनुष्टान प्रयोगस्य	२०९	अस्य भार्या शाशिकला	२१३
अन्त एटीनिविष्ट्यैर्यत्	४५	अस्यैव कीर्त्यते भार्या	२११
अन्त पटीमध्यगते.	४३	अस्यंव स्तु याक्येषु	२१६
अन्त नैपत्यमाग्रोक्ति	१२०	अहरहरनुरागात्	२४१
अन्त्यमनिकामाहु	२११	आ	
अन्यच्छायावलोकेऽपि	२२७	आहित्य सम्याजमति	१११
अन्यदन्यस घदतो	२८५	आसेप शुचितात्याग	१८७
अन्यक्षिन्तयतश्चान्यत्	१६०	आश्वानमितिवृत्तं स्यात्	२१०
अपग्राहितकं तच्च	२१८	आमिसुर्ये प्रविष्टामि	२१०
अपदमारक्ष मोहक्ष	१८९	आर्यक पालकरचेति	२१३
अपरोपगमादरम्भ	२२७	आर्यपुत्र च जीवेता	२१३
अपि शशयेत् विद्वदि	४	आदुकश्च पिता तात	२१२
अभिनयो ष्पञ्च सरव	२१९	आसेपे सर्वदा पश्यु	२२७
अभिनेद स च	१८७	आसां भेदचतुष्प्रवे	१४९
अभिप्रेतार्थसम्पत्ति	४८	आज्ञापयति रात्रेव	२२५
अभूतपूर्वो यो द्वयं	१५३	इ	
अभ्यर्थितोषामिनै	२२५	इतिवृत्तं द्विपा	२४
अपि-अहू-ननुप्राप्तो	२१५	इतिवृत्तं हि नाव्यस्य	१३
अप्यप्रहृतय पद्म	१५	इति मरणमन्त्रवर्ति	३३८
अर्यान्तरेष्य कथने	१५४	इष्टनाशधनापाय	३४१
अर्यानी सम्प्राप्ताण	८९	इष्टस्तां सदृशीये	३४५
अर्यापक्षि प्रसिद्धिः	१४६	इष्टापंसाधन यीज	१९
		इष्ट हि भरतमुख्या	३०५

कारिका

हृष्टि  
इं पद्मिक सिंहं गण्डे  
इं पर्यान्ते शोपशमनं  
इं स्मृतः क्षोधविपये  
उ

उक्तमन्यार्थं मन्येन  
उग्रतामर्थो मात्रा  
उपभासा गृहीतम्भा  
उपेभैरवसम्बाध  
उत्तमप्रकृतिमाय  
उत्तमप्रकृतिर्वर्दि  
उत्तमा संस्कृतं निर्यं  
उत्तरोत्तरसम्भूतं  
उपादितकथायोगे  
उक्तज्ञनसिकं  
उन्नेदस्त्रय धीर्जन्त्य  
उन्मत्तेव ग्रामत्तेव  
उद्वत्तेप परिकरं  
उपदत्तमन कीडा  
उमयोः प्रतिजननी  
आम्यः पाण्यमधुत्

ए

एकदिवसप्रवृत्त  
एकमधिकृतं विन्यात्  
एकोनपञ्चाशदमी हि  
एत एव विजिकथेषि  
एताहेव च नियतं  
एवं नान्दी विद्यतम्भा  
एषा हु यस्य येनार्थो

ओ

ओजस्समासभूषस्य  
क  
कर्त्तव्या दक्षजामानः  
कर्वीना गुणवत्तम्भं  
कण्ठप्रहं न यात्येव  
कारणात् फलयोगस्य

एषे

कारिका		पृष्ठे
कालोत्तमगतिरस	३४	
काल्यं गोपुच्छाप्रं	११	
काष्यशोभाकरात् धर्मान्	१४७	
काल्यार्थस्य समुपति.	५६	
कालकृत्यं यदाधित्य	१२३	
किञ्चित्तमात्रं समुद्दिष्टे	१५	
कुतूहलान्तरादायी	६२	
कुतोऽपि स्वेच्छया ग्रासः	२८	
कुमुदोदरकृती शून्यां	२२४	
क्रोधप्रसादशोका	२६	
ग		
गर्भनिर्भिन्नदीजार्थो	७८	
गुणनिवर्णनं यत्	५९	
गुणनिधानैर्विविधे.	१५५	
गृहार्थं प्रश्नमित्तच्छन्ति	२७५	
गृहीत घन्दनां यूयं	११४	
च		
चतुर्थस्यैकलोपे	४६	
चित एव वसम्बत्यस्याः	२४६	
चिर्वर्दित्यै स्वकार्योऽथे.	११६	
चेटवामनरजांस्मि	२०८	
चौरा शूक्रकरा शिदिप	२१४	
छ-ज		
छुलं स्याद् वाच्यमन्यार्थं	२६२	
जुगुप्सा स्थायिभावो यो	१८१	
ज्ञेया द्यनुकसिद्धिश्च	१४६	
ज्येष्ठो भ्राता भवेदार्थं	२१२	
त		
तं सर्वद्विचिभेदार्थं	१८८	
तद्रूतोवागदङ्गाद्या	१८८	
तज्जारतेऽत्र वर्णं	१३	
तद्विवाप्त्यविहिते	२११	
तज्जिप्पति परिन्यास	५८	
तन्मया सक्षावसीन्दयं	२१०	
तस्मिन् रहाद् विभूते	२०९	
तस्य दन्तोष्मन्दद्या	१८७	
ताढनै धीदनैश्चेदै	१८७	

## कारिका

ताण्डव नाम पुरपै	२३९
तेपा भार्या महादेवी	२१२
तोटक तद्वि विजेय	२६२
च्रयोऽन्यद्वा कर्तव्या	२७०
ग्रासायासकृतोद्देग	१८८
ग्रासाऽमर्पं प्रदोधश्च	१९३
द	
दत्तदासमवै सर्वे	२१५
दन्तलोचनविस्तार	१९०
दानमभ्युपपत्तिश्च	१४२
दिष्ट तथोपदिष्टस्त्र	१४६
दिव्यग्रामुषमयोग	२६२
दिव्याभानुपमयोगो	२६४
दिव्ये दिव्याभ्रयो भूवा	११५
दुर्गा-प्रभयतापिष्ठै	१८१
दूतोपधी तथा स्वप्न	१२३
दृष्टिनेत्रेन हयेण	१६७
देवताना मनुष्याणो	५
देवार्चनोऽस्व र्वप्तो	२०८
दे य वैवर्ण्यमालस्य	१८६
दद्वगावयव मिथित्	१५३
द्विधा रूपकमेतत्	२६५
द्वयर्थता यत्र वाक्याना	२८५
द्वयर्था वचनविद्यास	१०४
ध-न	
धर्मादिसाधन नाट्य	५
नदी विद्युपको आपि	११९
न तच्छास्त्र न तच्छुश्प	४
न द्युत्तरपदा वाच्या	२१४
न महाऽन्तपरिवार	३५
नवसङ्गमसम्भोगो	१३४
न द्विसाध्यप्रश्नाया	२२५
नमोऽस्तु सर्वदेवभ्यो	१११
नारक कीर्णी क्षायग्	१२१
नाटक दिविनिष्पत्तिश्ल	२१०
नाटकादिषु हयेषु	१०९
नाटकादिषु कीर्णते	१०९

## कारिका

पृष्ठे	कारिका	पृष्ठे
२३९	नान्दीपदान्तरेष्वेद	११२
२१२	नानाविधानसुक्तो	२५
२६२	नानाविभूतिसुयुत	५
२७०	नाममात्रसुहिता	१०७
१८८	नासाप्रच्छादनाव्यक्त	१८९
१९३	नाहेतुक प्रवेशोऽहे	३१
द	नाना कारणवैकुण्ठ	४८
२१५	निरवद्यस्य वाक्यस्य	१५४
१९०	निवद्यलानिशाद्वाश्र	१९३
१४२	नृपतानो यच्चरित	५
१४६	नृपोऽपि कार्यंत कोऽपि	२०८
२६२	नोत्तमपुरुषे राचरित	३४
२६४	प	
११५	पञ्च पञ्च चतु षष्ठि	१८१
१८१	पर्यु शत्यापराहृति	२२७
१२३	पदानि इवगतार्थानि	२७७
१६७	परदोषै विचित्रार्थै	१६८
२०८	परापवादै परै	१२१
१८६	परिकम्यादय शब्दा	२१७
१५३	परिसहगृह शास्त्रार्थं	१५९
२६५	पाहितोपिकमित्यादु	२१९
२८५	पुस्तुरपदमोदि	२१९
१०४	पूर्णसंधि मु तत्कार्ये	४५
	पूर्वहृषो भरेत् तेषां	१०९
	पूर्वप्रयोगमुद्यात्य	१२३
	पूर्वसत्त्वचित्तान्तर्धान्	१८४
	प्रस्तरणताटकमेदा	२६०
	प्रकाशारूपक सारथ	२४६
	प्रकीर्णस्यार्थंज्ञातस्य	७८
	प्रयोगानवसुनिषय	२६६
	प्रशश्नानुभवादो	२८५
	प्रभातमपि कालस्य	२०३
	प्रयुज्य रहान् निष्पामेत्	११५
	प्रयोजनानो विरक्षेत्रे	१८
	प्रयोगे मु प्रयोग	१२२
	प्रोत्तना च	८५

कारिका  
प्रशास्त्रिवमो महाराज  
प्रसाद्य रङ्ग  
प्रसनादेनैव शेषोऽर्थ  
प्रस्तुतस्थैव काव्यस्य  
प्राहृते हा धिगीयथे  
प्रातिरूपभिप्रायश्च  
प्रातिरूपो वया वीज  
प्रातेषु शहाररसात्रयेषु  
प्रारम्भो रावण्ये  
प्रार्णनाविषयौत्सुक्य  
प्रासङ्गिके परार्थत्वात्  
प्रिय नवे सागरि  
प्रेशाकर्त्तुर्यंशश्चापि

फ-य

फलजानिगुणाचारै  
फल प्रकृत्यते वस्या  
वदुधा दार्यमाणापि  
वदून् गुणान् चिन्तयिवा  
वहूना तु प्रधानाना  
वहूना तु प्रदुक्षाना  
वहूप्रदमप्यथे  
विमेत्यहापेणे  
वीजह्योदूधाड्म यत्र  
वीजार्थस्य प्रोहो य  
वद्धगमिति शक  
वद्धोत्तर तथेवान्तु  
व्यादणा छिरिया वैश्या

भ-म

भगवद्वाह राजा तं  
भूरगाहरसद्वातो  
भेद साम च दानश्च  
मद्दस्मालितसत्त्वा  
मन्त्राप्तकार्यमन्त्रको  
महादेवी परीवार  
मद्वारमं महाभोग्य  
मागद्यवन्तिशा  
मायाकुइकसम्बूङ्

पृष्ठे	कारिका	पृष्ठे
१११	मुनव्यीज्ञार्थसदर्श	११५
११५	मुद्यार्थस्योपगमन	६०
१६९	मौख्यविश्वासदार्शय	२२७
१०८	य	
२१६	यग्नयोजनसाभव्यात्	१५१
१४६	यत् प्रसवेन मनसा	१५०
७२	यतु वाच्यं प्रपञ्चन	२७९
२५६	यत्र विरात्महुदद्या	२६३
१२	यत्र भावरसेपेन	१६६
४७	यत्र संकार्तव्येषोप	१६३
५७	यत्र तुष्यवर्यदुक्तेन	१५१
२२९	यत्र वर्जिसदुर्घति	५४
१११	यद्यान्यस्मिन्द्विन्यमाने	१००
	यद्रान्यस्मिन् समावेश	२७८
२१४	यद्यार्थाना प्रसिद्धाना	१५२
२१	यद्यार्थेन प्रदुक्तु	१४५
१६६	यद्यान्वेषणमर्याना	१५५
१५६	यद्यार्थं त्वचरे, शेषे	१४९
१५५	यद्यार्थस्य समाप्ति	२५, २९
१५८	यद्यामिलिपितं काढ्वन्	२८४
३६	यहंरत्यमानेष्ट	२३८
२२४	यथा कुरुक्षुभीर	२१३
६४	यथादेवा यथाकाळ	१५९
६३	यथा परीमध्यगते	४३
१३३	यथारम्भ प्रथमध	८
१११	यथा राजा सह देव्या	१३४
७१	यथा सन्धितु कर्तव्या	११
	यद्वस्मिन्देवचत	२८६
२१७	यद्येष्ट काय आरम्भ	२२
१४६	यद्याधिकारिक कार्य	२२
१२९	यद् इत्या चेष्ट्या वाचा	१६२
२४४	यद्यप्पद्मनि भूयापि	१०९
१३०	यद्यृत्तं हि परार्थं स्यात्	२०
२१४	यद्यृत्यं वाइष्यकुशलं	१६८
४	यद्यिमित्तं गुणा दोपा	२१
१२	यस्मिन्द्वाप्ययनवीज्ञस्य	५३
२६६	या वाक् प्रधाना पुरुष	१०६

कारिका

या सातवतेनेह गुणेत  
युक्तिवास्त्वैरनेकैव  
युद्ध दायप्रभाशो  
ये तेषामपि वासा  
ये विशनित च कार्यार्थं  
ये नायका निगदिता  
योगज्ञमावहं कर्म

र

रङ्गस्तु नायसहस्रानं  
रङ्गु पुण्यपक्षह  
रङ्गे सम्बोधनाकारे  
रत्नदूतफलोत्पाक  
रभसेनोदित वाक्य  
रसान् सर्वानिय वृत्ति  
रामरावणभूषिष्ठ  
रामिलकमिलाद्वाना  
रावग्रस्य वर्षे कार्ये  
रूपकेवेव सर्वेषु  
रूपकेवसमिक्षा

ल

लङ्गैर्वेहुविशेष  
लतापुण्यक्रियादेश  
लाभ साधनसम्पत्ति  
लासको नर्तक प्रोक्तो  
लीला विलासो विचिद्विति  
लोके गुणतिरिक्तानां  
लोकेषु हुलं द्यमनो

व

वक्त्रतां दधती मार्ग  
वच सातिशय लिष्ट  
वद्धयित्वैकमन्योन्य  
वपस्यक चादुएडु  
वाक्यैरभ्यापिद्वैर्यं द  
वाक्यै सातिशयैर्युक्ता  
वाग्नासम्बानिनये  
वाग्नामिनयैरेभि  
वाच्यमयं परित्यग्य

पृष्ठे	कारिका	पृष्ठे
१२५	वाहयोपिज्जनस्यालया	२१४
१६०	विकृतेष्वेति विशेषा	२१६
३०	विचारस्यान्यथाभावं	१६०
१४	विट्टाण्यस्तदिपाचै	३३
२१०	विवश्वरन्धददेष्यां	२२५
२१	विषदन्तरनिर्माणं	१३
१२९	विमावस्यातुभावरथं	१६२
	विरोधरचैव विजेय-	६५
२११	विटास्य परिसर्प्त्रम्	६५
२११	विश्वर्षायामरे रे च	२१५
२१४	बीणावेणुमृद्दद्वय	३१०
२२५	बीराङ्गुतप्रहसनैरिह	१०६
२७९	बीराङ्गुतरीद्रसा	१२८
१६३	देपमानोहुगला	२४४
२१९	देश्यां प्रति सखा राज्ञो	२१२
२१४	देखाजनन्दनादीनौ	२१३
२३	देवत्यं दैत्यमालरथं	१८८
२०७	श	
१५०	शास्त्रवागाङ्गुचेष्टाभिः	
	शान्तं शस्त्रेन्मसम्भाव्य	२१५
११६	शुभ्रादपपल्लार्य	८८
२१३	शृङ्गारानुगुणो हास्य-	१४२
४७	शृङ्गारामिनयोज्ञासि	१३१
२११	शृङ्गारोदीपनो पस्तु	२६९
२४६	शृङ्गारोदीपनो यस्मात्	१३३
१६९	शोभा कान्तिश्च दीपिष्ठ	२२०
२५१	शोभा विलासो माधुर्यं	१३९
	स्त्रेषु प्रसादं समता	१४४
२१४	स	
१०२	सद्गीर्णा एवते प्रायेण	२५९
२१४	सहिष्पत्वस्तुविश्वः	१३६
२१२	सहृष्टाण्डाध्याद्वापि	१२९
१४४	संसाध्ये कलयोगे तु	८
१६५	सक्षेपसामुसमास	२१३
१११	सखीज्ञनस्तथाद्वास्या	२१३
३१२	सट्टके छीप्रथगतावाह	२०९
१११	सखमेदा भवत्ययेते	१९२

कारिका  
 स नदो भाव भाल्यात्  
 समयां वर्णयन्त्येके  
 समाविमानमायेन्द्र  
 सभेदा कैश्चिकी यत्र  
 समाप्ति सम्यगर्थानां  
 समाप्त्यमान पृक्षिमन्  
 समुत्पज्जार्थवाहुर्वयं  
 समुद्रतपायगुणा  
 सम्पद्धरुपं यत् कार्य  
 सम्प्रधारणमर्थानां  
 सम्प्रधार्य स्वयं पूर्व  
 सम्भोगायोग्यकालेयु  
 सम्भोगो योग्यता तत्र  
 समिमधार्मि कदाचित्  
 सर्वस्य यन्मनोहारि  
 सर्वाधिवेपमासर्वं  
 सर्वांग् सराविय वृत्ति  
 सर्वेण सञ्चियोक्तव्यं  
 सर्वैः काव्यानां  
 सहस्रैवार्थं निष्पति  
 सा चाह त महामाग  
 माधकः साधनं साध्य  
 साधयामीति गत्यर्थे  
 साम भेदः प्रदानश्च  
 सालङ्घार तु नाटके  
 सालीना स्वेषु गान्तेषु  
 सावहित्यैः सविकृतैः  
 साहस्र्येण वीजस्य  
 साहस्र भयज्ञैः  
 मिदान् यहून् प्रधानार्थान्  
 सिद्धैरथैः समयत्र

पृष्ठे	कारिका	पृष्ठे
२०९	सुकुमारकान्यवन्धा	१३१
२१६	सुकुमारोचिताद्वाना	२१३
१९०	सुखदुखप्रदायिन्यं	२२६
२१०	सुखदुखान्वितो योऽर्थः	६२
८५	सुता सङ्क्षीर्णते तेषां	२१२
४१	सुवर्णं सकलाङ्कानां	४२
५७	सुव्रधारं पठेत्तत्र	१११
१३५	सेना लेखा पताका च	२१४
७८	सोमसूर्यान्वयमुचो	२१२
६०	स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाङ्गः	२०३
२१८	स्तम्भाश्रु-स्वेदुरोमाङ्ग	१९०
२२७	स्त्रीयुंसयोस्तु नमैतत्	१३३
४७	स्त्रीप्राया चतुरङ्गा	२६०
११	स्तोकस्तोक पदारब्धं	२१८
१५२	स्थापकस्य प्रवेशे तु	१५५
१८७	स्थायिनामेव भावानां	२०७
१०७	स्थायीभावो इतिशास्य	१४३
२१४	स्मृतिर्गर्वोऽपि रोमाङ्ग	११८
९२	स्वगतमात्मगतक्षेव	२१७
१०१	स्वन्नालस्यादहित्या	१८४
२१७	स्वरभेदाश्रुनिर्वेद	१८६
४८	स्वश्य कार्यमभिप्रेतं	२१९
२१६		ह
९२		२१५
१७१	हृष्टे नीचस्तु नीचेषु	२०९
२४४	हरतालादिसामग्री	२१५
१८४	हा पदं स्वेदवाचि स्यात्	१३३
५५	हासेच्छाभयभेदेन	१७२
९२	हासो इतिश्च शोकश्च	१५५
१५५	ही चित्रे स्मृतमाँ ज्ञाने	२१५
१५०	हृदयस्यस्य भावस्य	१७६

( ५ )

## नाटकलक्षणरत्नकोशस्थोदाहरणपद्यानामनुक्रमणिका

	पृष्ठे		पृष्ठे
अ			
अकांडोग्गाहेय	१२६	आशद्वगीतभासा	१३२
अहृताखोडपि वहवान्	६०	आलंगितालहलतापिहितेषणा	२४३
अहाननिद्वारात्यितो	८२	आलाप स्मितकीमुदी	२५८
अहृयावधिनप्यमान	११७	आशङ्कसे यदमिं	१७३
अनसूयाकृतोऽप्यामी	२०६	आरलेपे निविडे	२५३
अनारथावस्तुनामभिमततराणा	२५४	आसरय स्वयमेव	२५६
अनुयान्त्या जनातीत	१५१	आस्तो नाथ भवाक्षया	२४९
अन्योऽस्यासकाटभिन्न	६१	इ	
अपयानयामिते भीया	१६२	इतो गतोऽसीति न मे	२२४
अपराधिन्यदि जने	१४०	इय दर्भग्रेणी	२१४
अपाद्यपयिक चमु	२२१	इय धीर्घाहृते सिन्धु	१४३
अपि भुवलतोचेपात्	६६	इय सा सेयमित्येवं	२०२
अप्यर्थता मार्गमसी	१९७	इय नाम गता कान्ता	१३४
धामेधिवारितरणे	१०८	इहेवाहते सीता	८४
अठ भार्गव बालेऽस्मिन्	६९	उ	
अलसरलितमुप	१०९	उत्थास्याम्ययमह स्वे	१२८
अवज्ञानं श्वीति	८०	उत्सर्पति रियतदि	१६७
अवनिरविषयानेत्	११६	उत्साहातिशय बलस	६८
अवरथामा हत इति	७३	उद्घ्रति नवाम्भोदे	११४
अहो विधिसे पद्	१५	उद्गतु गगतम्यादि	२४१
अहो हुम्हतमेतस्य	२२१	उद्गरेन पुन हृत	१२८
आ		उक्तममञ्जरीकोटि	१४५
आ. कि दोचाम्य ह स्त्रीव	१२६	उप ग्रामार्थं प्रहिणु	२११
धाक्षयोदहता सीता	१४१	उत्पुहुकमलकेसर	२७१
आविष्ट्वाव चर्छै	१५३	उपाधासप्रियगितापरददा।	२४०
आविश्वरविद्वानि	१५९	ऊँ	
आदिष्य सत्यानेमति	१११	ऊँह करेण परिषट्यन	४४, ८५
आचार्यस्य ग्रिभुवनगुरुते	४३	ऊँर्याध ग्रेत्वैकैरुपाद	१४५
आज्ञास्तु ते त्रिदग्ध	१४२	एत्यत्रियंति षष्ठन	१३९
आनहुस घटित	१३६	एते हमा वयमपि	७९
आताप्रतामपयाम्यविष्ट	१११	एव वाहून् निष्ठे	२४८
		एव हृष्णाहपादर्पी	१२६

एवं भो निहतज्ञाति  
एव चदाजलिपुदो  
एवेहि क गता रात्रि-  
क  
कण्ठके पश्चनालैश्च  
कण्ठे क एष तद वह्नम्  
कण्ठे वरोह दिनिवेशय  
कथमिव विदधामि  
व्योरगार्भीदार्ता  
करक्षिसल यषुषो  
कलङ्गितगर्भेण  
दस्तव वृष्णोऽस्मि वर्णं ते  
कान्ते नाथ कुतोऽस्मि  
काम जनयिता कृप्यो  
कांहं तनु फल दीप्ता  
कि कान्त निर्दयमय  
कि चित्त रे व्यवसित  
विक्षिदेदि ददामि  
कि ते रथादिति चिन्तया  
कि त्वं वधिर हुक्षो वा  
कि दृष्टा युवाराज  
कि देव्या न विचुमित  
कुलपतिरेव न केवल  
कुमुमसुकुमारमूर्ति  
हृत रावणनाशस्य  
कुत्सनामहातिविधना  
कृष्णात्मानोऽलका  
के दुमास्ते क्ष वा आमे  
कैकेयी जननी न गस्य  
कैर्त्तिर्णार्तक स्त्राघ्यम्  
मन्दस्त्रदवाप्यमभये  
क्षोधार्घ्ये सकलं हृत  
खण कराहतेनैव  
व्यत्रिय सम्मतो रात्रन्  
वात्रधमोवितेष्यमै  
व्यामलशिखामाल  
स-ग  
सरादिविदितं घोर

पृष्ठे	परिशिष्ट	पृष्ठे
७६	गच्छन्त्यां निर्दि नायाति	१९९
१६१	गुरुणा वन्धून वितिपति	८१
२२३	गुरोरज्ञा यद्र मन्यति	८
	गोकर्णमण्डवटा	८४
२०५	गौही कान्ता तवाप्यस्ति	१५०
२१५	च	
५२	चतुर्दशुज्ञमिति	५८
७९	चापस्य नन्दयसि	१८१
११५	चिन्ता ततः अथति	२३३
२२७	चुम्बिते चुम्बितै लिष्टे	२२३
१३२	चूताना विरनिगांता	३०१
२१	ज	
१०३, २२९	जहाकाण्डोरुदण्डं	१५८
१५०	जामे दोविमले हुक्ले	८३
१५२	जयति गजराजवदनो	११८
२५३	जयति विहितभूमृद्	२०४
२४२	जयति सितविलोल	११८
२०६	जात मे एरण्येन भस्म	१
२८५	जातस्ते दारक कस	२८४
२८०	जातस्य दुहिणान्वयात्	१५६
१७९	जातोऽन्यत्र च ये भृयन्	२८४
३८	जातो एवेविश्रवस-	१६५
३५८	जात्या तावद्वय्योऽसि	१२८
६३	जानहीं हरता मन्ये	७२
५१	जाने त्वमिव सा बाला	१३८
२२२	जश्ता यस्य वृहस्पति	९४
२५८	त	
१६४	तत्परदेयमनहमङ्गल	१५३, १५५
२३३	तव सर्वुरयं धाणो	५०
१५१	तवास्मि गीतरागेण	१२१
९०	तवैष न्यस्तते वाम	१२८
२४३	तस्यादिप्रद्वितय नमन्ति	२५२
१५४	तस्यानुमापयति	४५
१५५	तत्पास्तदूषसौन्दर्यं	२८१
२१६	ताताज्ञाया स्थितमविकृते	१९
	तापाद् तत्त्वग्रृह्णन्दन	५२
७७	तामुदिश्य गृहीतेन	१५०

तिमिरामवरधारिण्यो  
तीर्ण भीमसहोदधौ  
तुल्यान्वयेत्यमुगुणेति  
तृष्णापहारी विमलो  
ते राहमा प्रतिहता  
स्वप्नतपिङ्ग्रभामि  
सद्या सह ममाधीर्त

८

दत्ताभय सोऽतिरथो  
दघायानन्दकं दैर्घ्यं  
दशनमुग्यमनुभवत  
दण्डेत्रेत्र धुन्वाना  
दान्तोऽहु गुणा हृण  
दित्तु दित्तु भवीरयामा  
दु शामनकराकृष्ट  
दुष्टदज्ञागुरामो  
दूनीमागमयस्त मा ब्रज  
दूरश्रोत्रतक्षमकर्णविट्टी  
दृष्टेते नह्नि यावेतौ  
दृष्टा सीनेति जरपन्त  
दृष्टि द्वारि गुह्यसुंह  
दृष्टे यवीयसि हृदि  
देवारातेदुंहितुरमवत्  
दोदंडा एव कृताङ्गदा  
दृष्टु तामुखुक चचु  
द्वीपादन्प्रसादपि

९

घटिमलङ्घ वद्यमुक्त  
धिक चित्त किं यतु तदा  
धिक सामुज कुरुपतिम्  
धिग धिग् सुदूरमपर्य  
धनराष्ट्रे समायाति

१०

न कोये निष्ट्रा वाचो  
नापीत न ध्रुत साधं  
निवेन जीवितेनापि  
निष्ठ ग्राणविषाताम्

पृष्ठे		पृष्ठे
२८२	निर्वाणवैरदहना	५६, १०२
७९	नीतीं दुर्गमगाथ	१६
१६२	प	
१५३	पञ्च वैतकमगमव	२३३
८६	पञ्चोदरवृद्धीं शृन्यां	२४४
९	परात्मीयविभागोऽथ	१४२
१३०	परिवर्तनाप्राच्यप्रहृति	२३७
	परवामि शोकविवरो	१००
१८	पाण्डुरास्तिपुरग्रान्ता	२०६
१७१	पादाम्पालस्वलद्भूमि	१४३
२०१	पिन्दुर्देष पतिस्वाग्रे	१२८
१७४	पित्रोविधानु शुश्रूपा	१२४
२०३	पूरामोऽनिपुद्यो	२२४
१५९	पूजा नाम्यहृतां विधानु	१८३
१९६	पूर्यन्तां सलिलेन	१०
६७	प्रश्यह धृदिमायान्ती	२२२
२४५	प्रसीद ग्रेनेऽहु	१५
१०, ८५	प्रागवर्भं रजनौ प्रात	२२३
१००	प्रात प्रश्युदमै	२२४
११४	प्राप्ते न प्रहरार्थं	२५९
२४०	प्राप्ते सामासि वज्रमे	२२५
२३२	प्रिया सच्चिदितैवेष	११
४९	प्रिये तावला नेग्रास्यो	१२७
२१५	प्रीत पृथ्वीमवतु	१०, २१८
१४४	ब-भ	
१११	यालाभिलायमधिगाम्य	२३२
	यात्राणा उत्रिया वैश्या-	७१
२५९	भाग येन घनु	१४९
२३५	भान देवत्य भीमेन	१४
१६३	भर्ती तवाहमिति	२९२
२२९	भर्तु ग्रोपितभर्तुका	२४३
२०१	भवद्वि सर्वाप्रमहृति	११६
	( भव दद्य साभिलाप )	
२२२	भीमो निहृत यतो हृग्मि	२००
१३०	भूपति शोभते वैष्ये	१४०
१००	भू॒॒ परिभवहृति	१२
८२	भू॒॒ प्रपाप्यपयोगेन	१४

पृष्ठे		पृष्ठे	
भृष्ट पदात् कृतज्ञा	१८०	राम्यं सुक्तमशु	७१
भृष्टो सहस्रोदते	१६३	रामस्य घातितवतो युधि	१८०
म		रामस्य रावणकुलचय	५७
मायमावादय रामो	६४	'रामोऽपि गच्छतु वन'	१०३
मध्यामि कौशवशत	६०	रामोऽप्यं बलशून्यश्च	६३
मध्ये तल्प तश्लित	१५९	रामोऽसी जगतीह	१६४
मन प्रकृत्येव चलं	७४	रे चत्रिया शृणुत मे	४५
मन्यायस्तार्णवाऽम	५९	ल	
मन्दारपुष्पैरयिवासिताया	१७४	लच्छानि समर्थानि	२२०
मम कण्ठगता ग्राणाः	१६१	लङ्काशीशप्रसृतिरिप्यवो	११
मयि किल पुरा रुदे	६६	लङ्कासमृद्धिमाप्न	६५, १०४
मात किमव्यसदृशं	१७३, २९२	लङ्केश्वरस्य भवने	१७
मा भैयीर्निधिलाभिराज	७०	लाकागृहानलवियाज्ञ	१८
मामनाश्रोभ्य यातोऽसि	२२४	लीलावधूतपद्मा	२८१
मेधा वर्पन्तु गलन्तु	२७२	लोको लोचननन्दनस्य	१७५
मेघोदृच्छु पुनर्गच्छ	१३३	य	
य		वस्तु दग्धा न सीताग्नी	१९८
यत् स्थेयं कूर्मराजस्य	१५५	वत्सस्य मे प्रहृतिदुर्लितस्य	१७६
यथा राजा सह देव्या	१३४	वन्धो मे हन्तु मा पार्थ	१२६
यथा रामोऽजहाद् राज्य	१२५	वरमशोकतर्हुत्कुलो वरो	१४२
यत्नैरहभ्यमनेष्ट	२३८	वर्धते न पर तन्त्या	२२१
यदादि मे चन्दन	२५७	वार्षीं सूज सुधाररिमं	१५३
यदि हम गता न ते	१५१	वासवेशमनि सुकरिपततल्पा	२३९
यद्युप्त्वासवाद किमु	१६०	वासेयुगमिद	१०२
यस्ताङ्का निहतवान्	७४	विकासि कमल दृष्ट्वा	२०४
यरिमन् वारयविदूषक	२५१	दिकिर धवलदीर्घा	६७
याति लाघवमर्थीति	१५४	विक्रमन्ते इती कान्ते	२२३
युपमरक्षामनलंघनाइसि	५८	विचित्ररुपसगपत्ता	२८६
योगहेमावद् कर्म	१२९	विटपुकुमारबहु	१५७
यो य जात्य विभर्ति	१८०	विपद्मुखवलानौष्ठ	२२४
यो देवै राज्ञपते	१२	विभावनावश्ववच	२२१
र		विमुखेनोपदेशोषु	२७८
रक्षयमाधितभुव	२८५	विवृद्धायमाप्यगाऽधोऽपि	१२७
रक्षोऽधिरपानस्य	५५	विशल्योसुमितप्राणं	२०६
रप्यकारकुले जात क्षय	२८०	विशमिदमुनिर्यथा	१२४
रागेष्ठाभिजनोऽथर	१५६	वेणीचन्द्रकपदिनी	२४३
राज्यं जनकराजेन्द्र	७६	वैदेहि देहि कुपिते	२१४

## श

शक्तया हृत दशास्थेन  
शङ्क मानुमतीं कुदूरा  
शनुभिवस्तराजस्य  
शयनमशन यान  
शुद्धान्तदुर्लभमिद  
शुद्धूपस्व गुरुन्  
शुष्कदुमगतो रीति  
शोकाहवी विष्णु निपतिता  
श्रीसागरेण मुकुटे  
श्रीदूर्यविक्रम नराविष्प

## म

सरद्धता पञ्चगमय  
सवृत्तस्त्वलितो विहित  
सखि प्रेयान् स्वामी  
सख्य किमन्यदधिक  
सद्बृद्धयामि गदया  
स तिष्ठति सदा धीमान्  
सापष्ठा भधुरगिर  
सख्यमादशहामि  
सख्यधिव्रक्त वासो  
समाड्य बुसुमेरहङ्गा  
सपरनीनामप्रे शिरमि  
स पुण्यनन्मा स्वयमस्युपेत्य  
समाशसिद्धि मे चेत

पृष्ठे		पृष्ठे
	सम्परस्वापत्तु तुल्यामा	१४२
१५७	सम्प्राप्ते रघुनन्दने	१३७
१९५	सम्मूदेव सुखानि	२९०
४३	मर्वियामुपरति	२३८
२३४	सर्वंगामदुमुचो घदनन्ति	२८९
५८८	सह भृत्यगण सदान्यथ	१६१
१५९	सा वृष्टा कृशिमानमेति	१६९
१७	सातातिर्यामुपगतामप	३०१
५३	सामान्येन वर दत्त	१७५
३०६	समिताया विरहे वासो	२००
३०७	सुशत्रियासि भवती	२९२
	सुधावेशम द्वैषि	२३५
१४	सुधा सोदरवाचस्ने	१४०
२३०	सुभृद्यस्यति गोचर	२९२
२४९	सुलभा सतात राजन्	२८०
२३४	सूज पेतत् किमाधिवय	२१०
१०,१४	सृष्ट तत् काढस्ये	१०५
१४२	स्वन्धाधितैरभगि	२५४
१६	स्वर्णितबहुल पादन्यात	२४६
२५९	स्वपिति पुणिने शश्याशुभ्र	१६६
२२१	स्वर्गांश्च यदि ताकृताप्ति	१५२
१३३		ह
२१९	हरन्तु हृदय नाम	१५७
२४१	हस्ते कर्णस्य का दक्षिः	१२५, २३९
१६६	हा कप्त हस्तया वया	१४१

## सहायक एवं आधारग्रन्थ भूची

अनर्धराघव—( नाटक ) मुरारि । रुचिपल्तुपाध्यायहृत टीका सहित दम्भदे ।  
 अभिज्ञानशाहुभृतल—( नाटक ) कालिदास । राघवभट्टहृतटीका सहित ।  
 अभिनवभारती—अभिनवगुप्तप्रणीत नाव्यशास्त्र व्याख्या ( खण्ड १—४ ) ।  
 अमरकोश—टीका सर्वस्व त्रिवेनदम् ।  
 अलङ्कारसंग्रह—असृतानन्द योगी प्रणीत ।  
 उत्तररामचरित ( नाटक ) भवभूति । वीर राघव टीका सहित ।  
 काम्यमीमांसा—राजशेखर, चौखम्बा प्रकाशन ।  
 काम्यालङ्कार—हृष्ट ।  
 काम्यालङ्कारसूत्रवृत्ति—धामन ।  
 दुन्दमाला—दिङ्गनाम ।  
 कुट्टनीमतम्—दामोदर गुप्त ।  
 कुन्दोमज्जरी—गहानादास चौखम्बा प्रकाशन ।  
 दशरूपक—सावलोक—चौखम्बा प्रकाशन ।  
 दशरूपक टीका—यहुरूप मिश्र Ms Nos R  
 अन्यालोक—लोचन सहित—चौखम्बा प्रकाशन ।  
 नागररावस्व—पद्मधी । जगद्गद्योतिमहाहृत टीका सहित ।  
 नागानन्द—चौखम्बा प्रकाशन ।  
 नाथ्यदर्पण—रामचन्द्रगुणचन्द्र वद्वैदा ।  
 नाव्यशास्त्र—भरतमुनि चौखम्बा संस्करण ।  
 वृहदशी—मतद्वा ।  
 भगवदगुरु—( प्रहसन ) ।  
 भावप्रकाशन—शारदातनय  
 माहतीभाधव—( प्रकरण ) भवभूति । चौखम्बा प्रकाशन ।  
 सुदाराचस—विजालादत्त । M. R. काले संस्करण ।  
 मृच्छकटिकम्—शुद्धक । पृथ्वीधर हृत टीका सहित ।  
 याज्ञवल्यसमृति—मिताहरासहित । चौखम्बा प्रकाशन ।  
 रत्नावली ( नाटिका ) हर्ष । चौखम्बा प्रकाशन ।  
 विक्रमोर्जीयम् ( चोटकम् ) कालिदास । रहनायहृत व्याख्या सहित ।  
 विद्यशालभञ्जिका—( नाटिका ) राजशेखर । नारायणहृत टीका सहित ।  
 वेणीसहार ( नाटक ) भट्टबालयग । जगद्दरहृत टीका सहित ।  
 शहारप्रकाश—भोजदेव ।  
 शङ्कारतिलक—हृष्टभट ।  
 मङ्गीतमक्तरन्द—नारद ।  
 सगीतरत्नाकर—शार्ङ्गदेव ( १—४ खण्ड )  
 साहित्यदर्पण—विभानाय कविराज । चौखम्बा प्रकाशन ।

### पन पत्रिकाएँ

( १ ) दशरूपक की चहुरूपमिश्र की व्याख्या पर—

Journal of Oriental Research Madras के VI तथा VII खण्ड ।

( २ ) Journal of the U. P. Historical Society XVII F-i-iii

## शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	भश्यद्	शुद्ध
३	३	आगे जोड़िये—	इसके अनिरिक्ष अन्य प्रभेद भी नाटक के रत्नर्प को ध्यान में रखकर यत्ताए लाईंगे ।
४	२	के बाद मूल में जोड़िये—	भरताचार्योऽप्येवं विध नाट्यविदेषं नाटक प्रस्तौति । भरतमुनि ने भी हसी प्रकार के नाट्यविशेषमूल नाटक की प्रशसा करते हुए कहा है—
५	८	उदारवचनान्वितम् ।	उदारवचनान्वितम् ।
५	८	प्रदूषण	प्रदूषणम् ।
१०	१	पूर्व जोड़िये—	अन्न सीतोपषष्टिभिसाग्रेण राष्ट्रसानां वधाद्यवसायां ।
१०	२	चोन्यीलित	चोन्यूलित
१६	५	मुसमुख्यातमुद्दनम्	मुसमुख्यमुद्दतम् ।
१६	६	सन्दिष्टान्	सन्दिष्ट
१६	२८	मुजगेन्द्रमोगमुखन्	मुजगेन्द्रमोगमवमात्
१८	२१	के आगे जोड़िये—	हृयनेकधा दुर्योधन निकारपरम्परा दर्शयन् प्रयोजनम्य कुद्दुकुलप्रयस्यानुवन्ध दर्शयति ।
२१	२	सिद्धयति ।	सिद्धयति ।
२२	२०	आधिकारिक—	आधिकारिक—
२३	१२	विन्द्यान्	विन्द्यात्
२५	२	स रङ्गजावस्थ	स च सम्भवातस्य
२५	८	और अङ्कु को रङ्गमय की	और अङ्कु को सम्प्रहों की
२५	२६	योऽङ्कुशान्देतोष्यते	योऽङ्कुशान्देतोष्यते
२७	११	सद्गीणका पादचारेषु	सद्गीणका उपचारेषु
२७	१२	राजपरम्य कुलजा	राजपरम्य कुलजा
२८	१	किं काव्यम् ?	किं नाट्यम् ?
२८	५	प्राज्ञेनांश्चमिष्यमिषीयते	प्राज्ञेनांश्चमिष्यमिषीयते ॥
२८	२२	क्षोऽभिनव्य ।	क्षोऽभिनव्य ।
२९	२२	शायो मर्ग	शापोत्पर्ग
३०	२२	(कन्तु तस्य)	(किन्तु तस्य )
३२	२४	मुग्नीवस्त्रयात्	मुग्नीवस्त्रयात्
३४	५	तुमन रसेषार्थ	तु चममन मध्यार्थ
३४	२७	वृत्तक कहा गया	वृत्तक कहा गया

पृष्ठ	पंक्ति	धर्मशुद्धि
४१	२२	समासतो हि नाट्योक्ते
४२	५	शृष्टवन्दनरसै वाहू
४३	१०	बन्तपटीमध्यगतै
४४	२३	दु शासनस्य करकर्पण
४५	२६	बीज साधनसम्बन्ध
४६	१७	निष्पत्तप्रष्टाशश्च
४७	५	तालकेतुना कृतिमिति
४८	२३	भ्रह्म कर की है।
४९	१३	या आनन्द का
५०	२४	समापनं निर्वाह-
५१	९	बाणाना भव राघव
५२	१४	थुतिरत्नपात्री
५३	१५	के आगे जोहिये—
५४	७	गुणनिर्वर्णन
५५	१२	जैसा कि आचर्य ने
५६	१५	मुख्यार्थस्योप
५७	२४	भद्रसुदूधादितवान्
५८	२२	सरण ए घर
५९	६	झीडाविलोभार्थ
६०	१९	रामप्रवासने
६१	१८	तत्रैव रावण
६२	२६	तथा सम्पात्यहै
६३	२	कपटानिसन्धामे
६४	७	सीतारूपेण रामस्य
		जनित सन्देहे
६५	२४	प्रतिहता स्वरदूषणामा
६६	२५	कदुमप्पसारेमि । [ ... ‘कृत्वा प्रसारयामि । ]
६७	९	चहिणित्तर्णं भोदु
६८	२०	[ रत्ना० अ० ६ ]
६९	१९	सहारणीयम् ।
७०	२६	मद इति स्मृतम् ॥१०५॥
७१	२३	दानवेन सुर्विद्वरलयितुं
७२	२८	कथान्तरेऽनिरूप्यमागे
७३	२४	चित्रम् आलेष्यमभिमतज्ञ
७४३	११	द्वयर्थावभार्थ

शुद्धि
समासतो हि नाट्यजै
शृष्टवन्दनरसै प्रणहू
यपात्पटीमध्यगतै
दु शासनस्य करकर्पण
दिन्दु साधनसम्बन्ध
निष्पत्तिं प्रष्टाशश्च
तालकेतुना कृतिमिति
भ्रह्म कर ही है।
या आनन्द के
समापनं निर्वाह स्पष्ट
बाणाना तब राघव
अतिरत्नपात्री
तस्य निष्पत्ति न्यास
परिम्यास । यदाह—
गुणनिर्वर्णन
जैसा कि आचार्य ने
मुख्यार्थस्योप
भद्रसुदूधादितवान्
सरण ए घर
झीडाविलोभनार्थ
रामप्रवासने
यथा तत्रैव रावण
यथा सम्पात्यहै
कपटानिसन्धामे
सीतारूपेण दुर्जयता रामस्य
जनितो सन्देहो
प्रतिहता स्वरदूषणामा
कदुमप्पसारेमि । [ ... ‘कृत्वा प्रसारयामि । ]
चहिणित्तर्णं भोदु
[ रत्ना० अ० ६ ]
सहारणीयम् ।
मद इति स्मृता ॥१०५॥
दानवेन सुर्विद्वरलयितुं
कथान्तरेऽनिरूप्यमागे
चित्रम् आलेष्यमभिमतज्ञ
द्वयर्थावभार्थ

पुष्ट	चिह्नि	अशुद्ध	शुद्ध
१०६	१	प्रधाना । सार्विक सात्यस्यां	प्रधाना । वाचिकं भारत्या सार्विकं सात्यस्यामाहाय
१०७	२	सूट तरक्कीडह्य	सूटं तत् क्लोडह्य
१०८	३	स्थाद्वेऽपि	इवाद्वेऽपि
१०९	४	भाया कृष्ण	पायात् कृष्ण
११०	२०	नाटकादिष्ठेषु	नाटकादिषु रूपेषु
१११	१३	जयसि गजराज	जयति गजराज
१३३	२२	शिलोद्धोऽहं यद् भ्रम	शिलोद्धोऽहं यद् भ्रम्य
१३४	४	नायिका आकार	नायिका आ कर
१३५	११	कातिसानि ।	कीतिसानि
१७६	२४	बत्सस्य मे हुल्लिनस्य	बत्सस्य मे प्रहृतिदुर्लितस्य
१८३	३०	( सा० का० १ )	( सा० का० १ )
१९१	२५	वाङ्मससत्वाभिनेये	वाङ्मससत्वाभिनयै
१९३	६	भावाश्रयाद्विश्रात्	भावाश्रयप्रिश्रात्
२०३	२७	सत्वज्य मन समाधान	सत्वज्य मन समाधान
२०५	१८	फण्टके पद्मनालैश्च	कण्टके पद्मनालैव
२०८	२६	एतमेव	एता एव
२०९	४	जगतियों की	जातियों के
२०१०	१४	उपकारण	उपकरण
२०११	२७	अहों के आस्म में	नाटकीय अहों के आस्म में
२१३	२२	विधातश्यवद् प्रयोवतुभि ॥	विधातश्य प्रयोवतुभि ॥
२१५	२३	अपाये धिक् या प्रयादि	अपेहि धिक् या प्रयादि
२१६	१८	ओ. पदम् ।	ओ पदम् ।
२२२	९	अपनी समान गौरवणं	समान अपनी गौरवणं
२४१	५	लुभाकर अपने	लुभाकर उन्हें अपने
२४४	१०	पद्मावतीपरिणय का	पद्मावती परिणय या
२५७	१७	कामशृष्टारोऽर्थशृष्टारथेति	कामशृष्टारोऽर्थशृष्टारथेति
२६७	१८	आरमहितदेतुर्घंसंप्राप्तो तथा ।	आरमहितदेतुर्घंसंप्राप्तो तथा
२८७	१९	सोन्माद् घर्मशृष्टारः ।	सोन्माद् कामशृष्टारः
२७५	१६	करती हुए	करते हुए
२७७	१८	[ ७ ] शूद्	[ ७ ] शूद्र
२८६	२२	सहदेव—प्रेम से	भीम—प्रेम से
३०६	१०	मलयज्ञानमञ्जपथमेण	मलयज्ञानमलपथमेण